

अचल-मन्यमालाका तीसरा ग्रन्थ —

—१९७०— १९८८—



अचल-मन्यमाला
तीसरा ग्रन्थ

कविता—
सेठ अचलसिंह

प्रकाशक—

संचालक—अचल-ग्रन्थमाला,
दोशनमुहस्ता-आगरा।

प्रथम संस्करण

संख् १९३८.

मूल्य } कझी जिल्द सहित २) }
} पक्की जिल्द सहित २॥)

४

सुदूर—

सत्यपोल शर्मा,
कान्ति प्रेस, माईथान-आगरा।

प्राग्निवेक

उपक्रम

१. अवलोकन [ले०—न्यायाचार्य प० सुखलालजी]
२. सम्मति [ले०—ग्रो० हीरालालजी एम.ए., एल-एल. ची.]
३. सम्मति [ले०—शता० परिडत-रल रत्नचन्द्रजी महाराज]
४. सम्मति [ले०—जैनमुनि उपाध्याय आत्मारामजी महाराज]
५. लेखककी आत्मा [ले०—तत्त्व-बुभुत्सुजी]
६. मेरा निवेदन [ले०—लेखक]
७. विषय-सूची
८. पुस्तकारम्भ

अवलोकन ।

[न्यायाचार्य प० सुखलालजी, प्रो० हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी द्वारा लिखित]

किसी प्रतिष्ठित और चिरपरिचित मित्रकी कृतिका 'अवलोकन' करके उसके बारेमें कुछ प्रास्ताविक लिखनेका काम सरल नहीं है। क्योंकि उस कृतिके अवलोकनके समय जिन सदेशोंकी छाप हृदयपर अङ्गित होती है, उन्हें यथार्थ रूपमें लिखते समय यह शङ्खा वाचकोंकी ओरसे बनी रहती है कि शायद अवलोकनकार पुस्तकके लेखकके प्रभाव या दृष्टिरागके वशीभूत होकर ही ऐसा लिखने लगा होगा। इसी तरह जिन त्रुटियोंकी छाप अवलोकनके समय हृदयपर पड़ी हो, उन्हें स्पष्टरूपसे लिखनेमें भी अवलोकनकारको अवलोक्य पुस्तकके लेखककी ओरसे यह शङ्खा रहती है कि शायद वह अप्रसन्न हो। मुझे इस अवलोकनको लिखते समय उक्त दोनों शङ्खाओंका भय नहीं है। मैं अपनी न्याय वृत्ति और मर्यादापर ही अधिक भरोसा रखता हूँ।

अतएव मुझे आशा है कि तटस्य वाचकोंको इस 'अवलोकन'पर ऐसी शङ्खा करनेका मौका न मिलेगा। पुस्तकके सत्य प्रिय लेखककी ओरसे तो मैं सर्वथा निर्भय हूँ।

जिसने जैन शास्त्रोंका तात्त्विक, साहित्यिक, ऐतिहासिक और जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उपयोगिताकी दृष्टिसे चिरकाल तक मनन

और परिशीलन किया है, उसके दिलपर इस पुस्तकको पढ़कर ऐसी छाप अवश्य पड़ेगी कि इसमें जैन-परम्परा और शास्त्रकी घाते—वस्तुएँ तो वेहद हैं, पर उनकी योग्य व्यवस्था, उनकी पूर्णता और उनका स्वतन्त्रभावसे परीक्षण इस पुस्तकमें नहीं है। इस पुस्तकको पढ़ते समय मुझको भी यह प्रश्न हुआ। पर जब मेरी हृषि एक सत्यकी ओर गई, तब उसका समाधान ठीक ठीक होकर पुस्तकके गुण दोष जाननेकी क्षमता मिल गई। मुझे मालूम हुआ कि इसके लेखक न तो प्रोफेसर हैं, न किसी शास्त्रके परिषिद्धत, वे न तो लॉजिशियन (Logician) होनेका दावा करते हैं, और न साइन्टिस्ट (Scientist) ही होनेका। पुस्तकके लेखक सेठ अचलसिंहजी कॉलिजमें तो पढ़ने गए ही नहीं, उन्होंने सस्कृत-प्राकृत बिलकुल पढ़ी ही नहीं। वे छोटी उम्रसे कुरतीबाज रहे और कुलपरम्परासे रहे व्यापारी।

इस प्रकारकी परिस्थितिमें पलने और जीवन बितानेपर भी उनका रस धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषयोंकी ओर छोटी उम्रसे ही था। जिसका मैं खुद चिरकालसे साज्जी रहा हूँ। वे व्यापार-धन्धा करते समय और अखाड़ेमें दगलबाजी करते समय भी थोड़ा-बहुत अवकाश निकालकर उसमें अपना प्रिय साहित्य पढ़ा करते थे और मित्र मण्डलीमें तथा सभा-सोसाय-टिशोमें सम्मिलित होकर चर्चा भी किया करते थे। इस जिज्ञासा बीजकी पुष्टिके साथ-साथ उनमें सक्रिय विचारके बीज पुष्ट होते थे। वे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रोंमें स्थानिक रूपसे भाग-

हैं, कोई घन्थन नहीं। जो दिन-रात पठन व्याख्यान आदि में ही रह रहते हैं, वे यदि अपनी शक्तिका उपयोग कैसे करना—यह बात इस थोड़ीसी पुस्तक से सीख लें, तो समाजका भावी उज्ज्वल होने में कोई सन्देह नहीं है।

साधारण जैन शास्त्रके व्यापक जिज्ञासुके लिये यह पुस्तक पर्याप्त है। क्योंकि इसके द्वारा उसे अनेक विषयगामी जैन विचार एक ही पुस्तक से मिल सकेंगे। इसमें यदि विशेषता है तो यही है कि जैन परम्परा तथा शास्त्रकी अनेक विषयगत चर्चा इस एक ही पुस्तक में आ गई है। नि सन्देह इसके तीन खण्डोंमें से मुख्यतः 'दूसरा खण्ड' ऐसा है—जिसमें न तो सब लोगोंकी गति ही हो सकती है, और न सब लोगोंकी रसवृत्ति ही पुष्ट हो सकती है। फिर भी इसके पहले और तीसरे खण्डके कुछ अधिकार सर्व साधारणके लिये भी रोचक और पढ़ने योग्य है। जैसे—'सस्कार', 'जैनधर्मकी प्राचीनता' और 'कुछ वाक्य-रत्न', इत्यादि।

जेलसे बाहर आनेके बाद सेठजीको यदि अवकाश मिलता, तो वे इसे फिरसे ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रत्येक विषयका विशेष विन्तन कर ऐसा सुधार करते कि जिससे न तो पुनरुक्तियाँ आती, और न थोड़ी बहुत दीयनेवाली विषय-विशृङ्खलता ही रहने पाती। अनेक विषय प्रवृत्तिओंका भार सिरपर लेकर चलनेवाले सेठजीने यही उचित समझा कि अभी तक जो कुछ संगृहीत हुआ, और जिस रूपमें हुआ, वह चिरकालके लिये यों ही पढ़ा रहनेकी बजाय, प्रकाशित हो जाय, यही अच्छा है।

इस विचारसे उन्होंने अपने अभ्यासका फल वाचकोंके समझ प्रकट करनेका प्रयत्न किया है, जो आदर-पात्र है।

इस पुस्तकका जो नाम रखा गया है, वह सेठजीकी वृत्ति और प्रवृत्तिका द्योतक है। उनका दावा यह नहीं है कि मैंने प्रत्येक वस्तुपर आवश्यक चिन्तन या गहरा मनन किया है, अथवा प्रत्येक मुद्देका स्वतन्त्र परीक्षण किया है। उनका दावा यदि है, तो मेरी हष्टिसे इतना ही जान पड़ता है कि मैंने जेल-वासके समय जैन शास्त्रोंको जो कुछ समझा, जो कुछ पढ़ पाया और उनमेंसे जो कुछ सार इस परिमित समयमें निकाल सका, वह इस पुस्तकमें है। और यह दावा ठीक भी है। क्योंकि शास्त्रोंय गम्भीर चिन्तन और स्वतन्त्र परीक्षण कभी अल्प समय में सिद्ध हो नहीं सकते।

इस पुस्तकके अबलोकनसे एक छाप यह पढ़ती है कि सेठजीको जेलमें दिग्म्बर-साहित्य और दिग्म्बर-इतिहासकी पुस्तकें पढ़नेको कम मिलीं, या उन्हें पढ़नेका समय न रहा। यह भी मालूम होता है कि उन्हें ओंगरेजी और गुजरातीकी कुछ महत्त्व-पूर्ण पुस्तकें प्राप्त नहीं हुईं, अन्यथा जो दक्षिण हिन्दुस्तानके दिग्म्बर राजा, मन्त्री और त्यागी वर्ग तथा उनके साहित्यके वर्णनकी कमी रह गई है, वह न रहती। परन्तु सम्भव है—वह तथा अन्य सब कमियाँ दूसरे स्करणमें दूर हो जाएँगी।

अन्तमें मैं एक सूचना कर देना योग्य समझता हूँ। वह यह कि जिस जिस लेखककी जिस जिस पुस्तकको पढ़कर जो जो

अश उसके शब्दोंमें या अपने शब्दोंमें इस पुस्तकमें सेठजीने संग्रह किया है, चस-उस अशके नीचे मूल पुस्तक तथा मूल लेखकका नाम देकर पृष्ठ सख्या निर्दिष्ट की जाती तो शास्त्रीय तत्त्वोंकी व्याख्याके अधूरेपन-पूरेपनकी या गुण दोषकी या वर्णनशैलीकी, जवाबदेही मूल लेखकके ऊपर रहती, और साथ ही वाचकोंमें उन मूल पुस्तकोंके अवलोकनका थोड़ा बहुत उत्साह भी जागृत होता । साथ-ही साथ यह प्रस्तुत पुस्तक कितनी पुस्तकोंके अवलोकनका परिणाम है, यह भी ज्ञात हो जाता । यदि सेठजीके पास कोई जेल अभ्यासके समयकी यादी हो, तो उसके आधारसे परिशिष्ट द्वारा यह कमो दूर की जा सकती है ।

मैं जैन युवकोंका धास कर व्यापारी और साधन प्राप्त युवकों का सेठजीके धार्मिक और राष्ट्रीय उत्साहकी ओर ध्यान सींचना चाहता हूँ । जिससे वे अपने समय, शक्ति और धनका सदुपयोग करें ।

यनारस हिंदू विश्वविद्यालय

२५-६-३४

}

सुखलाल





सम्मति

[प्रोफेसर श्री हीरालालजी एम० ए०, एल० एल० बी० द्वारा लिखित ।]

मैंने श्रीमान् सेठ अचलसिंहजीकी लिखी हुई “जेलमे मेरा जैनाभ्यास” शीर्षक पुस्तकका अवलोकन किया है। हालहीमे सेठजीका मुझे व्यक्तिगत परिचय भी प्राप्त हो चुका है। थोड़ेसे समयकी वातचीतसे ही मुझे ज्ञात हो गया था कि सेठजीका हृदय साम्राज्यिक संकीर्णता और पक्षपातसे रहित है और समष्टिरूपसे जैनसमाजके उद्धारकी भावनासे ओतप्रोत है। यह देख कर मुझे भारी हर्प हुआ कि सेठजीकी वह उदार भावना प्रस्तुत पुस्तकमें भी प्रतिविनित हुई है। समाजमें साम्राज्यिक मतभेद और उससे उत्पन्न पारस्परिक विद्वेषकी सेठजीके हृदय पर चोट है, यह पुस्तकके पृष्ठ ४६-५० के पढ़नेसे स्पष्ट हो जाता है। सेठजीने जिन ५२ पुस्तकोंका अवलोकन करके यह पुस्तक लिखी है उनमें दिगम्बर सम्प्रदायके भी दसन्वारह मुख्य-मुख्य प्रन्थ हैं, तथापि जैनवर्मके निल्पणके इतिहास विग्रहनमें खेताम्बर ग्रन्थोंका ही विशेष रूपसे आधार पाया जाता है। किन्तु इससे प्रन्थमे कोई अनुदार पक्षपातकी भलक कमसे कम मेरे देखनेमें नहीं आई। बल्कि कहाँ-कहाँ लेखकने दिगम्बर मान्यताका उल्लेख यहै सौजन्य और विवेक सहित किया है।

उदाहरणार्थ देखिये पृष्ठ १६४। ऐसी उदारता और निष्पक्षता बहुत कम जैन लेखकोंमें पाई जाती है। इस पुस्तकमें तर्क व खण्डन-मण्डनका आश्रय नहीं लिया गया। किन्तु जैनधर्मके समस्त सिद्धान्त और आचारको शास्त्रोक्त रीतिसे सरल भाषा में समझानेका प्रयत्न किया गया है। लोकस्वरूपादि विषयोंके वर्णनमें नाप-तौल सम्बन्धी छोटी-छोटी वातें भी लेखकसे नहीं छूटीं। इससे ज्ञात होता है कि सेठजीने जैनशास्त्रोंका पठन कितने पूर्णरूपसे धैर्यपूर्वक किया है तथा उनके प्रति उनकी कैसी श्रद्धा है। यह पुस्तक इस वातका प्रमाण है कि 'समाज-सेवाके कठोर कार्यमें सदैव व्यग्र रहनेपर भी अवसर मिलने पर' सेठजीकी प्रवृत्ति प्रबलतासे धार्मिक स्वाध्यायकीं ओर जाती है। सेठजीका यह आदर्श अन्य समाजसेवियों तथा वहुधन्वी व्यक्तियोंकेलिये अनुकरणीय है। पुस्तक 'जैनधर्मका' परिचय पानेकेलिये बहुत उपयोगी है। साहित्यसेवाके इस सुन्दर और सफल प्रयासकेलिये मैं सेठजीका अभिनन्दन करता हूँ।

किंग एडवर्ड कालेज,
अमरापती
१६-१२-३४ ई०।

हीरालाल

सम्मानि

[शतावधानी परिदितरत्न श्री रत्नचन्द्रजी महाराजद्वारा लिखित]

श्रेष्ठिनाऽचलसिंहेन कारावासस्थितावपि ।
अधीत धर्मशास्त्र यत् तत्प्रशस्तास्पद महत् ॥ १ ॥

जेलकी कठोरियोंमें घन्द रहकर भी 'सेठ अचलसिंहजी'ने धर्मशास्त्रका
जो अध्ययन किया है, वह भारी प्रशस्ताके योग्य है ॥ १ ॥

अधीत्यापीव लुब्धार्थ सञ्चित न स्वस्त्रहे ।

जिज्ञासुभ्यो वितीर्ण तज्जिलित्वा पुस्तक हाद ॥ २ ॥

अध्ययन करके भी जोभीकी तरह उसे अपने भण्डारमें उन्होंने जमा
नहीं किया, किन्तु उसे लिखकर इस पुस्तकके रूपमें जिज्ञासुओंको
वितीर्ण भी किया ॥ २ ॥

राष्ट्रसेवाकृतः कोचिन्तु धर्मस्य सेवका ।

धर्मसेवाकृत राष्ट्रस्य सेवका ॥ ३ ॥

कुछ लोग केवल राष्ट्रकी ही सेवा करना उचित समझते हैं, और
धर्मकी सेवा नहीं करते । तथा कुछ लोग धर्मकी ही सेवा करना उचित
समझते हैं और राष्ट्रकी सेवा नहीं करते ॥ ३ ॥

सेवायुग्म सदा माति पुस्तकस्यास्य लेखके ।

लेखकस्य च तत्त्वाना गौरवेणास्य गौरवम् ॥ ४ ॥

लेकिन इस पुस्तकके लेखकमें दोनों सेवाओंका समावेश है ।
गौरवपूर्ण तत्त्वोंका विवेचन इस पुस्तकमें किया गया है, इसलिये
इस पुस्तकका भी गौरव है ॥ ४ ॥

जिनोक्तानां च तत्त्वानां ज्ञानमावश्यकं नृणाम् ।

एतज्ञानेन सम्यकृत्वं भव्यानां जायते द्रुतम् ॥ ५ ॥

जिनेन्द्रकेद्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंका ज्ञान मनुष्यमात्रकेलिये आवश्यक है। इस ज्ञानसे भव्य जीवोंको शीघ्र ही सम्यकृत्वं प्राप्त हो जाता है अर्थात् जैन-तत्त्वज्ञानसे होनहार व्यक्तियोंकी इष्टि समीचीन हो जाती है ॥ ५ ॥

सम्यकृत्वेन विना न स्याच्चारित्राराधना मनाक् ।

ज्ञानदर्शनचारित्रैति भिरेव भवेच्छुवम् ॥ ६ ॥

सम्यकृत्वके बिना चारित्रकी आराधना नहीं हो सकती। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनोंसे ही 'भोक्त' होता है ॥ ६ ॥

सम्प्रदायन्त्रयस्यापि तत्त्वज्ञाने समानता ।

प्रायशो विद्यते तेनाविरुद्धं पुस्तक स्थिदः ॥ ७ ॥

श्वेताम्बर, स्थानकवासी और दिगम्बर, इन तीनों सम्प्रदायोंके तत्त्वज्ञान में प्राय समानता ही है। अत यह पुस्तक तीनों सम्प्रदायोंके अविरुद्ध है—तीनों सम्प्रदायोंके पढ़ने लायक है ॥ ७ ॥

भाषाया लिखितत्वेन प्राकृता अपि मानवा ।

अन्थेनैतेन जानीयुस्तत्त्वानीति मतं मम ॥ ८ ॥

हिन्दीमें लिखनेकी बजाहसे साधारण पुरुष भी इस ग्रन्थसे तत्त्वों को जान सकेंगे, ऐसी मेरी सम्मति है ॥ ८ ॥

सम्मान

[जैनसुनि उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराजद्वारा लिखित]

इस अनादि-अनन्त ससार चक्रमें प्रत्येक प्राणी स्वकीय कर्मोंके अनुसार परिभ्रमण कर रहा है। ससार-चक्रमें परिभ्रमण करते हुए जीवको प्रत्येक वस्तुकी प्राप्ति हो जानेपर भी, “उत्तमसुइधर्म दुल्हा”—‘उत्तम श्रुतिधर्म दुर्लभ’ प्रतिपादन किया गया है। कारण कि जिस प्रकार कारागृहमें स्वेच्छानुसार पदार्थों की उपलब्धि असाध्य कोटिये नहीं है, तो भी कष्टसाध्य तो अवश्यमें मानी जा सकेगी। परन्तु विचारशील व्यक्ति जिस प्रकार कारागृहमें कतिपय कष्टोंद्वारा अभीष्ट पदार्थोंकी प्राप्ति कर लेता है, ठीक उसी प्रकार ससार रूपी कारागृहमें रहे हुए प्राणी भी आत्मिक बलद्वारा उत्तम श्रुतिधर्मकी प्राप्ति कर लेते हैं। इसी सिद्धान्तकी पुष्टि करनेकेलिए यह पुस्तक—“जेलमें मेरा जैनाभ्यास” हमारे सामने है।

मेरे अनुभवके अनुसार पुस्तकका यह नाम यथागुण-सप्तश्च है। वैसे कि जेलमें जैनाभ्यास मुमुक्षु जन कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ससार रूपी कारागृहमें भी मुमुक्षु आत्माएँ दुर्लभ उत्तम श्रुतिधर्म की भी प्राप्ति कर लेते हैं। अत सेठजीके इस प्रशसनीय कार्यका प्रत्येक व्यक्तिको अनुकरण करना चाहिए। अब मैं जिज्ञासुओंके प्रति आवश्यक सूचनाएँ भी सूचित कर देनी उचित समझता हूँ। वह यह कि वे इस पुस्तकेद्वारा जैनतत्त्वोंके जानेका अवश्यमेव परिश्रम करें। लेसकने अपने (उदार भावोंसे) विशाल हृदयसे श्रेताम्बर वा दिग्म्बर आचार्योंके लिये हुए तत्त्वोंका सम्बद्ध कर जनतापर परमोपकार किया है।

नय, निक्षेप, अनेकान्तवाद, कर्मवाद आदि लेख तथा चारित्र वा ध्यान विपय अवश्य पठनीय हैं। इतना ही नहीं, किन्तु जैन इतिहास वा अहिंसा आदि विपय ऐसे मनोरञ्जक हो गए हैं कि वह जिज्ञासुओंके हृदयोंमें अङ्गित हुए बिना नहीं रह सकते ।

जो सामान्य जातिके पाठक होगे, उनकेलिए इस पुस्तकमें “मुमुक्षुओंकेलिए उपयोगी उपदेश” नामक जो लेख है, वह अत्यन्त उपकारी प्रतीत होता है। और जो उच्चकोटिके पाठक हैं, उनकेलिये “नवतत्त्व अधिकार”, ‘गुणस्थान अधिकार’ आदि लेख अवश्य पठनीय हैं। तात्पर्य यह है कि पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को लाभप्रद सिद्ध हुई। अतः मैं जिज्ञासुओंके प्रति अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार सेठजीने अत्यन्त कष्टमय समयमें उत्तम तत्त्वोंका संग्रह कर जनतापर उपकार किया है, ठीक उसी प्रकार वे भी इस कष्टमय जीवनको शान्तिरूप बनानेके लिये इस पुस्तकका स्वाध्याय करें। जिससे सेठजीका परिश्रम सफल हो ।

विशेष विचारणीय विपय यह भी है कि अन्य जो व्यक्तियें मोहोत्पादक उपन्यासादिद्वारा अपना अमूल्य समय व्यर्थ ही व्यय करती हैं, उनको योग्य है कि वे इस प्रकारके धार्मिक पुस्तकोंके स्वाध्यायसे अपने अमूल्य जीवनको पवित्र बना कर मोक्षाधिकारी बनें। वास्तवमें यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्तिकेलिये अवश्य पठनीय है। जैन तत्त्वोंके दिसलानेकेलिए एक प्रकार की प्रकाशमयी दीपिका है ।

देहली

जैनसुनि उपाध्याय
आत्माराम

‘जेलमें मेरा जैनाभ्यास’ के

लेखककी आत्मा

इन परिव्योगोंमें प्रस्तुत उस्तुकके लेखकके जन्म, व्याह, शिक्षा आदि की मितियों, उनका शिशु-आल-कुमार-किशोर अवस्थाकी व्यवस्था, उनकी धन-सप्ति और शरीर-सप्तिकी दृयता, उनको प्राप्त मानपत्रोंकी प्रतिलिपि, उनकी विविध सभा-सोसाइटियोंकी सभापति-पदावली तथा उनकेद्वारा की गई सार्वजनिक सेवाकी विवृति मुझे नहीं लिखनी। मुझे विश्वास है कि उनके जीवनकी ये बातें तो अनेक बार लिखी गई होंगी और लिखी जायेंगी। मुझे तो केवल उनके जीवनके धार्मिक अथापर कुछ शब्द लिखने हैं, जिसका दर्शनीय सम्मेलन उनकी आत्मामें हुआ है।

प्रस्तुत उस्तुकके लेखक, अनेक मानपत्र प्राप्त, विविध प्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित सभा सोसाइटियोंके सभापति, अचलप्रन्थमाला और अचल-आम-सेवा-संघके एक मात्र सर्वस्व कांग्रेसकेलिये अपनी विशाल तामन धनकी शक्तिका दिल रोककर उपयोग करनेवाले, आगरेके पहल-चानोंसे अपना लोहा मनवा लेनेवाले, ओसवाल-समाजके चमकते हुए तारे, दधारु, साधु-सेवा-समाजके अहर्निश अभिलापी, कुलीन-सेठ अचलसिंहजी एकस० एम० एल० सी० हैं।

लेखकी शिशु और याल अवस्थाका मुझे कहाँ हैं परिचय नहीं है। मैंने लेखको कुमार और किशोर अवस्थामें, जब कि ये पढ़ते थे, कुमार-सभा-सोसाइटियोंमें भाग लेते हुए देखा था। मैं उस समय “श्रीआत्मा-नन्द-जैन-पुस्तक प्रचारक-मण्डल, रोशनमुद्देश्य” में काम करता था। कुमार-सभाओंमें काम करते हुए जब मैंने लेखको देखा, तब मैं समझता था कि कुमार लोग सभा क्या करते हैं, वही वही सभाओंकी नज़ल करते हैं—सभाओंका नाटक खेलते हैं—जिलावाड़ करते हैं। इसलिये मैं सदैव उस ओर उपेचित साधना रहा। मुझे नहीं मालूम था कि यह जिलावाड़ नहीं है, बल्कि सेठकी आत्मामें सभा-सोसाइटियोंके काम और सार्वजनिक सेवाका कोई श्रेकुर प्राकृतिक रूपसे मौजूद है, जो कि उनको इस ओर यतात् प्रेरित करके उन्हें इस काममें इस समय दिलचस्पी दिला रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि यह सार्वजनिक सेवाका भाव बट्टीजके समान किसी समय इस तरह विकसित और पश्चलवित होगा कि जिसकी विशाल छुआछायामें आज अंगणित गणनीय कार्य सपन्न होंगे और एक विशाल जनसमुदाय जिसकी शीतलताका उपभोग करेगा।

अस्तु कुछ दिनों बादसे “मण्डल”से मेरा सम्बन्ध टूट गया और फलत लेखकसे मिलना भी कहाँ हूट गया। इस सम्बन्धको हूटे हुए करीबन आज १५ वर्ष हो गये। १५ वर्षके बाद एक कार्यके निमित्तसे शब्द किर सेठसे मिलने-जुलनेका मौका मुझे मिला।

शब्दकी बार जब लेखकसे मिलने जुलनेका अवसर आया और उनके गुण, स्वभाव, हृदय, आत्मा और प्रवृत्तिको देखा तो मैं अचम्भेमें रह गया।

एक बार अचम्भेमें मैं तथ भी आया था, जब कि लेखक 'धानक' में मुँहपति लगाये हुए, साथु और गृहस्थों बीच आसनपर आसन जमाये हुए 'सामायिक'-ध्यानका अभ्यास कर रहे थे । क्योंकि बीचमें मैं यद्यपि लेखकसे मिला-जुला नहीं था, फिर भी यह सुनता रहता था कि सेठ कॉम्प्रेसके काम में तख्लीन हैं । कॉम्प्रेसवादियोंकी ओरसे अनेक उदाहरणोंपरसे मैंने अपनी यह धारणा कर रखी थी कि कॉम्प्रेसमैन प्राय धर्मनिष्ठानसे विमुख हो जाते हैं । उनका राष्ट्र-प्रेम स्वराज्य-स्वाधीनता ही एकमात्र कर्तव्य—धर्म रह जाता है । उनके विषयमें मैं अपनी इस धारणाको अब भी गलत नहीं मान रहा हूँ । क्योंकि मन का यह स्वभाव है कि जब वह उग्र गतिमें होता है तथ उसकी गति किसी एक ही ओर होती है ।

इसके बाद कालान्तरमें जब मुझे आपके मकानपर जानेका अवसर मिला, तब तो मेरे आश्चर्यका कोई दिकाना ही नहीं रहा । एकडे बाद एक आश्चर्यकारक बातोंका सौता लग गया । मैं सेठके मकानको देखते न अधाया । मेरेलिये सेठका मकान एक सिनेमा थन गया, अजायथ घर थन गया और यन गया मेरेलिये एक 'अन्वेषण गृह' ।

मेरे इस लिखनेसे पाठक शायद समझे होंगे कि सेठके मकानपर अदिया-बदिया तस्वीरें और मनोमोहक विलायती सामानोंकी कोई प्रदर्शिनी होगी । लेकिन नहीं, आम-गवेषी पुस्तकेलिये ये सामान आश्चर्यकी चीज़ नहीं हैं । गवेषणाकी वस्तु नहीं हैं । ये तो उसकेलिये हु खके सामान हैं । गवेषणा और आश्चर्यके योग्य तो सुझे यहाँ यही-

चात थी कि कहाँ तो काप्रे सकी यह—उत्कृष्ट दर्करी और कहाँ आरम्भ-
कल्याण की यह दृढ़तम भावना—ददूपरिकर तेयारी ? इस असमन्जसता
का सामन्जस्य करना—इस गुरुधीका सुलझाना ही मेरेलिये गवेषणाकी
वस्तु थी—आश्चर्य की चीज़ थी ।

सेठसे अधिक परिचय हो जानेपर धीरे-धीरे मेरी यह गुरुधी सुलझ
गई । और बहुत अच्छी तरह सुलझ गई । सोभावसे इस गुरुधीके
सुलझानेमें मुझे अधिक विलग्न न लगा । महीने-सवामहीने के भीतर
ही मेरी समस्त शकायोंका समाधान होगया क्यों कि लेखकको प्राय
सभी भावनायें कार्य रूपमें परिणत र्था और वे निष्पत्त थीं ।

हाँ तो सेठके मकानपर जाते ही मेरे चित्तपर सबमें पहले ग्रभाव
डालनेवाले वे मोटी थे, जो कि वहाँ टैगे हुए थे और दर्शकके चित्तपर
भाव फैकनेवाले थे कि क्या सेठजी ऐसे हैं ? वे मोटी थे —

पहिला—

“जो भरा नहीं है भावोंसे,
वहती जिसमें रस-धार नहीं ।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है,
जिसमें स्वजातिका प्रेम नहीं ॥”

दूसरा—

“ज्यों कर्म-कुलमें मुकुट-भणि सा,
दान सा सत्कर्म है ।

त्यो ही 'सनेही' श्रेष्ठ धर्मो मे;
"अहिंसा" धर्म है ॥"

तीसरा—

"जैसे कर्म कीजिये, वैसे फल भी चरने पड़ते हैं ।"

चौथा—

"कहों परस्पर लड़कर किसने कभी सुयश-सुग्र पाया है,
फूट-न्घैर का क्या भीठा फल कभी हाथमे आया है।
कौरव-पाण्डव यादवकी भी कथा किसे है बात नहीं,
धर्म लडाईसे बढ़ करके बुरी दूसरी बात नहीं ॥"

पाँचवाँ—

"पशुसे बढ़ कर वे नर ऐरु हैं, जिन्हे दिया संचार नहीं,
भूमि भार हैं बने जिन्होंने, किया धर्मका प्यार नहीं।
जो समर्थ हो असमर्थोंके लिये समर्पित रहते हैं,
जन्म सफले उनका ही है जो परसुरामों सुख कहते हैं ॥"

छठा—

"मैं हृष्वरकी साक्षी पूर्वक हम यातकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि निष्ठ-
लिखित नियमोंको मैं जन्म पर्यन्त पालन करता रहूँगा ।

. १—मास का त्याग, चोरी नहीं करनी, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ
तक भूंठ नहीं बोलूँगा ।

यात थी कि कहाँ तो काघे-सङ्गी यह उत्कृष्ट वर्करी - और कहाँ आत्म-कल्याण की यह दृढ़तम भावना—बद्धपरिकर तैयारी ? इस असमन्जसता का सामन्जस्य करना—इस गुरुथीका सुलभाना ही मेरेलिये गवेषणाकी वस्तु थी—आश्रद्धा की चीज़ थी ।

सेठसे अधिक परिचय हो जानेपर धीरे-धीरे मेरी यह गुरुथी सुलभ गई । और बहुत अच्छी तरह सुलभ गई । सोभाग्यसे इस गुरुथीके सुलभानेमें मुझे अधिक विलम्ब न लगा । महीने-सवामहीने के भीतर ही मेरी समस्त शकाओंका समाधान होगया क्यों कि लेखकको प्राय सभी भावनायें कार्य रूपमें परिणत थीं और वे निष्पत्त थीं ।

हाँ तो सेठके मकानपर जाते ही मेरे चित्तपर सबसे पहले प्रभाव डालनेवाले वे मोटे थे, जो कि वहाँ ढूँगे हुए थे और दर्शकके चित्तपर भाव फैंकनेवाले थे कि क्या सेठी ऐसे हैं ? वे मोटे थे —

पहिला—

“जो भरा नहीं है भावोसे,
वहती जिसमे रस-धार नहीं ।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है,
जिसमे स्वजातिका प्रेम नहीं ॥”

दूसरा—

“ज्यों कर्म-कुलमें मुकुट-भणि सा,
दान सा सत्कर्म है ।

त्यों ही 'सनेही' श्रेष्ठ धर्मो मे;

"अहिंसा" धर्म है ॥"

तीसरा—

"जैसे कर्म कीजिये, वैसे फल भी चरने पड़ते हैं ।"

चौथा—

"कहों परस्पर लड़कर किसने कभी सुथश-सुग्र पाया है,
फृट-न्वैर का क्या मीठा फल कभी हाथमे आया है।
कौरव-पाण्डव यादवकी भी कथा किसे है ज्ञात नहीं,
घरु लडाईसे बढ़ करके दुरी दूसरी बात नहीं ॥"

पाँचवाँ—

"पशुसे बढ़ कर वे नर रेशु हैं, जिन्हे दया संचार नहीं,
भूमि भार हैं बने जिन्होंने, किया धर्मका प्यार नहीं।
जो समर्थ हो असमर्थोंकेलिये समर्पित रहते हैं,
जनम सफल उनका ही है जो परसुरामो सुख कहते हैं ॥"

छठा—

"मैं ईश्वरकी साक्षी पूर्वक इस बातकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि निष्ठ-
क्षिति नियमोंको मैं जन्म पर्यन्त पालन करता रहूँगा ।

१—भास का त्याग, चोरी नहीं करनी, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ
तक भूंठ नहीं बोलूँगा ।

यात थी कि कहाँ तो काग्रे सकी यह उल्कृष्ट वर्फरी और कहाँ आत्म-
कल्पाण की यह दद्तम भावना—यद्यपरिकर तैयारी ? इस असमन्जसत
का सामन्जस्य करना—इस गुर्थीका सुलभाना ही मेरेलिये गवेषणाक
बस्तु थी—आश्चर्य की चीज़ थी ।

सेठसे अधिक परिचय हो जानेपर धीरे-धीरे मेरी यह गुर्थी सुलभ
गई । और बहुत अच्छी तरह सुलभ गई । सोभाग्यसे इस गुर्थीके
सुलभानेमें मुझे अधिक विलम्ब न लगा । भहीने-मवामहीने के भीतर
ही मेरी समस्त शकाओंका समाधान होगया क्यों कि लेखकको प्राय
सभी भावनायें कार्य रूपमें परिणत थीं और वे निष्पक्ष थीं ।

हाँ तो सेठके भक्तनपर जाते ही मेरे चित्तपर सबसे पहले प्रभाव
डालनेवाले वे मोटे थे, जो कि वहाँ टैगे हुए थे और दर्शकके चित्तपर
भाव फैलनेवाले थे कि क्या सेठजी ऐसे हैं ? वे मोटे थे —

पहिला—

“जो भरा नहीं है भावोंसे,
वहती जिसमे रस-बार नहीं ।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है,
जिसमे स्वजातिका प्रेम नहीं ॥”

दूसरा—

“ज्यों कर्म-कुलमे मुकुट-भणि सा,

ताजा ताजा ताजा ताजा ताजा ताजा

त्यो ही 'सनेही' थ्रेपु धर्म में;
"आहिसा" धर्म है ॥"

तीसरा—

"जैसे कर्म कीजिये, वैसे फल भी चरने पड़ते हैं ।"

चौथा—

"कहाँ परस्पर लड़कर किसने कभी सुयश-सुख पाया है,
फूट-बैर का क्या मीठा फल कभी हाथमें आया है।
कौरव-पाण्डव यादवकी भी कथा किसे है ज्ञात नहीं,
घरु लडाईसे बढ़ करके दुरी दूसरी बात नहीं ॥"

पाँचवाँ—

"पशुसे बढ़ कर वे नर रहे हैं, जिन्हे दया संचार नहीं,
भूमि भार हैं बने जिन्होंने, किया धर्मका प्यार नहीं।
जो समर्थ हो असमर्थोंकेलिये समर्पित रहते हैं;
जनम सफल उनका ही है जो परसुखको सुख कहते हैं ॥"

छठा—

"मैं ईश्वरकी साक्षी पूर्वक इस यातकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि निश्च-
लिखित नियमोंको मैं जन्म पर्यन्त पालन करता रहूँगा ।

२—मास का त्याग, चोरी नहीं करनी, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ
तक भूठ नहीं बोलूँगा ।

२२—वदनी का काम या सद्गुर्यादे का काम पश्चीसं
हजार रुपये से ज्यादः लागत का नहीं करना ।

२३—चमड़ा, चरबी आदि का व्यापार, उन का व्यापार, वन
कटवाना, कोला बनवाना, लाख बनवाना, रेशम पैदा करना,
खान में कोयला या पत्थर निकलवाना, विष का
व्यवहार, हाथी दौत या हड्डी का व्यापार इत्यादि नहीं
करना ।

२४—प्रत्येक प्राणी के साथ वही व्यवहार करना जो दूसरों से
अपने साथ करने की आशा रखना ।

आगरा—

ता २१-११-३४

अचलसिंह

चुक्लम् खुद ।

मुझे जब कभी घरटे आधघरटे सेठके पास बैठनेका अवकाश
मिला, तब मैंने उक्त मोटोंओंको सेठके व्यवहारमें आते हुए देखा ।

मैंने देखा —

कि यदि कोई व्यक्ति या सम्पत्ति उनसे किसी भी प्रकारकी सहायता लेने
आती है तो वह सेठके यहोंसे सर्वथा निराश या विमुख होकर चापिस नहीं
जाती । और जब कभी भी मैं सेठके मकानपर गया तभी कोई-न-कोई
सहायतामिलायी मुझे धूँधूँ बैठा हुआ या आता हुआ ढीखा । और फिर बादमें
सफल होता हुआ और आशीर्वाद देते हुए जाता हुआ ढीखा ।

‘ संस्था-साहार्य या धर्मिसाहार्यका कार्य मुझे सेठके यहाँ हृतना अदा हुआ दीरा कि मैं नहीं कह सकता कि सेठ किसी दूसरे भी काममें अपना समय देते हैं या नहीं ? मालूम होता है, यह सार्वजनिक सेवा ही सेठकेलिये दिन-रातका कार्य है । वे अपने मोटोश्रोंका प्रतिपालन हड़ताके साथ करते हैं ।

उक्त मोटोश्रोंकी हज़ार यह नहीं है कि जैसे लोग ग्राम अच्छे-अच्छे मोटो याजारमें बिकते हुए दीखे कि उन्हें से आये और अपने कमरेमें टॉग दिये । सेठ यदि पेसा करते हो आज सैकड़ों पेसे मोटो उनके कमरेमें टॉगे हुए आपको दीखते । नहीं, मोटो सिर्फ यही गिनतीके ५-६ हैं । और उनके अनुसार मेठ की भृत्यि हम देख रहे हैं । इसलिये मालूम यह होता है कि “मनस्येक वचस्येकं कर्मण्येक महात्मनाम्” का पाठ सेठको किसी कुराल गुरने पढ़ाया है ।

मेरे रथालसे चौथे मोटोके सामने रखनेका लेखकका उद्देश्य यह रहा होगा कि जब ये अपने कुटुम्बियोंसे आधिक रूपमें अलहदा हुए तब हृतके अलहदा होनेकी कथा हृतके एक प्रामाणिक भीतरी व्यक्तिसे मालूम की तो मुझे मालूम हुआ कि हृतके बैठवारेमें किसी बातकी भी उद्घाभन नहीं पढ़ी थी । यल्कि चन्द घन्टोंके अन्दर-ही अन्दर लिपा-पढ़ी तककी सारी बैठवारेकी कार्यवाही-समाप्त हो गई थी । जब कि हृतनी भारी सपत्नि के बैठवारेमें वर्षे लग जाया करती हैं, बड़े-बड़े सलाह-मशवरे और मसौदे तैयार होते हैं और कहाँ-कहीं तो अदालतें तक छिड़ जाया करती हैं ।

सेठके छुड़े मोटोने तो मेरे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डाला । जैन समाजको और जैन समाजकी गति-मतिसे परिचित व्यक्तियोंकी मालूम-

(२६)

मैं समझता हूँ लेखकी आत्मा एक वह आत्मा है, जिसमें दयावाचक अंकुर चास्तव्यमें प्रस्फुटित हुआ है, आत्मकल्याणकी प्रयत्न भागनाने जिस दिलको वर यना लिया है, संपत्ति सुलभ व्यसन जिससे कोसों दूर और जिसमें साधु-सेवा-समागमकी सद्भावना सदैन निवास करती है ।

मैं ऐसे व्यक्तियोंको एक आदर्श व्यक्ति समझता हूँ और चाहता हूँ कि प्रथेक आत्मा कम-न्मे-कम ऐसी अपश्य घने ।

सद्गुणानुयागी—
‘तत्त्व-बुझत्सु’



मेरा निवेदन

१९३० वर्षात्तिरीक्षण के बाद सत्याग्रह को



जब सन् १९३० में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह-संग्राम छिड़ा था, उस समय मैंने अपनी तुच्छ सेवाएँ देशको अपित कर दी थीं। फलत् ता० २० सितम्बर १९३० को मैं गिरफ्तार किया गया और मुझे ६ महीनोंकी सख्त सजा और पाँच सौ रुपया जुर्माना किया गया, जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उस समय मुझे कुछ धार्मिक धन्य और पुस्तकों पढ़नेका सुअवसर प्राप्त हुआ, पर गांधी इरविन पैकट (Gandhi Irwin Pact) के अनुसार जेलसे छूट जानेके कारण मैं कुछ नहीं लिख सका। इसलिये मैंने यह निश्चय किया कि भविधमें यदि कभी और अवकाश मिला तो अपने विचारोंको पूर्णतया लिखनेकी चेष्टा करूँगा। मुश्किलसे एक वर्ष भी नहीं निकल, पाया था। कि युद्धके बादल फिर मँडराने लगे और महात्माजीके इंगलैंडसे आनेके छह दिन बाद ही यानी ता० ४ जनवरी सन् १९३२ को फिर युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस समय भी मैंने अपनी सेवाएँ देशको अपित कीं। फलस्वरूप ता० २२ फरवरीको मैं गिरफ्तार किया गया और धारा १७ ए० १७ वी० और चौथे आठीनेसठी



मेठ अनलमिह पक्ष्म पम पल सी
आगग ।

मेरा निवेदन

१९३० के बड़े घटनाकोशी के बाद स्वतंत्रता के लिए अपनी जीवन को देने की वापसी

जब सन् १९३० में महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह-संघाम छिड़ा था, उस समय मैंने अपनी तुच्छ सेवाएँ देशको अप्रिंत कर दी थीं। फलत ता० २० सितम्बर १९३० को मैं गिरफ्तार किया गया और मुझे ६ महीनोंकी सख्त सजा और पाँच सौ रुपया जुर्माना किया गया, जिसको मैंने सहर्ष स्वीकार किया। उस समय मुझे कुछ धार्मिक ग्रन्थ और पुस्तकों पढ़नेका सुअवसर प्राप्त हुआ, पर गाँधी-इरविन पैकट (Gandhi Irwin Pact) के अनुसार जेलसे छूट जानेके कारण मैं कुछ नहीं लिख सका। इसलिये मैंने यह निश्चय किया कि भविष्यमें यदि कभी और अवकाश मिला तो अपने विचारोंको पूर्णतया लिखनेकी चेष्टा करूँगा। मुशकिलसे एक वर्ष भी नहीं निकल पाया था। कि युद्धके बादल फिर मँडराने लगे और महात्माजीके इंगलैंडसे आनेके छह दिन बाद ही यानी ता० ४ जनवरी सन् १९३२ को फिर युद्ध प्रारम्भ हो गया। इस समय भी मैंने अपनी सेवाएँ देशको अप्रिंत की। फलस्वरूप ता० २२ फरवरीको मैं गिरफ्तार किया गया और धारा १७ ए० १७ वी० और चौथे आठीनोंसकी

चौथी धारानुसार साढे तीन वर्षकी सख्त सज़ा और पाँच सौ रुपया जुर्मानेका दरड मुझे दिया गया । पर चूँकि सारी सज़ाएँ साथ-साथ चलीं, इसलिए वह केवल अठारह महीनेकी रही । यह अवसर मेरोलिये एक स्वर्ण अवसर था, किन्तु मनुष्यका कर्म उसके आगे चलता है अर्थात् मनुष्य सोचता कुछ है- और होता कुछ है । अभाग्यवश जेलमें मेरे कूलहेमें निरन्तर दर्द रहने लगा । जिसके कारण मुझे चलने, फिरने, बैठने, सोने आदिसे अधिक कष्ट होने लगा । इसके अलावा मेरे पूज्य भाई साहब बीमार हो गये, जिसके कारण मेरा चित्त सदा चिन्ताप्रस्त रहने लगा और दुर्भाग्यवश ता० १९ जनवरी सन् १९३३ को उनका स्वर्गवास हो गया ।

इस दूसरी जेल-आत्राके समयमें जितना समय मुझे मिलता रहा, उसमें अनेक जैनधर्मके दिग्म्बर, श्वेताम्बर और स्थानकवासी सम्रदायके ग्रन्थों व पुस्तकोंके पढने व मनन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ । अपने अनुभव और इन पुस्तकों के आधारपर मैंने मुख्य-मुख्य विषयोंपर कुछ लिखना शुरू कर दिया । फलस्वरूप यह पुस्तक, जो आपके हाथोंमें है, तैयार हो गई ।

इस पुस्तकके लिखते समय यह मेरा अवश्य विचार था कि कोई छोटा-सा जैनधर्मके विषयमें ऐसा ग्रन्थ तैयार किया जाय, जिसको पढ़कर जैन और अजैन बन्धु जैनधर्मके मुख्य-

मुख्य सिद्धान्तों और विषयोंका अनुमान लगा सके। मैंने इस भयके लिसते समय इस बातका पूर्ण ध्यान रखा है कि किसी स-प्रदाय-विशेषका सरण-भरण न किया जाय। यह मैं अपने चन्द्रुओंको अवश्य इतमीनान दिलाना चाहता हूँ कि दुस और विपक्तिके समयमें धर्म जैसी सहायता करता है, वैसी सासार में कोई पदार्थ नहीं कर सकता। जब मुझे भाईं साहबके स्वर्गवासकी मानसिक अपार वेदना थी और उसके साथ-साथ शारीरिक कष्ट भी था, उस समय अगर किसी वस्तुने मुझे सतोष और सहायता पहुँचाई तो वह केवल धार्मिक ग्रन्थोंका आश्वासन ही था। अगर मुझे इस अवसरपर यह उत्तम सहारा न होता तो न मालूम मेरी क्या दशा हुई होती। इन धार्मिक ग्रन्थोंने स्पष्ट कर दिया कि 'हे जीव ! तुम्हे एक-न-एक दिन अवश्य मरना है और ससारमें कोई किसीका नहीं है। केवल शुभ और अशुभ कर्म ही अपने हैं। इस कारण सदा इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जहाँतक मुमकिन हो वहाँतक अपने तन, मन और धनका सदा सदुपयोग करते रहना चाहिये।'

मैं आशा करता हूँ कि मेरे चन्द्रु इस पुस्तकको पढ़कर अवश्य लाभ उठावेंगे, और तभी मैं भी अपनेको छतार्थ समझूँगा।

आभार ।

जिन ग्रन्थोंके माधाव्यसे यद पुस्तक लिखी गई है, उनके क्षेत्रक और प्रकाशकोंका आभार स्वीकार करते हुए, उनकी नामावलि में नीचे देता हूँ—

१—श्रीउत्तराध्ययनजी ।

२—श्रीमगवतीजी ।

३—श्रीजीयाभिगमजी ।

४—कर्मप्रन्थ पद्मिला भाग ।

५—कर्मप्रन्थ दूमरा भाग ।

६—कर्मप्रन्थ तीसरा भाग ।

७—कर्मप्रन्थ चौथा भाग ।

८—जैनतत्त्वप्रकाश ।

९—श्रीमन्त्रराजन्युणकल्प-
मठोदधि ।

१०—नाटक समयसार ।

११—जैनसिद्धान्तप्रबेशिका ।

१२—चरचा शतक ।

१३—पश्चिस बोलका थोकड़ा ।

१४—सामायिक प्रतिकमणसूत्र ।

१५—श्रीप्रवचनमार ।

१६—सूरीखर और सम्राट्

अफवर ।

१७—युरुपार्थमिद्ध्युपाय ।

१८—गत्त्वार्थसूत्र ।

१९—मोहमार्गप्रकाश ।

२०—पद्मास्तिकाय ।

२१—युद्धचर्या ।

२२—महायोधि ।

२३—पातडाल योगदर्शन ।

२४—कर्तव्यकौमुदी ।

२५—ध्यानफलपत्र ।

२६—ज्ञानदीपिका ।

२७—सत्यार्थचन्द्रोदय ।

२८—चिकागो प्रसनोत्तर ।

- अज्ञानतिमिरभास्कर । ४३—क्रियाकर्मवैराग्य-
 —रक्षकरण्डश्रावकाचार । प्रश्नोत्तर ।
 —भगवान् महावीर-चरित्र । ४४—गोम्मटसारजीवकाण्ड-
 —श्रीनेमिनाथ-चरित्र । कर्मकाण्ड ।
 —जैनसप्रदायशिद्धा । ४५—गोम्मटसार ।
 ३—आप्तमीमांसा । ४६—जैनाचार्यका शासनभेद ।
 ४—पुराण और जैन धर्म । ४७—सृष्टिकर्तृत्वमीमांसा ।
 ५—दर्शन और अनेकान्तवाद । ४८—आत्मानुशासन ।
 ६—जैनतत्त्वसार । ४९—श्रीपार्वनाथ भगवान् का
 ८—सप्तमझीनय । जीवन-चरित्र ।
 ९—गङ्गकी वाणी । ५०—आत्मानुशासन ।
 १०—आत्मिक मनोविज्ञान । ५१—भूधरशतक ।
 ११—जैन रामायण । ५२—ज्ञानार्णव ।
 १२—भारतवर्षका इतिहास
 और जैन धर्म ।

—(सेठ) अचलसिंह ।



आभार ।

जिन प्रन्थोंके साहाय्यसे यह पुस्तक लिखी गई है, उनके
द्वेषक और प्रकाशकोंका आभार स्वीकार करते हुए, उनकी
नामावलि में नीचे देता हूँ—

१—श्रीउत्तराध्ययनजी ।

२—श्रीभगवतीजी ।

३—श्रीजीवाभिगमजी ।

४—कर्मग्रन्थ पहिला भाग ।

५—कर्मग्रन्थ दूसरा भाग ।

६—कर्मग्रन्थ तीसरा भाग ।

७—कर्मग्रन्थ चौथा भाग ।

८—जैनतत्त्वप्रकाश ।

९—श्रीमन्तराजन्मुण्डकल्प-
मठोदधि ।

१०—नाटक भमयसार ।

११—जैनमिद्दान्तप्रबोधिका ।

१२—परमा शतक ।

१३—पश्चीस योजका धोकड़ा ।

१४—सामायिक प्रतिक्रियासूत्र ।

१५—श्रीप्रवचनसार ।

१६—सूरीश्वर और सम्राट्
अकबर ।

१७—पुरुपार्थसिद्ध्युपाय ।

१८—तत्त्वार्थसूत्र ।

१९—मोक्षमार्गप्रकाश ।

२०—पञ्चास्तिकाय ।

२१—बुद्धचर्या ।

२२—महामोधि ।

२३—पातञ्जल योगदर्शन ।

२४—कर्तव्यकौमुदी ।

२५—ध्यानकल्पतरु ।

२६—ज्ञानदीपिका ।

२७—सत्यार्थबन्द्रोदय ।

२८—चिकागो प्रस्तोत्र ।

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| २६—अद्वानतिमिरभास्कर । | ४३—क्रियाकर्मवैराग्य- |
| ३०—रत्नकरण्डश्रावकाचार । | प्रश्नोत्तर । |
| ३१—भगवान् महावीर-चरित्र । | ४४—गोम्मटसारजीवकाण्ड- |
| ३२—श्रीनेमिनाथ-चरित्र । | कर्मकाण्ड । |
| ३३—जैनसप्रदायशिक्षा । | ४५—गोम्मटसार । |
| ३४—आप्तमीमांसा । | ४६—जैनाचार्यका शासनभेद । |
| ३५—पुराण और जैन धर्म । | ४७—सृष्टिकर्तृत्वमीमांसा । |
| ३६—दर्शन और अनेकान्तवाद । | ४८—आत्मानुशासन । |
| ३७—जैनतत्त्वसार । | ४९—श्रीपार्श्वनाथ भगवान् का |
| ३८—सप्तभङ्गीनय । | जीवन चरित्र । |
| ३९—गऊकी वाणी । | ५०—आत्मानुशासन । |
| ४०—आत्मिक मनोविज्ञान । | ५१—भूधरशतक । |
| ४१—जैन रामायण । | ५२—ज्ञानार्णव । |
| ४२—भारतवर्षका इतिहास
और जैन धर्म । | |

—(सेठ) अचलसिंह ।



विषय-सूची

प्राथमि खण्ड

विषय	पृष्ठ
१—मेरी भावना	१
२—संस्कार	४
३—जैनधर्मकी प्राचीनता	७
४—जैनधर्मानुसार जैनधर्मका सत्त्विस इतिहास	१६
५—भगवान् महावीरके बादका जैन इतिहास	४४
६—अहिंसाका स्वरूप	६१
(१) अहिंसाके भेद	६८
(२) हिंसाका विशेष स्वरूप	७२
—	—
—	—

द्वितीय खण्ड

विषय	पृष्ठ
१—सप्तभाषी	७७
२—अनेकान्तवाद	८२
(१) अनेकान्तपर अन्य विद्वानोंकी सम्मतिर्या	८३
(२) अनेकान्तवादका स्वरूप	८४
३—द्रव्य-पर्याय अधिकार	८४
४—नय अधिकार	८६
५—निवेद अधिकार	१०७
६—प्रमाण	१०८
७—कर्म अधिकार	१११
(१) आचारोंका समाधान	११२
(२) कर्मशब्दका अर्थ	११४
(३) कर्मका स्वरूप	११५
(४) कर्मशब्दवर विजय	११७
(५) कर्मशब्दकी प्रबलता	११८
(६) कर्मों से छूटनेका सुख गुण	११९
(७) कर्मों के विषयमें विशेष ज्ञान	१२०
(८) बन्ध	१३८
(९) नि कालि उत्त कर्मे	१४३

द्वितीय					
(१०) शुभाशुभ रूपोंकी छसीटी	१५०	१५०	१५०	१५०	१५०
(११) कर्मोंका स्थिति-काज्ञ-प्रमाण	१५२	१५२	१५२	१५२	१५२
(१२) आयुर्बेन्धका नियम	१५४	१५४	१५४	१५४	१५४
(१३) कर्मवन्धके मुख्य हेतु	१५६	१५६	१५६	१५६	१५६
(१४) गुणस्थानोंमें भूज्ञ बन्ध-हेतु	१५८	१५८	१५८	१५८	१५८
(१५) गुणस्थानोंमें उत्तर बन्ध-हेतु	१५९	१५९	१५९	१५९	१५९
(१६) संक्षेप	१६२	१६२	१६२	१६२	१६२
८—नवतत्त्व अधिकार	१६४	१६४	१६४	१६४	१६४
(१) जीव	१६६	१६६	१६६	१६६	१६६
(२) जीवके शरीर	१६८	१६८	१६८	१६८	१६८
(३) जीवकी गति	१७१	१७१	१७१	१७१	१७१
(४) जीवोंके भेद	१७४	१७४	१७४	१७४	१७४
(५) जीवके प्राण	१७५	१७५	१७५	१७५	१७५
(६) जीवोंकी आयुःस्थिति	१८१	१८१	१८१	१८१	१८१
(७) जीवोंका अल्प-बहुरव	१८३	१८३	१८३	१८३	१८३
(८) सप्तारी जीवके गुण	१८५	१८५	१८५	१८५	१८५
(९) धार्मा और केवलज्ञान	१९१	१९१	१९१	१९१	१९१
(१०) अजीव	२००	२००	२००	२००	२००
(११) प्राणी ज्यात्या	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
	२१८	२१८	२१८	२१८	२१८

तृतीय खण्ड

विषय


पृष्ठ

१—सुमुकुओंकेलिये उपयोगी उपदेश	२०७
(१) कुछ वाक्य-रत्न	२३६
२—मनुष्य-जीवनकी सफलता	२४१
३—ध्यानका स्वरूप	२८६
(४) भारतध्यान	२८६
(२) रौद्रध्यान	२८६
(३) स्पष्टीकरण	३०२
(५) द्वुभ ध्यान	३०४
(६) धर्मध्यान	३०७
(७) धर्मध्यानके आलम्बन	३०८
(८) धर्मध्यानके प्रकारान्तर	३१०
(९) धर्मध्यानका फल	३११
(१०) स्पष्टीकरण	३११
(११) शुक्रध्यान	३१२
(१२) शुक्रध्यानका आलम्बन	३१३
(१३) शुक्रध्यानके भेद	३१३
(१४) शुक्रध्यानकी धोरणता और उसकी प्राप्ति	३१६
(१५) स्पष्टीकरण	३१६
(१६) ध्यानके ज्ञान	३१८
(१७) विशेष	३१९


विषय			पृष्ठ
४—भावनाएँ	३२३
५—संयम	३२८
६—लेश्या अधिकार	३३३
(१) योगोंका लेश्याके साथ सम्बन्ध	३३४
७—गुणस्थान अधिकार	३४१
(१) गुणस्थानोंका संखेपर्याप्ति पर्याप्ति	३४५
(२) गुणस्थानका अर्थ	३४६
(३) गुणस्थानोंके नाम	३४६
८—सम्यक्त्व अधिकार	३६३
(१) सम्यक्त्वका स्वरूप	३६३
(२) सम्यक्त्वकी उत्पत्ति	३६३
(३) सम्यक्त्वके चिह्न	३६४
(४) सम्यक्त्वके आठ गुण	३६४
(५) सम्यक्त्वके पाँच भूपण	३६४
(६) सम्यक्त्वके पच्चीस दोप	३६५
(७) सम्यक्त्व-नाशके पाँच कारण	३६६
(८) सम्यक्त्वके पाँच अतीचार	३६६
९—नवतत्त्व अधिकारका शेषाश	३७०
(१) पुण्य	३७३
(२) पाप	३७३
(३) आघ्रव	३८१

“एक ओरकी बात गुडसे भी आधिक मीठी लगती है।
अतएव दूसरे मतोंके तत्त्वोंका निष्पक्ष—सहानुभूतिकी हृषिसे
बाचन और मनन करनेकी विवेकी पुरुषोंकी आदत होती है।”

—तत्त्वधर्मसु ।



ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖାଟକ



“शास्त्राभ्यासो जिनपतिजुतिः संगतिः सर्वदायैः,
सद्बृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् ।
सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना आत्मतत्त्वे,
संपद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः ॥”

हे देव ! शास्त्रोंका पठन-पाठन, वीतरागकी भक्ति, सज्जनों की सगति, सञ्चरित्रोंका गुणानुवाद, दोषोंके कहनेमें मौन, सबकेलिये प्रिय-हित वचन और आत्मोद्धारकी अभिलाषा, दृतनी वातें मुझे तब तक प्राप्त होती रहें, जब तक कि मैं मोक्षको न पाऊँ ।

१५०

२१८८ - २१

* श्रीबीतरामाय नमः *

जेलमें मेरा जैनाभ्यास

प्रथम खण्ड

—१११०६६—

मेरी भावना

जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया,
 सब जीवोंको मोक्ष मार्गका, निस्तृह हो उपदेश दिया ।
 बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो,
 भक्ति-भावसे प्रेरित हो, यह चित्त उसीमें लीन रहो ॥

विषयोंकी आशा नहि जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं,
 निजपरके हित-साधनमें जो, निश दिन तत्पर रहते हैं ।
 स्वार्थ-त्यागकीं कठिन तपस्या, विना खेद जो करते हैं,
 ऐसे ज्ञानी साधु जगतके, दुस समूहको हरते हैं ॥

रहे सदा सत्तग उन्हींका, ध्यान उन्हींका नित्य रहे,
उन ही जैसी चर्यामें यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे।
नहीं सताऊँ किसी जीवको, झूँठ कभी नहिं कहा कर्लूँ,
परधन-वनितापर न लुभाऊँ, सतोपामृत पिया कर्लूँ॥

अहकारका भाव न रख्यूँ, नहीं किसीपर क्रोध कर्लूँ,
देख दूसरोंकी बढ़तीको, कभी न ईर्षा-भाव धर्लूँ।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार कर्लूँ,
बने जहों तक इस जीवनमें, औरोंका उपकार कर्लूँ॥

मैत्री भाव जगतमें मेरा, सब जीवोंसे नित्य रहे,
दीन-दुखी जीवोंपर मेरे, उरसं करुणा स्रोत वहे।
दुर्जन कूर कुमार्ग-रतोंपर, ज्ञाने नहीं मुझको आवे,
साम्यभाव रख्यूँ मैं उनपर, ऐसी परणति हो जावे॥

गुणी जनोंको देख हृदयमें, मेरे प्रेम उमड़ आवे,
बने जहा तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे।
होऊँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्वोह न मेरे उर आवे,
गुण-अहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोषोंपर जावे॥

कोई चुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
लाखों वर्षों तक जीऊँ, या मृत्यु आज ही आजावे।

अथवा कोई कैसा ही भय, या लालच देने आवे,
तो भी न्याय मार्गसे मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥

होकर सुखमें मन फूले, दुखमें कभी न घबरावे,
पर्वत नदी श्मशान-भयानक, अटवीसे नहिं भय खावे ।
रहे अडोल अकम्प निरन्तर, यह मन हृष्टर बन जावे,
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योगमें, सहनशीलता दिखलावे ॥

सुखी रहैं सब जीन जगतके, कोई कभी न घबरावे,
बैर पाप अभिमान छोड जग, नित्य नये मगल गावे ।
घर घर चर्चा रहे धर्मकी, दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म फल सब पावे ॥

ईति-भीति व्यापे नहिं जगमें, वृष्टि समयपर हुआ करे,
धर्म-निष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजाका किया करे ।
रोग-मरी-दुर्भिक्ष न फेले, प्रजा शान्तिसे जिया करे,
परम आहिंसा धर्म जगतमें, फेल सर्व हित किया करे ॥

फेले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूरपर रहा करे,
आप्निय-कटुक-कठोर शब्द नहिं, कोई मुखसे कहा करे ।
बनकर सब 'युग-वरि' हृदयसे, देशोचति-रत रहा करें,
चस्तु-स्वरूप विचार खुशीसे, सब दुर्ख-सकट सहा करें ॥'

—श्रीजुगुजकिशोरजी मुरल्यार ।

संस्कार

पूर्णि चारशील विद्वान् यदि मनुष्य-प्रकृतिकी खोज करेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि ससारमें जो मनुष्य जिस धर्मका अनुयायी है—कुल-परम्परासे जिस धर्मके]अनुकूल वह चल रहा है, उसे उसी धर्मकी बातें सही प्रतीत होती हैं, दूसरे की गलत । अपने धर्मकी सभी बातें युक्तियुक्त, सगत और सम्भव दीखती हैं; दूसरेकी पक्षपात-पूर्ण, असगत और असम्भव प्रतीत होती हैं ।

कुछ लोग उपरोक्त नियमके अपवाद स्वरूप भी मिलेंगे । अर्थात् कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो पालन तो वे किसी कुल-परम्परागत धर्मका ही करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मोंसे भी सहानुभूति रखते हैं । दूसरे धर्मोंको भी वे बुरा नहीं कहते, लेकिन ऐसे महानुभाव हैं बहुत थोड़े—इने-गिने ही हैं ।

कुछ लोगोंके मनकी आदत जो ऐसी पड़ जाती है कि जिससे उन्हें दूसरे धर्मोंकी बाते नहीं सुहातीं और पक्षपात पूर्ण प्रतीत होती हैं तथा अपने धर्मकी बातें युक्ति-युक्त और भली प्रतीत होती हैं, उसका कारण क्या है ?

उसका कारण सस्कार है। मनुष्य अधिकतर जिन वारोंको सुनता सुनाता रहेगा, सोचता-विचारता रहेगा, उसी प्रकारके आदमियोंसे मेल-जोल रखेगा और तदनुकूल साहित्यका पठन पाठन रखेगा, उसके विचार वैसे ही बन जायेंगे। जिसके आत्मा या मनमे बार बार जैसे विचारोंका आवागमने रहता है, उसकी आत्मामें उसी प्रकारका एक “सस्कार” पड़ जाता है। वह सस्कार ही स्वमत रुचि और परमत अरुचि पैदा करता है।

लेकिन ऐसा करना है अनुचित। “एक तरफकी बात गुड़ से भी अधिक मीठी मालूम होती है।” यह बाक्य बहुत कुछ तथ्य रखता है।

विवेकी मनुष्यको इस भद्री आदतको छोड़नेकी कोशिश करनी चाहिये और अन्यान्य धर्मोंकी बातें जाननेकी रुचि अपनेमें उत्पन्न करनी चाहिये। दूसरेकी बाते सहिष्णुताके साथ जाननेकी अभिलापा रखना चाहिये। तदनुसार अन्य धर्मोंके साहित्यको पढ़नेका अन्य वर्मोंके विद्वानोंसे तच्चद् धर्मोंके जाननेका साधन रखना चाहिये। दूसरे मजहबवालोंकी सभान्सोसाइटीमें जाने आनेका समागम रखनेसे उस मजहब की सभ्यताका ज्ञान होता है।

इस प्रकारकी आदत ढालनेसे मनुष्यका सस्कार एकमुखी न रह कर सर्वतोमुखी होजाता है। सर्वतोमुखी सस्कार मनुष्यको सहिष्णु और विवेकी बनाता है।

सन्य समाजमें आज जो अन्ध परम्पराके दुर्गुण बतलाये जाते हैं, वह इस एकमुखी सकारका ही परिणाम है। परीक्षा-प्रधानीकी विशिष्टता सभोने स्वीकार की है। परीक्षा प्रधानी वही पुरुष हो सकता है, जिसको वास्तविक तत्त्वके जाननेकी आन्तरिक अभिलाषा उत्पन्न होगई हो और धर्म-धर्मान्तरोंके स्वरूपोंको जाननेकी—समझनेकी जिसे वास्तविक रुचि होगई हो। पृथ्वीपर जितने भर भी दार्शनिक विद्वान् हुए हैं, वे सब इसी तत्त्व-जिज्ञासाके प्रभावसे—सर्वतोमुखी सक्षमारद्याली आत्माको जाननेसे हुए हैं।

हर्षका समय है कि आजकल ऐसे सर्वतोमुखी सक्षारवाले व्यक्तियोंकी सख्या संसारमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आजकल हर एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति दूसरे धर्मोंकी बातें जाननेको चतुर दिखलाई पड़ रहा है। दूसरे मज़हबोंकी सभ्यता जाननेकी अभिलाषा आज प्राय सभी पढ़े-लिखे व्यक्तियोंमें देखी जा रही है।

ऐसे ही बन्धुओंकेलिये असलमें यह पुस्तक लिखी गई है।



जैनधर्मकी प्राचीनता

हुँदू धर्म समय पहले बहुत से विद्वानों का ख्याल था कि जैन-धर्म कोई स्वतन्त्र धर्म नहीं, वह बौद्ध धर्म से निकला हुआ उसकी शाखा-मात्र है, परन्तु जबसे जर्मनोंके प्रसिद्ध विद्वान् प्रोफेसर हरमन जैकोबी (Harman Jacobi) तथा कितने एक अन्य विद्वानोंने इस विषयकी पूरी शोध की और प्रबल प्रमाणों द्वारा इस बातको (कि जैनधर्म बौद्धधर्मकी शाखा है) मिथ्या सिद्ध कर जैनधर्मको बौद्धधर्म से सर्वथा स्वतन्त्र और बहुत प्राचीन 'सिद्ध' कर दिखाया, तबसे यह भ्रम बहुत अशामें तो दूर हो चुका है, मगर अभी तक बहुत से सज्जन जिनको जैनधर्म के बारेमें ओव नहीं है, अपनी तरङ्गमें आकर ओव भी जैनधर्म को बौद्धधर्मकी एक शाखा अथवा महावीर भगवानके समय से चला हुआ कह दिया करते हैं। औरोंके विषयमें तो कहना ही क्या, मगर वर्तमान समयके सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि श्रीमान् बाबू मैथिलीशरणजी गुप्तने भी अभी तक इस सन्देहको दूर नहीं किया है। आपने अपनी सुप्रख्यात पुस्तक 'भारत भारती' में जैनधर्मको बौद्धधर्मकी शाखा बतलाया है —

“प्रकटित हुई थी धुङ्ग विभुक्ते चित्तमें जो भावना,
पर स्तुपमें अन्यत्र भी प्रकटी वहीं प्रस्तावना ।
फैली अहिंसा चुदिवर्धक जैन-पथ समाज भी,
जिसके विपुल साहित्यकी विस्तीर्णता है आज भी ॥”

और तो कुछ नहीं, मगर गुप्त महोदय जैसे सत्यप्रेमी और निष्पक्ष सुलेखकोंकी लेखनी उनके अनुरूप प्रतीत नहीं होती।

एक नये इतिहास-लेखक सज्जन श्रीरघुवीरशारण द्विलिस तो यहाँ तक आगे बढ़े हैं कि उन्होंने जैनधर्मको बौद्धधर्मकी शास्त्रा घतत्वाते हुए गौतमबुद्धको ही (जैनोंके अन्तिम तीर्थक्षर) महावीर स्वामीके नामसे उल्लेख किया है—

“बौद्ध-धर्म भारतवर्षसे चिल्कुल ही निर्वासित नहीं हो गया। वर्तमान पौराणिक धर्मपर उसने जो प्रभाव डाला है, वह कुछ कम नहीं। अपने पीछे उसने एक विशेष सम्प्रदायको छोड़ा, जो ‘जैन’ नामसे अब तक भारतवर्षमें प्रचलित है। लगभग पन्द्रह लाख जैन इस समय देशमें पाये जाते हैं। भारतवर्षके जैन प्राय, सौदागर वा साहूकार हैं। उनका सिद्धान्त है कि जैन-धर्म बौद्ध-धर्मसे भी पुराना है और बुद्धकी शिक्षाका आधार जैन-मत ही था; परन्तु भारतके ऐतिहासिक निरीक्षणसे यहीं पता चलता है कि बौद्ध और जैन धर्म वास्तवमें एक ही हैं और गौतम बुद्ध जैन-धर्ममें महावीर स्वामीके नामसे पारोचित है।”

—भारतवर्षका सद्या इतिहास, षष्ठ २०८।

इमारे विचारमे इस प्रकारके संशय और भ्रमके प्रतीत होनेका कारण पुराण अन्योंमे जैनधर्म-विपयक किये गये

उल्लेख ही हैं। उदाहरणार्थ पुराणोंमें से कुछ लेख यहाँपर उद्धृत किये जाते हैं, वह इस प्रकार हैं। आज कल अठारह पुराणोंके नामसे जो जो अन्य उपलब्ध होते हैं, उनमें भागवत का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इस पुराणकेलिये वैष्णव जनताके हृदयमें जितना आदर है, उतना अन्य पुराणोंके विषयमें नहीं। लोग इसकी कथा बड़ी ही श्रद्धासे सुनते हैं। इसमें जैनोंके परमादरणीय भगवान् ऋषभदेवका चरित्र बड़ी ही सुन्दरता और विस्तारसे वर्णन किया है। चरित्र यद्यपि जैन अन्योंमें उल्लेख किये गये ऋषभ चरित से भिन्न है। (बस्तुत होना भी चाहिये) क्योंकि भागवतके रचयिताने उन्हे विष्णु का अवतार मान कर उनका चरित्र वर्णन किया है, परन्तु है वह बड़ा मनोहर और शिक्षा प्रद। उसमे भगवान् ऋषभदेव के सुन्दर उपदेश और अनुकरणीय वैराग्यमय जीवनका चित्र बड़ी खूबीसे रखा चाहे। उक्त अन्यके पाँचवें स्कन्धमें चरित-वर्णनके अनन्तर कुछ जैनधर्मका भी चिक्र किया है। चिक्र क्या, उसकी उत्पत्तिका उल्लेख किया है। उल्लेख बड़ा विचित्र है। अत पाठकोंके अवलोकनार्थ हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं —

“यस्य किलानुचरितमुपाकरण्य कोङ्कवेङ्कुकूटकाना राजा
अर्हज्ञामोपशिद्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणो भवितव्येन विमो-
हित स्वधर्मपव्यमकुतोभयमपहाय कुपथपात्वरण्डमसमजासं

निजमनपियामन्द सम्प्रवर्त्तयिष्ये ॥६॥ येन सह वाव कलौ
 मनुजापसदा देवमायामोहिता स्वविधिनियोगशौचचारित्र-
 विहीनिदेवहेलनान्यपवृत्तानि निजेच्छया गृहणाना अस्ताना-
 चमनशौचकेशोल्लुच्चनादीनि कलिनाधर्मवहुलेनापहतधियो
 व्रष्टवालण्यज्ञपुरुषलोकविदूषका प्रायेण भविष्यन्ति ॥१०॥
 ते च स्ववत्यावक्तिनया निजलोकयात्रयाऽन्धपरम्परया इवस्तास्त-
 मस्यन्धे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति ॥११॥ अयमवतारो रजसोपलुत-
 कैवल्योपशिक्षणार्थः ।”

भावार्थ—जिस ऋषभदेवके चरित्रको सुनकर काङ्क्षेक
 और कुटकादि देशों का अहंकार नामका राजा श्री ऋषभदेवकी
 शिक्षाको लेफर पूर्व कर्मोंके अनुसार जब कलियुगमें अधर्म
 अधिक हो जायगा तब अपने श्रेष्ठ धर्मको छोड़ कर कुपथ-
 पाखण्ड मत को निज मतसे चलावेगा, जो कि सबके विरुद्ध
 होगा ॥६॥ जिसके द्वारा कलियुगमें प्राय ऐसे नीच मनुष्य हो
 जावेंगे जो कि देवमायासे मोहित होकर अपनी विधि शौचहीन
 और चारित्र्यहीन एव जिनके देवताओंका निरादर हो ऐसे
 कुत्सित ब्रतों—स्नान आचमन और शौच न रखना और केश-
 लुच्चन करना इत्यादिको अपनी इच्छासे धारण करेंगे । जिसमें
 अधर्म अधिक है ऐसे कलियुगसे नष्टवुद्धिवाले वेद ब्राह्मण
 यज्ञपुरुष (विष्णु) और ससारके निन्दक होंगे ॥१०॥ जिनके
 मतका मूल वेद नहीं है, ऐसे वे पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार

चलने और अन्ध परम्परामें विश्वास रखनेसे आप ही आप घोर नरकमें पड़ेंगे ॥११॥ भगवान्‌का यह ऋषभावतार रजो-
गुण व्याप मनुष्योंको मोक्ष-मार्ग सिखलानेकेलिये हुआ ।

अग्निपुराणके ६ वें अध्यायमें लिखा है—

“अग्निरुक्ति—

वद्ये वुद्धावतार च, पठत शृणुतोऽर्थदम् ।

पुरा देवासुरयुद्धे, दैत्यै देवां पराजिता ॥ १ ॥

रक्ष रक्षोति शरण, वदन्तो जग्मुरीश्वरम् ।

मायामोहस्वरूपोऽसी, शुद्धोदनसुतोऽभवत् ॥ २ ॥

मोहयामास देत्यास्तान्, त्यजतो वेदधर्मकम् ।

ते च वौद्धा वभूवुहि, तेभ्योऽन्ये वेदवजिता ॥ ३ ॥

आर्हत् साऽभवत् पश्चात्, अर्हतानकरोत्परान् ।

एव पासरिडनो जाता, वेदधर्मविवर्जिता ॥ ४ ॥”

इसका अर्थ इस भाँति है। अग्निदेव बोले—अब मैं बुद्ध के अवतारको कहता हूँ। यह पढ़ने वा सुननेसे मनोकामना पूर्ण करनेवाला है। पूर्व किसी समयमें देवों और दैत्योंका बड़ा भारी युद्ध हुआ, उसमें देवता लोग दैत्योंसे हार गये। वे सब मिल कर अपनी रक्षाकेलिये विष्णु भगवान्‌की शरणको प्राप्त हुए। तब भगवान्ते मोह और मायाके स्वरूप शुद्धोदन-सुव बुद्धके अवतारको धारण किया और दैत्योंको मोह कर उन से वेद-धर्म का परित्याग करा दिया। उनके उपदेशसे वे दैत्य

तथा देव-मार्गसे भ्रष्ट अन्य लोग बुद्ध मतानुयायी बने। तत्पश्चात् वह (बुद्ध) आईत (जैन) बना और उसने जैन बनाये। इस प्रकार वेद-धर्मसे भ्रष्ट पापण्डी लोगोंकी उत्पत्ति हुई।

पाठकोंने जैन धर्मके विषयमें श्रीमद्भागवतके बाद अग्नि-पुराणके कथनको भी पढ़ लिया। कथन एकसे एक बढ़ कर है। भागवतमें तो लिखा है कि ऋषभदेवके चरित्रको सुन और उनकी शिक्षाको प्रहण कर अर्हन् नामके किसी राजाने जैन मतका प्रचार किया और यहाँ अग्नि-पुराणका कथन है कि बुद्ध भगवान्‌ने ही पश्चात् जैन बन कर उक्त मतको चलाया। अब हम दोनोंमेंसे सत्य किसे कहें, मिथ्या किसे ठहरायें? इस बात की पाठक खुद आलोचना करें। हमारे ख्याल में तो इस प्रकारके लेखोंमें परस्पर-विरोधका होना ही इस बातका प्रमाण है कि उक्त बातोंकी उत्पत्ति-भूमिका द्वेषानल ही है, वस्तुस्थिति नहीं। परन्तु धन्य है उन लोगोंको जो इस प्रकारके आधारेंपर ही जैनधर्मका इतिहास लिखने बैठ जाते हैं!

इसी प्रकारके कथन गुरु-पुराण, विष्णु-पुराण, शिव-पुराण, मत्स्य-पुराण, कूर्म-पुराण आदिमें भी पाये जाते हैं। इस सम्बन्धमें अधिक बादविवाद करना हम व्यर्थ समझते हैं।

- जैन-धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने भी लेख उपरोक्त पुराणमें पाये जाते हैं, उन सबपर सम्यक्या विचार करनेसे निन्द्र-लिखित चारों प्रकट होती हैं।

१—पुराणोंके जमानेमें जैनधर्म विद्यमान था ।

क—जिस समय पुराणोंकी रचना हुई उस समय जैनधर्म अपनी यौवन-दशामें था ।

ख—उस समय आपसका विरोध कल्पनातीत दशाको पहुँच चुका था ।

२—पुराणोंमें जैनधर्मकी उत्पत्तिके जितने भी लेख हैं, वे एक दूसरेसे विचित्र और प्रतिकूल हैं ।

क—उनमें ऐतिहासिक सत्यता बहुत ही कम है ।

३—जैनधर्मकी उत्पत्ति-विषयक अनेक प्रकारकी जो मिथ्या-कल्पनायें प्रचलित हो रही हैं, उनका कारण भी पुराण-गत जैनधर्म विषयक लेख ही हैं । जैसे—

क—जैनधर्म बौद्धधर्मसे निकला है और उसकी शासा मात्र है । जैन और बौद्ध मत एक ही है । उनके चलाने वाला एक ही पुरुष है । वह प्रथम बुद्ध था, वादमें जैन हो गया, इत्यादि ।

४—इसके भिन्ना पुराणोंके उल्लेखसे एक बात यह भी प्रकट होती है कि उस समयकी वैध पशु हिंसाका बड़ा ज्ओर था । जैन और उसके परवर्ती बुद्धधर्मने उसके रोकनेकेलिए बड़ा प्रयत्न किया और इस कार्यमें उसे बड़ी मारी सफलता प्राप्त हुई ।

क्या रामायण और महाभारतमें जैनधर्मका जिक्र नहीं ? (यद्यपि जैनधर्ममें भी रामायण और महाभारत हैं, पर वे बालमीकि-रामायण और व्यास महाभारतसे कुछ भिन्न हैं ।)

जैनधर्मके सिद्धान्तोंसे तो जैनधर्म एक सनातनधर्म है, पर हम यहाँ वाल्मीकि-रामायण और व्यास-महाभारतसे सिद्ध करेंगे कि उनमें भी जैनधर्मका वर्णन है। वाल्मीकि-रामायणमें एक स्थानपर इस भाँति लिखा है—

“ब्राह्मणा भुञ्जते नित्य नाथवन्तश्च भुञ्जते।

तापसा भुञ्जते चापि, श्रमणाश्चैव भुञ्जते ॥”

—गा० स० १४, १२।

अर्थात् राजा दशरथके यज्ञमें ब्राह्मण, शूद्र, तापस और श्रमण आदि नित्य भोजन करने लगे। यहाँपर श्लोकमें जो श्रमण शब्द आया है, वह अधिकांश जैन साधुओंकेलिये ही उपयुक्त हुआ है। जैनधर्ममें साधुओंकेलिये श्रमण-शब्दका अधिक प्रयोग हुआ है और टीकाकारने तो यहाँ श्रमण-शब्दका अर्थ बौद्ध-सन्यासी—बौद्ध साधु किया है। तथाहि—‘बौद्ध-श्रमण-बौद्ध-सन्यासिन’। टीकाकारके कथनानुसार उस समय बौद्धधर्मके साधु मौजूद थे। इससे सिद्ध हुआ कि उस समय बौद्धधर्म था। बौद्धधर्मका आविर्भाव जैनधर्मके बाद हुआ है। यह बात आज निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। इसलिये वाल्मीकि रामायणके समयमें भी जैनधर्मका अस्तित्व था।

व्यास-महाभारतमें जैनमतका जिस तरह चिक्र है, वह अन्य पुराणोंसे विलक्षण और बड़े महत्त्वका है। उसमें अन्य मतोंके साथ साथ जैनमतके मूल सिद्धान्त (सप्तभङ्गीनिय)का वर्णन बड़ी सुन्दरतासे किया है। वह इस प्रकार है—

“पौरुषकरण केचिदाहु कर्मसु मानवा ।
दैवमेके प्रशसनान्ति, स्वभावमपरे जना ॥ ४ ॥
पौरुष कर्म दैव च, कालवृत्तिस्वभावत ।
ऋग्मेतत् पृथक्भूतमविवेक तु केचन ॥ ५ ॥
एतदेव च नैव च, न चोमे नानुभे तथा ।
कर्मस्थविषया ब्रयु, सप्तस्था समदर्शिन ॥ ६ ॥”

—शा० प० अ० २३८ अ० २४२

इन श्लोकोंमें ग्रन्थकर्ताने पुरुषार्थ, कर्म, स्वभावबाद आदिका उल्लेख करके छठवें श्लोकमें जैनधर्माभिमत स्याद्वादके मूलभूत तप्तभङ्गीनयका वर्णन किया है। छठे श्लोकमें जो (कर्मस्था) पद है, उसका अर्थ ‘जैन’ होता है, ऐसा ही टीकाकारने किया है।

हम अपने बन्धुओंको इतना और भी स्मरण करा देना चाहते हैं कि जैनमतकी प्राचीनता अथवा अर्वाचीनताके लिये हमें किसी प्रकारका आग्रह नहीं। हमारे विचारानुसार उत्येक मतमें अपेक्षाकृत प्राचीनता और नवीनता बनी हुई है। अपत वह (जैनमत) आज उत्पन्न हुआ हो या हजारों वर्षसे, सपर हमें कुछ विवादनहीं, किन्तु बाल्मीकि रामायण और व्यास-हार्षाभारतके जमानेमें जैनधर्मका अस्तित्व नहीं था या उसके बाद निकला, यह बात हमें किसी प्रकार उचित नहीं प्रतीत होती।

जैनधर्मानुसार जैनधर्मका संक्षिप्त इतिहास

मुझे यह हम जैन ग्रन्थोंके अनुकूल जैनधर्मकी प्राचीनता
पर पाठकोंका ध्यान दिलाना चाहते हैं। जिस संसार
में हम लोग रहते हैं उसके बनने तथा स्थापित होनेके समयसे
और उसके नाश होनेके समय तकको एक 'कालचक्र' कहते
हैं। इस कालचक्रके दो विभाग हैं—एक अपसर्पिणी दूसरा
उत्सर्पिणी। हर सर्पिणीमें छह छह आरे होते हैं। अपसर्पिणीके
छह आरे इस भाँति होते हैं—पहला सुपमा-सुपमा, दूसरा
सुपमा, तीसरा सुपमा दुष्पमा, चौथा दुष्पमा-सुपमा, पाँचवाँ
दुष्पमा और छठा दुष्पमा-दुष्पमा।

उत्सर्पिणीके छह आरे इस प्रकार होते हैं—पहला
दुष्पमा दुष्पमा, दूसरा दुष्पमा, तीसरा दुष्पमा-सुपमा, चौथा
सुपमा दुष्पमा, पाँचवाँ सुपमा, छठा सुपमा-सुपमा।

एक काल-चक्रमें अथवा अपसर्पिणी और उत्सर्पिणी
के बारहों आरोंमें २० करोड़ाकरोड़ (२० करोड़से २० करोड़
का गुणा करके जो गुणनफल आवे उतने) सागरका समय लगता
है। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी मालूम होता है कि एक सागरमें
कितना समय होता है? जैसे दिन व रात यहाँ—तिरछे लोग

अर्थात् भरत-क्षेत्रमें होते हैं, इस प्रकार नरक-स्वर्गादिमें नहीं होते। इसलिये समयका प्रमाण भरत क्षेत्रसे लिया गया है। वह निम्न प्रकार है। आँखके एक दफ्के मिचने अथवा टमकनेमें असर्ख्यात् समय बीत जाते हैं। ऐसे असर्ख्यात् समयकी १ आवलिका।

३७७३ आवलिकाका १ श्वासोच्छ्वास

३७७४ नीरोगी मनुष्यके श्वासोद्धासका १ मुहूर्त अर्थात् ४८ मिनट

३० मुहूर्तका १ दिन रात

१५ दिन-रातका १ पक्ष

२ पक्षका १ महीना

२ महीनेकी १ श्रुतु

३ श्रुतुका १ अयन

२ अयनका १ वर्ष

५ वर्षका १ युग

१ कुआ खाली होनेके समयका १ पल्योपम

१० क्रोडाकोड कुए खाली हों उतने वर्षोंका १ सागरोपम

५ पल्योपमका विस्तार इस प्रकार है —

एक योजनके लम्बे घंटे औरे कुण्डमें देव-कुर उत्तर-कुण्ड घे त्रके मनुष्यके एक दिनसे ७ दिन तकके दद्देके धाकाग्रके एकके दो विभाग तीव्रण शर्हासे भी न होवें, ऐसे धारीक कर उक्त कुण्डें को ढूँस ढूँसकर ऐसा भरे कि उसपरसे चक्रवर्तीकी सेना भी चढ़ी जाय तो वह दबे नहीं। फिर उस कुण्डमेंसे सौ-सौ वर्षके याद १-१ धाकाग्र निकालते-निकालते वड कुआ जब साफ़ याली हो जाये— नम्में एक जी धाकाग्र न भरे—उतने वर्षोंको एक पल्योपम कहते हैं।

पहली अपसर्पिणीके द्वाह आरोंका सज्जेपमें वर्णन इस प्रकार है—

पहला आरा—इसका नाम सुपमा-सुषमा आरा है। इसमें जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनको किसी प्रकारका दुख नहीं होता अर्थात् उन्हें सुखमें सुख मिलते हैं। जिस वस्तुकी वे इच्छा करते हैं, क्लौरन् उन्हें कल्पवृक्षसे प्राप्त हो जाती है और किसी प्रकारकी तकलीफ पास तक नहीं आती। इसका समय-प्रमाण चार क्रोडाक्रोड़ सागरका होता है। इस समयके मनुष्योंको शादीकारोंने 'युगलिये' कहा है। कारण, जन्म लेते समय दो प्राणी-स्त्री-पुरुष उत्पन्न होते हैं।

दूसरा आरा—इसका नाम सुपमा आरा है। इसमें पहले आरेसे सुख कम हो जाते हैं, पर दुख किसी प्रकारका नहीं होता। इस समय भी इच्छानुसार कल्पवृक्षसे वस्तुओंकी प्राप्ति हो जाती है, पर पहले आरेके मुकाबिले मनुष्योंकी 'अवगाहना' (फ़ल) वा उम्र कुछ कम हो जाती है, सुन्दरता सगठनमें भी कुछ कमी हो जाती है और पदार्थोंकी ताकत व गुणोंमें भी कुछ कमी हो जाती है। इसका समय-प्रमाण तीन क्रोडाक्रोड़ी सागरोपमका होता है। इस समयमें भी युगलिये अर्थात् स्त्री-पुरुषका जोड़ा उत्पन्न होता है।

तीसरा आरा—इसका नाम सुपमा-दुष्पमा आरा है। इसके पदिले दो भागमें दूसरे आरेके समान स्थिति रहती है। पर

तीसरे आरेके तीसरे हिस्सेमें जब चौरासी लाख पूर्वसे समय ज्यादा रह जाता है, उस समयसे पदार्थों की कमी होनेके कारण मनुष्य अर्थात् युगलिगे आपसमे झगड़ने लग जाते हैं। इनमें कोई-कोई मनुष्य समझदार होते हैं। वे समझ-बूझकर मामलेको शान्त कर देते हैं। इनको 'कुलकर' कहते हैं। एक कुलकर, जिनका नाम 'विमलवाहनजी' था, उनकी एक हाथीके साथ मित्रता होगई थी, वे उसपर चढ़कर भ्रमण किया करते थे और वह मनुष्योंके झगड़े तय करा दिये करते थे। उनकी सातवीं पीढ़ीमें 'श्रीनाम' कुलकर हुए। उनकी छोटीका नाम 'श्रीमरु-देवीजी' था। श्रीमरुदेवीजीने एक श्रेष्ठ और अति उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिनका नाम 'श्रीऋषभदेवजी' रखा गया। जब ये बड़े हुए, तब इनके पिताने इनकी शादी दो सुन्दर कन्याओं के साथ की। एकका नाम 'सुमङ्गला' था, दूसरीका 'सुनन्दा'। श्रीसुमङ्गलाजीने एक पुत्र, जिनका नाम 'भरत' और कन्या जिनका नाम 'ग्राही' था, जन्मा। दूसरी श्रीसुनन्दाजीने भी एक पुत्रको, जिनका नाम 'वाहुबलिजी' और कन्या जिनका नाम 'सुन्दरी' था, जन्म दिया।

श्रीऋषभदेवने जनताको अनाज घोना, वर्तन बनाना, खाना पकाना, मकान बनाना, वाह बनाना, और और-और जरूरी हुनर व दृस्तकारीकी शिक्षा दी।

इस तरह सब प्रकारके सुधारोंका प्रारम्भ श्रीऋषभदेवजी ने किया। अत वह मानव जातिके सर्व प्रथम सुधारक माने

जाने लगे। सब लोगोंने मिलकर श्रीनाम कुलकरजीकी आज्ञा प्राप्त करके श्रीऋषभदेवजीको अपना राजा स्थापित किया। इस प्रकार वे सबसे पहले राजा स्थापित किये गये। अतः वे 'आदिनाथ' कहलाये।

श्रीआदिनाथ राजपाटका उपभोग तथा आनन्द करने लगे। इसी दशा में उन्हे ख्याल आया कि मनुष्योंको कला तो सिखा दी, पर धर्मकी शिक्षा नहीं दी। अत उन्हें धर्मकी शिक्षा देनी चाहिये। धर्मकी शुरूआत दानसे होती है। यह विचार कर उन्होंने राजमहलमें एक दान-शाला खोल दी और एक वर्ष तक सोनेकी मोहरोंका दान करते रहे। बादमें अपने पुत्रोंको राज पाट बाँटकर स्वय साधु-वृत्ति धारण कर विचरने लगे। भ्रमण करते करते श्रीऋषभदेवजी हस्तिनागपुर नगरमें पधारे। वहाँके राजा श्रेयासकुमार थे। वे श्रीऋषभदेवजीके पुत्र बाहु-बलिजीके पुत्र अर्थात् पोते थे। उन्होंने यह मालूम करके कि भगवान् श्रीऋषभदेवजी पहले तीर्थझर (ससारके मेरे बाबा) पधारे हैं, बड़े प्रेमसे भगवान्के अविग्रहका ईख रस द्वारा पारणा कराया।

श्रीऋषभदेव भगवान् बहुत समय तक भ्रमण करते रहे। बादमें उन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त करके निर्वाण पदको प्राप्त किया।

यह पहले तीर्थझर हुए। तीर्थझरके गुण, अतिशय आदि का वर्णन आगे किया गया है।

इसी समयमें श्रीगृहपभद्रेवजीके पुत्र भरतजीने युवावस्था में राज-पद प्राप्त किया । उन्होंने भरत-क्षेत्रके छह राखडोंकी विजय की और वे पहले चक्रवर्ती बने । इन्होंने बादमें राज्य छोड़ केवलज्ञानी हो मोक्ष-पद प्राप्त किया । चक्रवर्तीकी ऋद्धि, सिद्धि, वैभव तथा पुण्यका वर्णन भी अगाड़ी किया गया है ।

इस प्रकार तीसरे आरेमें सिर्फ एक तीर्थकुर श्रीगृहपभद्रेवजी और एक चक्रवर्ती श्रीभरतजी हुए ।

यह आरा दो सागरोपमका होता है ।

चौथा आरा—इस आरेको दुष्पमासुपमा आरा कहते हैं । इस समयमें दुख बहुत होता है और सुख थोड़ा । इसका समय-प्रमाण एक क्रोडाक्रोडी सागरमें व्यालीस हजार वर्ष कम होता है । सीसरे आरेके मुक्ताविले इस समयके पुरुषों के सगठन, बनाव, रूपमें बहुत बड़ी कमी हो जाती है और यही हालत तमाम प्रकारके पदार्थोंकी हो जाती है ।

इस आरे में २३ तीर्थकुर, ११ चक्रवर्ती, ६ वलदेव, ६ वासुदेव, और ६ प्रतिवासुदेव हुये । २३ तीर्थकरोंके नाम, जीके नाम, आयुष्य, अवगाहना और गति निम्न प्रकार है—

नं०	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	आयुष	योग समय	शरीर का वर्ण	अन- गाहन	मोज
१	श्री अक्षितनाथ जी	जितशत्रु राजा	विजयादेवी	७२ लाल	१ लाल सुवर्णवर्	पूर्व	४५० धनुष	१००० साथु
२	श्री सम्भवनाथ जी	जितरी राजा	सेन्यादेवी	६० लाल	१ लाल पूर्व	पूर्व	४०० धनुष	१००० साथु के साथ मोज
३	श्री अभिनन्दन जी	सचर राजा	सिद्धार्थ रानी	५० लाल	१ लाल पूर्व	पूर्व	३५० धनुष	१००० साथु
४	श्री सुमतिनाथ जी	विनता नगरी	सुमगला रानी	४० लाल	१ लाल पूर्व	पूर्व	३०० धनुष	१००० साथु
५	श्री पचामधु जी	मेघरथ राजा	सुपमा रानी	३० लाल	१ लाल पूर्व	पूर्व	२५० धनुष	१००० साथु
६	श्री पचामधु जी	कच्छुर कार	कच्छुरा रानी	३० लाल	१ लाल पूर्व	पूर्व	२५० धनुष	१००० साथु
७	श्री पचामधु जी	श्रीराजा	पृथ्वीदेवी रानी	२० लाल	१ लाल सुवर्णवर्	पूर्व	२०० धनुष	१००० साथु
८	श्री सुपार्श्वनाथ जी	कौशानी नगरी	प्रतिष्ठ राजा	२० लाल	१ पूर्व	पूर्व	१००० साथु	धनुष के साथ मोज
९	श्री सुपार्श्वनाथ जी	बाष्पारसी नगरी						

न०	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	आयुप	योग समय	शरीर का अवृच्छणा	अवृच्छणा	मोह
८	श्री चन्द्रप्रभु जी	महासेन राजा चन्द्रपुरी	लक्ष्मणादेवी	१०	लाल	१ लाल पूर्व	१५० घुण्ठ	१००० साथृ के साथ मोह
९	श्री सुविवतानाथ जी	सुमीष राजा काकेश नगरी	रामादेवी	२	लाल	१ लाल पूर्व	१०० घुण्ठ	१००० साथृ
१०	श्री शीतलनाथ जी	द्वारय राजा मदिलपुर	नन्दादेवी	१	लाल	चौथाई पूर्व	६० घुण्ठ	७०० साथृ
११	श्री शेयसनाथ जी	विष्णु राजा सिंहपुर	विष्णुदेवी	८३	लाल	२१ लाल स्वर्णपत्र	८० घुण्ठ	७०० साथृ
१२	श्री चापुरुष जी	घमुपुर्य राजा चपापुरी	जयादेवी	७२	लाल	५३ लाल चाल	७० घुण्ठ	६०० साथृ के साथ मोह
१३	श्री विमलनाथ जी	कृतवर्म राजा कपिलपुर	रायामादेवी	६०	लाल	१५ लाल स्वर्णपत्र	६० घुण्ठ	७०० साथृ
१४	श्री अनन्तनाथ जी	सिंहसेन राजा श्योक्ष्या नगरी	सुयशा रानी	३०	लाल	७१ लाल चर्पे	५० घुण्ठ	७०० साथृ के साथ मोह

न०	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	आयुष	योग समय	शरीर का वर्ण	श्रवण-गाहन	मोह
१५	श्री धर्मनाथ जी	मालू राजा राघुरी	सुदूरा रानी	१० लाख	१ लाख	स्वर्णवर्	४५	५०० साथु
१६	श्री शान्तिनाथ जी	विश्वसेन राजा इस्तिनागपुर	अच्चरातेची	१ लाख	२५ हजार	वर्ष	४०	६०० साथु
१७	श्री कुम्भनाथ जी	सुर राजा गजपुत्नगर	श्रीदेवी	६५ हजार	२३७५०	वर्ष	३५	१००० साथु
१८	श्री अहंतानाथ जी	सुदर्शन राजा इस्तिनागपुर	देवी रानी	८४ हजार	२१ हजार	वर्ष	३०	४०० साथु
१९	श्री महलीनाथ जी	कुम्भ राजा मिथ्यानागरी	प्रभावती	५५ हजार	५४६००	दरा	२५	५०० साथु
२०	श्री सुनिशुक्रत जी	सुमित्र राजा राजपृष्ठ	प्रदावती	३० हजार	७५००	वर्ष	२०	१००० साथु
२१	श्री नमिनाथ जी	विजय राजा मधुरा नगरी	वसा रानी	१० हजार	१०००	वर्ष	१५	१००० साथु

२२ वें तीर्थकर श्रीनेमिनाथजी हुये। ये राजा समुद्रपालजीके पुत्र थे। समुद्रपालजीकी पटरानीका नाम सिवादेवी था, जो नेमिनाथजीकी माता थी। राजा समुद्रपालजीकी राजधानी सौरीपुर था, जहाँ नेमिनाथजीका जन्म हुआ था। श्रीकृष्ण-चन्द्रजीके पिता वसुदेवजी समुद्रपालजीके छोटे भाई थे अर्थात् नेमिनाथजी श्रीकृष्णचन्द्रजीके चचाजात भाई थे। श्रीकृष्णजीको वासुदेवकी पदवी थी। श्रीनेमिनाथजीका चित्त शुरूसे ही ससार को त्यागनेका हो रहा था, पर बहुत आग्रह करनेपर वह शादी करनेकेलिए तैयार हुए थे। उनकी सगाई मधुराके राजा उम्रसेनकी कन्या श्रीराजमतीजीके साथ निश्चित हुई थी। शादीका मुहूर्त जल्दसे जल्द निश्चित किया गया और बड़े समारोहके साथ श्रीकृष्णचन्द्रजीने वसुदेवजी, समुद्रपालजी, पाँचों पाण्डव वा अनेक प्रसिद्ध यादव वशियोंके साथ बारातकी तैयारी की और मधुरा नगरीको रवाना हुये। जब श्रीनेमिनाथजीके हाथीने शहरमें प्रवेश किया तो उन्होंने एक स्थानपर एक बाड़से अनेक जीवोंकी चिंगाड़ और चिङ्गाहट आते सुनी, तब उन्होंने पीलबानसे पूछा कि यह किसका शब्द है? तो उसने विनय-पूर्वक अर्ज किया कि बारातमें बहुत से मासाहारी भी आये हैं, उनके खानेकेलिये यहाँ जानवर इकट्ठे किये गये हैं, तो फौरन उन्होंने दयाल किया कि मेरी शादीके कारण ये सारे वध किये जायेंगे, इस कारण शादी नहीं करना—यह सोचकर उन्होंनि फौरन टाथी फेरनेको पहा,

इतनेमें ही श्रीकृष्णचन्द्रजी और और-और लोग आये। उन्होंने बहुतेरा समझाया, पर उन्होंने किसीकी भी न मानी और साधुपना लेनेपर आखड़ हो गये। यह हाल सुनकर राजमतीजी बेहोश हो गई और बड़ा पश्चात्ताप करने लगी। तब उन्होंने भी यह निश्चय किया कि जब मेरे स्वामी—प्राणनाथ अपनी आत्मा को सुधारना चाहते हैं तो मुझको भी वही कार्य करना योग्य है। तदनुसार उन्होंने भी साधुपना लेना ठान लिया। श्रीनेमिनाथजी का दीक्षा-महोत्सव बड़ी वूम-धामसे किया गया। बादमें उन्होंने बड़ी तपस्या की और केवलज्ञानको प्राप्त किया। उनकी आयु एक हजार वर्षकी थी। उसमें तीन सौ वर्ष सासार में रहे और सात सौ वर्ष सयम पाल पाच सौ छत्तीस साधुओंके साथ गिरनार पर्वतसे मोक्षको पधारे अर्थात् सिद्ध-गतिको प्राप्त हुये। अबसे लगभग छियासी हजार वर्ष हुए जब श्रीनेमिनाथजीका जन्म हुआ था।

२३ वें तीर्थकर श्रीपार्श्वनाथजी हुये। गङ्गाजीके तट पर ‘वाणारसी’ नामका एक बड़ा नगर है। प्राचीन समयमें क़रीब तीन हजार वर्ष हुये, जब एक बड़े पराक्रमी और प्रतिभाशाली अश्वसेन नामके राजा राज्य करते थे। उनकी सबसे बड़ी प्राण-बलभा रानीका नाम वामादेवी था।

ये दोनों आनन्द पूर्वक बड़े प्रेमके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक दिन रात्रिके समय श्रीवामादेवीने एक स्वप्न देखा कि एक काला सर्प उनके पास हो कर निकल गया है।

रानीने दूसरे दिन यह बात राजा से कही। राजा ने पण्डितों से इस स्वप्नका अर्थ पूछा। इसपर पण्डितोंने कहा कि आपके बड़ा पराक्रमी और प्रतिभाशाली पुत्र जन्म लेगा। समय आनेपर श्रीवामादेवीने एक पुत्र रनको जन्म दिया। इस महान् आत्मा का जन्म, जिनका नाम 'पार्वनाथ' रखा गया और जो तेर्वें तीर्थकुर हुये, आजसे करीब २६८१ वर्ष पूर्व हुआ था। इनके लालन-पालनके लिये अनेक धाय रक्खी गई। जब यह समझदार हुये तो इन्हें ससार अच्छा न लगता था और ये साधुपनेकी ओर अपने विचार रखते थे।

उसी समय 'प्रसेनजित' नामका एक राजा था, जो कुशस्थल नामक राजधानीपर राज्य करता था। उसके 'प्रभावती' नामकी एक बड़ी सुन्दर और होनहार कन्या थी। श्रीप्रभावतीने पार्वनाथकी बड़ी महिमा और तारीक सुनी। इस कारण उसने निश्चय किया कि मैं विवाह उनसे ही करूँगी। जब उसके माता-पिताने सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और निश्चय किया कि जब पुत्री स्वयं वर चुनती है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखते देखते हवाके समान यह बात सारे देशमें फैल गई। इधर कलिङ्ग देशका राजा पहलेसे ही प्रभावतीपर अनुरक्त हो रहा था। जब उसने यह सुना तो वह बड़ी सेनाके साथ चढ़कर आया और कुश-स्थल नगरीपर घेरा ढाल दिया। इस पर प्रसेनजितने गुप्त रीतिसे राजा अश्वसेनसे मददकी प्रार्थना की। उन्होंने सहायता करना स्वीकार किया और फौज तैयार

की। तब पार्श्वकुमारने तैयारीका कारण पूछा। इसपर राजा ने सारा हाल कहा। तब कुमारने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिये, मैं सब ठीक कर आऊँगा। राजाने आज्ञा दे दी। वह बड़ी सेना के साथ वहाँ गया और कलिङ्ग देशके राजाको दूत द्वारा सदेश भेजा कि यदि तुम यहाँसे पीछे लौट कर चले जाओ तो मैं तुम्हारा अपराध ज्ञान कर दूँगा, वरना तुम्हारा बुरा हाल किया जायगा। शुरूमें तो कलिङ्ग-राजा हवाके घोड़ेपर सवार था, पर जब उसे पार्श्वनाथकुमारके बलके बारेमें ज्ञात हुआ तो वह फौरन उपस्थित हुआ और ज्ञानकेलिये प्रार्थना की। वह स्वीकार कर ली गई। इसके बाद वह वहाँसे चला गया। यह देखकर राजा प्रसेनजितकी हर्षकी सीमा न रही। उन्हें एक माथ दो खुशियाँ हुईं। एक तो शत्रुका भय दूर हुआ और दूसरे पार्श्वनाथकुमार, जिनकी आवश्यकताथी, घर वैठे आ गये। राजाने पार्श्वनाथको बड़ा धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि मेरी कन्या प्रभावतीको प्रहण करो। इसपर कुमारजीने उत्तर दिया कि मैं जिस कार्यकेलिये आया था, पूरा हो गया। अब मैं वापस चला जाऊँगा। इसपर राजा प्रसेनजितने प्रार्थना की कि मैं आपके पिताके चरणोंसे प्रणाम करने चलना चाहता हूँ। इसको पार्श्वकुमारने स्वीकार कर लिया। राजा प्रसेन-जित प्रभावतीको लेकर काशी आया। राजा प्रसेनजितने राजा अश्वसेनको राज-रीति के अनुसार नमस्कार करके सारा हाल सुनाया। राजा अश्वसेनने कहा कि कुमार प्रारम्भसे ही

चैराग्य-प्रिय हैं। अत हम अभी यह नहीं जान सके कि वे क्या करेंगे ? हमारी भी बड़ी लालसा है कि पार्श्वकुमार किसी योग्य कन्यासे विवाह करे। राजा अश्वसेन राजा प्रसेनजितको साथ लेकर पार्श्वकुमारके पास गये और उनसे शादी करनेको कहा। इसपर पार्श्वकुमारने उत्तर दिया कि पिताजी ! मुझे चैवाहिक जीवन पसन्द नहीं है। अन्तमें पिताजीका अधिक आग्रह देख विनीत पार्श्वकुमारने प्रभावतीके साथ अपना विवाह कर लिया। विवाह हो जानेपर प्रभावतीके आनन्दकी सीमा नहीं रही।

एक दिन पार्श्वकुमारने लोगोंके झुण्डको एक दिशामें जाते देखा। दरयाक्षत करनेसे मालूम हुआ कि 'कमठ' नामका एक बड़ा तपस्वी जो पञ्चामि तपता है, आया हुआ है। इस दृश्यको देखनेकी इच्छा पार्श्वकुमारको भी हुई। वह अपने कुछ नौकरोंके साथ उस स्थानपर आये, जहाँ कमठ चारों ओर मोटी मोटी लकड़ियाँ जला कर धूनी ले रहा था। चतुर पार्श्व-कुमारने अपने ज्ञानसे इन लकड़ियोंमें एक बड़े सर्पको जलते देखा ? यह देख कर उनका हृदय दयासे भर आया। वे बोल उठे कि यह कितनी भारी नासमझी है ? केवल शरीरको कष्ट देनेसे कहीं तप हो सकता है ? तप इत्यादि धर्म अहिंसाके विनाश्यर्थ हैं। पार्श्वकुमारकी यह बात सुन कर कमठ तपस्वीने कहा—'हे राजकुमार ! धर्मके विपर्यमें तुम क्या जानते

हो ? तुम तो हाथी-घोड़ोंकी सवारी और उनका दौड़ाना जानने वाले हो । धर्म तो हमारे समान तपस्वी ही जानते हैं ।' इसपर पार्श्वकुमारने अपने मनुष्योंसे कहा—'इस लकड़ी को धूनीमेंसे खाँच लो और सावधानीसे उसे बीचमेंसे चीर कर उसके दो हिस्से करो ।' मनुष्योंने वैसा ही किया तो उसमें से एक बड़ा सौंप निकला । उसका शरीर झुलस चुका था । यह देख कर कमठ बड़ा लजित हुआ और साथ ही क्रोधित भी हुआ । वह वहाँ तप करता रहा । बादको मृत्युको प्राप्त होकर एक प्रकारका देवता हुआ ।

एक समय पार्श्वकुमार प्रभावतीके साथ वनकी शोभा देखने निकले । वे धूमवे-धूमते एक महलके सामने आये । पार्श्वकुमार और प्रभावती उस महलके अन्दर आराम करने गये । महलके अन्दर अनेक ग्रनारके सुन्दर चित्र लगे हुए थे । उन्हें देखते-देखते वे नेमिनाथकी वरातका दृश्य, जो वहाँ बना हुआ था, देखने लगे । इसपर पार्श्वकुमारको अपने जीवनके विषयमें विचार हुआ । इस घटनासे पार्श्वनाथका चित्त सांसारिक सुख-भोगसे अलग हो गया । उनका वैराग्य बढ़ता गया । वैराग्यके बाहरी चिह्न स्वरूप उन्होंने एक वर्ष तक सोनेकी मोहरोंका ढान दिया । बादमें संसारको असार जान कर साधुपना धारण किया ।

अब आप धूमते फिरते एक दिन शहरके निकट एक तापस आश्रमके पास आये । सध्या ही चुकी थी और रात्रिके समय

उन्हें भ्रमण करना नहीं था। इसलिये वे एक बटके घृत्यके नीचे ध्यान लगा कर खड़े हो गये।

कमठका जीव जो 'मेघमाली' नामका देव हो गया था, उस का श्रीपाश्वनाथजीसे बड़ा वैर था। इस कारण उस रात्रिमें उसने श्रीपाश्वनाथजीको अनेक उपसर्ग पहुँचाये और सिंह, हाथी, रीछ तथा चीते आदिके डर बतलाये, किन्तु श्रीपाश्वनाथ जी अपने ध्यानमें आरूढ़ बने रहे। जब उस मेघमाली देवने देखा कि मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ होगये, तब उसने भयङ्कर वर्षका उपद्रव करना प्रारम्भ किया। इसके परिणाम स्वरूप पाश्वनाथके चारों ओर पानीही पानी घूमने लगा और देखते देसते पानी कमर, नाभि यहां तक कि छाती तक पहुँच गया, मिन्तु श्रीपाश्वनाथ जी अपने ध्यानमें मग्न बने रहे। 'धरणेन्द्र'^५ नामक नागराजने जब यह दशा देखी,^६ तब उसने प्रभु द्वारा अपने ऊपर किये गये उपकारोंका बदला चुकानेकी इच्छासे स्वयं वहाँ आकर इस उपद्रवको बन्द किया। इस समय भी श्रीपाश्वनाथ जी ध्यानारूढ़ खड़े थे। उनकेलिये तो धरणेन्द्र तथा मेघमाली एक समान थे, अर्थात् वे शत्रु तथा भित्रको समान दृष्टिसे देखते थे।

इस घटनाके थोड़े ही दिन बाद श्रीपाश्वनाथजीको केवल ज्ञान अर्थात् सज्जा और पूर्ण ज्ञान उत्पन्न हुआ। केवल ज्ञान हो

* यह वही सर्पका जीव है, जिसे श्रीपाश्वनाथने जलती हुए लकड़ी में से निकलवा कर प्राण-दान दिये थे।

जानेके बाद उन्होंने सब लोगोंको पवित्र जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया । आपके उपदेशसे हजारों पुरुषों तथा स्त्रियोंने पवित्र जीवन व्यतीत करना आरम्भ किया । दीर्घ काल तक विहार करनेके बाद जब श्रीपाश्वनाथ भगवान्‌को अपना निर्वाण-काल सभीप दिखाई दिया, तब वे समेदशिखरपर चले गये । इस पर्वतको अजितनाथ-प्रभुति तीर्थकरोंका सिद्धि-स्थान समझ कर भगवान्‌ने यहाँ निवास कर अनशन प्रारम्भ किया । श्रावण-शुक्ल द मी को आज (वि० स० १६८६) से २७८१ पूर्व विशाखा नक्षत्रमें भगवान्‌ने पहले मन-वचनके योगका निरोध किया । क्रमशः भगवान्‌ने शुक्ल-ध्यान करते हुये, पच हस्ताक्षर प्रमाण-कालका आश्रय कर समस्त कर्मोंको क्षीण करते हुये ससारके समस्त दुखों और कर्मोंसे रहित हो अचल, अरुज, अक्षय, अनन्त, अव्यावाध मोक्ष-पद प्राप्त किया ।

अन्तमें २४ वें तीर्थङ्कर भगवान् महावीर हुए । भगवदेशमें, जिसकी कि राजधानी 'क्षत्रिय-कुण्ड' थी, श्रीसिद्धार्थ नामके राजा राज्य करते थे । वे बड़े ही धर्मात्मा और न्यायी राजा थे । उनकी 'श्रीत्रिशलादेवी' नामकी पट्टरानी थीं । वह बड़ी सुन्दर और योग्य महिला थीं । वे दोनों अपना जीवन आनन्द-पूर्वक बिता रहे थे ।

एक रात्रिको उन्होंने कई बड़े-बड़े सुन्दर स्वप्न देसे । राजाने पण्डितोंसे उन स्वप्नोंका अर्थ पूछा । उसपर पण्डितोंने कहा कि महाराज ! आपके बड़ा पराक्रमी और महावीर पुत्र होगा ।

नव महीनेके बाद श्रीत्रिशला रानीने एक अतिसुन्दर और होनहार पुत्रको आज (विं स० १६८८) से २५३१ वर्ष पूर्व जन्म दिया। जिस दिनसे यह पुत्र हुआ, उसी दिनसे राजाके कुल, धन-धान्य तथा आनन्दकी दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि होने लगी। इसको देख कर राजा ने पुत्र का नाम 'वर्धमान' रखा।

ये कुमार आनन्द पूर्वक पाले जाने लगे। जब वे द वर्षके हुये ता पढानेका प्रबन्ध किया गया, पर पण्डितोंको मालूम हुआ कि उनकी समझ बहुत अधिक है और प्रत्येक वातको वे अपनी बुद्धिसे ही समझ लेते हैं। अत उन्हें कुछ पढाने लियानेकी विशेष आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्रीवर्धमान माता-पिताके बड़े भक्त थे। वे अपने माता-पिताको सदा प्रसन्न रखना चाहते थे। वे कभी किसीपर क्रोध नहीं करते थे। चित्तमें कभी अभिमानका अश भी न आने देते थे। सदा सत्य बोलते थे। उन्हे सासारिक विपय-भोग और लालसा अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती थी। वे सदा विरक्त भावसे रहते थे।

श्रीवर्धमानकुमार बड़ी अदस्थाके होगये, पर विवाह करनेकी उन्हें तनिक भी इच्छा न थी। तथापि माता पिताके अधिक आग्रह करनेपर उन्होंने शादी कर ली। जिस कन्याके साथ उनकी शादी की गई, वह बड़ी सुन्दर, सुशील और गम्भीर थी। उसका नाम 'श्रीयशोदा' था। कुछ समयके पश्चात् उनके एक कन्या-रदने जन्म लिया, जिसका नाम 'प्रियदर्शना' रखा गया।

एक समय उन्होंने अपने माता-पितासे साधुपना लेनेकी इच्छा प्रकट की। यह सुनकर उन्हें अत्यन्त दुख हुआ और आग्रहपूर्वक पुत्रसे उन्होंने कहा कि—जब तक ठम जीवित हैं, तब तक आप ऐसा न करो। जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ समयके बाद 'सिद्धार्थ राजा'का देहान्त हो गया। श्रीवर्धमान-कुमारके बड़े भाई 'नन्दिवर्धनजी' श्रीवर्धमानकुमारको गदीपर बैठाना चाहते थे, पर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और श्रीनन्दिवर्धनजीको ही गदीपर बैठाया गया।

कुछ समय बाद श्रीवर्धमानकुमारने दीज्ञा प्रहण करनेका विचार प्रकट किया। इसपर श्रीनन्दिवर्धनके दुखकी कोई सीमा न रही और अत्यन्त आग्रहपर उन्होंने कुछ समयके लिए अपने विचारोंको स्थगित कर दिया, परन्तु उन्होंने गृहस्थीमें रहते हुये साधु-जीवन व्यतीत करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष व्यतीत किया। दूसरेवर्ष उन्होंने स्वर्ण मुद्रा का दान देना प्रारम्भ कर दिया। बादको बड़े समारोहके साथ लाखों स्त्री-पुरुषोंके समक्ष पञ्चमुष्टी लौच किया और साधु-जीवन प्रहण किया अर्थात् आजसे मैं किसी भी प्रकारका पाप कर्म, मन, वचन और कायसे नहीं करूँगा और सम्पूर्ण रूपसे अपनी आत्म-शुद्धि करूँगा। इस समय इनकी आयु ३० वर्षकी थी।

महात्मा तो बहुत हो चुके हैं, पर श्रीवर्धमानस्वामीसे बढ़कर कुछ कम हुये हैं। उन्होंने साधुपना धारण करते ही बहुत कड़े

तप करना आरम्भ कर दिया अर्थात् किसी समय दो उपवास* किसी समय चार उपवास, कभी पन्द्रह, कभी बीस उपवास कर डालते थे। यहाँ तक नहीं, उन्होंने छह-द्वह महीनेके कई उपवास किये। इन उपवासोंके समय श्रीवर्धमानस्वामी एकान्त स्थान जैसे—जगल, गुफा आदिमें ध्यान लगाकर रह डे रहते थे। दश, मशक, बिच्छू, भ्रमर आदिके उपसर्गोंसे बड़ी शान्तिसे सहते थे। सर्पके काटनेके उपसर्गको, गवाले द्वारा कानमें दूँसी हुई तुइओंकी पीड़ाको, कुत्तों द्वारा काटी जाने और नाना प्रकारकी दूसरी बड़ी बड़ी आपत्तियोंको बड़ी शान्ति और धैर्यके साथ सहन किया था। इसीसे उनका नाम 'महावीर' पड़ा। भगवान् महावीरने साढे बारह वर्षमें सिर्फ साढे तीन वर्ष आहार प्रहण किया। शेष समयको तपस्यामें व्यतीत किया। बादमें उन्होंने शुल्क ध्यान ध्याते हुये शुभ घडीमें केवलज्ञानकी प्राप्ति की।

* लोग समझते हैं कि उपवास उसे कहते हैं कि जिसमें खाने पीनेका कोई पदार्थ नहीं खाया जाता है, अगर जरूरत होती है तो सिर्फ गर्म पानी पी लिया जाता है। लेकिन उपवासका यह अर्थ नहीं है। उपवासका अर्थ है—

“कपायविषयाहार-त्यागो यत्र विधीयते ।

उपवास स विज्ञेय, शेष लहू नक विदु ॥”

अर्थात्—कपाय, विषय और आहारका त्याग जिस व्रतमें किया जाय, उसे 'उपवास' समझना चाहिये, नहीं तो केवल आहार-पानीका त्याग तो 'लहून' है, उपवास नहीं।

इसके बाद उन्होंने धर्म-उपदेश देना प्रारम्भ किया और चतुर्विंध सघकी स्थापना की। इससे वे 'चौबीसवें तीर्थङ्कर' कहलाये। उन्होंने अपने उपदेशमें कहा कि हिंसासे भरे हुए होम-हवन आदि क्रियाकाण्डसे सज्जा धर्म नहीं होता। धर्म तो केवल आत्म-शुद्धिसे ही होता है। जो सद्गुणी हैं, वे ब्राह्मण हैं। जो दुराचारी हैं, वे शूद्र हैं। धर्मका ठेका किसी मनुष्य विशेषको नहीं है। प्रत्येक मनुष्यको धर्म करनेका अधिकार है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे चाण्डाल, स्त्री हो या पुरुष। अहिंसा ही परम धर्म है। जिसकी आत्माका पूर्ण विकास हो जाता है, वही परमात्मा बन जाता है। महावीर भगवान्‌के वैशाली-पति चेड़ा महाराज, राजगृह-पति श्रेणिक और उनके पुत्र कौणिक आदि राजा, आनन्द तथा कामदेव आदि बड़े सेठ साहूकार, शकड़ाल तथा ढक आदि कुम्हार आदि बहुतसे शिष्य थे। महावीर भगवान्‌ने अहिंसाका रहस्य समझाया और ससारको ज्ञान और सच्चे त्यागका भारतवर्षमें फिर प्रकाश दिया दिया।

भगवान् महावीर विचरते-विचरते पावापुरीमें पधारे। वहाँ बहुतसे राजा लोग व गृहस्थ भगवान्‌के दर्शनोंको आये। उन्होंने अपनी अमृत खाणीसे उपदेश दिया। भगवान्‌का यह अन्तिम उपदेश था। बादमें वे कातिक वदी १५ बींकी रातको निर्वाण-पदको प्राप्त हुए। इस प्रकार ससारका सूर्यास्त हुआ। इस समय भगवान्‌की उम्र ७२ वर्षकी थी। महावीर भगवान् ३० वर्ष गृहस्थ अवस्थामें रहे और ४२ साधु अवस्थामें। कुछ समय पूर्व अन्य

धर्मविलम्बी जैन धर्मको एक कायरोका धर्म समझा करते थे और उसके अनुयायियोंको पोप अथवा भीरु कहा करते थे। पर हम जैनियोंको महात्मा गाँधीजीको कोटि धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने अपनी समाजके मुद्रको उज्ज्वल कर दिया और बता दिया कि अहिंसामय धर्म शूरवीरों अथवा वहादुरोंका है। आज उसने न सिर्फ भारतवर्षमें, बल्कि समस्त दुनियामें अहिंसाकी छाप ढाल दी है और सिद्ध करके बता दिया कि अगर ससारका निस्तार अथवा उद्धार हो सकता है तो केवल एक अहिंसामय सिद्धान्त ही मार्ग है। हम जैनियोंको वत्तमान आनंदोलनसे सबक सीखना चाहिये और आत्मविश्वास लाकर सत्यपर अखड़ रहना चाहिये।

मेरा यह ख्याल है कि अब जनता अहिंसाके सिद्धान्तको अवश्य मान गई है, पर हम जैनियोंके कार्योंको देखकर उसके हृदयमें अवश्य सदेह हो सकता है।

मेरी अपने जैनी भाइयोसे यही प्रार्थना है कि उन्हे महावीर भगवान्के जीवनसे अहिंसाका सबक लेना चाहिये और अपने जीवनका उसीके अनुसार बनाना चाहिये।

†

चौथा आरा एक सागरोपममें ४२००० वर्प कम कालका होता है। इस चौथे आरेमें ११ चक्रवर्ती हुए। उनके नाम, पिताका नाम, माताका नाम, श्रीका नाम, आयुष्य, अवगाहना, और गति निम्न प्रकार हैं—

इसके बाद उन्होंने धर्म-उपदेश देना प्रारम्भ किया और चतुर्विध सघकी स्थापना की। इससे वे 'चौबीसवें तीर्थङ्कर' कहलाये। उन्होंने अपने उपदेशमें कहा कि हिंसासे भरे हुए होम-हवन आदि क्रियाकाण्डसे सज्जा धर्म नहीं होता। धर्म तो केवल आत्म-शुद्धिसे ही होता है। जो सद्गुणी हैं, वे ब्राह्मण हैं। जो दुराचारी हैं, वे शूद्र हैं। धर्मका ठेका किसी मनुष्य विशेषको नहीं है। प्रत्येक मनुष्यको धर्म करनेका अधिकार है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे चाण्डाल, स्त्री हो या पुरुष। अहिंसा ही परम धर्म है। जिसकी आत्माका पूर्ण विकास हो जाता है, वही परमात्मा बन जाता है। महावीर भगवान्‌के वैशाली-पति चेदा महाराज, राजगृह-पति श्रेणिक और उनके पुत्र कौणिक आदि राजा, आनन्द तथा कामदेव आदि बड़े सेठ साहूकार, शकड़ाल तथा ढक आदि कुम्हार आदि बहुतसे शिष्य थे। महावीर भगवान्‌ने अहिंसाका रहस्य समझाया और ससारको ज्ञान और सच्चे त्यागका भारतवर्षमें फिर प्रकाश दिया दिया।

भगवान् महावीर विचरते-विचरते पावापुरीमें पदारे। वहाँ बहुतसे राजा लोग व गृहस्थ भगवान्‌के दर्शनोंको आये। उन्होंने अपनी अमृत वाणीसे उपदेश दिया। भगवान्‌का यह अन्तिम उपदेश था। बादमें वे कातिक बढ़ी १५ वर्षोंकी रातको निर्वाण-पदको प्राप्त हुए। इस प्रकार ससारका सूर्योस्त हुआ। इस समय भगवान्‌की उम्र ७२ वर्षोंकी थी। महावीर भगवान् ३० वर्ष गृहस्य अवस्थामें रहे और ४२ साधु अवस्थामें। कुछ समय पूर्व अन्य

धर्मविलम्बी जैन-धर्मको एक कायरोंका धर्म समझा करते थे और उसके अनुयायियोंको पोप अथवा भीरु कहा करते थे। पर हम जैनियोंको महात्मा गाँधीजीको कोटिश धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने अपनी समाजके मुख्यको उज्ज्वल कर दिया और बता दिया कि अहिंसामय धर्म शूरवीरों अथवा बहादुरोंका है। आज उसने न सिर्फ भारतवर्षमें, बल्कि समस्त दुनियामें अहिंसाकी छाप डाल दी है और सिद्ध करके बता दिया कि अगर ससारका निस्तार अथवा उद्धार हो सकता है तो केवल एक अहिंसामय सिद्धान्त ही मार्ग है। हम जैनियोंको वत्तमान आन्दोलनसे सबक सीखना चाहिये और आत्मविश्वास लाकर सत्यपर अरुण रहना चाहिये।

मेरा यह ख्याल है कि अब जनता अहिंसाके सिद्धान्तको अवश्य मान गई है, पर हम जैनियोंके कार्योंको देखकर उसके हृदयमें अवश्य सदेह हो सकता है।

मेरी अपने जैनी भाइयोंसे यही प्रार्थना है कि उन्हें महावीर भगवान्के जीवनसे अहिंसाका सबक लेना चाहिये और अपने जीवनका उसीके अनुसार बनाना चाहिये।

+

चौथा आरा एक सागरोपममें ४२००० वर्ष कम कालका होता है। इस चौथे आरेमें ११ चक्रवर्ती हुए। उनके नाम, पिताका नाम, माताका नाम, स्त्रीका नाम, आयुष्य, अवगाहना, और गति निम्न प्रकार हैं—

न०	नाम	पिताका नाम	माताका नाम	छोका नाम	जयवती	आयुष्य	श्रवणाहसा	गति	मोरु
१	सगर	सुमति राजा	बिजय राजा	श्रीभद्रा	७२ लाल पूर्व	४५ धरुप	४२ धरुप	४२ धरुप	४२ धरुप
२	मध्यान्	विजय राजा	भद्ररानी	सुनन्दा	६ लाल वर्ष	४१ धरुप	४१ धरुप	४१ धरुप	४१ धरुप
३	सनकुमार	समुद्र राजा	शिवारानी	श्रीतला	३ लाल वर्ष	४० धरुप	४० धरुप	४० धरुप	४० धरुप
४	शान्तिनाथ	विन्दुसेन	श्रचितरानी	श्रीचित्रा	१ लाल वर्ष	४० धरुप	३५ धरुप	३५ धरुप	३५ धरुप
५	कुन्धुनाथ	सुन्दर राजा	श्रीदेवीरानी	श्रीकन्द्रहर्षी	६६००० वर्ष	३० धरुप	३० धरुप	३० धरुप	३० धरुप
६	श्रावहनाथ	सुन्दरवृंद राजा	देवीरानी	श्रीसुरश्री	८५००० वर्ष	२८ धरुप	२८ धरुप	२८ धरुप	२८ धरुप
७	सुभूति	पामत राजा	जालीरानी	श्रीपात्रश्री	६० हजार वर्ष	२० धरुप	२० धरुप	२० धरुप	२० धरुप
८	महाप्रथम	कीर्तिवीर्य राजा	तारारानी	श्रीसुन्दरी	३० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष	१० हजार वर्ष
९	द्विपेण	महाहरि राजा	मेरारानी	श्रीदेवी	१० हजार वर्ष	१६ धरुप	१२ धरुप	१२ धरुप	१२ धरुप
१०	जपसेन	पाप राजा	वप्रारानी	श्रीतत्त्वमी	३ हजार वर्ष	७ धरुप	७ धरुप	७ धरुप	७ धरुप
११	घडादत्त	घड राजा	चूलसीरानी	श्रीकुलमती	७०० वर्ष	७ धरुप	७ धरुप	७ धरुप	७ धरुप

चोथे आरे में ह चलावृत्त हुये, उनके नाम, पिता-माता के नाम, आयु, राजधानी और गति
निम्न प्रकार है—

न०	नाम	पिता	माता	आयु	राजधानी	गति	मोह	यात्रादेव
१	अचल	प्रजापति	भद्रा रानी	५६ लाख वर्ष	पोतानुर	"	"	
२	विनय	बद्ध राजा	सुभद्रा रानी	५६ लाख वर्ष	द्वारावती	"	"	
३	भद्र (सुधर्म)	रद्ध राजा	सुधर्मा रानी	५६ लाख वर्ष	"	"	"	
४	सुधर्म	सोम राजा	सुदर्शना रानी	५५ लाख वर्ष	"	"	"	
५	सुदर्शन	शिव राजा	पित्रिया रानी	५७ लाख वर्ष	आरनुर	"	"	
६	आत्मन्‌ (नन्दसिंह)	सहस्र राजा	विषयती रानी	५८ हजार वर्ष	चक्रनुर	"	"	
७	नन्दन्‌ (नन्दसेन)	आमेश राजा	जपनंती रानी	५५ हजार वर्ष	चाणारसी	"	"	
८	प्रगरथ(राम)	वश्राय राजा	प्रविजिता रानी	५५ हजार वर्ष	राजगृह	"	"	
९	पदमन्	पशुदेव राजा	रोहिणी रानी	१२ सौ वर्ष	मधुरा	"	"	

चौथे आरे से नव वासुदेव हुये। उनके नाम आदि निम्न प्रकार हैं—

न०	नाम	पिता	माता	शायु	राजधानी	गति
१	निष्ट	प्रजापति राजा	मृगावती रानी	८४ लाख वर्ष	पोतानपुर	सातवें नरक छठे नरक
२	दिष्ट	बहू राजा	पक्षावती रानी	७२ लाख वर्ष	द्वाराचत्ती	"
३	स्वयम्भू	लद्ध राजा	उडवी रानी	६० लाख वर्ष	"	"
४	पुरुषोचम	सोम राजा	सीता रानी	३० लाख वर्ष	"	"
५	पुरुषिंह	शिव राजा	श्रम्या रानी	१० लाख वर्ष	अम्बपुर	"
६	पुंडरीक	सहस्र राजा	लक्ष्मणा रानी	१५ हजार वर्ष	चकपुर	"
७	पुरुष दत्त	अग्नेश	सुरवती रानी	५६ हजार वर्ष	दायारसी	पाँचवें नरक चौथे नरक
८	लक्ष्मण	दयारथ	सुभिता रानी	११ हजार वर्ष	राजगढ़	तीसरे नरक
९	कृष्ण	वसुदेव राजा	देवकी रानी	१ हजार वर्ष	मथुरा	"

चौथे आरे—में नव प्रतिबासुदेव हुए उनके नाम इस प्रकार हैं—

१—सुप्रीव (अश्वप्रीव), २ तारक, ३ मेरुक, ४ मधुकैटभ, निशुम्भ, ६ बली, ७ प्रहरण, ८ रावण और ९ जरासंघ ।

पाँचवाँ आरा—इस आरेका नाम दुष्पमा आरा है, अर्थात् इसमें केवल दु य ही होता है। महावीर भगवान्के निर्वाणके दीन वर्ष साढे सात महीने पीछे पाँचवाँ आरा लगा है। इस आरेमें मनुष्योंके सगठन, आयु, बल, वीर्य, पुरुषार्थ और तमाम पदार्थोंमें चौथे आरेके मुक्ताविलोमे एक बहुत बड़ी व्यूनता हो गई है ।

यह आरा २१ हजार वर्षका होता है। इस आरेमें दस बातों का सर्वथा लोप हो जाता है—१ केवलज्ञान, २ मन पर्यवृज्ञान, ३ अबधिज्ञान, ४ परिहारविशुद्ध-चरित्र, ५ सूक्ष्मसाम्राय चारित्र, ६ यथाख्यातचारित्र, ७ पुलाक लब्धि, ८ आहारक शरीर, ९ क्षायिकसम्यक्त्व और १० जिनकल्पी साधु । आज बक्षम सवत् १६८८ तक इस आरेमें क्रीब २४६२ वर्षे ब्यतीत हो चुके हैं ।

छठ आरा—इस आरेका नाम दुष्पमा आरा है। इसमें दुसरमें दु ख उत्पन्न होते हैं। इस आरेमें पाँचवे आरेकी अपेक्षा बहुत छोटे फ़द वाले, कम उम्र, कुरुप, कमज़ोर और पुरुषार्थ दीन मनुष्य होंगे और ऐश-आरामके सारे सामान नष्ट हो जायेंगे। लोग गुफाओं और जमीनके नीचे घर बना फर रहेंगे। हर प्रकार के राने पीने व आरामका दुर्स मिलेगा। इस आरेमें मनुष्योंके

कर्म पशुओंके तुल्य होंगे। मर कर बुरी गतिको प्राप्त होंगे। यह आरा भी २१ हजार वर्षका ही होगा।

इस प्रकार अपसर्पिणीके छह आरोंका वर्णन हुआ। इनमें आरोंमें १० क्रोडाकोड़का समय लगता है।

अब उत्सर्पिणीके छह आरोंका वर्णन करते हैं। उत्सर्पिणी अर्थात् उल्टी सर्पिणी। इसका मतलब यह होता है कि इसका पहला आरा अपसर्पिणीके छठे आरेके अनुसार होता है। दूसरा आरा पाँचवें आरेके, तीसरा आरा चौथे आरेके, चौथा आरा तीसरे आरेके, पाँचवाँ आरा दूसरे आरेके और छठा आरा पहले आरेके समान होता है।

अपसर्पिणीके आरे

- १ सुखमें सुख
- २ सुख
- ३ सुखमें दुःख
- ४ दुःखमें सुख
- ५ दुःख
- ६ दुःखमें दुःख

उत्सर्पिणीके आरे

- ६ सुखमें सुख
- ५ सुख
- ४ सुखमें दुःख
- ३ दुःखमें सुख
- २ दुःख
- १ दुःखमें दुःख

उत्सर्पिणीका सचेपमे वर्णन इस भावि है—

पहला आरा—इसमें दुःखमें दुःख होता है। इसमें मनुष्यों और वस्तुओंकी वही न्यूनता होती है, जो अपसर्पिणीके छठे आरेमें होती है।

दूसरा आरा — इसमें दुख होता है। इसमें पहले आरे की अपेक्षा कुछ अच्छी अवस्था होती है अर्थात् अपसर्पिणी के पाचवें आरेके सदृश अवस्था होती है।

तीसरा आरा — इसमें दुखमें सुख होता है अर्थात् दुखमें कभी कभी कोई सुख हो जाता है, नहीं तो अधिकतर दुख ही होता है। इस आरेकी व्यवस्था अपसर्पिणीके चौथे आरेके समान होती है। इसमें तेईस तीर्थकर, ग्यारह चक्रवर्ती, नव यासुदेव, नव बलदेव, नव प्रतियासुदेव होते हैं।

चौथा आरा — इसमें सुखमें दुख होता है। अर्थात् इस आरेमें अधिकतर सुख होता है और मामूली दुख होता है। इस आरेकी व्यवस्था अपसर्पिणीके तीसरे आरेके समान होती है। इस आरेमें २४ वें तीर्थक़र और १२ वें चक्रवर्ती होते हैं।

पाचवाँ आरा — इस आरेमें सुख ही सुख होता है। इस आरेकी व्यवस्था अपसर्पिणी के दूसरे आरेके समान होती है।

छठा आरा — इस आरेमें सुखमें सुख होता है। इस आरेकी व्यवस्था अपसर्पिणीके पहले आरेके समान होती है।

इस प्रकार उत्सर्पिणीमें भी १० क्रोडाक्रोड सागरका समय लगता है। इस प्रकार १० क्रोडाक्रोडकी अपसर्पिणी और १० क्रोडाक्रोडकी उत्सर्पिणीको मिला कर २० क्रोडाक्रोड सागरका एक कालचक्र होता है। यह काल चक्र भरत-क्षेत्र में फिरता है।

भगवान् महावीरके बादका जैन-इतिहास

जूलात्मनुजसे क़रीब २५०० वर्ष पूर्व जब भगवान् महावीर भारतवर्षमें अपना कल्याणकारी उपदेश दे रहे थे, उस समय आजकी तरह प्रचारके इतने साधन न थे। उस समय लेखन-कला तो प्रचलित थी, पर उसका उपयोग अविकृत च्यावहारिक कामोंमें ही किया जाता था। आत्मार्थी लोग भगवान् का उपदेश श्रवण करने जाते थे। वहाँ जो कुछ वे सुनते थे, उसमेंसे मुख्य मुख्य बातें हृदयगम कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त महावीर भगवान्के समयमें और उनके सैकड़ों वर्ष बाद तक आचार्य अपने शिष्योंको सूत्रोंके पाठ करठ करा दिया करते थे। उसी प्रकारकी प्रथा अब तक जैन साधुओंमें पाई जाती है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि जैन समाजमें इतिहास लिखनेकी प्रथा बहुत कम थी। जो कुछ प्राचीन इतिहास पाया जाता है, वह साधुओंकी पट्टावलियोंसे मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध-ग्रन्थों, शिलालेखों और जिन-प्रतिमाओंपरसे ही बहुत सा इतिहास मिल सकता है।

महावीर भगवान्के समयमें और उनके बाद अनेक राजाओं और अनेक राजाओंके मंत्रियोंने जैनधर्मकी प्रभावना, प्रचार-आदि करनेमें कोई कसर नहीं रखती थी। राजा श्रेणिक, राजा

कौणिक और चन्द्रप्रद्योत आदिने जैनधर्मकी बड़े उत्साह व समारोहके साथ प्रभावना की थी। इनको महावीर भगवान्के परमभक्त होनेका सम्मान प्राप्त था। 'सम्प्रति' नामका राजा पका जैनी था। उसने अनार्य देश, जैसे—कावुल, विलोचित्तान आदि देशोंमें जैनधर्मका प्रचार कराया था, जिसमें बहुत बुद्ध सफलता मिली थी। राजा आमशिला दित्यने सम्पूर्णतया जैनधर्मके गौरवकी रक्षा की थी। अन्तमें जैन राजा बन राज, सिद्धराज और कुमार-पाल आदिने आम घोपणा कराकर अहिंसा धर्मका प्रचार कराया था। इनके अतिरिक्त अनेक प्रतापी राजमन्त्री, जैसे—शकड़ाल, विमल, उदयन, वाग्मट्ट, वस्तुपाल, तेजपाल आदिने अहिंसा धर्म कैजानेका प्रशसनीय उद्योग किया था, जिनका वैभव समस्त भारतवर्षमें फैला हुआ था।

इधर एक ओर बीर प्रभुके द्वारा प्रोत्साहित जैनधर्मने ऐसे-ऐसे बीर आर्य धर्मरक्षक राजाओं व मन्त्रियोंको उत्पन्न किया था और दूसरी ओर उसने ऐसे-ऐसे सञ्चरित्र और प्रतापी जैनाचार्योंको जन्म दिया कि जिन्होंने अपने अगाध पाण्डित्यका परिचय देकर जगतको आश्र्वयमें ढाल दिया है। उनके रचित मन्त्र आज भी ससारको आश्र्वयमें ढाल रहे हैं। इतना ही क्यों, उन्होंने ऐसे ऐसे असाधारण कार्य किये हैं कि जिनका करना सामान्य मनुष्यकी तो धात ही क्या है, अच्छे-च्छे शक्ति-सम्पन्न मनुष्यों के लिये भी दु साध्य है। जैसे मौर्यवशीय सम्राट् चन्द्रगुप्तको प्रति-

बोध करने वाले चौदह पूर्वधारी श्रीभद्रबाहु स्वामी, चौदहसौ चवासील ग्रन्थोंकी रचना करने वाले हरिभद्रसूरि, पॉचसौ ग्रन्थोंकी रचना करने वाले उमास्वाति वाचक, राजपूतानेमें हजारों क्षत्रियों को, जो वर्तमान समयमें ओसवाल जातिके नामसे प्रसिद्ध हैं, जैन घनाने वाले रब्रप्रभ सूरि, आमराजाके गुरु होनेका सम्मान प्राप्त करने वाले वप्प भट्टि, महान् चमत्कारिणी विद्याओंके आगार यशोभद्र सूरि और कुमारपालके समान राजाको उपदेश देकर अठारह देशोमें जीव-दयाका एकछत्र राज्य स्थापन करने वाले कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यके समान महान् प्रतापी जैनाचार्य रूपी रत्नोंको भी इसी भारत बसुन्धराने प्रसव किया था ।

भगवान् महावीरके निर्वाणके चौंसठ वर्ष बाद तक भारतवर्ष में केवलज्ञानी श्रीजन्म्बू स्वामी उपस्थित थे । जैन शाष्ठोमें ऐसा कथन है कि श्रीजन्म्बू स्वामीके निर्वाणके पश्चात् दस बातोंका विच्छेद—अभाव हो गया । जो इस प्रकार हैं—मन पर्यज्ञान, परमावधि, पुलाकलब्धि, आहारकशरीर, क्षायिकसम्यक्त्व, जिनकल्पी, केवलज्ञान, यथाख्यातचारित्र, सूक्ष्मसापरायचारित्र, परिहारविशुद्धिचारित्र ।

प्रकृतिके भयझर प्रकोपसे हमारे साहित्यको बड़ा भारी नुकसान पहुँचा । श्रीहेमचन्द्राचार्य अपने परशिष्ठ पर्वमें लिखते हैं कि भगवान् महावीरके निर्वाणके बाद दूसरी शताब्दीमें, जब कि

चार्य श्रीस्थूलभद्र विद्यमान थे, उस समय देशमें एक साथ हामीपण वारह दुष्काल पडे। उस समय साधुओंका सघ अपने निर्वाहकेलिये समुद्रके सभीवर्ती प्रदेशोंमें चला गया। वहाँ साधु अपने निर्वाहकी पीडाके कारण कण्ठस्थ रहे हुए शास्त्रोंको पुन न सके, जिस कारण वे शास्त्रोंको भूलने लगे।

जब यह भीपण अकाल मिट गया, तब पाटलीपुत्रमें सारे धर्मकी एक बड़ी समा की गई। जिसमें जिस-जिसको जो-जो त्रि व शास्त्र स्मरण थे, वे इकट्ठे किये गये। उसके अनुसार वारह अङ्गोंका तो अनुसधान हुआ, पर 'दृष्टिवाद' नामका वारहवाँ अङ्ग तो विलकुल विसर्जन हो गया।

इनके बाद फिर वीर निर्वाणकी पाँचवीं और छठी शताब्दीमें अर्थात् श्रीस्कन्दिलाचार्य और वश्रवाहु स्वामीके समयमें उसी कारके वारह भीपण दुष्काल इस देशमें फिर पडे, जिसके कारण साधु अन्नकेलिये भिन्न-भिन्न स्थानोंपर विखर गये, उससे श्रतका ग्रहण, मनन और चिन्तन न हो सका। फल यह आ कि ज्ञानको बहुत हानि पहुँची। जब प्रकृतिका कोप अन्त हुआ, देशमें सुकाल और शान्तिका प्रादुर्भाव हुआ, तब शुरामें श्रीस्कन्दिलाचार्यके सभापतित्वमें पुनः साधुओंकी एक हासभा हुई। उसमें जिन-जिनको जो-जो स्मरण था, वह सप्रह किया गया। इस दुष्कालने भी हमारे जैन साहित्यको अधिक का पहुँचाया।

बोध करने वाले चौदह पूर्वधारी श्रीभद्रवाहु स्वामी, चौदहसौ चवासील ग्रन्थोंकी रचना करने वाले हरिभद्रसूरि, पाँचसौ ग्रन्थोंकी रचना करने वाले उमास्वाति वाचक, राजपूतानेमें हजारों ज्ञात्रियों को, जो वर्तमान समयमें ओसवाल जातिके नामसे प्रसिद्ध हैं, जैन बनाने वाले रत्नप्रभ सूरि, आमराजाके गुरु होनेका सम्मान प्राप्त करने वाले वप्प भट्टि, महान् चमत्कारिणी विद्याओंके आगार यशोभद्र सूरि और कुमारपालके समान राजाको उपदेश देकर अठारह देशोंमें जीव-दयाका एकछत्र राज्य स्थापन करने वाले कलिकालसर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यके समान महान् प्रतापी जैनाचार्य रूपी रत्नोंको भी इसी भारत वसुन्घराने प्रसव किया था ।

भगवान् महावीरके निर्वाणके चौंसठ वर्ष बाद तक भारतवर्ष में केवलज्ञानी श्रीजन्म्बू स्वामी उपस्थित थे । जैन शाखोमें ऐसा कथन है कि श्रीजन्म्बू स्वामीके निर्वाणके पश्चात् दस वातोंका विच्छेद—अभाव हो गया । जो इस प्रकार हैं—मन पर्ययज्ञान, परमावधि, पुलाकलविधि, आहारकशरीर, ज्ञायिकसम्यक्त्व, जिनकल्पी, केवलज्ञान, यथाख्यातचारित्र, सूक्ष्मसापरायचारित्र, परिहारविशुद्धिचारित्र ।

प्रकृतिके भयङ्कर प्रकोपसे हमारे साहित्यको बड़ा भारी नुकसान पहुँचा । श्रीहेमचन्द्राचार्य अपने परशिष्ठ पर्वमें लिखते हैं कि भगवान् महावीरके निर्वाणके बाद दूसरी शताब्दीमें, जब कि

आर्य श्रीस्थूलभद्र विद्यमान थे, उस समय देशमें एक साथ महाभीपण बारह दुष्काल पडे। उस समय साधुओंका सघ अपने निर्वाहकेलिये समुद्रके समीवर्ती प्रदेशोंमें चला गया। वहाँ साधु अपने निर्वाहकी पीडाके कारण कठस्थ रहे हुए शास्त्रोंको गुन न सके, जिस कारण वे शास्त्रोंको भूलने लगे।

जब यह भीपण अकाल मिट गया, तब पाटलीपुत्रमें सारे सघकी एक बड़ी सभा की गई। जिसमें जिस-जिसको जो-जो सूत्र व शास्त्र स्मरण थे, वे इकट्ठे किये गये। उसके अनुसार ग्यारह अङ्गोंका तो अनुसधान हुआ, पर 'द्विष्टिवाद' नामका बारहवाँ अङ्ग तो विलकुल विसर्जन हो गया।

इनके बाद फिर वीर निर्वाणकी पाँचवीं और छठी शताब्दीमें अर्थात् श्रीस्कन्दिलाचार्य और वग्रवाहु स्वामीके समयमें उसी प्रकारके बारह भीपण दुष्काल इस देशमें फिर पडे, जिसके कारण साधु अङ्गकेलिये भिन्न-भिन्न स्थानोंपर विसर गये, जिससे श्रतका ग्रहण, मनन और चिन्तन न हो सका। फल यह हुआ कि ज्ञानको बहुत हानि पहुँची। जब प्रकृतिका कोप शान्त हुआ, देशमें सुकाल और शान्तिका प्रार्द्धभाव हुआ, तब मधुरामें श्रीस्कन्दिलाचार्यके सभापतित्वमें पुनः साधुओंकी एक महासभा हुई। उसमें जिन-जिनको जो-जो स्मरण था, वह सम्राह किया गया। इस दुष्कालने भी हमारे जैन साहित्यको अधिक घटा पहुँचाया।

इन दो भयङ्कर विपत्तियोंको पैदा करके ही प्रकृतिका कोप शान्त नहीं हुआ। उसने और भी अधिक निष्ठुरताके साथ बीर निर्वाणकी दसर्वां शताब्दीमें इस जर्जरित देशके ऊपर अपना चक्र चलाया। फिर भयङ्कर दुष्काल पड़ा। इस बार तो कई बहुश्रुतोंका अवसान होनेके साथ-साथ पहिलेके जीर्ण शीर्ण रहे हुए शास्त्र भी छिन्न भिन्न हो गये। उस स्थितिको बतलाते हुए 'समाचारिशतक' नामक ग्रन्थमें लिखा है कि बीर सम्बत् ६५० में भयङ्कर दुष्कालके कारण बहुतसे साधुओं और बहुश्रुतोंका विच्छेद हो गया। तब श्रीदेवर्धिगणी ज्ञमाश्रमणने शास्त्र भक्तिसे प्रेरित होकर भावी जन समाजके उपकारकेलिये सब साधुओं को बल्लभिपुरमें इकट्ठा किया, और उनके मुखसे स्मरण रहे हुए सूत्रों व शास्त्रोंके पाठोंको सङ्गठित कर पुस्तकाखण्ड किया। इस प्रकार सूत्र-ग्रन्थोंके कर्ता श्रीदेवर्धिगणी ज्ञमाश्रमण कहलाते हैं।

अब हम अपने बन्धुआंका ध्यान इस ओर दिलाना चाहते हैं कि जैनधर्मावलम्बियोंकी आपसकी कलाह अथवा फूटने किस क्षदर बड़ा धक्का जैनधर्मको पहुँचाया है।

महावीर भगवान्‌के समयमें कई व्यक्तियोंने अपने मान कथायवश अपनी-अपनी जुदी सम्प्रदायें चलाईं। जैसे—गोशाल आदि ने, पर भगवान्‌के अतिशय प्रभुतासे वे सारे सम्प्रदाय उन्हीं की मौजूदगीमें समाप्त हो चुके थे। भगवान् महावीरके निर्वाण

के समय जैनसमाज एक सुसगठित, सुन्दर और उदार दल था। जिसमें लाखों श्रावक, श्राविकायें और हजारों साधु व साधियाँ थीं। इनके अलावा करोड़ों जनता सामान्य रीतिसे जैनधर्मको मानने वाली थी।

भगवान् महावीरके निर्वाणके तीसरी या चौथी शताब्दीके अनुमान अनुदार जैन समाजमें कुछ मतभेद पड़ना प्रारम्भ होगया, जो दिनोंदिन बजाय घटनेके कुछ बढ़ता ही गया। भगवान्‌के निर्वाणकी छठी शताब्दीमें मधुरामे एक सभा हुई। उस सभामें जब निर्गन्थोंके बख पहनने या न पहननेका प्रश्न उपस्थित हुआ, उसी समय वहाँपर दो दल हो गये। एक ने तो समयकी परिस्थितिके अनुकूल बख पहननेकी व्यवस्था दी और दूसरेने नग्र रहनेकी। ऐसे विवादग्रस्त समयमें दीर्घदर्शी स्कन्दिलाचार्यने बड़ी ही बुद्धिमानीसे काम लिया। उन्होंने न तो नग्रताका और न बख पात्र-वादिताका ही समर्थन किया। प्रत्युत दोनोंके बीचमें उचित न्याय दिया। उन्होंने कहीं भी सूत्रोंमें जिनकल्प, स्थविरकल्प, श्वेताम्बर तथा दिग्म्बरका उल्लेख नहीं किया। फिर भी उस समय प्रत्यक्ष रूपसे उदार जैनसमाज दो दलोंमें विभक्त हो ही गया।

इस प्रकार एक पिताके दो पुत्र अपना हिस्सा बॉटर अलग अलग हो गये। पिताके घरके बीचमें दीवार बनाना प्रारम्भ कर दिया। दोनों सम्प्रदाय महावीरको अपनी-अपनी सम्पत्ति

बनाकर भगड़ने लगे। यह उदार जैन समुदाय अनेकान्तवाद और अपेक्षावादके महान् सिद्धान्तको भूलकर दोनों आपसमें फाग खेलने लगे। एक दूसरेको परास्त करनेकेलिये दोनोंने वर्द्धमानका नाम दे-देकर कुछ जुदा-जुदा शाखोंकी भी रचना कर ली।

अब लोग जैन धर्मके उदार सिद्धान्तोंको भूलकर उन्हीं तत्त्वोंको पकड़कर बैठ गये, जहाँपर दोनोंका मत भेद होता था। एक साधु यदि नम रहकर अपनी तपश्चर्याको उप्र करने का प्रयत्न करता तो श्वेताम्बरियोंकी दृष्टिमें वह मुक्तिका पात्र ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो जिनकल्पी है और जिनकल्पी को मोक्ष है ही नहीं। इसी प्रकार यदि एक साधु एक अधोवस्थ पहनकर तपश्चर्या करता है तो दिग्म्बरियोंकी दृष्टिसे वह मुक्ति का हक्क खो बैठता है, क्योंकि वह परिग्रही है और परिग्रहको छोड़े विना मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार अनेकान्तवादका समर्थन करनेवाले ये लोग सब महान् तत्त्वोंको भूलकर स्वयम् एकान्तवादी हो गये।

पतन अपनी इतनी ही सीमापर जाऊर न रह गया। स्वार्थका कीड़ा जब किसी छिद्रसे घुसा कि फिर वह अपना बहुत विस्तार कर लेता है। जैनसमाजके केवल यही दो ढुकडे होकर न रह गये, बल्कि आगे जाकर इन सम्प्रदायोंकी गिनती और भी बढ़ने लगी। स्वेताम्बरियोंमें भी परस्पर मतभेद होने लगा,

इधर दिगम्बरी भी इससे शून्य न रहे। कुछ ही समय इसमें भी उपश्रेणियों दृष्टिगोचर होने लगीं, जिनका सिवरण इस प्रकार है।

बी० सवत् दद० में श्वेताम्बरी लोगोमें 'चैत्यवासा' नामकी उत्पत्ति हुई। बी० सं० दद० में उनमें 'ब्रह्मद्वीपिक' नामवीन सप्रदायका आरम्भ हुआ। बी० स० १४४६ में 'वट' गच्छ स्थापना हुई। बी० स० १६७६ में 'रत्नरत' गच्छकी स्थापना हुई। बी० स० १७५५ में 'तपा' गच्छकी स्थापना हुई। बी० स० २० में 'कटुक' मतकी स्थापना हुई। बी० स० २०४० में 'बीजा' मत आरम्भ हुआ। बी० स० २०४२ में पार्वचन्द्रसूरिने अपने पक्ष स्थापना की। बी० स० १६७८ में 'लूका' गच्छकी स्थापना और २० में उसके साथुसघकी स्थापना हुई।

इस वृक्षमेंसे स्थानकवासी, तेरापथी, भीखापथी, तंथोई वाले, आदि कई शास्त्राएँ तथा चौथ पचमीका भगवान्धिक मासका झगड़ा, आदि कई मत-भेद वाली शास्त्र उपशासा निकल पड़ीं और आपसमें पूरी तरह लड़ने लगीं।

इधर दिगम्बरियोंमें भी मत-मतान्तरोंका बढ़ना आरम्भ हुआ। जैसे—द्राविड सघ, व्यापनीय सघ, काष्ठा सघ, मथुरा सघ, भिज्जक सघ, तेरा पन्थ, चीस पन्थ, तारण पन्थ, भट्टारक प्रथा आदि अनेक शास्त्र-उपशासा इनमें भी प्रचलित होकर आपसमें लड़ने लगीं।

ठहरे आपने नगरों के अवावा अन्य बम बालोंने भी दौहराने वार उत्तम कर दिया था। कारण कि जब उन्हें इन्हें होता है तो वाह बालोंको सहजमें एक अच्छा जैन होकर जाता है। इसके अनुसार विक्रम संवत् ५०० के लिए उत्तम उत्तम बालोंको दुष्ट, जिन्होंने जैनधर्मके साथ एक बहु अद्वितीय दृष्टिकोण संवर्धन कर दिया। इन्होंने अपने शिष्य द्वारा अवश्य उत्तम लक्ष्य कर दिया। यहावा गिरवाया। यहावा इन्होंने उत्तम कामों को शैक्षण्य में लिया था। पर वह किसी ने इसके द्वारा उत्तम कामोंको कामों से भी रुग्ण, पर उत्तम सूखमें देखा नहीं। इसके कई अन्य तरफ उत्तम जैनधर्मचार्य और शंकराचार्यके गतिशीलों, स्वेच्छालभवद्वार वाद-विद्यावाला रहता रहा।

यहाँ ये सब साक्षियाँ खत की रही हैं कि इन्हीं दिनों अर्थात् निलगि संवत् ११०० के लगभग भारतवर्षमें उत्तराञ्चलीयों गद्याद् गजाननी और मुहम्मद गौरी आदिके हमलें होने भी आरम्भ हो गए। जिन्होंने अपनी कूरतासे भारतके सामर्य प्रजाओं नप्रति करना प्रारम्भ कर दिया।

अग्रेक तुष्टि व पठानोंने समय समयपर गतना आरम्भ कर दिया। किन्तु - रथ सिद्धा, रुद्राम्भी, वीराम्भी, रुद्राम्भी, एवं धूर्मला, रक्ता, सूपों

कर ढाले, उनकी मूर्तियोंका अङ्ग भङ्ग कर ढाला, जैन साधुओं, घौढ़ भिज्जुकों और पुजारियोंको बुरी तरह कत्तल किया, मन्दिरोंके भट्टारोंको लूटा और भण्डारोंमें आग लगाकर अन्धोंको स्वाहा कर दिया ।

इस प्रकारकी अवस्था सौ-पचास वर्ष नहीं रही, वल्कि सैकड़ों वर्षों तक यानी पन्द्रहसौके अन्तमें और सोलहसौ के प्रारम्भ तक चलती रही । इन तमाम हमले, मारकाट व आपत्तियोंसे जैनधर्मके साधुओं, गृहस्थों, मन्दिरों व साहित्यको बड़ा धक्का व नुकसान पहुँचा । इस मुसीबतके समयमें जो बुद्ध साधु व मुनि बचे, वे पजाब, बगाल, बिहार व मध्य भारतवर्षसे विहार करके गुजरात और राजपूतानेकी ओर पधार गए ।

सन् १०१६ से सन् १५५० तक भारतवर्षकी क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या व्यापारिक, क्या धार्मिक, सभी व्यवस्थाएँ बहुत बुरी रहीं । इसका कारण सिर्फ़ यही था कि इस पॉचसौ वर्षके समयमें किसीका स्थायी राज्य नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त आये दिन उत्तरकी ओरसे हमले हुआ करते थे, और इन मुसलिम बादशाहोंमें भारतवर्षके तमाम धर्मोंके खिलाफ़ बड़ा द्वेष था । इस कारण इन पॉचसौ वर्षमें सदा मारकाट, जोर-जुल्म वगैरह ही हुआ करे । जब बादशाह अकबरने भारतवर्ष की हुक्मतको अपने हाथमें लिया, तब थोड़ी सी शान्ति यहाँ

घरके आपसके भगड़ोंके अलावा अन्य धर्मे वालोंने भी जैनधर्मपर बार करना आरम्भ कर दिया था। कारण कि जब घरमे वैमनस्य होता है तो बाहर वालोंको सहजमे एक अच्छा मौका हाथ लग जाता है। इसीके अनुसार विक्रम सवत् ७०० के लगभग श्रीशकराचार्ये हुए, जिन्होंने जैनधर्मके साथ एक बड़ा भीपण वाद-विवाद आरम्भ कर दिया। इन्होंने अपने शिष्य राजा द्वारा जैनसाधु, गृहस्थ व साहित्यपरबडा दबाव गिरवाया। गो इसके द्वारा जैनधर्मको काफी धक्का लगा, पर वह किसी सूरतमें दबा नहीं। बादमें कई शताब्दी तक जनधर्माचार्य और शकराचार्यके मठधारियोंमे समय-समयपर वाद-विवाद चलता रहा।

यहाँ ये सब वाद विवाद चल ही रहे थे कि इन्हीं दिनों अर्थात् विक्रम सवत् ११०० के लगभग भारतवर्षमे उत्तरकी ओरसे महमूद गजनवी और मुहम्मद गौरी आदिके हमले होने भी आरम्भ हो गए। जिन्होंने अपनी क्रूरतासे भारतकी समस्त प्रजाको त्रसित करना प्रारम्भ कर दिया। इनके बाद अनेक तुकों व पठानोंने समय समयपर भारतवर्षपर हमले करना आरम्भ कर दिया। जिनका मुख्य सिद्धान्त हिन्दुओंको इस्लामधर्म स्वीकार करानेका था। इन हमला करने वालोंने न सिर्फ आदमियोंको क़त्ल किया और उनका धन लूटा, बल्कि हिन्दुओं, जैनियों और बौद्धोंके मन्दिरों व स्तूपोंके ढुकडे-ढुकडे

कर ढाले, उनकी मूर्तियोंका अङ्ग भङ्ग कर ढाला, जैन साधुओं, बौद्ध भिक्षुको और पुजारियोंको बुरी तरह कत्तल किया, मन्दिरोंके भडारोंको लूटा और भण्डारोंमें आग लगाकर अन्थोंको स्वाहा कर दिया।

इस प्रकारकी अवस्था सौ-पचास वर्ष नहीं रही, बल्कि सैकड़ो वर्षों तक यानी पन्द्रहसौके अन्तमें और सोलहसौ के प्रारम्भ तक चलती रही। इन तमाम हमले, मारकाट व आपत्तियोंसे जैनधर्मके साधुओं, गृहस्थों, मन्दिरों व साहित्यको बड़ा घस्ता व तुक्कसान पहुँचा। इस मुसीबतके समयमें जो कुछ साधु व मुनि चर्चे, वे पजाब, बगाल, विहार व मध्य भारतवर्षसे विहार करके गुजरात और राजपूतानेकी ओर पधार गए।

सन् १०१६ से सन् १५५० तक भारतवर्षकी क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक, क्या व्यापारिक, क्या धार्मिक, सभी व्यवस्थाएँ बहुत बुरी रहीं। इसका कारण सिर्फ़ यही था कि इस पाँचसौ वर्षके समयमें किसीका स्थायी राज्य नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त आये दिन उत्तरकी ओरसे हमले हुआ करते थे, और इन मुसलिम बादशाहोंमें भारतवर्षके तमाम घरोंके खिलाफ बड़ा द्वेष था। इस कारण इन पाँचसौ वर्षमें सदा मारकाट, जोर-जुल्म वगैरह ही हुआ करे। जब बादशाह अकबरने भारतवर्ष की हुक्मतको अपने हाथमें लिया, तब थोड़ी सी शान्ति यहाँ

स्थापित हुई, और जनताको थोड़ी तसल्ली मिली। उस समय समाज, व्यापार और धर्मोंकी व्यवस्था भी कुछ ठीक हुई।

अकबर बादशाहको धार्मिक वार्तालापकी बड़ी रुचि थी। वह एक ऐसा धर्म चलाना चाहता था, जिसमें कि हिन्दू, मुसलमान, जैनी, कृष्णियन आदि सब मिल जायें। उसी के अनुसार उसने 'दीने-इलाही' नामके धर्मकी स्थापना की थी। पर वह उसीके जीवन तक क़ायम रहा, और बादमें नष्ट हो गया। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि अकबर बादशाहको धार्मिक मामलोंसे बड़ी दिलचस्पी थी, उसीके अनुसार उसकी इच्छा हीरविजय सूरिसे मिलनेकी हुई। उसके अनुसार हीरविजय सूरि गुजरातसे विहार कर फतेहपुर सीकरीमें बादशाहसे मिले। उनका बादशाहपर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने जीवदयाका काफी प्रचार कराया। तीर्थस्थानोंपर जो कर लगाया, उसे माफ कराया। जो टैक्स हिन्दुओंसे जजियाके नामसे वसूल किया जाता था, उसे माफ कराया। इसके अलावा बादशाहको वर्षमें कई महीने माँस खानेके त्याग कराये। इसके अलावा उन्होंने जीवदया सम्बन्धी कई पट्टे निकलवाये। इस समयमें जैनधर्म अवश्य चमका और काफी जनताने इस धर्मको अङ्गीकार किया।

बीर निर्वाणकी दूसरी शताब्दीके अन्तमें जैनसमाजमें द्वेष और कलहकी भावनाएँ बढ़ने लगीं और लोग ऐसे समयकी राह देखने लगे कि जब वे ज्ञाहिर रूपसे अलग हो जायें। बीर-

निर्वाणकी छठवीं शताब्दीमें मथुरामें दीर्घदर्शी स्कन्दिलाचार्यकी अध्यक्षतामें एक बड़ी समा हुई, जिसमें उन्होंने तो अनेकान्तवादके अनुसार दोनों पक्षोंको ठीक बताया, पर उसी समयसे दोनों समाज अर्थात् श्वेताम्बर और दिगम्बर प्रत्यक्ष रूपमें विभक्त हो गई ।

दिगम्बर सप्रदायमें भी एकसे एक बड़े विद्वान् व त्यागी मुनि आदि हुये । जैसे—भद्रबाहु स्वामी निमित्तज्ञानके धारक हुए । उनके शिष्य धरसेन हुए, जिन्होंने कई ग्रन्थ लिखे । वि० स० ७३५ के करीब द्राविड़ देशमें ‘दक्षिण मथुरा’ नामकी एक नगरी थी, जिसको आजकल ‘मदुरा’ कहते हैं, उसका राजा श्रीराजमल्ल था । उसका प्रधान मन्त्री श्रीचामुण्डराय भी एक पक्षा जैन था । इनके समयमें श्रीनेमिचन्द्र स्वामी हुये, जिन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे । वे एक धुरधर विद्वान् थे । आपके उपदेश से राजाने १५०००० दीनारोंके गाँव श्रीगोमटस्वामीके मन्दिर की सेवा आदिकेलिये प्रदान किये थे । श्रीनेमिचन्द्राचार्यने गोमटसार, लव्हियसार, विलोकसार आदि अनेक परमादरणीय सिद्धान्त ग्रन्थोंको रचा है । श्रीश्रभयनन्दिजी, श्रीवीरनन्दिजी श्रीहन्द्रनन्दिजी और कनकनन्दिजीआदि उस समय बड़े बड़े आचार्य हुए । श्रीश्रभयनन्दिजीके रचे हुए वृहजैतेन्द्र व्याकरण, गोमटसार टीका, कर्मप्रकृतिरहस्य आदि अनेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध हैं । इनके अतिरिक्त और भी अनेक विद्वान् हुये ।

जैसे—सिद्धसेन दिवाकर, विद्यानन्द, भट्टाकलङ्क, माघनन्दि, गुणनन्दि, जिनसेन स्वामी, गुणभद्र भद्रन्त, स्वामी समन्तभद्रा-चार्य आदि।

जैनधर्मपर और उसके साहित्यपर प्रकृतिने दुष्कालों द्वारा बड़ा धक्का पहुँचाया। विधर्मी द्वारा यानी शकराचार्यजी तथा उनके शिष्यों द्वारा इस धर्मपर बड़े बड़े आघात किए गये। तुर्कों पठानों के हमलों और लूट मारने जैनधर्मको बड़ा आघात पहुँचाया। इन सब वातोंका उदार जैनधर्मने बड़ी सहनशीलता और बड़ी बीरतासे मुक्ताविला किया। पर जैनधर्मावलम्बियोंकी आपसकी फूटने इसे बड़ा ज्वरदस्त नुक्सान पहुँचाया। क्योंकि यह कहावत प्रसिद्ध है ‘कि देतमें उपजे सब कोई साय, घरमें उपजे घर बह जाय।’ उसीका यह परिणाम आज दृष्टिगोचर होता है कि महावीर भगवान् और उनके निर्वाणके सैकड़ों वर्ष बाद तक भारतवर्षमें जैनियोंकी करोड़ों सख्या थी और बड़े बड़े राजा और रईस इस धर्मके मानने वाले थे। पर आपसकी फूट, जिसने जैनधर्मके साहित्य व ज्ञान और उसके समुदायको बहुत बड़ा नुक्सान पहुँचाया है, उसने आज बीसवीं शताब्दी तक भी इस समाजका पीछा नहीं छोड़ा है। जब कि समस्त भारतवर्षके धर्मावलम्बी, जैसे—हिन्दू, सिक्ख, आर्यसमाजी, कृष्णियन, मुसलमान आदि भरसक मिलनेका प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान समयमें भारतवर्षके तमाम विद्वानों और अगुआओं

का यह कथन व मन्त्रव्य है कि इस समय भारतवर्षके तमाम धर्मावलम्बियोंको बजाय आपसमें द्वेष और महाडा करनेके दूध और शक्तरके समान मिल जाना चाहिये। इससे इनका यह मतलब नहीं कि सबको अपने धर्मको छोड़ देना चाहिये। सबोंको अपने धर्मकी मान्यता करते हुए एक दूसरेके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिये। उसी अवस्थामें मनुष्य मात्रकी और मुख्यतया भारतवर्षकी हर प्रकारकी उन्नति हो सकती है। लेकिन क्या कारण है कि आज महावीर भगवान्‌के श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थानकवासी, तेरहपथी आदि अनेक पुत्र आपसमें प्रेम पूर्वक मिलकर नहीं रह सकते ? बजाय प्रेम-पूर्वक मिलकर रहने और जैनधर्मकी उन्नति करनेके हम यह देखते हैं कि आज हमारे श्वेताम्बर और दिगम्बर मन्दिर और मूर्तियोंके पीछे, स्थानकवासी और श्वेताम्बर स्थानक, मुख्यत्वात्, मूर्तिपूजा आदिके पीछे, तेरहपथी और स्थानकवासी जीवहिंसा रोकने या न रोकनेके सिद्धान्तपर, तथा दिगम्बर दिगम्बर, श्वेताम्बर श्वेताम्बर, स्थानकवासी स्थानकवासी आदि भी परस्परमें जितना कलह बढ़ा रही हैं, जितनी सम्पत्ति धूलमें मिला रही हैं, जितनी शक्तियाँ खर्च कर रही हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। एक दूसरेके खिलाफ पुस्तकें निकलवाना, पेन्फलेटें व नोटिसें छपवाना, पेपरोंमें एक दूसरेके खण्डन सम्बन्धी और द्वेषयुक्त लेख निकलवाना व कोर्टमें एक दूसरेके खिलाफ

मुकद्दमेवाच्ची करके हजारो नहीं, बल्कि लाखों रुपये पानीकी तरह वहां रहे हैं। इन सब प्रकारकी कलहोंका क्या कारण है ?

जो मनुष्य समाज-शास्त्रके ज्ञाता हैं, वे उन तत्त्वोंको भली प्रकार जानते हैं, जिनके कारण जातियों और धर्मोंका पतन, हाता है। किसी भी धर्म व समाजके पतनका आरम्भ उसी दिनसे प्रारम्भ हो जाता है, जिस दिनसे किसी न किसी छिद्र से उसके अन्तर्गत स्वार्थका कोडा घुस जाता है। जिस दिनसे लोगोंकी मनोवृत्तियोंके अन्दर विकार उत्पन्न हो जाता है, जिस दिनसे लोग व्यक्तिगत स्वार्थके या मान-बङ्डाईके फेर में पड़कर अपने जीवनकी नैतिकताको नष्ट करना प्रारम्भ कर देते हैं या दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि जब अमुक धर्म या सम्प्रदायके अनुयायियोंके दिल और दिमागमें किसी प्रकारका विचार उत्पन्न हो जाता है, तभी वह धर्म या सम्प्रदाय गढ़ेकी यानी अवनतिकी ओर जाने लगता है।

ससारमें धर्मकी सृष्टि ही इसीलिये हुई है कि वह मनुष्य प्रकृतिके कारण उत्पन्न हुई अकल्याणकर भावनाओंसे मनुष्य जातिकी रक्षा करे और सदा मनुष्यको न्याय मार्गको सफल बनाना सिखावे। बन्धुओ ! अगर यह हम लोगोंकी हार्दिक इच्छा है कि महावीर भगवान्के सिद्धान्तोंका घर घर प्रचार हो, हम सच्चे जैनधर्मके अनुयायी बनकर अपनी आत्माका उद्धार करें, ससारमें जीवित जातियोंमें गिने जायें, ससारमें हमारा मान हो,

और हमें ऐहलौकिक शान्तिके साथ पारलौकिक सुखकी प्राप्ति हो, तो हमें चाहिये कि हम हठवादिताको छोड़कर महावीर भगवान् के सच्चे अनुयायी बनें। जब तक हमारे हृदयमें स्वार्थ, धृणा, राग द्वेष और बन्धु विद्रोहके स्थानपर परमार्थ, प्रेम, बन्धुत्व और सहानुभूतिकी भावनाएँ आदि न होंगी, जबतक हम जड़ केलिये चेतनका और छिलकेकेलिये मिंगीका अपमान करते होंगे, तबतक जैनधर्मका, जैनसमाजका और अपना लौकिक शा पारलौकिक हित न कर सकेंगे।

दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिए कि आज जब हम भगवान् महावीरके अनुयायी जैनसमाजकी स्थितिको देखते हैं और उनके द्वारा होने वाले कर्मोंका अवलोकन करते हैं तो उसमें एक भयङ्कर विपरीतता मालूम होती है। अफसोस ! कहाँ तो मगवान् महावीरका उदार, महान् और दिव्य उपदेश और कहाँ वर्तमान जैनसमाज ! जिन महावीरका उपदेश आकाश से भी अधिक उदार और सागरसे भी अधिक गम्भीर था, उन्हींका अनुयायी जैनसमाज आज कितनी सङ्कीर्णताके दलदलमें फँसा हुआ है !

जिन वीर प्रभुने प्राणीमात्रसे मैत्रीभाव, उदार हृदय व प्रेम खनेका उदार सन्देश दिया था, उन्हींकी सन्तान आज आपस में इस बुरी प्रकार राग-द्वेष व लड़ भगड़कर दुनियोंके परदेसे अपने अस्तित्वको समेटनेकी तैयारियाँ कर रही हैं। जिस प्रकार

कि एक लकड़हारा जिस ढालपरवैठा हुआ हो, उसीको काट रहा हो, इस प्रकार आज हमारी समाज ससारकी निगाहमें अपनेको हास्यास्पद बना रही है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे समस्त जैन बान्धव वर्तमान भारतकी सामाजिक व राजनैतिक अवस्थाको ध्यानमें रखते हुए और अपने अटल और महान् अनेकान्तवादके सिद्धान्तको स्मरण करते हुए प्रेम-पूर्वक मिलकर रहेगे और राग-द्वेष व वैमनस्य रूपी वृक्षको जड़-मूलसे नष्ट कर देंगे। उसी अवस्था में हमारी विभाजित जैनसमाज सगठित होकर भगवान् महावीर के दिव्य और महान् सिद्धान्तोको ससारको बता सकेगी यानी जैनधर्मका प्रचार व अपनी आत्माका सुधार कर सकेगी और यही मनुष्य-जन्म पानेका सार है।

अहिंसाका स्वरूप

अहिंसा शब्द हननार्थक “हिंसी” धातुसे बना है। इससे हिंसाका अर्थ “किसी प्राणीको मारना या सताना” होता है। प्राणीको प्राणसे रहित करनेके निमित्त अथवा प्राणीको किसी प्रकारका दुःख देनेके निमित्त जो प्रयत्न किया जाता है, उसे “हिंसा” कहते हैं। इसके विपरीत किसी जीवको दुःख या कष्ट नहीं पहुँचाना, इसको “अहिंसा” कहते हैं।

पतञ्जलि-कृत योगशास्त्रके भाष्यकार अहिंसाका लक्षण लिखते हुए कहते हैं —

“सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनर्थद्रोह अहिंसा”

अर्थात् सब प्रकारसे, सब समयमें, सब प्राणियोंके साथ मत्री भावसे व्यवहार करना—उनसे प्रेम भाव रखना, इसीको “अहिंसा” कहते हैं।

कृष्ण भगवान्‌ने भी गीतामें कहा है —

“कर्मणा मनसा वाचा, सर्वभूतेषु सर्वदा ।
अङ्गेशजननं प्रोक्ता, अहिंसा परमपिंभि ॥”

अर्थात् मन, वचन तथा कर्मसे सर्वदा किसी भी प्राणीको किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं पहुँचाना, इसीको महर्पिंयोने 'अहिंसा' कहा है। इसी विषयको लेकर स्वयं भगवान् महावीर कहते हैं—

'सब प्राणियोंको आयु प्रिय है, सब सुखके अभिलापी हैं, दुःख सबके ग्रतिकूल है, वध सबको अप्रिय है, सब जीनेकी इच्छा रखते हैं, इससे किसीको मारना अथवा कष्ट पहुँचाना न चाहिये।'

जैनधर्मके तमाम आचार-विचार अहिंसाकी नींवपर रखे गये हैं। वैसे तो भारतवर्षके ब्राह्मण, बौद्ध आदि सभी प्रसिद्ध धर्म अहिंसाको सर्व-श्रेष्ठ धर्म मानते हैं। इन धर्मोंके प्राय सभी महापुरुषोंने अहिंसाके महत्त्व तथा उसकी उच्चताका बतलाया है, पर इस तत्त्वकी जितनी विस्तृत, जितनी सूक्ष्म और जितनी गहन मीमांसा जैनधर्ममे की गई है, उसकी शायद दूसरे किसी भी धर्ममें नहीं की गई है। जैनधर्मके प्रवर्तकोंने अहिंसा तत्त्व को उसकी चरम सीमापर पहुँचा दिया है।

वे केवल अहिंसाकी इतनी विस्तृत मीमांसा करके ही ऊप नहीं हो गये हैं, वल्कि उसको आचरण करके उसे व्यावहारिक रूप देकर भी उन्होने बतला दिया है। दूसरे धर्मोंमें अहिंसाका तत्त्व केवल कायिक रूप बनाकर ही समाप्त होगया है, पर जैनधर्म का अहिंसा तत्त्व उससे बहुत आगे वाचिक और मानसिक होकर आत्मिक रूप तक चला गया है।

कुछ वर्मोंमें अहिंसाकी मर्यादा मनुष्यजाति तक ही, अथवा वहुत आगे गई तो पशु और पक्षियोंके जगत्‌में जाकर समाप्त हो गई है, पर जैन अहिंसाकी मर्यादामें तमाम चराचर जीवोंका समावेश होनेपर भी वह अपरिमित ही रहती है। दूसरे शब्दोंमें यो कहना चाहिये कि जैनकी अहिंसा विश्वकी तरह अमर्यादित और आकाशकी तरह अनन्त है।

लेकिन जैनधर्मके इस महान् तत्त्वके यथार्थ रहस्यको समझनेका प्रयास वहुत ही कम लोगोंने किया है। जैनियोंकी इस अहिंसाके विषयमें जनताके अन्तर्गत वहुत अज्ञान और भ्रम फैला हुआ है।

वहुतसे घडे घडे अजैन विद्वान् इसको अव्यवहार्य, अनाचरणीय, आत्मधातक एव कायरताकी जननी समझकर इसको राष्ट्र नाशक बतलाते हैं। उन लोगोंके दिल और दिमागमें यह बात ज्ञारों से ठसी हुई है कि जैनियोंकी इस अहिंसाने देशको कायर और निर्वार्य बना दिया है। इसका प्रधान कारण यह है कि आधुनिक जैन-समाजमें अहिंसाका जो अर्थ किया जाता है, वह वास्तवमें ही ऐसा है। जैनधर्मकी असली अहिंसाके तत्त्व ने आधुनिक जैन समाजमें अवश्य कायरताका रूप घारण कर लिया है। इसी परिणामको देखकर यदि अजैन विद्वान् लोग उसको कायरता प्रधान धर्म मानने लग जायें तो आश्चर्य नहीं। परन्तु जैन अहिंसाका घास्तविक रूप वह नहीं है, जो

आधुनिक जैन समाजमें प्रचलित है। यह तो उसका विकृत (विगड़ा हुआ) रूप है। यह एक सैद्धान्तिक नियम है कि जब कोई धर्म या ताक्षत गिरती हुई अवस्थामें होती है, उस समय उसका ढाँचा व अनुयायियोंका जीवन बड़ा शिथिल व अनियमित हो जाता है। ठीक यही अवस्था इस समय जैनधर्म व उसके अनुयायियोंकी होरही है।

जैन अहिंसाके इस विकृत रूपको छोड़ कर यदि हम उसके शुद्ध और असली रूपको देखें तो ऊपरके सब आक्षेपोंका निराकरण हो जाता है। इस स्थानपर हम उन चन्द आक्षेपोंके निराकरण करनेकी चेष्टा करते हैं, जो आधुनिक विद्वानोंके द्वारा जैन अहिंसापर लगाये जाते हैं।

पहिला आक्षेप यह किया जाता है कि जैनधर्मके प्रवर्तकोंने अहिंसाकी मर्यादाको इतनी सूक्ष्म कोटिपर पहुँचा दिया है कि जहाँपर जाकर वह क़रीब-क़रीब अव्यवहार्य हो गई है। जैन-अहिंसाको जो कोई पूर्ण रूपसे पालन करना चाहे, उसको जीवन की तमाम क्रियाओंको बन्द कर देना पड़ेगा और निश्चेष्ट होकर देहको त्यागना पड़ेगा।

इसमें सन्देह नहीं कि जैन-अहिंसाकी मर्यादा बहुत ही विस्तृत है और उसका पालन करना सर्वसाधारणकेलिये बहुत ही कठिन है। इसी कारण जैनधर्मके अन्तर्गत पूर्ण अहिंसाके अधिकारी केवल मुनि ही माने गये हैं, साधारण

गृहस्य नहीं। पर इसकेलिये यह कहना कि यह सर्वथा श्रवहार्य है अथवा आत्मधातक है, विलकुल भ्रममूलक इस वातको प्राय सब लोग मानते तथा जानते हैं कि अहिंसत्वके प्रवर्तकोने अपने जीवनमें इस तत्वका पूर्ण अभियान किया था। उनके उपदेशसे प्रेरित होकर लायो आदमी उन अनुयायी हुए थे, जो कि आजतक उनके उपदेशका पालन करते चले आते हैं। पर किसीको आत्मधात करनेकी अश्यकता नहीं हुई। इस वातसे स्वयं सिद्ध होजाता है कि जैन अहिंसा अव्यवहार्य नहीं है। इतना अवश्य है कि जो लोग अपने जीवनका सदूच्यय करनेको तैयार नहीं हैं, जो अपने स्वार्थोंका भोग देनेमें हिचकते हैं, उन लोगोंकेलिये यह सब अवश्य अव्यवहार्य है। क्योंकि अहिंसाका तत्त्व आत्माउद्धारसे बहुत सम्बन्ध रखता है। इस कारण जो लोग मुमुक्षु हैं—अपनी आत्माका उद्धार करनेके इच्छुक हैं, उनको जैन अहिंसा कभी आत्म-नाशक या अव्यवहार्य मालूम न होती। पर स्वार्थ लोकुप और विलासी आदमियोंकी तो वही दूसरी है।

जैन-अहिंसापर दूसरा सवाल घडा आचेप यह किया जाता है कि उस अहिंसाके प्रचारने भारतवर्षको कायर और गुलामना दिया है। इस आचेपके करनेवालोंका कथन है कि अहिंसा जन्य पापोंसे डरकर भारतीय लोगोंने मास स्याना छोड़ दिया

एवं यह निश्चय है कि मास-भक्षणके विना शरीरमें बल और मनमें शौर्य नहीं रह सकता। वहादुरी और बलकी कमी हो जानेके कारण यहाँकी प्रजाके हृदयसे युद्धकी भावना बिलकुल नष्ट होगई, जिससे विदेशी लोगोंने लगातार इस देशपर आक्रमण करके उसे अपने आधीन कर लिया। इस प्रकार अहिंसाके प्रचारसे भारतवर्ष गुलाम होगया और यहाँकी प्रजा पराक्रम-रहित होगई।

अहिंसापर किया गया यह आक्षेप बिलकुल प्रमाण-रहित और युक्ति शून्य है। इम कल्पनाकी जड़में बहुत बड़ा अज्ञान भरा हुआ है। सबसे पहिले हम ऐतिहासिक दृष्टिसे इम प्रश्नपर विचार करेंगे। भारतका प्राचीन इतिहास डङ्केकी चोट इस घातको घतला रहा है कि जबतक इस देशपर अहिंसा-प्रवान जातियोंका राज्य रहा, तबतक यहाँकी प्रजामें शान्ति, शौर्य, सुख और सन्तोष यथेष्ट रूपसे व्याप्त थे। सम्राट् चन्द्रगुप्त और अशोक अहिंसाधर्मके बड़े उपासक और प्रचारक थे। पर उनके कालमें भारत कभी पराधीन नहीं हुआ। उम समय यहाँकी प्रजामें जो वीर्य, शान्ति और साहस था, वह आजकलकी दुनियामें कहीं नसीब नहीं हो सकता। अहिंसाधर्मके श्रेष्ठ उपासक नृपतियोंने अहिंसा धर्मका पालन करते हुये भी अनेक युद्ध किये और अनेक शत्रुओंको पराजित किया था। जिस धर्मके अनुयायी इनने पराक्रमशील और

शूरवीर थे और जिन्होंने अपने पराक्रमसे देशको तथा अपने राज्यको इतना समृद्ध और सत्त्वशील बनाया था, उस धर्मके प्रचारसे देश और प्रजाकी अधोगति किस प्रकार हो सकती है ? कायरता या गुलामीका मूल कारण अहिंसा कदापि नहीं हो सकती । जिन देशोंमें हिंसा खूब ज़ोर शोरसे प्रचलित है, जिस देशके निवासी अहिंसाका नामतक नहीं जानते, केवल मांस ही जिनका प्रधान आहार है और जिनकी वृत्तियाँ हिंसक पशुओंसे भी अविक कूर हैं, क्या वे देश हमेशा आजाद रहते हैं ? रोमन साम्राज्यने किस दिन अहिंसाका नाम सुना था ? उसने कब मास भक्षणका त्याग किया था ? फिर वह कौनसा कारण या, जिससे उसका नाम दुनियाके परदेसे मिलकुल मिट गया ।

तुर्क प्रजाने कब अपनी हिंसक और कूर वृत्तियोंको छोड़ा था ? फिर क्या कारण है कि आज वह इतनी मरणोन्मुख दशामें अपने दिन बिता रही है ? समयम् भारतवर्षका ही उदाहरण लीजिये । मुगल-सम्राटोंने किम दिन अहिंसाकी आराधना की थी ? उन्होंने कब पशुवधको छोड़ा था ? फिर क्या कारण है कि उनका अस्तित्व नष्ट हो गया ? इन उदाहरणोंसे स्पष्ट ज्ञाहिर होता है कि देशकी राजनैतिक उन्नति और अवनतिमें हिंसा अथवा अहिंसा कोई कारणभूत नहीं है । देश क्यों गुलाम होते हैं ? जातियाँ क्यों नष्ट हो जाती हैं ? साम्राज्य क्यों विघर

जाते हैं ? इन घटनाओंके मूल कारण हिंसा और अहिंसामें ढूँढनेसे नहीं मिल सकते । जितनी भी जातियाँ अथवा देश-गुलाम होते हैं, वे सब नैतिक कमज़ोरीके कारण अथवा यों कहिये कि आसुरी सम्पदाके आधिक्यके कारण होते हैं ।

अहिंसाके भेद

जैन-आचार्योंने अहिंसाको कई भेदोंमें विभक्त कर दिया है । अहिंसाके मुख्य चार भेद किये हैं, वे इस प्रकार हैं —

१—सकल्पी-हिंसा, २—आरम्भी-हिंसा, ३—व्यवहारी हिंसा,
और ४—विरोधी-हिंसा ।

१—किसी भी प्राणीको सकल्प अर्थात् इरादा करके बुरे परणामोंसे मारना, उसे 'सकल्पी-हिंसा' कहते हैं । जैसे कोई चींटी जा रही हो, उसे केवल हिंसक भावनासे जान वूँफकर मार डालना ।

२—गृहकार्यमें, स्नानमें, भोजन बनानेसे, खाड़ देनेमें, जल पीने आदिमें जो-जो अप्रत्यक्ष जीव-हिंसा होजाती है, उसे 'आरम्भी-हिंसा' कहते हैं ।

३—व्यापारमें, व्यवहारमें, चलनेमें, फिरनेमें जो हिंसा होती है, उसे 'व्यवहारी-हिंसा' कहते हैं ।

४—विरोधीसे अपनी आत्म-रक्षा करनेके निमित्त अथवा किसी आततायी अथवा हमला करनेवालेसे अपने राज्य, देश-

अथवा कुद्रुम्बकी रक्षा करनेके निमित्त जो हिंसा करनी पडती है, उसे 'विरोधी-हिंसा' कहते हैं।

इनके पश्चात् स्थूल अहिंसा और सूक्ष्म-अहिंसा, द्रव्य-अहिंसा और भाव-अहिंसा, देश अहिंसा और सर्व-अहिंसा इत्यादि और भी कई भेद किये गये हैं।

१—भूलसे, अज्ञानतासे, अनज्ञानपनेसे अगर किसी चलते फिरते जीवकी हिंसा होजाती है, यह ख्याल करते हुये कि कोई जीव मर न जाय, उसे 'स्थूल-अहिंसा' कहते हैं।

२—जान करके या अनज्ञान करके किसी भी प्रकारके प्राणी-को कष्टतक न पहुँचानेको 'सूक्ष्म-अहिंसा' कहते हैं।

३—किसी भी प्रकारके जीवको अपने शरीरसे कष्ट न पहुँचानेको 'द्रव्य अहिंसा' कहते हैं।

४—किसी भी प्रकारके जीवको भावों तकसे कष्ट देनेका भाव न रखनेको 'भाव-अहिंसा' कहते हैं।

५—किसी भी प्रकारकी आशिक अहिंसाकी प्रतिज्ञाको 'देश-अहिंसा' कहते हैं।

६—सार्वदेशिक अहिंसाकी प्रतिज्ञाको 'सर्व-अहिंसा' कहते हैं।

अब हम यह बतानेका प्रयत्न करेंगे कि गृहस्थ और मुनि कहाँतक अहिंसाव्रत का पालन करते हैं।

यद्यपि आत्माके प्रभरत्वकी प्राप्तिकेलिये और ससारके सर्व बन्धनोंसे मुक्त होनेकेलिये अहिंसाका पूर्ण रूपसे पालन करना आवश्यक है, तथापि संसारनिवासी तमाम मनुष्योंको इतनी चोग्यता और इतनी शक्ति नहीं कि वे अहिंसाका पूर्ण रूपसे पालन कर सकें, इस कारण शाष्कारो अथवा तत्त्वज्ञोंने गृहस्थोंकेलिये न्यूनाधिक अहिंसाके मार्ग बता दिये हैं।

अहिंसाके भेदोंकी तरह उनके अधिकारियोंके भी जुटेजुटे भेद कर दिये हैं। जो गृहस्थ अथवा संसारी मनुष्य पूर्ण रीतिसे अहिंसाका पालन नहीं कर सकते, उन्हे श्रावक, उपासक, अणु-ब्रती, देशब्रती इत्यादि नामोंसे सम्बोधित किया गया है।

उपरोक्त चार प्रकारकी हिंसाओंमें गृहस्थ केवल सकलपी हिंसा का त्यागी होता है। इसके अलावा वह भाव-हिंसा और स्थूल-हिंसा का भी त्यागी हो सकता है। शेष हिंसाएँ गृहस्थको क्षम्य होती हैं। गृह कार्यमें होनेवाली आरम्भी हिंसा, व्यापारमें होने वाली व्यावहारिक-हिंसा तथा आत्म रक्षाके निमित्त होनेवाली विरोधी हिंसा अगर एक श्रावक त्यागपूर्वक, ध्यानपूर्वक और अपनी मनोभावनाओंको शुद्ध रखता हुआ करता है तो वह बहुत सूक्ष्म रूपमें दोषका भागी होता है।

जो प्राणी अहिंसा-ब्रतका पूर्ण अर्थात् सूक्ष्म रीतिसे पालन करता है, उसको जैनशास्त्रोंमें मुनि, भिज्जु, श्रमण अथवा सयमी शब्दोंसे सम्बोधित किया गया है। ऐसे लोग ससारके सब कामों

से दूर और अलिप्त रहते हैं। उनका कर्तव्य केवल आत्म-कल्याण करना तथा मुमुक्षुजनोंको आत्म कल्याणका मार्ग बताना रहता है। उनकी आत्मा विषय विकार तथा कपाय-भावसे विलक्षण परे रहती है, उनकी दृष्टिमें जगत्‌के तमाम प्राणी आत्मवत्‌ गोचर होते हैं, अपने और परायेका द्वेषभाव उनके द्वदयमेंसे नष्ट हो जाता है, उनके मन, वचन, और काय, तीनों एक रूप हो जाते हैं, जो पुरुष इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त कर लेते हैं, वे 'महाब्रती' कहलाते हैं। वे पूर्ण-अहिंसाको पालन करनेमें समर्थ होते हैं। ऐसे महाब्रतियोंकेलिये स्वार्थ हिंसा और परार्थ-हिंसा, दोनों वर्जनीय हैं। वे सूदूम तथा स्थूल, दोनों प्रकार की अहिंसासे मुक्त रहते हैं।

यहाँ एक प्रश्न यह हो सकता है कि इस प्रकारके महाब्रतियोंसे राने पीने, उठने-बैठने, चलने फिरने व सोने आदिमें कभी कभी हिंसा अवश्य हो जाती होगी। फिर वे हिंसाजन्य पापोंसे वच कैसे सकते हैं?

उत्तर—ये महाब्रती सदा ध्यानपूर्वक, देखभालकर अपनी सारी क्रिया किया करते हैं। इससे स्थूल हिंसाकी कोई सम्भासना नहीं रहती।

हाँ, यद्यपि अनिवार्य सूदूम जोव-हिंसा उक्त क्रियाओंमें हुआ करती है, तथापि उनकी मन, वचन और कायकी क्रतुई कोई भावना नहीं रहती। इस कारण वह दोषी नहीं होते हैं। इसके

अलावा अगर कोई हिंसा भूल-चूक या अज्ञानतामें होजाती है तो उसकेलिये मुनि सुवह-शाम प्रतिदिन प्रतिक्रमण, ज्ञान और पश्चात्ताप करते हैं। इस प्रकार वे सदा हर प्रकारकी हिंसासे मुक्त रहते हैं।

हिंसाका विशेष विवेचन

प्रमत्त भावसे ग्राणियोंके ग्राणोंका जो नाश किया जाता है, उसीको 'हिंसा' कहते हैं। जो प्राणी विषय अथवा कपायके वशीभूत होकर किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाता है, वही हिंसाजनक पापका भागी होता है। इस हिंसाकी व्याप्ति केवल शारीरजन्य कष्टक ही नहीं, पर मन और वचनजन्य कष्टक भी है। जो विषय तथा कपायके वशीभूत होकर दूसरोंके प्रति अनिष्ट चिन्तन या अनिष्ट भापण करता है, वह भी भावहिंसाका दोषी माना जाता है। इसके विपरीत विषय और कपायसे विरक्त मनुष्यके द्वारा किसी प्रकारकी हिंसा भी हो जाय तो उसकी वह परमार्थहिंसा हिंसा नहीं कहलाती। मान लीजिये कि एक बालक है, उसमें किसी प्रकारकी खरांब प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्तिको दूर करनेकी खातिर उसके पिता अथवा गुरु केवल मात्र उसकी कल्याण-कामनासे प्रेरित होकर कठोर वचनोंसे उसका ताङ्गन करते हैं अथवा उसे शारीरिक दण्ड भी देते हैं तो उसके लिये कोई भी उस गुरु अथवा पिताको दण्डनीय अथवा निन्दनीय नहीं मान सकता, क्योंकि दण्ड देते समय उनकी

वृत्तियोंमें किसी प्रकारकी मलीनताके भाव न थे। उनके हृदयमें उस समय भी उज्ज्वल, अहिंसक और कल्याणकारक भाव कार्य कर रहे थे। इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य द्वेषभावके वश होकर किसी दूसरे व्यक्तिको मारता है अथवा गालियाँ देता है, तो समाजमें निन्दनीय और राज्यसे दण्डनीय होता है, क्योंकि उस व्यवहारमें उसकी भावनाएँ कलुपित रहती हैं, उसका आशय दुष्ट रहता है। यद्यपि उपरोक्त दोनों प्रकारके व्यवहारोंका बाह्य स्वरूप एक ही प्रकारका है, तथापि भावनाओंके भेदसे उनका अन्तर्भूप बिलकुल एक दूसरेसे विपरीत है। इसी प्रकारका भेद द्रव्य और भाव हिंसाके स्वरूपमें होता है।

बास्तवमें यदि देखा जाय तो हिंसा और अहिंसाका रहस्य मनुष्यकी मनोभावनाओंपर अवलम्बित है। किसी भी कर्मके शुभाशुभ बन्धका आधार कर्त्ताके मनोभावोंपर अवलम्बित है। जिस भावसे प्रेरित होकर मनुष्य जो कर्म करता है, उसीके अनुसार उसे उसका फल भोगना पड़ता है। कर्मकी शुभाशुभता उसके स्वरूपपर नहीं, प्रत्युत कर्त्ताकी मनोभावनाओंपर निर्भर है। जिम कर्मके करनेमें कर्त्ताका विचार शुभ है, वह 'शुभ कर्म' कहलाता है। जिस कर्मके करनेमें उसका विचार अशुभ है, वह 'अशुभ कर्म' कहलाता है।

किसी जीवको कष्ट पहुँचानेमें जो अशुभ परिणाम निमित्त-भूत होते हैं, उसीको हिंसा कहते हैं और वाय दृष्टिसे हिंसा

मालूम होनेपर भी जिसके आन्तर्य परिणाम शुद्ध रहते हैं, वह हिंसा नहीं कहलाती। इसके विपरीत जिसका मन शुद्ध अथवा सयमित नहीं है, जो विषय तथा कपायसे लिप्त है, वह वाण स्वरूपमें अहिंसक दियाई देनेपर भी हिंसक है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिसका मन दुष्ट भावोंसे भरा हुआ है, वह यदि कायिक रूपमें हिंसा नहीं करता है, तो भी हिंसक ही है।

अनकृतीय प्रत्येक समझदार मनुष्य यह जानता है कि अहिंसा और क्षमा दोनों वस्तुएँ बहुत ही उज्ज्वल एवं मनुष्य जातिको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली हैं। यदि इन दोनोंका आदर्श रूप ससारमें प्रचलित हो जाय तो ससारसे आज ही शुद्ध, रक्तपात और जीवन-कलहके दृश्य मिट जाय और शान्तिका राज्य हो जाय। पर यदि कोई व्यक्ति इस आशासे प्रयत्न करे कि समस्त ससारमें क्षमा और शान्तिका साम्राज्य होजाय तो यह अमम्भव है, क्योंकि समस्त समाज इन तत्वोंको एकान्तरूपसे खींचकार नहीं कर सकती। प्रकृतिने मनुष्य स्वभावकी रचना ही कुछ ऐसे ढङ्गसे की है कि जिससे वह शुद्ध आदर्शको ग्रहण करनेमें असमर्थ रहता है। मनुष्य-प्रकृतिकी बनावट ही पाप और पुण्य, गुण और दोप एवं प्रकाश और अन्धकारके मिश्रण से की गई है। चाहे आप इसे प्रकृति कहें, चाहें कर्म, पर एक तत्त्व ऐसा मनुष्य स्वभावमें मिश्रित है कि जिससे उसके अन्तर्गत चित्साहके साथ प्रमादका, क्षमाके साथ क्रोधका, बन्धुत्वके साथ

अहंकारका और अहिंसाके साथ हिंसक प्रवृत्तिका समावेश अनिचार्य रूपसे पाया जाता है। कोई भी मनस्तत्त्वका वेत्ता मनुष्यहृदयका इस प्रकृति या विकृति या कर्मकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

आधुनिक ससारमें दो विरुद्ध मार्ग एक साथ प्रचलित होरहे हैं। एक मार्ग तो अहिंसा, चमा, दया आदिका, दूसरा हिंसा, युद्ध, बन्धु विद्रोह आदिका। पहिले मार्गका आदर्श मनुष्य जातिको उच व शुद्ध अवस्थामें ले जाता है, जब कि दूसरे मार्गका आदर्श मनुष्यको दुरित और नीच अवस्थामें ले जाता है।

इसलिये यह हर मनुष्य (गृहस्थ) ने लिये अत्यन्त आवश्यक है कि जहाँतक सुमिन होसके, वहाँतक वह हिंसाकृत कार्यों की कमी करता रहे। कारण कि अहिंसा इस भव और परभव, दोनोंमें अपार आनन्द देनेवाला तत्त्व है। यहाँतक कि यह मनुष्यको मोक्ष प्राप्त करा सकती है।

यही जेनधर्मकी अहिंसाका सञ्चित स्वरूप है।



॥
॥

ਦ੍ਰਿਕਤਾਂਗ ਖਾਣਡ

॥
॥

“रस-पूरित और अल्कार-भूषित काव्य मनुष्य-चरित्र
के भव्य भवनका निर्माण करते हैं, तो उस दार्शनिक
तत्त्व उसकी नींवको आपाताल सुदृढ़ करते हैं।”

—तत्त्व-मुमुक्षु ।

द्वितीय खण्ड

—१३३२०८६—

सप्तभङ्गी

हृष्टुत्वके स्वरूपका सम्पूर्ण विचार प्रदर्शित करनेके लिये जैनाचार्योंने सात प्रकारके वाच्योंकी योजना की है। वह इस भाँति है —

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| १—स्यादस्ति | कदाचित् है। |
| २—स्यान्नास्ति | कदाचित् नहीं है। |
| ३—स्यादस्ति नास्ति | कदाचित् है और नहीं है। |
| ४—स्यादवक्तव्यम् | कदाचित् अवाच्य है। |
| ५—स्यादस्ति अवक्तव्यम् | कदाचित् है आर अवाच्य है। |
| ६—स्यान्नास्ति अवक्तव्यम् | कदाचित् नहीं है और अवाच्य है। |
| ७—स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्यम् | कदाचित् है, नहीं है और अवाच्य है। |

उपरोक्त सात नयोंको घटपर उतारते हैं—

१—यह निश्चय है कि घट सत् है, मगर अमुक अपेक्षासे, इस वाक्यसे अमुक दृष्टिसे घटमें मुख्यतया अस्तित्व-धर्मका विधान द्वेता है।

२—यह निश्चय है कि घट असत् है, मगर अमुक अपेक्षासे, इस वाक्य द्वारा घटमें अमुक अपेक्षासे मुख्यतया नास्तित्व-धर्मका विधान होता है।

३—किसीने पूछा कि—घट क्या अनित्य और नित्य, दोनों धर्मवाला हैं? उसके उत्तरमें कहना कि “हाँ, घट अमुक अपेक्षासे अवश्यमेव नित्य और अनित्य है”, इस वाक्यसे मुख्यतया अनित्य धर्मका विधान और उसका निपेध क्रमशः किया जाता है।

४—घट किसी अपेक्षासे अवक्तव्य है। घट अनित्य और नित्य दोनों तरहसे क्रमशः बताया जा सकता है। जैसा कि तो सरे शब्द-प्रयोगमें कहा गया है। मगर यदि क्रम विना, युगपत् (एक ही साथ) घटकों नित्य और अनित्य बताना हो तो उसके लिये जैन-शास्त्रकारोंने नित्यानित्य या दूसरा कोई शब्द उपयोगी न समझकर इस ‘अवक्तव्य’ शब्दका व्यवहार किया है। यह भी ठीक है। घटजेसे अनित्य रूपसे अनुभवमेआता है, उसी तरह नित्य रूपसे भी अनुभवमेआता है। इससे घट, जेसेकेवल अनित्य रूपमें नहीं ठहरता, वैसे ही केवल नित्य रूपमें भी घटित नहीं होता है। बल्कि वह नित्यानित्य रूप विलक्षण जातिवाला ठहरता है। ऐसी हालतमें घटके यदि यथार्थ रूपमें नित्य और अनित्य, दोनों तरहसे, क्रमशः नहीं, किन्तु एकही साथ बताना हो तो शास्त्रकार कहते हैं कि इस तरह बतानेकेलिये कोई शब्द नहीं है। अत घट अवक्तव्य है।

यों चार जो वचन प्रकार बनाये गये, उनमें से मूल तो आरम्भके दो ही हैं। पिछले दो वचन प्रकार, प्रारम्भके सयोगसे उत्पन्न हुए हैं। कदाचित् अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है, कदाचित् अमुक अपेक्षासे घट नित्य ही है, ये प्रारम्भके दो वाक्य जो अर्थ बताते हैं, वही अर्थ तीसरा वचन-प्रकार क्रमशः बताता है और उसी अर्थको चौथा वाक्य युगपन्—एक साथ बताता है। इस चौथे वाक्यपर विचार करनेसे यह समझमें आ सकता है कि घटमें अवक्तव्य धर्म भी है परन्तु घटको कभी एकान्त अवक्तव्य नहीं मानना चाहिये। यदि ऐसा मानेगे तो घट जो अमुक अपेक्षासे नित्य रूप और अमुक अपेक्षासे अनित्य रूपसे अनुभवमें आता है, उसमें वाधा आ जायगी। अतएव ऊपरके चारों वचन प्रयोगोंको 'स्यात्' शब्दसे युक्त अर्थात् कदाचित् अमुक अपेक्षासे समझना चाहिये।

इन चार वचन प्रकारोंसे अन्य तीन वचन प्रयोग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं।

५—अमुक अपेक्षासे घट नित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है।

६—अमुक अपेक्षासे घट अनित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है।

७—अमुक अपेक्षासे घट नित्यानित्य होनेके साथ ही अवक्तव्य भी है।

सामान्यतया घटका तीन तरहसे—नित्य, अनित्य और अवक्तव्य रूपसे विचार किया गया है। इन तीन वचन-प्रकारोंको उक्त चार वचन-प्रकारोंके साथ मिला देनेसे सात वचनप्रकार होते हैं। इन सात वचन-प्रकारोंको जैन-शास्त्रोंमें ‘सप्तभङ्गीन्याय’ कहते हैं। सप्त यानी सात और भङ्ग यानी वचन अर्थात् सात वचन-प्रकारके समूहको सप्तभङ्गीन्याय कहते हैं। इन सातों वचन-प्रयोगोंको भिन्न-भिन्न अपेक्षासे भिन्न-भिन्न दृष्टिसे समझना चाहिये। किसी भी वचन-प्रकारको एकान्त दृष्टिसे नहीं मानना चाहिये। यह बात तो सरलतासे समझमें आसकती है कि यदि एक वचन-प्रकारको एकान्त दृष्टिसे मानोगे तो दूसरे वचन-प्रकार असत्य होजायेंगे।

यह सप्तभङ्गी (सात प्रयोग-वचन) दो भागोंमें विभक्त की जाती है। एकको कहते हैं सकलादेश और दूसरेको विकलादेश। अमुक अपेक्षासे यह घट अनित्य ही है, इस वाक्यसे अनित्य-धर्मके साथ रहते हुये घटके दूसरे धर्मोंको बोधन करनेका कार्य सकलादेश करता है। सकल यानी तमाम धर्मोंका आदेश यानी कहनेवाला। यह प्रमाण-वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि प्रमाण वस्तुके तमाम धर्मोंको स्पष्ट करनेवाला माना जाता है। अमुक अपेक्षासे घट अनित्य ही है, इस वाक्यसे घटके केवल अनित्य-धर्मको बतानेका कार्य विकलादेशका है। विकल यानी अपूर्ण अर्थात् अमुक वस्तु-धर्मको आदेश यानी कहनेवाला विकलादेश

है। विकलादेश नय वाक्य माना गया है। नय प्रमाणका अंश है। प्रमाण सम्पूर्ण वस्तुको प्रदर्शन करता है और नय उसके अंशको।

इस बातको प्रत्येक व्यक्ति समझना है कि शब्द या वाक्यका कार्य अर्थ-बोध करनेका होता है। वस्तु के सम्पूर्ण ज्ञानको प्रमाण कहते हैं, और उस ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला वाक्य प्रमाण-वाक्य कहलाता है। वस्तुके किसी एक अशके ज्ञानको नय कहते हैं, और उस एक अशके ज्ञानको प्रकाशित करनेवाला नय वाक्य कहलाता है। इन प्रमाण-वाक्यों और नय वाक्योंको सात विभागोंमें वॉटनेहीका नाम “सप्तभङ्गी” है * ।

* यह विषय अत्यन्त गहन और विस्तृत है। “सप्तभङ्गीतरक्षिणी” नामक जेन-तक्के ग्रन्थमें इस विषयका प्रतिपादन किया गया है। “सम्मति-तर्क-प्रकरण” आदि जेन न्याय शास्त्रोंमें इस विषयका बहुत गम्भीरतासे विचार किया गया है।

अनेकान्तवाद

(स्याद्वाद-दर्शन)

भूत-प्रतीय प्राचीन तथा अर्वाचीन कतिपय दार्शनिक विद्वानों ने जैनदर्शनके अनेकान्तवादका जो स्वरूप सभ्य ससारके सामने रखा है, वह उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। उन्होंने अनेकान्तवादका स्वरूप-प्रदर्शन और उसके प्रतिवादा-त्मक आलोचना करते समय, बहुधा साम्प्रदायिक विचारोंसे ही काम लिया है अर्थात् साम्प्रदायिकत्व मोहके कारण ही कितनेक विद्वानोंने अनेकान्तवादको सदिग्ध तथा अनिश्चितवाद कहकर उसे पदार्थ-निर्णयमें सर्वथा अनुपयोगी और उन्मत्त पुरुषोंका प्रलापमात्र बतला दिया है। पर वास्तवमें वात यह है कि अनेकान्तवादका सिद्धान्त बड़ा ही सुव्यवस्थित और परिमार्जित सिद्धान्त है। इसका स्वीकार मात्र जैनदर्शनने ही नहीं किया है, बल्कि अन्यान्य दर्शन-शास्त्रोंमें भी इसका बड़ी प्रौढतासे समर्थन किया गया है कि अनेकान्तवाद वस्तुत अनिश्चित एव सदिग्धवाद नहीं, किन्तु वस्तुस्वरूपके अनुरूप सर्वाङ्गपूर्ण एक सुनिश्चित सिद्धान्त है।

विचार करना, देखना या कहना। अनेकान्तवादका एक ही शब्दमें हम अर्थ करना चाहें तो उसे ‘अपेक्षावाद’ कह सकते हैं। एक ही वस्तुमें अमुक-अमुक अपेक्षासे भिन्न-भिन्न धर्मोंको स्वीकार करने हीका नाम अनेकान्तवाद यानी स्याद्वाद है। जैसे एक ही पुरुष भिन्न भिन्न लोगोंकी अपेक्षासे पिता, पुत्र, चाचा, भतीजा, पति, मामा, भानेज आदि माना जाता है। इसी प्रकार एक ही वस्तुमें भिन्न भिन्न अपेक्षासे भिन्न-भिन्न धर्म माने जाते हैं। एक ही घटमें नित्यत्व और अनित्यत्व आदि विरुद्ध रूपमें दिखाई देनेवाले धर्मको तद्रूपमें ही स्वीकार करनेका नाम एकान्तवाद-दर्शन है। स्याद्वाद, अपेक्षावाद और कथचिद्वाद अनेकान्तवादके ही पर्याय — समानार्थवाची शब्द हैं।

जैनदर्शन किसी भी पदार्थको एकान्त नहीं मानता। उसके मतसे पदार्थमात्र ही अनेकान्त है। केवल एक ही दृष्टिसे किये गये पदार्थ-निश्चयको जैनदर्शन अपूर्ण समझता है। उसका कथन है कि वस्तुका स्वरूप ही कुछ ऐसे ढङ्का है कि वह एक ही समयमें एक ही शब्दके द्वारा पूर्णतया नहीं कहा जा सकता। एक ही पुरुष अपने पुत्रकी अपेक्षासे पिता, अपने भतीजेकी अपेक्षासे चचा और अपने चचाकी अपेक्षासे भतीजा होता है। इस प्रकार परस्पर दिखाई देनेवाली बातें भी भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे एक ही मनुष्यमें स्थित रहती हैं। यही द्वालत प्राय सभी वस्तुओंकी है। भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे

सभी वस्तुओंमें सत्, असत्, नित्य और अनित्य आदि गुण पाये जाते हैं।

मान लीजिये एक घडा है। हम देखते हैं कि जिस मिट्टीसे घडा बना है, उसीसे और भी कई प्रकारके वर्तन बनते हैं। पर यदि उस घडेको फोड़कर हम उसी मिट्टीका बनाया हुआ कोई दूसरा पदार्थ किसीको दिखलावें तो वह कदापि उसको घडा नहीं कहेगा। उसी मिट्टी और द्रव्यके होते हुए भी उसको घडा न कहनेका कारण यह है कि उसका आकार घडेका-सा नहीं है।

इससे सिद्ध होता है कि घडा मिट्टीका एक आकार-विशेष है। भगर यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि आकार विशेष मिट्टीसे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता। आकार परिवर्तित की हुई मिट्टी ही जब घडा, सिकोरा, मटका आदि नामोंसे सम्बोधित होती है तो उसी स्थितिमें आकार मिट्टीसे सर्वथा भिन्न नहीं कहे जा सकते। इससे साफ जाहिर है कि घडेका आकार और मिट्टी, ये दोनों घडेके स्वरूप हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों स्वरूपोंमें विनाशी रूप कौनसा है और भुव कौनसा है? यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है कि घडेका आकार-स्वरूप विनाशी है, क्योंकि उसके कई रूप बनते और विगड़ते रहते हैं। और घडेका जो दूसरा स्वरूप मिट्टी है, वह अविनाशी है, क्योंकि उसका नाश होता ही नहीं।

इतने विवेचनसे हम इस बातको स्पष्ट समझ सकते हैं कि घड़ेका एक स्वरूप विनाशी है और दूसरा ध्रुव। इसी बातको यदि हम यो कहें कि विनाशी रूपसे घड़ा अनित्य है और ध्रुव रूपसे नित्य है तो कोई अनुचित न होगा। इसी तरह एक ही वस्तुमें नित्यता और अनित्यता सिद्ध करनेवाले सिद्धान्त ही को अनेकान्तवाद कहते हैं।

अनेकान्तवादकी सीमा केवल नित्य और अनित्य, इन्हीं दो बातोंमें समाप्त नहीं हो जाती, सत् और असत् आदि दूसरे विश्व रूपमें दिखलाई देनेवाली बातें भी इस तत्त्वज्ञान के अन्दर सम्मिलित हो जाती हैं। घड़ा आँखोंसे स्पष्ट दिखलाई देता है। इससे हर कोई सहज ही कह सकता है कि “वह सत् है”, भगव न्याय कहता है कि आमुक दृष्टिसे वह असत् भी है। यह बात वडी गम्भीरताके साथ मनन करने योग्य है कि प्रत्येक पदार्थ किन बातोंके कारण सत् कहलाते हैं। रूप, रस, गन्ध, आकागदि अपने ही गुणों और अपने ही वर्मांसे, प्रत्येक पदार्थ सत् होता है। दूसरेके गुणोंसे कोई पदार्थ सत् नहीं कहलाता। एक स्कूलका मास्टर अपने विद्यार्थीकी दृष्टिसे मास्टर कहलाता है, एक पिता अपने पुत्रकी दृष्टिसे पिता कहलाता है, पर वही मास्टर और वही पिता दूसरोंकी दृष्टिसे मास्टर या पिता नहीं कहला सकते। जैसे स्वपुत्रकी अपेक्षासे जो पिता होता है, वही परपुत्रकी अपेक्षासे पिता नहीं होता है। उसी तरह अपने

गुणोंसे, अपने धर्मसे, अपने स्वरूपसे जो पदार्थ सत् है, वही दूसरे पदार्थके धर्मसे, और गुणसे और स्वरूपसे 'सत्' नहीं हो सकता। जो वस्तु सत् नहीं है, उसे असत् कहनेमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सकता।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे वस्तुको सत् और असत् कहनेमें विचारशील विद्वानोंको कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकती। एक कुम्हार है। वह यदि कहे कि मैं सुनार नहीं हूँ तो इस वातमें वह कुछ भी अनुचित नहीं कह रहा है। मनुष्यकी दृष्टिसे यद्यपि वह सत् है तथापि सुनारकी दृष्टिसे वह असत् है। इस प्रकार अनुसन्धान करनेसे एक ही व्यक्तिमें सत् और असत्-का अनेकान्तवाद वरावर सिद्ध होजाता है। किसी वस्तुको असत् कहनेसे मतलब यह नहीं है कि हम उसके सत् धर्मके विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं।

जगत्-के सब पदार्थ उन्पत्ति, स्थिति और विनाश, इन तीन धर्मोंसे युक्त हैं। उदाहरण केलिए—एक लोहेकी तलवार ले लीजिये, उसको गलाकर उसकी कटारी बना लो। इसमें यह स्पष्ट होगया कि तलवारका विनाश होकर कटारीकी उत्पत्ति होगई, लेकिन इससे यह नहीं कहा जासकता कि तलवार बिलकुल दी नष्ट होगई अथवा कटारी बिलकुल नई बन गई। क्योंकि तलवार और कटारीमें जो मूल तत्त्व है, वह तो अपनी उसी स्थितिमें मौजूद है। विनाश और उत्पत्ति तो केवल आकारकी ही हुई है। इस वदा-

हरणसे, तलवारको तोड़कर कटारी बनानेमें, तलवारके आकारका नाश, कटारीके आकारकी उत्पत्ति और लोहेकी स्थिति, ये तीनो बातें भलीभाँति सिद्ध होजाती हैं। वस्तुमें उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, ये तीन गुण स्वभावतया ही रहते हैं। कोई भी वस्तु जब नष्ट होजाती है तो इससे यह न समझना चाहिये कि उसके मूल तत्त्व ही नष्ट होगये। उत्पत्ति और विनाश तो उसके स्थूल रूपके होते हैं। सूक्ष्म परमाणु तो हमेशा स्थित रहते हैं। वे सूक्ष्म परमाणु, दूसरी वस्तुके साथ मिलकर नवीन रूपोंका प्रादुर्भाव करते रहते हैं। जैसे सूर्यकी किरणोंसे पानी सूख जाता है, पर इससे यह समझ लेना भूल है कि पानीका अभाव होगया है। पानी चाहे किसी रूपमें क्यों न हो, बराबर स्थित है। यह ही सकता है कि उसका वह सूक्ष्म रूप हमें दिखाई न दे, पर यह तो कभी सम्भव नहीं कि उसका अभाव होजाय। यह सिद्धान्त अटल है कि न तो कोई मूल वस्तु नष्ट ही होती है और न नवीन उत्पन्न ही होती है। इन मूल तत्त्वोंसे जो अनेक प्रकारके परिवर्तन होते रहते हैं, वह विनाश और उत्पाद हैं। इससे सारे पदार्थ उत्पत्ति, स्थिति और विनाश, इन तीन गुणोंवाले सिद्ध होते हैं।

आधुनिक पदार्थ-विज्ञानका भी यही मत है। वह कहता है कि “मूल प्रकृति ध्रुव—स्थिर है और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थ उसके रूपान्तर—परिणामान्तरमात्र हैं”। इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति और विनाशके जैन-सिद्धान्तका विज्ञान भी पूर्ण समर्थन करता है।

इन तीनों गुणोंमें से जो मूल वस्तु सदा स्थित रहती है, उसे जैन शाखामें 'द्रव्य' कहा है, एवं जिसकी उत्पत्ति और नाश होता है, उसको 'पर्याय' कहते हैं। द्रव्यकी अपेक्षासे हर एक वस्तु नित्य है और पर्यायसे अनित्य है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थको न एकान्त-नित्य और न एकान्त-अनित्य, बल्कि नित्यानित्य रूपसे मानना ही अनेकान्तवाद है।

इसके मिथाय एक वस्तुके प्रति सत् और असत् का सम्बन्ध भी ध्यानमें रखना चाहिये। ऊपर लिया जा चुका है कि एक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे सत् है और दूसरी वस्तुके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षासे वही असत् है। जसे वर्षा-मूर्तुमें इन्दौरके अन्तर्गत मिट्टीका बना हुआ लाल घड़ा है। यह द्रव्यसे मिट्टीका है—मृत्तिका रूप है, जल रूप नहीं। क्षेत्रसे इन्दौरका है, दूसरे क्षेत्रोंका नहीं। कालसे वर्षा अस्तुका है, दूसरे समयका नहीं। और भावसे लालवर्ण वाला है, दूसरे वर्णका नहीं। संक्षेपमें प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपही से 'आस्ति' कही जा सकती है। दूसरेके स्वरूपसे वह नास्ति ही कहलायगी।

कोई कहता है कि सप्तारमें जीव है, कोई कहता है कि जीव नहीं है, कोई जीवको एक रूप और कोई अनेक रूप कहता है, कोई जीवको अनित्य और कोई नित्य कहता है। इस प्रकार अनेक नय हैं। कोई किसीसे नहीं मिलते, परस्पर विरुद्ध हैं और जो सब नयोंको सांघता है, वह 'स्याद्वाद' है।

कोई जीव पदार्थको अस्ति स्वरूप और कोई जीव पदार्थको ग्रस्ति रूप कहते हैं। अद्वैतवादी जीवको एक ब्रह्म रूप कहते हैं, नैयायिक जीवको अनेक रूप कहते हैं, घौङ्ख मतवाले जीवको अनित्य कहते हैं, साख्य मतवाले शास्त्रत् अर्थात् नित्य कहते हैं। पर ये सब परस्पर-विरुद्ध हैं, कोई किसीसे नहीं मिलते, पर स्याद्वादी सब नयोंको अविरुद्ध साधता है।

प्रश्न—जगत्‌में जीव स्वाधीन है कि पराधीन? जीव एक है अथवा अनेक ? जीव सदा काल है अथवा कभी जगत्‌में नहीं रहता है ? जीव अविनाशी है अथवा नाशवान् है ?

उत्तर—द्रव्य दृष्टिसे देखो तो जीव स्वाधीन है, एक है, सदा काल है और अविनाशी है। पर्याय-दृष्टिसे पराधीन, अनेक रूप, क्षणभड्गुर और नाशवान् है। अत जहाँ जिस अपेक्षासे कहा गया है, उसे प्रमाण करना चाहिये।

जब जीवकी कर्म-रहित शुद्ध अवस्थापर दृष्टि हाली जाती है, तब वह स्वाधीन है, जब उसकी कर्मावीन दशापर ध्यान दिया जाता है, तब वह पराधीन है। लक्षणकी दृष्टिसे सब जीव द्रव्य एक है, सख्याकी दृष्टिसे अनेक हैं। जीव था, जीव है, जीव रहेगा, इस दृष्टिसे जीव सदा काल है, जीव गतिसे गत्यन्तरमें जाता है, इसलिये एक गतिमें सदा काल नहीं है। जीव पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है, क्षण-क्षणमें परिणामन करता है, इसलिये वह अनित्य है। जेनदर्शन एक ही

रूपसे वस्तुकी सत् और असत् नहीं मानता किन्तु सत् वस्तुको वह उसके स्वभावकी अपेक्षा कहता है और असत् (अस्वभाव रूप) अन्य वस्तुकी अपेक्षासे कथन करता है। इस तत्त्वके स्पष्टी-कृत्यार्थ ही जैनदर्शनमें स्वरूप और पररूप, इन दो शब्दोंका विधान किया है। स्वरूपकी अपेक्षा वस्तुमें सत् और पररूपकी अपेक्षा असत्। इनके अलावा भाव, अभाव, नित्य, अनित्य स्वरूपही जैनदर्शनको अभिमत है। इस विषयकी चर्चा करते हुए कुछ जैन विद्वानोंने जो सिद्धान्त स्थिर किया है उसका सारांश इस प्रकार है।—

१—हम एक ही रूपमें वस्तुमें सत् और असत्का अगीकार नहीं करते, जिससे विरोधकी सम्भावना हो सके, किन्तु सत् वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा और असत् पररूपकी अपेक्षासे है, इसलिये विरोधकी कोई आशंका नहीं।

—महिलपेण सूरि ।

२—नित्यानित्य होनेसे बंस्तु जैसे अनेकान्त है, वैसे ही सद सत् रूप होनेसे भी अनेकान्त है। तात्पर्य यह कि वस्तु नित्यानित्य की तरह सत् असत् रूप भी है। शका—यह क्यन विकद्ध है, एक ही वस्तु सत् और असत् नहीं हो सकती, सत् असत्का विनाशक है और असत् संस्कृतका विरोधी है। यदि ऐसा न हो तो सत् और असत् दोनों एक ही हो जावेंगे। अतः जो सत् है वह असत् क्षेत्रे और जो असत् है वह सत् क्षेत्रे

कहा जा सकता है। इसलिये एक ही वस्तुको सत् भी मानना और असत् भी स्वीकार करना अनुचित है? (समाधान—) यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि यदि हम एक ही रूपसे वस्तुमें सत् और असत् को अंगीकार करें तब तो विरोध हो सकता है, परन्तु हम ऐसा नहीं मानते। तात्पर्य यह कि जिस रूपसे वस्तुमें सत् है उसी रूपसे यदि उसमें असत् मानें तथा जिस रूपसे असत् है उसी रूपसे सत् को स्वीकार करें तब तो विरोध हो सकता है। परन्तु हम तो वस्तुमें जिस रूपसे सत् मानते हैं उसके भिन्न रूपसे उसमें असत् का अग्रीकार करते हैं अर्थात् स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा उसमें सत् और परद्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा असत् है। इसलिये अपेक्षा भेदसे सत् असत् दोनों ही वस्तुमें अविरुद्धतया रहते हैं, इसमें विरोधकी कोई आशका नहीं है।

—रत्नप्रभाचार्य ।

वस्तुमात्रमें सामान्य और विशेष ये दो धर्म पाये जाते हैं। सामान्य धर्म उसके सत्गुणका सूचक है, और विशेष धर्म उसके असत्गुणका सूचक। जैसे सौ घड़े हैं, सामान्य दृष्टिसे वे सब घड़े हैं, इसलिये सत् हैं। भगर लोग उनमेंसे भिन्न-भिन्न घड़ोंको पहिचानकर जब उठालेते हैं तब यह मालूम होता है कि प्रत्येक घड़ेमें कुछ-न-कुछ विशेषता या भिन्नता है। यही विशेषता या भिन्नता ही उनका विशेष गुण है। जब कोई

मनुष्य अकस्मात् दूसरे घडेको उठा लेता है और यह कहकर कि यह मेरा नहीं है, वापस रख देता है। उस समय उस घडेका नास्तित्व प्रमाणित होता है, 'मेरा'के आगे जो 'नहीं' शब्द है वही नास्तित्वका सूचक है। यह घडा है, इस सामान्य धर्मसे घडेका अस्तित्व सावित होता है। मगर यह घडा मेरा नहीं है, इस विशेष धर्मसे उसका नास्तित्व भी सावित होता है। अतः सामान्य और विशेष धर्मके अनुसार प्रत्येक वस्तु को सत् और असत् समझना ही अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद है॥ ।

॥ यह विषय बहुत ही गहन है। इसकी विशेष जानकारीकेलिये हरिभद्रसूरजीका 'अनेकान्तजयपत्राका' और कुन्दुन्दाधार्यजीका 'प्रवचन-सार', 'समयसार' आदि प्रन्थ पढ़ने चाहिये।

द्रव्य-पर्याय अधिकार

ज्ञानी वस्तुयें अनादि कालसे चली आती हैं, जिनकी न कभी उत्पत्ति हुई, न कभी जिनका नाश हुआ और न होगा, उनको “द्रव्य” कहते हैं। ये अनादिकालसे अकृत्रिम और अनेक हैं। कोई भी नवीन द्रव्य, जिसका कि पहिले अस्तित्व न था, कभी अस्तित्वमें नहीं आ सकता। जो वस्तु, गुण और पर्यायसे युक्त होती है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कभी नाश नहीं होता पर उसकी पर्याय (हालत) परिवर्तन होती रहती है।

जैनशास्त्रोंमें मुख्य द्रव्य दो प्रकारके बतलाये हैं —

१—चेतन—जीव—आत्मा ।

२—जड़—अजीव—पुद्गल ।

१—जीव द्रव्यका हम आगे अलग अधिकारमें वर्णन करेंगे ।

२—अजीव द्रव्य मुख्य पाँच प्रकारके हैं, जो निम्न प्रकार हैं —

(१) पुद्गल (Matter), (२) धर्मास्तिकाय (Medium of Motion), (३) अधर्मास्तिकाय (Medium of rest), (४) काल (Time) और (५) आकाश (Space) ।

इन पाँचोंमें सिर्फ पुद्गल मूर्तीक है और जेष अमूर्तीक हैं ।

१—संसारमें जिवना पुद्गल है अर्थात् Matter है वह न कभी बढ़ता है और न कभी घटता है। वह किसी न किसी रूपमें संसारमें ही रहता है और इतना ही रहता है। शास्त्रकारोंने पुद्गलको मुख्य चार भागोंमें विभाजित किया है। वह इस प्रकार है—

(१) वर्ण—रग, (२) रस, (३) गन्ध और (४) स्पर्श ।

(१) वर्ण यानी रंगके पाँच प्रकारके पुद्गल होते हैं—
कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्रेत्र ।

(२) रसके पाँच प्रकारके पुद्गल होते हैं—
संक्षय, मीठा, कडुका, कंपायला और चिरपरा ।

(३) गन्धके दो प्रकारके पुद्गल होते हैं—
सुगन्ध और दुर्गन्ध ।

(४) स्पर्शके आठ प्रकारके पुद्गल होते हैं—
कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, चिकना
और स्खला ।

२—धर्मास्तिकाय वह अरूपी ताक्षत (Force) है, जो जीवको चलने फिरनेमें मद्दद देती है। जैसे—पानी मछलीको तैरनेमें सहायक होता है।

३—अधर्मास्तिकाय वह अरूपी ताक्षत (Force) है, जो चलते हुए जीवको रुक जानेपर रोकती है। जैसे—गरमी घ धूपमें

चलता हुआ पथिक पेड़की छायामें रुक जाता है और बादमें चलनेमें हिचकिचाता है। उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय चलते हुए जीवको रोकती है।

४—कालका नयेको पुराना बनानेका स्वभाव है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जो द्रव्योंके परिवर्तनरूप—परिणामरूप में देखा जाता है, वह तो व्यवहार काल है और वर्तनालक्षण का धारक जो काल है, वह निश्चय काल है।

५—जो जीव आदि द्रव्योंको अवकाश देनेवाला है, उसको आकाश कहते हैं। वह लोकाकाश और अलोकाकाश, इन दो भेदोंसे दो प्रकारका है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव ये पाँचों द्रव्य जितने आकाशमें हैं, वह तो लोकाकाश है और उस लोकाकाशके आगे यानी परे अलोकाकाश है।

नोट—उपरोक्त जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तथा आकाश—ये पाँचों द्रव्य विद्यमान हैं, इसलिये शास्त्रकारोंने इनको 'अस्ति' ऐसा कहा है। और यह कायके समान वहु प्रदेशोंको धारण करते हैं, इसलिये इनको 'काय' कहते हैं। अस्ति तथा काय रूप होनेसे इन पाँचों को "पञ्चास्तिकाय" कहते हैं।

जीव, धर्मास्तिकाय तथा अधर्मास्तिकाय द्रव्यमें असख्यात प्रदेश हैं और आकाशमें अनन्त हैं। मूर्त्त (पुद्गल)में सख्यात,

असख्यात तथा अनन्त प्रदेश हैं और कालका एक ही प्रदेश है, इसलिये काल काय नहीं है।

समस्त लोकमें जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गल (ऊपर बताये हुए गन्ध, वर्ण, रस, स्पर्श के अलावा कर्मों के पुद्गल आदि) उसाठस भरे हुए हैं। अमुक व्यक्ति प्रभ करता है कि क्या ये आपसमें मिल नहीं जाते ? उत्तर—हर द्रव्यके रूपी अथवा अरूपी परमाणु एक दूसरेसे मिले हुये भी हैं और साथ साथ अलहदा भी हैं। उदाहरणार्थ, किसी कमरेमें अनेक दीये बला दो, हरएककी रोशनी एक दूसरेके साथ मिल जायगी और अगर एक दीयेको अलग उठा लाओ तो उसकी रोशनी भी अलग होजायगी। इसी प्रकार जो तमाम द्रव्य आपसमें मिले हुये हैं, पर जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है, वहाँ वह एक दीयेकी रोशनीके समान जुदा होजाता है।

शास्त्रकारोंने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इस प्रकार अस्तिकाय तीन बतलाई हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, तीनों लोकोंमें व्याप्त हैं। इनके प्रत्येकके कुछ विभागको 'देश' कहते हैं, और जो सिर्फ एक प्रदेशावलम्बन करता है, उसे 'प्रदेश' कहते हैं।

कालका कोई हिस्सा नहीं होता है।

वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शके पुद्गलोंका समस्त मिठड जो लोकमें भरा है, उसे 'स्कन्ध' कहते हैं। उसके विभागको 'देश'

कहते हैं, जो प्रदेशावलम्बन करता है अर्थात् दो आदि परिमाणु मिल रहे हैं, उसे 'प्रदेश' कहते हैं, और जो छोटे से छोटा हिस्सा, जिसका भाग न हो सके, उसे 'परिमाणु' कहते हैं।

पुद्गलके परिणामन दो प्रकारके हैं—एक सूक्ष्म परिणामन और दूसरा स्थूल परिणामन। उसके अनन्त सूक्ष्म परिणामन आकाशके एक ही प्रदेशमें आसकते हैं।

काल-द्रव्यं लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें है और वह एक-एक अणु रूप है तथा भिन्न-भिन्न रहता है। पुद्गल परिमाणुकी अवगाहनाके बराबर ही इसकी अवगाहना है। इसके अणु लोकाकाशके प्रदेशोंकी बराबर ही असर्व्यात हैं और रक्तोंकी राशिके समान भिन्न-भिन्न हैं, तथा निष्क्रिय हैं। काल-द्रव्य अनन्त समय बाला है। यद्यपि वर्तमानकाल एक समय मात्र है परन्तु भूत, भविष्य और वर्तमानकी अपेक्षा अनन्त समय बाला है।

'समय' कालकी पर्यायका सर्वसे छोटा अंश है। इसके समूहसे आवली, घटिकों इत्यादि निश्चयकाल द्रव्यकी पर्याय हैं। व्यवहारकाल—दिन, रात यावत् सागरोपमादि कालका परिमाण सूर्यके गमनागमनसे होता है। यह सर्व ज्योतिषियोंका गमनागमन अद्वैत द्वीप (मनुष्य लोक)के अन्दर ही है। यहाँके कालसे ही सब स्थानोंका काल-प्रमाण किया है। यह व्यवहारकाल है। मृत्युकाल सिद्ध भगवान्के सिवाय सबके लगा हुआ है।

नय अधिकार

इसक ही वस्तुके विषयमें भिन्न-भिन्न दृष्टि-विन्दुओंसे उत्पन्न

होने वाले भिन्न-भिन्न यथार्थ अभिप्रायको 'नय' कहते हैं। एक ही मनुष्य भिन्न-भिन्न अपेक्षाओंसे काका, भटीजा, मामा, भानेज, पुत्र, पिता, ससुर, जमाई आदि समझा जाता है, यह नयके सिवा और कुछ नहीं है। हम यह बता चुके हैं कि वस्तुमें एक ही धर्म नहीं है। अनेक धर्मवाली वस्तुमें अमुक धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाला जो अभिप्राय वैवर्ता है, उसको जैन-शास्त्रोंमें 'नय' सज्जा दी है। वस्तुमें जितने धर्म हैं, उनसे सम्बन्ध रखनेवाले जितने अभिप्राय हैं, वे सब 'नय' कहलाते हैं।

इस बातको सब मानते हैं कि आत्मा नित्य है और यह बात भी ठीक है, यदोकि इसका नाश नहीं होता है। मगर इस बातका सबको अनुभव हो सकता है कि उसका परिवर्तन विचित्र तरहसे होता है। कारण, आत्मा किसी समय पशु अवस्थामें होती है, किसी समय मनुष्य-स्थिरति प्राप्त करती है, कभी दैवगतिकी भोक्ता बनती है, यह कितना परिवर्तन है? एक ही आत्माकी यह कैसी विलक्षण अवस्था है? यह क्या बताती है?

स्थितिमें जिस दृष्टिसे 'आत्मा' और 'शरीर' भिन्न हैं वह, और जिस दृष्टिसे 'आत्मा' और 'शरीर' अभिन्न हैं वह, दोनों दृष्टियाँ 'नय' कहलाती हैं।

जो अभिप्राय ज्ञानसे मोक्ष होना बतलाता है, वह ज्ञाननय है और जो अभिप्राय क्रियासे मोक्ष सिद्ध बतलाता है, वह क्रियानय है, ये दोनों ही अभिप्राय नय हैं।

जो दृष्टि, वस्तुकी तात्त्विक स्थितिको अर्थात् वस्तुके मूल स्वरूपको स्पर्श करनेवाली है, वह निश्चयनय है और जो दृष्टि वस्तुकी घाण्य अवस्थाकी ओर लद्य रीचती है, वह व्यवहारनय है।

निश्चयनय बताता है कि आत्मा (सप्तारी जीव) शुद्ध-
बुद्ध-निरङ्गन सच्चिदानन्दमय है और व्यवहारनय बताता है कि आत्मा, कर्मबद्ध अवस्थामें मोहवान्-अविद्यावान् है। इस प्रकारके निश्चय और व्यवहारके अनेक उदाहरण हैं।

अभिप्राय बनाने वाले शब्द, वाक्य, शास्त्र या सिद्धान्त सब नय कहलाते हैं। उत्तम नय अपनी मर्यादामें माननीय हैं। परन्तु यदि वे एक दूसरेको असत्य ठहरानेकेलिये तत्पर होते हैं तो अमान्य हो जाते हैं। जैसे ज्ञानसे मुक्ति बतानेवाला सिद्धान्त और क्रियासे मुक्ति बतानेवाला सिद्धान्त, ये दोनों सिद्धान्त स्वपक्षका मण्डन करते हुए यदि वे एक दूसरेका मण्डन करने लगें तो तिरस्कारके पात्र हैं।

यहे समझ रखना चाहिये कि नये आशिक सत्य है, आशिक सत्य सम्पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता है। आत्माको नित्य या अनित्य मानना सर्वाशमें सत्य नहीं हो सकता है। जो सत्य जितने अशोमें हो, उसको उतने ही अंशोमें मानना युक्त है।

इसकी गिरती नहीं हो सकती है कि वस्तुत नये कितने हैं। अभिप्राय या बचन-प्रयोग जब गणनासे बाहर हैं, तब नये जो उनसे जुदा नहीं हैं, कैसे गणनाके अन्दर हो सकते हैं—नयों को भी गिरती नहीं हो सकती है। ऐसा होनेपर भी नयोंके मुख्यतया दो भेद बताये गये हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। मूल पदार्थको द्रव्य कहते हैं, जैसे घडेकी मिट्ठी। मूल द्रव्यके परिणामको पर्याय कहते हैं। मिट्ठी अथवा अन्य किसी द्रव्यमें जो परिवर्तन होता है, वे सब पर्याय हैं। द्रव्यार्थिकका मतलब है—मूल पदार्थोंपर लक्ष्य देनेवाला अभिप्राय और पर्यायार्थिक नय का मतलब है—पर्यायोपर लक्ष्य रखनेवाला अभिप्राय। द्रव्यार्थिक नय सब पदार्थोंको नित्य मानता है। जैसे—घड़ा, मूल द्रव्य मृत्तिका रूपसे नित्य है। पर्यायार्थिक नय सब पदार्थोंको अनित्य मानता है। जैसे—स्वर्णकी भाला, जज्जीर, कड़े, अगृठी आदि पदार्थोंमें परिवर्तन होता रहता है। इस अनित्यत्वको परिवर्तन-जितना ही समझना चाहिये, क्योंकि सर्वथा नाश या सर्वथा अपूर्व उत्पाद किसी वस्तुका कभी नहीं होता है।

प्रकारान्तरसे नयके सात भेद बताये गये हैं—

नैगम, संप्रदा, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और वस्तुतनय।

नैगम—इसका अर्थ है संकल्प—कल्पना। कल्पनासे जो स्तु व्यवहारमें आती है, वह 'नैगमनय' कहलाता है। यह नैगमीन प्रकारका होता है—भूत नैगम, भविष्य नैगम और वर्तमान नैगम। जो वस्तु हो चुकी है उसका वर्तमान रूपमें व्यवहार करना भूत नैगम है। जैसे—आज वही दिवालीका दिन है कि जिस देन महावीर भगवान् मोक्ष गये थे। यह भूतकालका वर्तमानमें उपचार है। महावीरके निर्वाणका दिन आज (दिवालीका दिन) मान लिया जाता है। इस तरह भूतकालके वर्तमानमें उपचारके अनेक उदाहरण हैं। होनेवाली वस्तुको हुई कहना भविष्य नैगम है। जैसे—चावल पूरे पके न हों, पक जानेमें थोड़ी ही देर रही हो तो उसे समय कहा जाता है कि चावल पक गये हैं। ऐसे वाक्य व्यवहारमें प्रचलित हैं। अथवा अहंतदेवको मुक्त होनेके पहिले ही कहा जाता है कि मुक्त होगये, यह भविष्य नैगमनय है। इंधन, पानी आदि चावल पकानेका सामान इकट्ठा करते हुये मनुष्यको कोई पूछे कि तुम क्या करते हो? वह उत्तर दे कि मैं चावल पकाता हूँ—यह उत्तर वर्तमान नैगमनय है, क्योंकि चावल पकाने की क्रिया यद्यपि वर्तमानमें प्रारम्भ नहीं हुई है तो भी यह वर्तमान रूपमें बताई गई है।

संप्रदा—सामान्यतया वस्तुओंका समुद्दय करके कथन करना संप्रदानय है। जैसे—सारे शरीरोंमें आत्मा एक है। इस कथनसे

वस्तुतः सब शरीरमें एक आत्मा सिद्ध नहीं होती है, प्रत्येक शरीरमें आत्मा भिन्न-भिन्न ही है तथापि सब आत्माओंमें रही हुई समान जातिकी अपेक्षासे कहा जाता है कि सब शरीरोंमें आत्मा एक है।

व्यवहार—यह नय वस्तुओंमें रही हुई समानताकी उपेक्षा करके, विशेषताकी और लक्ष्य सर्वोच्चती है। इस नयकी प्रवृत्ति लोक-व्यवहारकी तरफ है। पाँच वर्णवाले भौवरेको काला भौवरा बताना इस नयकी पद्धति है। रास्ता आता है, कूड़ा भरता है, इन सब उपचारोंका इस नयमें समावेश हो जाता है।

ऋग्गुस्तुति—यह नय वस्तुमें होते हुए नवीन-नवीन रूपान्तरोंकी और लक्ष्य आकर्पित करता है। स्वर्णका मुकट, कुण्डल आदि जो पर्याय हैं, उन पर्यायोंको यह नय देखता है। पर्यायके अलावा स्थायी द्रव्यकी ओर यह नय द्रग्‌पात नहीं करता है। इसीलिये पर्यायों विनश्वर होनेसे सदा स्थायी द्रव्य इस नयकी दृष्टिमें कोई चीज़ नहीं है।

शब्द—इस नयका काम है, अनेक पर्याय शब्दोंका एक अर्थ मानना। यह नय बताता है कि कपड़ा, बख्त, बसन आदि शब्दों का अर्थ एक ही है।

समभिरुद्ध—इस नयकी पद्धति है कि पर्याय शब्दोंके भेद से अर्थका भेद मानना। यह नय कहता है कि कुम्भ, कलश, घट आदि शब्द भिन्न अर्थवाले हैं, क्योंकि कुम्भ, कलश, घट आदि

शब्द यदि भिन्न अर्थवाले न हों तो घट, पट, अम्ब आदि शब्द भी भिन्न अर्थवाले न होने चाहिये। इसलिये शब्दके भेदसे अर्थका भेद है।

एवभूत—इस नयकी दृष्टिसे शब्द, अपने अर्थका वाचक (कहनेवाला) उस समय होता है जिस समय वह अर्थ—पदार्थ उस शब्दकी व्युत्पत्तिमेंसे क्रियाका जो भाव निकलता है, उस क्रियामें प्रवृत्त हुआ हो। जैसे—“गो” शब्दकी व्युत्पत्ति है—“गच्छतीतिगौ ” अर्थात् जो गमन करता है उसे गौ कहते हैं, मगर वह ‘गो’ शब्द इस नयके अभिप्रायसे प्रत्येक गऊका वाचक नहीं हो सकता है किन्तु केवल गमन क्रियामें प्रवृत्त चलती हुई गायका ही वाचक हो सकता है। इस नयका कथन है कि शब्दकी व्युत्पत्तिके अनुसार ही यदि उसका अर्थ होता है तो उस अर्थको वह शब्द कह सकता है।

यह बात ऊपर स्पष्ट की जा चुकी है कि यह सातों नय एक प्रकारके दृष्टि विन्दु हैं। अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित रहकर अन्य दृष्टि-विन्दुओंका यण्डन न करनेहीमें नयोंकी साधुता है। मध्यस्थ पुरुष सब नयोंको भिन्न भिन्न दृष्टिसे मान देकर तात्त्वज्ञेन्द्रकी विशाल सीमाका अवलोकन करते हैं। इसलिये वे राग द्वेषकी बाधा न होनेसे, आत्माकी निर्मल दशाको प्राप्त कर सकते हैं।

सात नयोंके घटानेके बास्ते एक दृष्टान्त दिया जाता है—

‘कोई बुद्धी पायली (अनाज तोलनेका फर्मा) बनानेके खूबालुसे जगलसे काप्त लेने जा रहा था। किसीने प्रश्न किया कि तुम कहाँ जाते हो ? तो बढ़ौने उत्तर दिया कि पायली बनानेको काप्त लेने जगल जारहा हूँ। लकड़ी काटते समय, लकड़ी घर लाते समय, लकड़ीसे पायली बनाते समय, इत्यादि जिस समय उससे पूछा तो उसने उत्तर दिया कि पायली बनाता हूँ, यह नैगमनय है। इसपर व्यवहारनयवाला तो चुप रहा पर सग्रहनयवाला बोला कि जब इस पायलीसे नाजका सग्रह करो तब इसे पायली कहना। इसपर व्यवहारनयवाला बोला कि अभी तो तुम पायली बना रहे हो, जब पायली बन जाय और व्यवहारन्योग्य होजाय, तब उसे पायली कहना। इसपर ऋजुसूत्रनयवाला बोला कि पायली बन जानेसे पायली नहीं कही जाती, परन्तु नाजका नाप करोगे तब पायली कही जायगी। तब शब्दनयवाला बोला कि नाजका नाप करते समय एक दो ऐसे गिनो जब पायली कहना। तब समभिरूद्धनय वालाबोला कि किसी कार्यसे भाप होगा, जब यह पायली कही जायगी। तब एवम्भूतनयवाला बोला कि नापते समय जब नापमें उपयोग होगा, तोभी पायली कही जायगी।

इन सात नयोंमें नैगमनय, सग्रहनय, व्यवहारनय और ऋजुसूत्रनय, ये चार नय व्यवहारमें हैं और शब्दनय, समभिरूद्धनय और एवम्भूतनय, ये तीन नय निश्चयमें हैं। किसी-किसी समय ऋजुसूत्रनयको भी निश्चयनयमें शामिल कर लेते हैं।

निक्षेप अधिकार

त्रिलोकी भी वस्तुमें गुणाबगुणका आरोप निक्षेपों
द्वारा होता है। जैनदर्शनमें चार निक्षेप हैं। वे
इस भाँति हैं —

१—नाम, २—स्थापना, ३—द्रव्य और ४—भाव।

१—गुण, जाति, द्रव्य और क्रियाकी अपेक्षा विना ही
अपनी इच्छानुसार लोक-व्यवहारकेलिये किसी पदार्थकी सज्जा
करनेको 'नामनिक्षेप' कहते हैं। जैसे—किसी पुरुषका नाम
इन्द्रराज है, परन्तु उसमें इन्द्रके समान गुण, जाति, द्रव्य, क्रिया
कुछ भी नहीं है, उसके मात्रा पिताने केवल व्यवहारार्थ नाम
रख लिया है या दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि गुण,
जाति, द्रव्य, क्रियाकी अपेक्षासे जो नाम नहीं रखते जाते हैं,
उन्हाँको नामनिक्षेप कहते हैं।

२—वातु, काष्ठ, पापाण, मिट्टीके खिलौने, चित्रादि, शवरँजके
दाढ़ी, घोड़ा, बादशाह इत्यादिमें आकार रूप व विना आकार-रूप
कल्पना कर लेनेको 'स्थापनानिक्षेप' कहते हैं।

(१) फोटो या मूर्ति जिससे उस वस्तुका भान होते, उसे
'सद्भावस्थापना' या 'तदाकारस्थापना' कहते हैं।

(२) जिन वस्तुओंसे उनका भान न होवे, जैसे—शतरँजके मोहरोंमें बादशाह, हाथी, घोड़ा, आदि होते हैं, उन्हें 'असद्भावस्थापना' या 'अतदाकारस्थापना' कहते हैं ।

३—जिस मनुष्य या वस्तुमें वर्तमान समयमें गुण न होनेपर भूत-भविष्यकालकी पर्यायकी मुख्यता लेकर वर्तमानमें कहना, वह 'द्रव्यनिक्षेप' है । जैसे—भविष्यमें होनेवाले राजाके पुत्रको (युवराजको) वर्तमानमें राजा कहना अथवा जो भूतकालमें फौजदार था उसका ओहटा चला जानेपर भी उसे फौजदार कहना, यह द्रव्यनिक्षेप है ।

४—जिस पदार्थकी वर्तमानमें जो पर्याय हो, उसको उसी रूपमें कहना, उसे 'भावनिक्षेप' कहते हैं । जैसे काष्ठको काष्ठ अवस्थामें काष्ठ कहना, कोयला होनेपर कोयला और राख होनेपर राख कहना ।

उक्त चारों निक्षेपोंमेंसे प्रथम तीन निक्षेप गुण बिना होनेसे 'अवस्थुक' कहे हैं और चौथा भाव निक्षेप सगुण होनेसे 'उपयोगी' कहा है ।

प्रमाण

ज्ञान पदार्थके सर्वदेशको कहे और जनावे, उसे 'प्रमाण' कहते हैं।

जो पदार्थके एक देशको कहे और जनावे, उसे 'नय' कहते हैं। आत्मा जिस ज्ञानके द्वारा बिना अन्य पदार्थकी सहायताके पदार्थको अत्यन्त निर्मल स्पष्टतया जाने, उसको 'प्रत्यक्ष-प्रमाण' कहते हैं।

जो पर्यायको उदासीन रूपसे देखता हुआ द्रव्यको ही मुख्यतयासे कहै, उसे 'द्रव्यार्थिकनय' कहते हैं।

जो द्रव्यको मुख्य न करके एक पर्यायको ही कहै, उसे 'पर्यायार्थिकनय' कहते हैं।

शास्त्रकारोंने वस्तुका वरतुल्य सिद्ध करनेकेलिये चार प्रमाण कहे हैं। वे इस भाँति हैं—

१—प्रत्यक्ष, २—अनुभान, ३—आगम और ४—उपमा-प्रमाण।

१—आत्मा बिना अन्य पदार्थकी सहायताके ही पदार्थोंको अत्यन्त निर्मल स्पष्टतया जाने, उसे 'प्रत्यक्ष प्रमाण' कहते हैं। शास्त्रकारोंने प्रत्यक्ष प्रमाणके अनेक भेदानुभेद किये हैं। जैसे—

इन्द्रियप्रत्यक्ष, नोइन्द्रियप्रत्यक्ष, द्रव्य-इन्द्रियप्रत्यक्ष, भाव इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, निर्वृत्ति और उपकरण आदि ।

२—जिस अनुमानसे वस्तुका ज्ञान हो, उसे 'अनुमान प्रमाण' कहते हैं । जैसे—किसीका पुत्र वाल्यावस्थामें विदेश गया हो और युवा होकर पीछे आवे, तब उसके घरवाले शरीराकृति, वर्ण, तिल आदिसे पहिचानें, मयूरको उसके शब्दसे, रथको भक्तन शब्दसे पहिचानें आदि । इसके भी शास्त्रकारोंने कई भेदानुभेद किये हैं । जैसे—पुच्छ, सब्ब, दिट्ठी आदि ।

३—ज्ञानी पुरुषोद्धारा कथित शास्त्रोंसे वस्तुका जो ज्ञान होता है, उसे 'आगम प्रमाण' कहते हैं । इसके भी शास्त्रकारोंने कई भेद किये हैं, जैसे—सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम आदि ।

४—किसी अन्य वस्तुकी सदृशता बतलाकर किसी मुख्य वस्तुका ज्ञान कराना, उसे 'उपमा प्रमाण' कहते हैं । जैसे भविष्य-कालमें प्रथम तीर्थकर श्रीपद्मानाथजी कैसे होंगे ? तो कहा कि वर्तमानके अन्तिम तीर्थकर श्रीमहावीर भगवान् जैसे । पल्योपम व सागरोपमका समय बतानेकेलिये कुएँका दृष्टान्त देते हैं, इत्यादि ।

कर्म अधिकार

जैनदर्शनमें कर्माद एक मुख्य सिद्धान्त है। जिस प्रकार वेदान्तदर्शन, न्यायदर्शन, वैशेषिकदर्शन इत्यादि ईश्वरको सृष्टिका अधिष्ठाता और कर्ता—उसकी प्रेरणासे मच्छे द्वारे कर्मोंका फल मिलता है, यह मानते हैं, उस प्रकार जैनदर्शन नहीं मानता। जैनदर्शन न तो ईश्वरको सृष्टिको चलनेवाला अथवा अधिष्ठाता मानता है, और न उसकी प्रेरणासे कर्मोंका फल मिलता है, यह मानता है।

कर्मवादका मन्तव्य है कि जिस प्रकार जीव, कर्म करनेको व्रतमन्त्र है, उसी प्रकार उसके कर्म भोगनेको भी वह आज्ञाद है। जैनदर्शन सृष्टिको अनादि-अनन्त मानता है अर्थात् न तो वह उभी पैदा हुई और न कभी उसका विनाश होगा।

ईश्वरको कर्ता या प्रेरक माननेवाले कर्मवादपर नीचे लिखे गाज्ञेप किया करते हैं —

१—छोटी-मोटी चीजों जैमे घड़ी, मकान, महल इत्यादि, इदि किसी व्यक्तिके द्वारा निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्, जो कार्य रूप दियाहै देता है, उसका भी कोई उत्पादक अवश्य बोना चाहिये।

२—सभी प्राणी अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पर कोई बुरे कर्मोंका फल नहीं चाहता, और कर्म स्वयं जड़ होनेसे किसी चेतनकी प्रेरणा विना फल देनेमें असमर्थ हैं। इसलिये ईश्वर ही प्राणियोंको कर्मफल भोगवाता है।

३—ईश्वर एक ऐसी सत्ता अर्थात् आत्मा है, जो सदासे मुक्त है और मुक्त जीवोंकी अपेक्षा उसमें कुछ विशेषता है। इस कारण जैनदर्शन जो यह मानता है कि कर्मोंसे छूट जानेपर सब जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं, सो ठीक नहीं है।

आचेपोंका समाधान

१—यह जगत् किसी समय नहीं बना है—वह सदासे ही है। हाँ, इसमें परिवर्त्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्त्तन ऐसे हैं कि जिनके होनेमें मनुष्य आदि प्राणी वर्गके प्रयत्नकी अपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे परिवर्त्तन भी होते हैं कि जिनमें किसीके प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं रहती, वे जड़-तन्त्रके तरह-तरहके संयोगसे उष्णता, वेग, क्रिया आदि शक्तियोंसे बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ—मिट्टी, पत्थर आदि चीजोंके इकट्ठे होनेसे छोटे-मोटे ढीले या पहाड़का बन जाना, इधर उधरसे पानीका प्रवाह मिल जानेसे उनका नदी रूपमें बहना, भापका पानी रूपमें बरसना, और फिरसे पानीका भाप-रूप बन जाना इत्यादि। इसलिये ईश्वरको सृष्टिका कर्ता माननेकी कोई आवश्यकता नहीं।

२—प्राणी जैसा कर्म करते हैं, वैसा फल उनको कर्मके द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये हुए बुरे कर्मका फल नहीं चाहते—यह ठोक है, पर ध्यानमें रखना चाहिये कि जीवके चेतनके सगसे कर्ममें ऐनी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे बुरे विपाकोंको नियत समयपर जीवपर प्रकट करता है। कर्मबाद यह नहीं मानता कि चेतनके सम्बन्धके बिना ही जड़ कमे भोग देनेमें समर्थ है। वह इतना ही कहता है कि फल देनेकेलिये ईश्वर रूप चेतनकी प्रेरणा माननेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जीव चेतन हैं—वे जैसे कर्म करते हैं उनके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्मके फलकी इच्छा न रहनेपर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फलको न चाहना दूसरी बात है। केवल चाहना न होनेहीसे किये कर्मका फल मिलनेसे रुक नहीं सकता। उदाहरणार्थ—एक भनुज्य धूपमें खड़ा है, गर्म चीज़ राता है और चाहता है कि प्यास न लगे सो क्या प्यास रुक सकती है।

३—ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन है, फिर उनमें अन्तर ही क्या ? हाँ, अन्तर इतना हो सकता है कि जीवकी सभी शक्तियाँ आवरणों (कर्म पुद्गलों) से घिरी हुई हैं और ईश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणोंको हटा देगा है,

उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ परिपूर्ण रूपमें प्रकाशित हो जाती हैं, फिर जीव और ईश्वरमें विषमता किस बातकी ? इस कारण कर्मवादके अनुसार यह माननेमें कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हैं।

‘कर्म’ शब्दका अर्थ

कर्मशास्त्र जाननेकी चाह रसनेवालोंको आवश्यक है कि वे ‘कर्म’ शब्दका अर्थ, भिन्न-भिन्न शास्त्रोंमें प्रयोग किये गये उसके पर्याय शब्द, कर्मका स्वरूप, आदिसे परिचित हो जायें।

‘कर्म’ शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनोंमें प्रसिद्ध है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। साधारण लोग अपने व्यवहारमें काम, धन्वे या व्यवसायके मतलबमें कर्म शब्दका प्रयोग करते हैं। शास्त्रमें उसकी एक गति नहीं है। खाना, पीना, चलना, कॉपना आदि किसी भी इलचलके लिये, चाहे वह जीवकी हो या जड़की—कर्म शब्दका प्रयोग, किया जाता है। कर्मकाएँ भी मासक यज्ञ, योग आदि किया कलाप अर्थमें, पौराणिक लोग ब्रत, नियम आदि धार्मिक क्रियाओंके अर्थमें, नैद्यायिक लोग उत्त्वेषण आदि पाँच साकोत्र कर्मोंमें कर्म शब्दका व्यवहार करते हैं। परन्तु जैन शास्त्रमें कर्म शब्दसे दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्वेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय—‘भावकर्म’ कहते हैं और दूसरा ‘कार्मण जातिके पुद्रगत-

विशेष, जो कपायके निमित्तसे आत्माके साथ चिपके हुए होते हैं, वह 'द्रव्यकर्म' कहलाता है।

जैनदर्शनमें जिस धर्मकेलिये कर्म शब्द इस्तैमाल होता है, उस अर्थके अथवा उससे कुछ मिलते-जुलते अर्थकेलिये जैनेवर दर्शनोंमें ये शब्द मिलते हैं—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, सस्कार, दैव भाग्य आदि।

जितने दर्शन आत्मवार्दी हैं और पुनर्जन्म मानते हैं, उनको पुनर्जन्मकी सिद्धि—उपपत्तिकेलिये कर्म मानना ही पड़ता है।

कर्मका स्वरूप

भिष्यात्व, कपाय आदि कारणोंसे जीवके द्वारा जो किया जाता है, वही 'कर्म' कहलाता है। कर्मका पहिला लक्षण उपर्युक्त भावकर्म और द्रव्यकर्म दोनोंमें घटित होता है। क्योंकि भावकर्म आत्माका—जीवका—वैभाविक परिणाम है। इससे उसका उपादान रूप कर्ता जीव ही है, और द्रव्यकर्म जो कि कारण जातिके सूक्ष्म पुद्गलोंका विकार है, उसका भी कर्ता निमित्त रूपसे जीव ही है। भावकर्मके होनेमें द्रव्यकर्म निमित्त है और द्रव्यकर्ममें भावकर्म निमित्त है। इस प्रकार उन दोनोंमें आपसमें बीज-अङ्गुरकी तरह कार्य कारण भाव सम्बन्ध है।

कर्म स्वयं जड़ पदार्थ है। 'कर्मपुद्गल' उसको कहते हैं, जिनमें रूप, रस, गध और स्पर्श हों और पृथ्वी, पानी, अग्नि

और वायुके पुट्टगलसे बने हों। जो पुट्टगल कर्म बनते हैं, वे एक प्रकारकी अत्यन्त सूदम रज हैं अथवा धूलि हैं, जिसको इन्द्रियाँ यत्रकी मददसे भी नहीं जान सकतीं या देख सकतीं। सर्वज्ञ परमात्मा अथवा परम अवधिज्ञानवाले योगी ही इस रजको देख सकते हैं। जीवके हारा जब वह रज ग्रहण की जाती है, तब उसे 'कर्म' कहते हैं।

जिस प्रकार चिकने घडेपर दायु चलनेसे धूलिके छोटे छोटे अणु लग जाते हैं, उसी प्रकार जब कोई भी जीव किसी प्रकारकी क्रिया, चाहे वह मनसे हो या बचनसे हो या कायसे हो, करता है, तब जिस आकाशमें आत्माके प्रदेश हैं, वहाँके अनन्त-अनन्त कर्मयोग्य पुट्टगल परमाणु, जीवके एक एक प्रदेशके साथ वैध जाते हैं। जिस प्रकार दूध और पानीका, तथा आगका और तोहेके गोलेका सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार जीव और कर्मपुट्टगलोंका सम्बन्ध होता है।

कर्म और जीवका अनादिकालसे सम्बन्ध चला आरहा है। पुराने कर्म अपना फल देकर आत्म-प्रदेशोंसे जुदा होजाते हैं और नये कर्म प्रतिसमय वैधते हैं।

कर्म और जीवका अनादि-सान्ततथा अनादि-अनन्त दो प्रकार का सम्बन्ध है। जो जीव मोक्ष पा चुके या पावेंगे उनका कर्मके साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है और जिन जीवोंको कभी मोक्ष न होगी उनका कर्मके साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध है। जिन जीवों

में मोक्ष पानेकी योग्यता है उन्हे 'भव्य' और जिनमें योग्यता नहीं है उन्हें 'अभव्य' कहते हैं। जीवका कर्मके साथ अनादि कालसे सम्बन्ध होनेपर भी जब जन्म मरणरूप ससारसे छुटनेका समय आता है तब जीवको विवेक उत्पन्न होता है अर्थात् आत्मा और जड़की बुराई मालूम होजाती है। तप ज्ञान रूप अग्रिके बलसे वह सम्पूर्ण कर्म मलको जलाकर शुद्ध सुवर्णके समान निर्मल होजाता है। यही शुद्ध आत्मा ईश्वरहै, परमात्मा है अथवा ब्रह्म है।

कर्म-शत्रुपर विजय

अनादिकालसे कर्म-शत्रु आत्माके साथ लगा हुआ है। जब तक आत्माका छुटकारा इससे नहीं होगा, उस समय तक यह आत्मा आवागमन अर्थात् चौरासी लाख जीव-योनिके चक्रसे कभी मुक्ति नहीं पा सकता। अगर कोई पुरपार्थी और चतुर राजा अपने शत्रुपर विजय करना चाहता है तो पेश्तर इसके कि वह उसपर चढ़ाई करे, यह निहायत जरूरी है कि वह उसकी तमाम शक्तियोंका अर्थात् कौज, पलटन, आख, शब्द, मोर्चे, गढ आदि और तमाम रास्ते तथा उसकी स्थितिका पूरा-पूरा अध्ययन कर ले और उसके बाद उसका मुकाबिला करनेकेलिये जब सारे जरूरी सामान इकट्ठे होजायें, उस समय पराक्रम और हिम्मतके साथ चढ़ाई करे। परिणाम यह होगा कि वह अवश्य कामयाव अर्थात् विजयी होगा। ठीक इसी

प्रकार अगर एक पुरुषार्थी और ज्ञानी आत्मा कर्मरूपी शत्रुको विजय करना चाहता है तो उसको अपने कर्मरूपी शत्रुके बारेमें पूरा-पूरा अध्ययन कर लेना चाहिये ताकि वह आसानीसे जीता जा सके और मुक्तिरूपी राज्य विजय किया जा सके।

प्रश्न यह उठता है कि कर्म दो प्रकारके होते हैं—एक शुभ कर्म और दूसरा अशुभ कर्म। शुभ कर्म करनेसे आत्माको आनन्द व सुखकी प्राप्ति होती है और अशुभ कर्म करनेसे आत्माको दुःख व तफलीफ मिलती है। तब किस प्रकार शास्त्रकार शुभ और अशुभ, दोनों प्रकारके कर्मोंको छोड़नेको कहते हैं, जब कि शुभ कर्मसे सुख व आनन्दकी प्राप्ति होती है।

इसका मतलब यह है कि शुभ कर्मों द्वारा जो आनन्द व सुख मिलते हैं, वे असार व क्षणिक हैं। कोई यह कहेगा कि वे क्षणिक कैसे हैं, जब कि शुभ कर्म करनेवाली आत्मा देवगतिको प्राप्तकर सागरोकी आयु व अनेक आनन्द व सुखकारी ऋषिद्वि व सिद्धि भोगती है? यह बात बिलकुल यथार्थ है, पर इस न्यायसे विचारना चाहिये कि एक समय नहीं, दस समय नहीं, हजार समय नहीं, बल्कि अमर्ख्यात समय यह आत्मा देवगतिके आनन्द व सुखोंको भोग आया है, पर आज तक इसकी गरज नहीं सरी है अर्थात् परम आनन्द पदको प्राप्त नहीं हुआ है। इस रूपालसे यह सारे सुख व आनन्द क्षणिक हैं। ससारके सारे आनन्द व सुख किम्पाक फलके समान हैं, जो देरने और खानेमें बड़ा सुन्दर

और स्वादिष्ट लगता है, पर खानेके बाद प्राणी कालको प्राप्त होनाता है, इसी प्रकार यह शुभ कर्म आनन्द और सुख देनेवाला है, पर इसका परिणाम बुरा होता है। इस कारण यह शुभ कर्म भी त्यागने योग्य है।

कर्म-शत्रुको प्रबलता

कर्म बड़े-बड़े और महान् महान् आत्माको, जैसे—ऋषि, मुनि और त्यागियोंको, यहाँ तक कि जो आत्मा अरिहन्त होनेको जा रही है उनको और सांसारिक बड़े-बड़े पुरुष जैसे चक्रवर्ती, बलदेव वा वासुदेवको कष्ट, दुर्य व सन्ताप देनेमें नहीं चूकता है तो हम साधारण पुरुषोंकी तो क्या चलाई। कर्म किसीकी रियायत नहीं करता, चाहे वह महान् पुरुष हो या कोई छोटा जीव हो। हाँ, यह बात अवश्य है कि कर्मोंका चूर्ण अथवा नाश किया जा सकता है। जिस प्रकार कर्म अपने कर्त्तव्यमें नहीं चूकते, उसी प्रकार त्यागी, पुरुषार्थी और महान् आत्मा इसको चूर-चूर अथवा नष्ट करनेमें नहीं चूकते।

कर्मोंसे छूटनेका सुख्य गुरु

१—पहिले बुरे, नीच और त्यात्य कर्मोंका करना छोड़ दो ताकि अशुभ यानी पाप कर्मका घन्ध न हो।

२—बैधे हुये कर्मोंका नाश शान, दर्शन, चारित्र, उपत्या आदि विधियोंसे कर दो अर्थात् जला दो।

३—प्रारब्ध अर्थात् नि.काङ्क्षत कर्मोंको भोगकर ज्ञाण कर दो। ऐसा करनेसे आत्मा कर्मोंसे अवश्य मुक्त हो जायगी अर्थात् सिद्धगतिको प्राप्त कर लेगी।

जैनदर्शनमें कर्म बन्धके मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग, ये चार कारण बतलाये हैं और कहीं कहीं सचेपमें कपाय योग भी मिलते हैं, अगर और अधिक सचेप करके कहा जाय तो यह कह सकते हैं कि कपाय ही कर्मबन्धका कारण है, पर उन सबको सचेपमें वर्गीकरण करके आध्यात्मिक विद्वानोंने उसके राग द्वेष सिर्फ दो ही भेद किये हैं। जिस प्रकार मकड़ी अपनी ही प्रबृत्तिसे अपने किये हुए जालेमें फँसती है, उसी प्रकार जीव भी अपनी वेसमझी आदि चतुराईसे अपने पैदा किये हुये कर्मजाल में फँसता है।

कर्मोंके विषयमें विशेष ज्ञान

वैसे तो कर्मको मूल प्रकृतियाँ, उत्तर प्रकृतियाँ और उनकी वर्गणाओंके पचास नहीं, सौ नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि असख्याते भेदानुभेद हैं। पर ज्ञानी पुरुषोंने साधारण जनसमुदाय को समझानेके हेतु कर्मको आठ मूल प्रकृतियों और १५८ उत्तर प्रकृतियोंमें बॉट दिया है यानी यों कहना चाहिये कि अपने ज्ञान-बलद्वारा समुद्रके समान ज्ञानको एक लोटेके रूपमें समावेश कर दिया है।

जीवका ज्ञानवान् होना, मूर्ख होना, नेत्र सहित होना,
 अन्धा होना, धनी होना, निर्वन होना, पुत्रवान् होना, पुत्रहीन
 होना, क्रोधी, मानी, मायावी और लोभी होना, शान्ति स्वभावी,
 सरलस्वभावी, अहकार रहित होना और निर्लोभी होना, स्त्री
 होना, पुरुष होना, या नपुसक होना, पशु होना या मनुष्य होना,
 नेरिया या देवता होना, कम आयु पाना या उद्यादा आयु पाना
 या होते ही मर जाना, सुरूप या कुरुप होना, कमज़ोर या बल-
 वान् होना, निरोगी या रोगी होना, सुखी या दुखी होना, सुडौल
 ग बेडौल शरीरी होना, मुख्तलिफ रगका होना, मुख्तलिफ
 सका होना, हलका होना, भारी हाना, ठढ़ा या गरम होना,
 चम या चादर शरीरी होना, सम्यक्त्वी या मिथ्यात्वी होना,
 नी होना, या लोभी होना, भोग उपभोग होते हुए न भोग
 ना, इत्यादि इत्यादि बाते जो जीव-मात्रमें पाई जाती हैं, वे
 उसके शुभ व अशुभ कर्मोंका फलरूप हैं। जैसे-जैसे जीव-
 का बन्ध करता है, वैसे-ही-वैसे उसके फल मिलते हैं अर्थात्
 धीज मनुष्य बोवेगा, वैसा ही फल प्राप्त करेगा।

प्रब कर्मकी मूल प्रकृतियों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके
 वर्णन किया जाता है।

र्मकी मूल प्रकृतियाँ आठ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—
 क)—ज्ञानावरणीय, (र) —दर्शनावरणीय, (ग) —वेद-
 घ)—मोहनीय, (द) —आयु, (च) —नाम, (छ) —
 र (ज) —अन्तराय।

अब उक्त आठ कर्मोंकी उत्तर-प्रकृतियोंका वर्णन किया जाता है—

ज्ञानावरणीयकी ५, दर्शनावरणीयकी ६, वेदनीयकी २, मोहनीयकी २८, आयुकी ४, नामकी १०३, गोत्रकी २ और अन्तरायकी ५—इस प्रकार कुल उत्तर प्रकृतियाँ १५८ होती हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है—

क—ज्ञानावरणीय —

ज्ञानावरणीयकी उत्तर-प्रकृतियोंकी समझनेके लिये ज्ञानके भेद समझनेसे उनके आवरण सरलतासे समझमें आजायेंगे। ज्ञानके मुख्य भेद पाँच हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय-ज्ञान और केवलज्ञान। इन पाँचोंके अवान्तर-भेद अर्थात् उत्तर भेद हैं—

मतिज्ञानके २८, श्रुतज्ञानके १४ अथवा २०, अवधिज्ञानके ६, मन पर्यायज्ञानके २ और केवलज्ञान सिर्फ १ प्रकारका है। इन सबके भेदोंको मिलानेसे पाँच ज्ञानके ५१ भेद होते हैं और ५७ भेद भी होते हैं।

मतिज्ञान—इन्द्रिय और मनके द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे 'मतिज्ञान' कहते हैं।

श्रुतज्ञान—शाश्वोंके बोचने तथा सुननेसे जो अर्थज्ञान होता है, उसे 'श्रुतज्ञान' कहते हैं।

अवधिज्ञान—इन्द्रिय तथा मनकी सहायताके बिना मर्यादा-को लिये हुये रूपवाले द्रव्यका जो ज्ञान होता है, उसे 'अवधिज्ञान' कहते हैं।

मन-पर्यायज्ञान—इन्द्रिय और मनकी मददके बिना मर्यादा-को लिये हुये सङ्गी (जिनके मन होता है)के मनोगत भावों अर्थात् मनकी वातोंको जाननेको 'मन पर्यायज्ञान' कहते हैं।

केवलज्ञान—ससारके भूत, भविष्य और वर्तमान कालके सम्पूर्ण पदार्थोंका युगपत् (एक साथ) जानना 'केवलज्ञान' कहलाता है।

पहिले दो ज्ञानोंमें इन्द्रियों और मनकी सहायता लेनी यहती है। किन्तु अन्तके तीन ज्ञानोंमें इन्द्रिय और मनकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है।

ज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मको 'ज्ञानावरण' अथवा 'ज्ञानावरणीय' कहते हैं। जिस प्रकार आँखपर पतले या मोटे कपडे की पट्टी लपेटनेसे चस्तुओंके देखनेमें कम और ज्यादा रुकावट होती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण-कर्मके प्रभावसे आत्माको पदार्थोंके जाननेमें रुकावट पहुँचती है, किन्तु ऐसी रुकावट नहीं होती, जिससे आत्माको किसी प्रकारका ज्ञान 'ही न हो। जैसे सूर्य चाहे—जैसे धने बादलोंसे क्यों न घिर जाये तो भी उसका कुछन-कुछ प्रकाश अवश्य ही रहता है।' जिससे दिन-रातमें भेद समझ।

जाता है। इसी प्रकार कर्मोंका चाहे-जैसा गाढ़ आवरण क्यों न हो, आत्माको कुछ-न कुछ ज्ञान होता ही रहता है।

मतिज्ञानावरणीय—भिन्न २ प्रकारके मतिज्ञानोंको आवरण करनेवाले, भिन्न २ कर्मोंको 'मतिज्ञानावरणीय' कहते हैं। मतिज्ञानके २८ भेद कहे हैं, परदूसरी अपेक्षासे ३४० भेद होते हैं। उन सबोंके आवरण करनेवाले कर्म जुदा २ होते हैं। उन सब आवरण करनेवालोंको 'मतिज्ञानावरणीय' कर्म कहते हैं।

श्रुतज्ञानावरणीय—श्रुतज्ञानके १४ अथवा २० भेद कहे गये हैं, उनके आवरण करनेवाले कर्मोंको 'श्रुतज्ञानावरणीय' कर्म कहते हैं।

अवधिज्ञानावरणीय—अवधिज्ञानके ६ भेद कहे गये हैं, उनके आवरण करनेवाले कर्मोंको 'अवधिज्ञानावरणीय' कर्म कहते हैं।

मन पर्यायज्ञानावरणीय—मन पर्यायज्ञानके २ भेद कहे हैं, उनके आवरण करनेवाले कर्मोंको 'मन पर्यायज्ञानावरणीय' कर्म कहते हैं।

केवलज्ञानावरणीय—केवलज्ञानके आवरण करनेवाले कर्मोंको 'केवलज्ञानावरणीय' कर्म कहते हैं।

ख—दर्शनावरणीय कर्म —

चक्रुर्दर्शनावरणीय—आँखके द्वारा जो पदार्थोंका सामान्य धर्म प्रहण होता है, उसे 'चक्रुर्दर्शन' कहते हैं, उस सामान्य प्रहणको रोकनेवाले कर्मको 'चक्रुर्दर्शनावरणीय' कर्म कहते हैं।

अचक्षुर्दर्शनावरणीय—आँसको छोड़कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मनसे जो पदार्थोंके सामान्य धर्मका प्रतिभास होता है, उसे 'अचक्षुर्दर्शन' कहते हैं, उसके आवरणको 'अचक्षुर्दर्शनावरणीय' कर्म कहते हैं।

अवधिदर्शनावरणीय—इन्द्रियों और मनकी महायतके बिना ही आत्माको रूपीद्रव्यके सामान्य-धर्मका जो वोध होता है, उसे 'अवधिदर्शन' कहते हैं, उसका आवरण 'अवधिदर्शनावरणीय' कर्म कहाता है।

केवलदर्शन—मसारके सम्पूर्ण पदार्थोंका जो सामान्य अव-वोध होता है, उसे 'केवलदर्शन' कहते हैं, उसका आवरण 'केवल-दर्शनावरणीय कर्म' कहाता है।

निद्रा—कोई-कोई सोया हुआ जीव थोड़ी सी आवाज या पैछरसे जाग जाता है। जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस कर्मको 'निद्रा कर्म' कहते हैं।

निद्रा-निद्रा—कोई कोई सोया हुआ जीव बड़े जोरसे चिल्लाने या हाथसे जोर-जोरमे हिलानेपर उठता है। जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उसे 'निद्रा-निद्रा कर्म' कहते हैं।

प्रचला—खड़े खड़े या बैठे बैठे किसी किसी जीवको नींद आती है, उसको 'प्रचला' कहते हैं, जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस कर्मको 'प्रचला कर्म' कहते हैं।

प्रचला प्रचला—चलते फिरते जिस जीवको नींद आती है, उसकी नींदको प्रचला प्रचला कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस कर्मको ‘प्रचला-प्रचला कर्म’ कहते हैं।

सूत्यानगृद्धि—जो जीव दिनमें अथवा रातमें सोचे हुए कामको नींदकी अवस्थामें कर डालता है, उसकी इस नींदको सूत्यानगृद्धि कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे ऐसी नींद आती है, उस कर्मको ‘सूत्यानगृद्धि’ कर्म कहते हैं।

शृणुभ नाराचसहननवाले जीवको जब इस सूत्यानगृद्धि कर्मका उदय होता है, तब उसे वासुदेवका आधा बल हो जाता है। यह जीव मरणेपर अवश्य नरक जाता है।

ग—वेदनीय कर्म —

इस कर्मका स्वभाव तलवारकी शहद लगी हुई धाराको चाटनेके समान है। वेदनीय कर्मके दो भेद हैं —

१—सातावेदनीय और २—असातावेदनीय।

१—तलवारकी धारपर लगे हुए शहदसे चाटनेके समान सातावेदनीय है।

२—तलवारकी धारसे जीवके कटनेके समान असातावेदनीय है।

१—जिस कर्मके उदयसे आत्माको विषय सम्पन्धी सुखका अनुभव होता है, उसे ‘सातावेदनीय कर्म’ कहते हैं।

२—जिस कर्मके उदयमें आत्माको अनुकूल विषयोंकी अप्राप्तिसे अथवा प्रतिकूल विषयोंकी प्राप्तिसे दुखका अनुभव होता है, उसे 'आत्मावेदनीय कर्म' कहते हैं।

आत्माको जो अपने स्वरूपके सुरक्षाका अनुभव होता है, वह किसी भी कर्मके उदयसे नहीं होता है।

३—मोहनीय कर्म —

चौथा कर्म मोहनीय है। इसका स्वभाव मद्यके समान है। जिस प्रकार मद्यके नशेमें मनुष्यको अपने हित अहितकी पहिचान नहीं रहती, उसी प्रकार मोहनीय कर्मके उदयसे आत्माको अपने हित-अहितके पहिचाननेकी बुद्धि नहीं रहती।

मोहनीय कर्मके दो भेद हैं—(१) दर्शनमोहनीय और (२) चारित्रमोहनीय।

१—जो पर्याथ जैसा है, उसे वैसा ही समझना, यह दर्शन है अर्थात् तत्त्वार्थकी श्रद्धाको 'दर्शन' कहते हैं। यह आत्माका गुण है। इसके घात करनेवाले कर्मको 'दर्शनमोहनीय कर्म' कहते हैं।

दर्शनमोहनीयके तीन भेद हैं—

(१) सम्यक्त्वमोहनीय, (२) मिश्रमोहनीय और (३) मिथ्यात्वमोहनीय।

१—जिस कर्मके उदयमें जीवको जीव आदि नव तत्त्वोंपर श्रद्धा होती है, उसे 'सम्यक्मोहनीय' कहते हैं।

२—जिस कर्मके उदयसे अर्द्ध शुद्ध और अर्द्ध अशुद्ध सम्यक्त्व होता है, उसे 'मिश्रमोहनीय कर्म' कहते हैं।

३—जिस कर्मके उदयसे जीवकी हितमें अहित बुद्धि और अहितमें हित बुद्धि होती है अर्थात् अहितको हित और हितको अहित समझना है, उसे 'मिष्यात्वमोहनीय कर्म' कहते हैं।

२—जिस कर्मके उदयसे आत्मा अपने असली स्वरूपको पाता है, उसे 'चारित्रमोहनीय कर्म' कहते हैं।

चारित्रमोहनीय कर्मके दो भेद होते हैं। १—कपायमोहनीय, २—नोकपायमोहनीय। कपायमोहनीयके १६ भेद हैं और नोकपायमोहनीयके ६ भेद हैं। कपायका अर्थ है—जन्म भरण रूप ससार, उसकी प्राप्ति जिससे हो, उसे 'कपाय' कहते हैं।

कपायमोहनीयके १६ भेद निम्न प्रकार होते हैं—

१—जिस कपायसे जीव अनन्तकाल ससारमें भ्रमण करता है, उस कपायको 'अनन्वानुवन्धी कपाय' कहते हैं। जिस प्रकार पर्वत फटनेपर नहीं मिलता, उसी प्रकारसे यह कपाय किसी भी उपायसे शान्त नहीं होती।

२—जिस कपायके उदयसे श्रावक धर्मकी प्राप्ति नहीं होती है, उसे 'अप्रत्याख्यानावरण कपाय' कहते हैं। जिस प्रकार सूखे तालाबमें मिट्टीके फट जानेपर दरारें हो जाती हैं। वे वर्षा होनेसे मिलती हैं, उसी प्रकार यह कपाय विशेष परिभ्रमणसे शान्त होती है।

३—जिस कपायके उदयसे मुनि धर्मकी प्राप्ति नहीं होती, उसे 'प्रत्याख्यानावरण कपाय' कहते हैं। जिस प्रकारसे धूलमें लकीर खींचनेपर कुछ समयमें हवा चलनेपर मिट जाती है, उसी प्रकार यह कपाय कुछ उपायसे शान्त हो जाती है।

४—जो कपाय परिपह तथा उपसर्गोंके आ जानेपर मुनियोंको भी थोड़ासा चलायमान कर देती है अर्थात् उनपर भी थोड़ासा असर जमाती है, उसे 'सञ्चलन कपाय' कहते हैं। जिस प्रकारसे पानीमें लकीर खींचनेसे वह फौरन मिट जाती है, उसी प्रकार यह कपाय शीघ्र ही शान्त हो जाती है।

कपाय चार प्रकारके हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ।

प्रत्येक कपाय ऊपर वर्णन किये चार-चार प्रकारके होते हैं। इस प्रकार चारको चारसे गुणा करनेसे कपायके १६ भेद होते हैं।

(२) नोकपाय मोहनीयके नौ भेद इस प्रकार होते हैं—

१—जिस कर्मके उदयमें कारणवश अर्थात् भौँड आदिकी चेष्टाको देखकर अथवा बिना कारण हँसी आती है, वह 'हास्य-मोहनीय कर्म' कहलाता है।

२—जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा बिना कारण पदार्थोंमें अनुरागहो-प्रेम हो, वह 'रतिमोहनीय कर्म' कहलाता है।

३—जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा बिना कारण पदार्थोंसे अप्रीति हो, वह 'अरतिमोहनीय कर्म' कहलाता है।

४—जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा विना कारण शोक हो, वह 'शोकमोहनीय' कहलाता है।

५—जिस कर्मके उदयसे कारणवश अथवा विना कारण भय हो, वह 'भय मोहनीय कर्म' कहलाता है।

भय सात प्रकारका होता है—

इहलोक भय, परलोक-भय, आदान भय, अकस्मात्-भय, आजीविका भय, मृत्यु भय और अपयश भय।

६—जिस कर्मके उदयसे कारण अथवा विना कारण मांस, शराब आदि वुरे पदार्थोंको देखकर घृणा पैदा होती है, वह 'जुगुप्सामोहनीय कर्म' कहलाता है।

७—जिस कर्मके उदयसे स्त्रीको पुरुषके साथ भोग करनेकी इच्छा होती है, वह 'खीवेद कर्म' कहलाता है।

८—जिस कर्मके उदयसे पुरुषकी स्त्रीके साथ भोग करनेकी इच्छा होती है, वह 'पुरुषवेद कर्म' कहलाता है।

९—जिस कर्मके उदयसे स्त्री पुरुष दोनोंके साथ भोग करने की इच्छा होती है, वह 'नपुसक कर्म' कहलाता है।

१—आयुकर्म —

जिस कर्मके अस्तित्वसे प्राणी जीता है और ज्ञायसे मृत्युको प्राप्त होता है, उसे 'आयुकर्म' कहते हैं।

आयुकर्म दोप्रकारका होता है। १—अपवर्त्तनीय, २—अन-पवर्त्तनीय।

१—वाह्य निमित्तोंसे जो आयु कम हो जाती है, उस आयुको 'अपवर्त्तनीय' अथवा 'अपवर्त्य' आयु कहते हैं। जैसे जलमें डूबकर मरना, आगमें जलकर मरना, जहर खाकर मरना या शब्दकी चोटसे मरना आदि।

२—जो आयु किसी भी कारणसे कम हो सके अर्थात् जितने काल तककी पहिले बँध गई है उतने काल तक भोगी जावे, उस आयुको 'अनपवर्त्य आयु' कहते हैं।

च—नामकर्म —

नामकर्म चित्रकारके समान है। जैसे चित्रकार नाना भाँतिके मनुष्य, हाथी, घोड़े आदिको चित्रित करना है, ऐसे ही नामकर्म नाना भाँतिके देव, मनुष्य, नारकोंकी रूपना करता है।

नामकर्मकी सख्ता कई अपेक्षाओंसे है—किसीसे ४२, किसीसे ६३, किसीसे १०३ और किसीसे ६३ भेद होते हैं।

नामकर्मकी पिण्डप्रकृतियोंके मुख्य चौदह भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

१-गतिनाम, २-जातिनाम, ३-तनुनाम, ४-अहोपाहनाम, ५-बन्धनाम, ६-महातनाम, ७-सहनननाम, ८-सस्थाननाम, ९-वर्णनाम, १०-गन्धनाम, ११-रसनाम, १२-स्पर्शनाम, १३-आनुपूर्णनाम और १४-विहायोगति नाम।

१—जिस कर्मके उद्यसे जीव नरक, देव आदि अवस्थाओंको प्राप्त करता है, उसे 'गतिनाम कर्म' कहते हैं। इसके चार भेद हैं—

भनुष्यगति नाम, तिर्यक्षगति नाम, नरकगति नाम और देवगति नाम।

२—जिस कर्मके उदयसे जीव एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि कहा जाता है, उसे 'जातिनाम कर्म' कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं— एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जाति नाम कर्म।

३—जिस कर्मके उदयसे जीवको औदारिक, वैक्रिय आदि शरीरकी प्राप्ति होती है, उसे 'तनुनाम कर्म' कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं— औदारिकशरीर नाम, वैक्रियशरीर नाम, आहारिक शरीर नाम, तैजसशरीर नाम और कार्मणशरीर नाम।

४—जिस कर्मके उदयसे जीवके अङ्ग (सिर, पैर आदि) और उपाङ्ग (अँगुली, कपाल आदि) के आकारमें पुद्गलोंका परिणमन होता है, उसे 'अङ्गोपाङ्गनाम कर्म' कहते हैं। इस कर्मके तीन भेद हैं— औदारिक अङ्गोपाङ्ग, वैक्रिय अङ्गोपाङ्ग, और आहारिक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म।

५—जिस कर्मके उदयसे प्रथम प्रहण किये हुये औदारिक आदि शरीर पुद्गलोंके साथ गृह्यमाण औदारिक आदि पुद्गलोंका आपसमें सम्बन्ध हो, उसे 'बन्धन नामकर्म' कहते हैं। इसके १५ भेद होते हैं— औदारिक-औदारिक बन्धन, औदारिक-तैजस बन्धन, औदारिक-कार्मण बन्धन, औदारिक तैजस-कार्मण बन्धन, वैक्रिय वैक्रिय बन्धन, वैक्रिय-तैजस बन्धन, वैक्रिय-कार्मण

बन्धन, वैक्रिय तैजस-कार्मण बन्धन, आहारिक-आहारिक बन्धन, आहारिक तैजस-बन्धन, आहारिक-कार्मण बन्धन, आहारिक-तैजस-कार्मण बन्धन, तैजस-तैजस बन्धन, तैजस-कार्मण बन्धन, और कार्मण कार्मण बन्धन नामकर्म ।

६—जिस कर्मके उदयसे शरीर योग्य पुद्गल प्रथम ग्रहण किये हुये शरीर पुद्गलोंपर व्यवस्थित रूपसे स्थापित किये जाते हैं। उसे 'सद्वातनाम कर्म' कहते हैं, इसके पाँच भेद होते हैं — औदारिक सधातनाम, वैक्रिय सधातनाम, आहारिक सधातनाम, तैजस सधातनाम और कार्मण सधातनाम कर्म ।

७—जिस कर्मके उदयसे शरीरमें हाड़ोंकी सन्धियाँ—जोड़ जुड़े होते हैं (जैसे लोहेकी पट्टियोंसे किवाड़ मजबूत किये जाते हैं) उसे 'सहनननाम कर्म' कहते हैं। इसके छह भेद होते हैं — वज्र-ऋषभनाराच सहनन, ऋषभनाराच सहनन, नाराच सहनन, अर्धनाराच संहनन, कीलक सहनन और सेवार्त सहनन नाम कर्म ।

८—जिस कर्मके उदयसे शरीरके जुड़े-जुड़े शुभ या अशुभ आकार होते हैं, उसे 'स्थाननाम कर्म' कहते हैं। इसके ६ भेद होते हैं — समचतुरस्त स्थान, न्यग्रोध स्थान, सादि स्थान, वामन स्थान, कुब्ज स्थान और हुरण स्थान नाम कर्म ।

९—जिस कर्मके उदयसे शरीरमें कृष्ण, गौर आदि रङ्ग होते हैं, उसे 'वर्णनाम कर्म' कहते हैं। इसके पाँच भेद होते हैं —

कृष्णवर्ण नाम, नीलवण नाम, लोहितवर्ण नाम, हरिद्रवर्ण नाम और श्वेतवर्णनाम कर्मे ।

१०—जिस कर्मके उदयसे शरीरमें अच्छी या बुरी गन्ध हो, उसे 'गन्धनाम कर्म' कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं—सुरभि-गन्ध नाम और दुरभिगन्धनाम कर्म ।

११—जिस कर्मके उदयसे शरीरमें स्थृत मीठा आदि रसोंकी चत्पत्ति होती है, उसे 'रसनाम कर्म' कहते हैं। इसके पाँच भेदहोते हैं—तिक्तरस, कटुरस, कपायरस, अम्लरस और मधुररस नाम कर्म ।

१२—जिस कर्मके उदयसे शरीरमें कोमल, ख़क्ख आदि स्पर्श हो, उसे 'स्पर्शनाम कर्म' कहते हैं इसके आठ भेद होते हैं—कर्कशस्पर्श, मृदुस्पर्श, गुरुस्पर्श, लघुस्पर्श, शीतस्पर्श, उष्णस्पर्श, स्तिंघस्पर्श और ख़क्खस्पर्श नाम कर्म ।

१३—जिस कर्मके उदयसे जीव विग्रहगतिमें अपने चत्पत्ति स्थानपर पहुँचता है, उसे 'आनुपूर्वनाम कर्म' कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं—नरकानुपूर्वी, तिर्यक्षानुपूर्वी, मनुप्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी नाम कर्म ।

१४—जिस कर्मके उदयसे जीवकी चाल (चलना) शुभ अथवा अशुभ होती है, उसे 'विहायोगति नामकर्म' कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं—शुभविहायोगति और अशुभ विहायोगति नाम कर्म ।

इनके अलावा इस कर्मकी २८ प्रकृतियाँ और भी हैं। वे इस प्रकार हैं—

परधातनाम कर्म, उच्छ्वासनाम कर्म, आतापनाम कर्म, उद्योतनाम कर्म, अगुरुलघुनाम कर्म, तीर्थकरनाम कर्म, निर्माणनाम कर्म, उपधातनाम कर्म, व्रसदशककी जितनी प्रकृतियाँ हैं, उनकी विरोधनी स्थावर-दशककी दस प्रकृतियाँ हैं। उनके नाम इस भाँति हैं—व्रसनाम, बादरनाम, पर्याप्तनाम, प्रत्येकनाम, स्थिरनाम, शुभनाम, सुभगनाम, सुस्वरनाम, आदेयनाम और यश कीर्तिनाम, स्थावरनाम, सूखभनाम, अपर्याप्तनाम, साधारणनाम, अस्थिरनाम, अशुभनाम, दुर्भगनाम, दुस्वरनाम, अनादेयनाम, अयश कीर्तिनाम इस प्रकार नामकी १०३ प्रकृतियाँ होती हैं।

छ—गोत्र कर्म।

यह कर्म कुँभारके सदृश है। कुँभार अनेक प्रकारके घड़े वर्तन आदि बनाता है। जिनमेंसे कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको लोग कलश बनाकर अक्षत चन्दनसे पूजते हैं और कुछ घड़े ऐसे होते हैं जो मध्य रखनेके काममें आते हैं। अतएव वे नित्य समझे जाते हैं। इसी प्रकार यह गोत्र कर्म है। जिसके उदयसे जीव नीच अंथवा ऊँच कुलमें जन्म लेते हैं।

इस कर्मके दो भेद होते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—१—उच्च-गोत्र और २—नीचगोत्र।

१—जिस कर्मके उदयसे जीव उत्तम कुलमें जन्म लेता है, उसे 'उच्चगोत्र कर्म' कहते हैं।

२—जिस कर्मके उदयसे जीव नीच कुलमें जन्म लेता है, उसे 'नीचगोत्र कर्म' कहते हैं।

यहाँ प्रश्न यह उठता है कि उच्च और नीच कुल किसको कहना चाहिये।

जो कुल धर्म और नीतिकी रक्षासे सम्बन्ध रखता है, वह 'उच्चकुल' है। जो कुल अधर्म और अनीतिसे सम्बन्ध रखता है, वह 'नीचकुल' है।

३—अन्तराय कर्म।

इसका दूसरा नाम विप्र कर्म है। इसके पाँच भेद हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव धन, भोग, उपभोगका सामान होते हुए भी उन्हें नहीं भोग सकता है अर्थात् फायदा नहीं उठा सकता है, जैसे किसी व्यापारमें लाभ होते होते नहीं होता है, शक्ति होते हुए किसी कार्यको नहीं कर सकता है, इस प्रकारके कर्मको 'अन्तराय कर्म' कहते हैं। इसके पाँच भेद होते हैं—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय।

१—जिसके उदयसे दानकी चीजें मौजूद हों, गुणवान् पात्र आया हो, दानका फल भी जानता ही तो भी दान करनेका उत्साह नहीं होता, उसे 'दानान्तराय कर्म' कहते हैं। यह दानीके बास्ते है।

दर्शन गुणको ढक देनेकी शक्ति पैदा होती है, कुछ कर्म-पुद्गलोंमें आत्माके आनन्द-गुणको छिपा देनेकी शक्ति पैदा होती है, कुछ कर्म-पुद्गलोंमें आत्माकी अनन्त सामर्थ्यको दबा देनेकी शक्ति पैदा होती है। इस तरह भिन्न-भिन्न कर्म-पुद्गलोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रकृतियोंके अर्थात् शक्तियोंके बन्धको अर्थात् उत्पन्न होनेको 'प्रकृतिबन्ध' कहते हैं।

कुछ लड्डू एक सप्ताह तक रहते हैं, कुछ लड्डू एक मास तक, कुछ लड्डू एक महीने तक, इस तरह लड्डुओंकी जुदी-जुदी काल मर्यादा होती है। काल-मर्यादाको स्थिति कहते हैं। स्थितिके पूर्ण होनेपर, लड्डू अपने स्वभावको छोड़ देते हैं अर्थात् बिगड़ जाते हैं। इसी प्रकार कर्म दल आत्माके साथ सत्तर क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक, कोई कर्म-दल वीस क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक, कोई कर्म-दल अन्तर्मुहूर्त तक रहते हैं। इस तरह जुदे-जुदे कर्म-दलोंमें जुदी-जुदी स्थितियोंका अर्थात् अपने स्वभावको त्याग न कर आत्माके साथ बने रहनेकी काल-मर्यादाओंका बन्ध अर्थात् उत्पन्न होना 'स्थितिबन्ध' कहलाता है। स्थितिके पूर्ण होनेपर कर्म-दल अपने स्वभावको छोड़ देते हैं अर्थात् आत्मासे जुदा हो जाते हैं।

कुछ लड्डुओंमें मधुर रस अधिक, कुछ लड्डुओंमें कम, कुछ लड्डुओंमें कटु रस अधिक, कुछ लड्डुओंमें कम, इस तरह मधुर-कटु आदि रसोंकी न्यूनाधिकता देखी जाती है। उसी

प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें शुभरस अधिक, कुछ कर्म दलोंमें कम, कुछ कर्म-दलोंमें अशुभरस अधिक, कुछ कर्म-दलोंमें कम; इस तरह विविध प्रकारके अर्थात् तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, मन्द-मन्दतर-मन्दतम शुभ-अशुभ रसोंका कर्म-पुद्रगलोंमें बन्धन अर्थात् उत्पन्न होना 'रसबन्ध' कहलाता है।

शुभ कर्मोंका रस ईख द्राक्षादिके रसके सदृश मधुर होता है, जिसके अनुभवसे जीव सुश द्वारा होता है। अशुभ कर्मोंका रस नीव आदिके रसके सदृश कड़वा होता है, जिसके अनुभवसे जीव बुरी तरह घबड़ा उठता है। तीव्र-तीव्रतर आदिको समझनेकेलिये दृष्टान्तकी तौरपर ईख या नीवका चार-चार सेर रस लिया जाय। इस रसको स्वाभाविक रस कहना चाहिये। आँचके द्वारा औटा कर चार सेरकी जगह तीन सेर रस बच जाय तो उसे तीव्र कहना चाहिये, और औटानेमें दो सेर रस बच जाय तो तीव्रतर कहना चाहिये और और औटा कर एक सेर रस बच जाय तो तीव्रतम कहना चाहिये। ईख या नीवका एक सेर स्वाभाविक रस लिया जाय। उसमें एक सेर पानीके मिलानेसे मन्द-रस बन जायगा, दो सेर पानीके मिलानेसे मन्दतर-रस बन जायगा और तीन सेर पानीके मिलानेसे मन्दतम-रस बन जायगा।

निःकाढ़चित् कर्म

साधारणतया—एक न्यायसे कर्म दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे जो तपस्याके बलसे अथवा स्थमकी शक्तिसे जल जाते हैं।

इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकारके कर्म वे जिनहें निकाढ़ित कर्म कहते हैं। वे ऐसे होते हैं जिनका फल आत्माको भोगना ही पड़ता है, वे तपस्या वर्गैरहसे निवृत्त नहीं हो सकते।

कुछ लड्डुओंका परिमाण दो तोलेका, कुछ लड्डुओंका छटाँकका और कुछ लड्डुओंका परिमाण पावभरका होता है। उसी प्रकार कुछ कर्म-दलोंमें परमाणुओंकी सख्त्या अधिक और कुछ कर्म दलोंमें कम, इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकारकी परमाणु-सख्त्याओंसे युक्त कर्म दलोंका आत्मासे सम्बन्ध होना 'प्रदेश-बन्ध' कहलाता है। सख्त्यात, असख्त्यात अथवा अनन्त परमाणुओंसे बने हुए स्कन्धको जीव ग्रहण नहीं करता, किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओंसे बने हुए स्कन्धोंको ग्रहण करता है।

निम्नलिखित कर्म करनेसे अमुक कर्मका बन्ध होता है—

१—ज्ञानावरणीयकर्म-बन्धके कारण —

मुनि, साधु अथवा ज्ञानियोंकी असारना करना—अपने गुरु आदि महान् पुरुषोंका उपकार न मानना—पुस्तकों व शास्त्रोंका अपमान तथा नाश करना—विद्यार्थियोंके विद्याभ्यास में विभ्र पहुँचाना अथवा घाघा गेरना—मुनिओं, साधुओं अथवा उच्च आत्माओंको कष्ट पहुँचाना, इत्यादि।

२—दर्शनावरणीयकर्म-बन्धके कारण —

जो कुदेव, कुगुरु और कुधर्मकी प्रशसा करे—धर्म निमित्त हिंसा करे—अन्यायका पक्षपाती हो—कुशाखकी प्रशसा करे और

मूठे जाल रचे—साधु आदि तथा दर्शनके साधन इन्द्रियों
को नष्ट करे—चिन्ता अधिक करे, इत्यादि ।

३—वेदनीयकर्म बन्धके कारण—

(१) सातावेदनीयकर्म बन्धके कारण —

माता, पिता, धर्मचार्य, वृद्ध आदिकी सेवा करना—अपने
साथ हित करनेवाले के साथ; उपकार करना—दीन, दुखियोंके
दुखको दूर करना—कृपायोंपर विजय प्राप्त करना अर्थात्
क्रोध, लोभ, मान और मायासे अपनी आत्माको बचाना—
सुपात्रको आहार देना—रोगियोंकी औपचि तथा देख-भाल
का प्रबन्ध करना—जीवोंको अभयदान देना—विद्यार्थियोंके
वास्ते पढ़ने व रानेका प्रबन्ध करना—धर्ममें अपनी आत्माको
स्थिर रखना—दान देना, आदि । इन कर्मोंका उलटा करनेसे
जीव असातावेदनीय कर्म बाँधता है ।

(२) इनके अलावा असातावेदनीय रूप-बन्धके कारण —

जीवका घात करे—छेदन भेदन आदि क्रिया करे—चुगली
करे—जीवोंको दुख व तकलीफ दे—असत्य बोले—वैर
विरोध करे—क्रोध मान पैदा करे तथा भगड़े करे—परनिन्दा
करे, इत्यादि ।

४—मोहनीय कर्म-बन्धके कारण—

(१) दर्शनमोहनीय —

मोक्षके मार्गका खण्डन करे—मिथ्यात्वके मार्गका समर्थन करे—नास्तिक धर्मका समर्थन करे—धर्मादेके द्रव्यका गवन करे—साधु मुनियोंकी निन्दा करे, इत्यादि ।

(२) चारित्रमोहनीय —

जिसका हास्य आदि किया करनेका स्वभाव पड़ गया है—जो व्यभिचारी है—जो ईर्ष्या करता है—जो आरम्भ करता है—जिसके सदा बुरे परिणाम रहते हैं—जो शिकार खेलता है—मास खाता तथा शराब पीता है—जिसका दिल सदा हिंसामें रहता है, इत्यादि ।

५—आयु कर्म बन्धके कारण —

(१) नरक-आयु-बन्धके कारण —

जो पट् काय (पृथगी, पानी, अग्नि, वायु, बनस्पति और त्रस जीवो)की महाहिंसा करता है—पञ्चेन्द्रिय प्राणियोंका घघ करता है—मास खाता है—वरावर मैथुन सेवता है—विश्वासघात करता है—दूसरोंके धनको भारता है—जो रौद्र-परिणामी है, इत्यादि ।

(२) तिर्यक्ष आयु बन्धके कारण —

जो दूसरोंके साथ कपटका व्यवहार करता है—जो मुँहसे मीठी-मीठी बात करता है, पर दिलमें विष रखता है—जन्मसे ही प्यारा है—किसीको धोखा देना अथवा

कर्तव्य समझता है—सदा बुरे विचार किया करता है,
इत्यादि।

(३) मनुष्य-आयु-बन्धके कारण.—

जो विनयशील है—सदा कपटसे दूर रहता है—जो विचार
घ भाव उच्च रखता है—सादा जीवन व्यतीत करता है—जिसके
रग-रगमें दयाका सचार है—जिसने ईर्ष्या और मानको त्याग
दिया है—दान देनेमें जिसकी रुचि है—जो अल्प कपायबाला
है, इत्यादि।

(४) देव आयुके बन्धके कारणः—

जो अविरतसम्यग्-हृषि मनुष्य या तिर्यक्ष देशविरती
अर्थात् श्रावकपना और सरागसयमी साधुपना पालता है—
बालतप अर्थात् आत्मस्वरूपको न जानकर अज्ञानपूर्वक तप
आदि करता है—अकामनिर्जरा अर्थात् इच्छा न होते हुए
जिसके कर्मकी निर्जरा होती है—भूख, प्यास, गर्मि आदिको
सहन करता है, इत्यादि।

६—नामकर्म बन्धके कारण—

(१) शुभनामकर्मके कारण —

जो सरल अर्थात् मायारहित है—मन, वचन और काय
का व्यापार जिसका एक सा है—गौरवरहित अर्थात् धन-सम्पत्ति,
महत्व, शील, सुन्दरता, नीरोगी कायका अभिमानरहित होता

है—सदा पाप कर्मोंसे ढरता है—क्षमावन्त है—मार्दव आदि गुणोंसे युक्त है, इत्यादि ।

(२) अशुभनामकर्मके कारण —

जिसके मनमें कुछ है और ऊपर कुछहै—दूसरोंको ठगता है—धोखा देता है—भूठी गवाही देता है—धीमें चर्वा आदि वस्तु मिलाता है—दूधमें पानी या अच्छी वस्तुमें निबल वस्तु मिलाता है—अपनी प्रशस्ता और दूसरोंकी निन्दा करता है—जो वेश्याओंको बछ, अलकार देनेवाला हो—घमादेके पैसेको खाने वाला या उसका दुरुपयोग करनेवाला हो ।

उक्त कार्य करनेवाला जीव नरक व एकेन्द्रिय जाति पाता है और अपयश व अकीर्तिको प्राप्त करता है ।

७—गोत्रकर्म-बन्धके कारणः—

(१) उच्चगोत्र बन्धके कारण —

जो किसी व्यक्तिमें दोषके रहते हुए भी उनके विषयमें उदासीन—सिर्फ गुणोंको ही देनेवाला है—आठ प्रकारके मर्दोंसे रहित अर्थात् जातिमद, कुलमद, रूपमद, बलमद, श्रुतमद, ऐश्वर्यमद, लाभमद और तपोमद, इनसे रहित है—हमेशा पढ़ने-पढ़ानेमें जिसका अनुराग है—जिनेन्द्र भगवान्, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, साधु, माता-पिता तथा गुणवानोंकी भक्ति करता है, इत्यादि ।

(२) नीचगोत्र वन्धके कारण —

उपरोक्त कार्योंसे उलटा करना ।

८—अन्तरायकर्म-वन्धके कारण.—

जो जीव न्याय पूर्वक धर्मको दुरा बताता है, भूठ बोलता चोरी करता है, रात्रि भोजन करता है, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-स्थिति रूप मोक्ष-मार्गमें दोष दिखा कर भव्य जीवोंको मार्गसे त करता है, दूसरोंके दान, लाभ, भोग, उपभोगमें अन्तराय चाता है, मन्त्र तन्त्र आदि द्वारा दूसरोंको कष्ट पहुँचोता है ।

जन साधारणकी ज्ञानकारीके बास्ते कर्म-सम्बन्धी कुछ मोंका उत्तर दिया जाता है —

१—मनुष्य किन कर्मोंके फलसे पुत्रकीप्राप्ति नहीं कर पाता ?

उत्तर—पशु, पक्षी और मनुष्योंके अनाथ बचोंका धात रे—ज्यू, रटमल, मच्छर आदि को मारे—गाय, भैंस, गादिके बचोंको दूध न देकर खुद पूरा दूध पीले—अनाथ बचोंका ताव पोषकोंसे विछोआ करे, इत्यादि ।

२—मनुष्य किन कर्मोंके उदयसे निर्धन होता है ?

उत्तर—चोरीसे, घोरेगाड़ीसे, लगाईसे, जुल्मसे, हिंसात्री कुब्यवहारों द्वारा धन उपार्जन करनेसे, धनियोंसे द्वेष करनेए, उनको निर्धन बनानेसे, साधु होकर धन रखनेसे, धरोहर—

धन वस्तुको दबानेसे, किसीके माल व धनको जलमें डुबाने व अग्निमें जलानेसे; इत्यादि ।

३—मनुष्य किन कर्मोंके कारण रोगी होता है ?

उत्तर—रोगियोंको सन्ताप पहुँचानेसे, रोगियोंकी निन्दा व हँसी करनेसे, औपधि दानका अन्तराय करनेसे, रोग तथा तक्लीफ बढ़ानेका प्रयत्न करनेसे, साधुओं व मुनियोंके वस्त्रको मलीन देखकर धृणा करनेसे, इत्यादि ।

४—मनुष्य किन कर्मोंके कारण पराधीन होता है ?

उत्तर—जीवोंको घन्दीराजानेमें ढालनेसे, बहुत मेहनत कराकर थोड़ी मज्जदूरी देनेसे, कर्जदारोंको बोखा देकर उनसे धन वसूल करनेसे और उनकी बेइज्जती करनेसे, नौकरोंको या घरके आदमियों को आहारमें अन्तराय देनेसे, जबरदस्तीकाम व मेहनत लेने से, पशु-पक्षियोंको बाडेमें या पिंजरेमें रखनेसे, दूसरोंको पराधीन देखकर खुशी होनेसे, दूसरोंकी स्वाधीनता नष्ट करने आदिसे ।

५—मनुष्य निर्बल किन कर्मोंके कारण होता है ?

उत्तर—दीन गरीबोंको सतानेसे, अन्न वस्त्रका अन्तराय ढालनेसे, निर्बलोंको दबानेसे, अपने बच्चोंका अभिमान करने आदिसे ।

कर्मोंका सिद्धान्त बड़ा सरल व सीधा है कि जैसा कर्म आप करेंगे, उसीके अनुसार आपको फलकी प्राप्ति होगी ।

ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकारका आप बोजारोपण करेंगे, उसीके अनुसार आपको उसके फलकी प्राप्ति होगी ।

शुभाशुभ कर्मोंकी कसौटी

साधारण लोग यह कहा करते हैं कि दान, सामायिक, सेवा आदि कियाओंके करनेमें शुभ कर्मका बन्ध होता है और किसीको कष्ट पहुँचाने, इच्छा विरुद्ध काम करने आदिमें अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है, परन्तु अशुभ और शुभ कर्मोंका निर्णय करनेकी मुख्य कसौटी यह नहीं है, क्योंकि किसीको कष्ट पहुँचाता हुआ या इच्छा विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य शुभ कर्मका बन्ध कर सकता है। इसी तरह दान, प्रौपध, सामायिक आदि करता हुआ पुरुप कर्मी कभी अशुभ बन्ध अर्थात् पाप भी बाँध लेता है ।

एक परोपकारी चिकित्सक जब किसीपर शब्द किया करता है, तब उस मरीजकी कष्ट अवश्य होता है। हितैषी माता पिता नासमझ लड़केको जब उसकी इच्छाके विरुद्ध पढ़ानेकेलिये प्रयत्न करते हैं, तब उस बालकको दुख सा भालूम होता है, पर इतनेसे न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करनेवाला माना जाता है और न हितैषी माता पिता दोषी समझे जाते हैं। इसके विपरीत कोई जीव भोले लोगोंको ठानेके इरादेसे या किसी तुच्छ आशयसे दान-धर्म करके उसके बदलेमें

धन वस्तुको दवानेसे, किसीके माल व धनको जलमें डुबाने व अग्निमें जलानेसे, इत्यादि ।

३—मनुष्य किन कर्मोंके कारण रोगी होता है ?

उत्तर—रोगियोंको सन्ताप पहुँचानेसे, रोगियोंकी निन्दा व हँसी करनेसे, औपथि दानका अन्तराय करनेसे, रोग तथा तकलीफ बढ़ानेका प्रयत्न करनेसे, साधुओं व मुनियोंके वस्त्रको मलीन देखकर धृणा करनेसे, इत्यादि ।

४—मनुष्य किन कर्मोंके कारण पराधीन होता है ?

उत्तर—जीवोंको बन्दीरानेमें ढालनेसे, वहुत मेहनत कराकर योड़ी मज्जदूरी देनेसे, कर्जदारोंको धोखा देकर उनसे धन वसूल करनेसे और उनकी बेइज्जती करनेसे, नौकरोंको या घरके आदमियों को आहारमें अन्तराय देनेसे, चबरदस्तीकाम व मेहनत लेने से, पशु-पक्षियोंको बाढ़में या पिंजरेमें रखनेसे, दूसरोंको पराधीन देखकर खुशी होनेसे, दूसरोंकी स्वाधीनता नष्ट करने आदिसे ।

५—मनुष्य निर्बल किन कर्मोंके कारण होता है ?

उत्तर—दीन गारीबोंको सतानेसे, अन्न वस्त्रका अन्तराय ढालनेसे, निर्बलोंको दबानेसे, अपने बलका अभिमान करने आदिसे ।

कर्मोंका सिद्धान्त बड़ा सरल व सीधा है कि जैसा कर्म आप करेंगे, उसीके अनुसार आपको फलकी प्राप्ति होगी ।

ठोक उसी प्रकार कि जिस प्रकारका आप धोजारोपण करेंगे, उसीके अनुसार आपको उसके फलकी प्राप्ति होगी ।

शुभाशुभ कर्मोंकी कसौटी

साधारण लोग यह कहा करते हैं कि दान, सामायिक, सेवा आदि क्रियाओंके करनेमें शुभ कर्मका बन्ध होता है और किसीको कष्ट पहुँचाने, इच्छा विरुद्ध काम करने आदिमें अशुभ कर्मोंका बन्ध होता है, परन्तु अशुभ और शुभ कर्मोंका निर्णय करनेकी मुख्य कसौटी यह नहीं है, व्योंकि किसीको कष्ट पहुँचाता हुआ या इच्छा विरुद्ध काम करता हुआ भी मनुष्य शुभ कर्मका बन्ध कर सकता है । इसी तरह दान, प्रौपद, सामायिक आदि करता हुआ पुरुप कभी कभी अशुभ बन्ध अर्थात् पाप भी बांध लेता है ।

एक परोपकारी चिकित्सक जब किसीपर शख किया करता है, तब उस मरीजकी कष्ट अवश्य होता है । हितैषी माता पिता नासमझ लड़केको जब उसकी इच्छाके विरुद्ध पढ़ानेकेलिये प्रयत्न करते हैं, तब उस बालकको दुख सा भालूम होता है, पर इतनेसे न तो वह चिकित्सक अनुचित काम करनेवाला माना जाता है और न हितैषी माता पिता दोषी समझे जाते हैं । इसके विपरीत कोई जीव भोले ज्ञागोंको ठगानेके इरादेसे या किसी तुच्छ आशयसे दान धर्म करके उसके बदलेमें

अशुभ कर्म बाँधता है। अतएव शुभ, और अशुभ कर्म-बन्धकी सभी कसौटी केवल ऊपरकी क्रिया नहीं है, किन्तु उसकी यथार्थ कसौटी कर्त्ताका आशय है, अर्थात् अच्छे आशयसे जो काम किया जाता है, उससे शुभ कर्मका बन्ध होता है और जो दुरे आशयसे किया जाता है, उससे अशुभ कर्मका बन्ध होता है।

साधारण लोग यह समझते हैं कि अमुक काम करनेसे अशुभ कर्मका बन्ध न होगा। इससे वे उस कामको तो छोड़ देते हैं, पर वहुधा उनकी मानसिक क्रिया नहीं छूटती। इससे साधारण रूपमें क्रिया न करते हुए भी वे अशुभ कर्मोंका बन्ध करते रहते हैं। अतएव विचारना चाहिये कि मझी निलेपता क्या है? लेप (बन्ध) मानसिक ज्ञोभको अर्थात् कपायको कहते हैं। यदि कपाय नहीं है तो ऊपरकी कोई भी क्रिया आत्माको बन्धमें रखनेकेलिये समर्थ नहीं है। इससे उलटा यदि कपायका वेग भीतर वर्तमान है तो ऊपर हजार प्रयत्न करनेपर भी कोई जीव अपनी आत्माको कर्म-बन्धसे छुड़ा नहीं सकता।

कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली विशेष वार्ते —

१—बन्ध, २—उदय, ३—उदीरण, ४—सत्ता, ५—अप-वर्तना करण, ६—उदयकाल, ७—अवाधाकाल, ८—सक्रमण, और ९—निर्जरा।

१—मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योग आदि निमित्तोंसे ज्ञानावरण आदि रूपमें परिणत होकर कर्म-पुद्गलोंका आत्माके साथ दूध-पानीके समान मिल जाना 'बन्ध' कहलाता है।

२—उदयकाल आनेपर कर्मोंके शुभाशुभ फलका भोगना 'उदय' कहलाता है।

३—अबाधाकाल व्यतीत हो चुकनेपर भी जो कर्म दलिक पीछेसे उदयमें आनेवाले होते हैं, उनको प्रयत्न विशेषसे खींचकर उदय प्राप्त दलिकोंके साथ भोग लेना, उसे 'उदीरण' कहते हैं।

४—बँधे हुए कर्मोंका अपने स्वरूपको छोड़ कर आत्माके साथ लगा रहना 'सत्ता' कहलाता है।

५—जिस वीर्य-विशेषसे पहले बँधे हुए कर्मकी स्थिति तथा रम घट जाता है, उसको 'अपवर्तनकरण' समझना चाहिये।

६—अबाधाकाल व्यतीत हो चुकनेपर जिस समय कर्मके फलका अनुभव होता है, उस समयको 'उदयकाल' समझना चाहिये।

७—बँधे हुए कर्मसे जितने समय तक आत्माको भाघा नहीं होती अर्थात् शुभाशुभ फलकी वेदना नहीं होती उतने समय को 'अबाधा-काल' समझना चाहिये।

८—जिस वीर्य विशेषसे कर्म एक स्वरूपको छोड़कर दूसरे सजातीय स्वरूपको प्राप्त कर लेता है, उस वीर्य विशेषका नाम

‘सक्रमण’ है। इस प्रकार एक कर्म प्रकृतिका दूसरी सजातीय कर्म-प्रकृति रूप बन जाना भी सक्रमण कहाता है। जैसे मतिज्ञानावरणीय कर्मका श्रुतज्ञानावरणीय कर्म रूपमें बदल जाना या श्रुतज्ञानावरणीय कर्मका मतिज्ञानावरणीय कर्म रूपमें बदल जाना। क्योंकि यह दोनों प्रकृतियाँ ज्ञानावरणीय कर्मका भेद होनेसे आपसमें सजातीय हैं।

६—बैधे हुये कर्मका तप ध्यान आदि साधनोंके द्वारा आत्मासे अलग हो जाना ‘निर्जरा’ कहलाती है।

कर्मोंका स्थितिकाल-प्रमाण

१—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीन कर्मोंकी स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस क्रोडाक्रोड सागरकी और अवाधकाल तीन हजार वर्षका।

२—वेदनीय कर्म —

(१) सातावेदनीय जघन्य दो मास (‘इरियावही’ क्रिया-आश्रित), उत्कृष्ट पन्द्रह क्रोडाक्रोड सागरकी और अवाधकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट देढ हजार वर्षका।

(२) असातावेदनीय कर्म —

असाता वेदनीय जघन्य अन्तर्मुहूर्त उत्कृष्ट तीस क्रोडाक्रोड सागर और अवाधकाल तीन हजार वर्षका।

३—मोहनीय कर्म जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सत्तर क्रोड़ा-
क्रोड़ सागर और अबाधाकाल जघन्य अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट सात
हजार वर्षका ।

४—आयु कर्मका स्थिति प्रमाण अर्थात् जबतक जीव जीवे
जबतक ।

५—नाम और गोत्र कर्म—जघन्य आठ मुहूर्त, उत्कृष्ट धीस
क्रोड़ाक्रोड़ सागर और अबाधाकाल दो हजार वर्षका ।

मुख्य कर्मोंके दूर होनेका क्या परिणाम होता है ?
कर्म दो प्रकारके होते हैं—एक धातिक दूसरे अधातिक ।
धातिक कर्म चार हैं—

१—ज्ञानावरणीय, २—दर्शनावरणीय, ३—अन्तराय और
४—मोहनीय ।

अधातिक कर्म भी चार होते हैं:—

१—वेदनीय, २—गोत्र, ३—नाम और ४—आयु ।

ज्ञानावरण कर्मके अभावसे अनन्त ज्ञान । २—दर्शना-
वरण कर्मके अभावसे अनन्त दर्शन । ३—अन्तराय कर्मके
अभावसे अनन्तवीर्य । ४—दर्शनमोहनीय कर्मके अभावसे शुद्ध
शुद्ध सम्यक्त्व और चारित्रमोहनीय कर्मके अभावसे अनन्त
चारित्र होता है अर्थात् इन समस्त कर्मोंके अभावसे अनन्त
मुख्य होता है । मगर शेष चार कर्मोंके बाकी रहनेसे जीव ऐसी
ही जीवन्मुक्त अवस्थामें ससारमें रहता है और इसी अवस्था

बाले सर्वज्ञ, बीतराग, तीर्थङ्कर भगवान्‌से सासारिक जीवोंको सच्चे धर्म का उपदेश मिलता है—यही सर्वज्ञोपदेश संसारमें प्राणी-मात्रकेलिये हितकारी व उपयोगी होता है।

ऊपरके चार अधातीय अर्थात् वेदनीय, गोत्र, नाम और आयु कर्मकी स्थिति पूरी होनेपर जीव अपने ऊर्ध्व-गमन स्वभावसे जिस स्थानपर कर्मोंसे मुक्त होता है उस स्थानसे सीधा पवनके भक्तोरोंसे रहित अग्निकी तरह ऊर्ध्व-गमन करता है और जहाँ तक ऊपर बताये हुए गमनसहचरी धर्म-द्रव्यका सद्भाव है वहाँ तक गमन करता है। आगे धर्मद्रव्य अर्थात् वर्मास्तिकायका अभाव होनेसे अलोकाकाशमें उसका गमन नहीं होता। इस कारण समस्त मुक्त जीव लोकके शिखर पर विराजमान रहते हैं। यहाँ जिस शरीरसे जीव मुक्ति प्राप्त करता है उस शरीरसे जीव आकार (^३होजाता है) अर्थात् पौलका भाग नहीं रहनेसे आत्म-प्रदेश ठोस हो जाते हैं—किंचित् न्यून हो जाते हैं।

यदि यहाँ कोई यह शङ्का करे कि जब जीव मोक्षसे लौटकर आते नहीं तथा नवीन जीव उत्पन्न होते नहीं और मुक्ति होनेका सिलसिला हमेशा जारी रहता है तो एक दिन ससारके सब जीव मोक्षको प्राप्त कर लेंगे और ससार शून्य हो जायगा। पर इसका उत्तर अथवा समाधान यह है कि जीव राशि अब्द्य अनन्त है, जिस तरह आकाश द्रव्य सर्वद्वयापी अनन्त है।

आयुर्वन्धका नियम

आयुका बन्ध एक भवमें एक ही बार होता है। आयु कर्मकेलिये यह नियम है कि वर्तमान आयुका तीसरा, नवा या सत्ताईसवाँ आदि भाग वाकी रहनेपर ही परभवके आयुका बन्ध होता है।

इस नियमके अनुसार यदि बन्ध न हो तो अन्तमें जब वर्तमान आयु, अन्तमुहूर्त प्रमाण वाकी रहती है, तब अगले भवकी आयुका बन्ध अवश्य होता है।

ससारमें प्रत्येक प्राणी हर समय अर्थात् सोते जागते, चलते किरते, खाते-पीते इत्यादि कार्य करते समय कर्म बन्ध किया करता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। जैसे जैसे वचन, काय और मनकी भावनाएँ हुआ करती हों, उसीके अनुसार कर्म-बन्ध हुआ करता है। अगर हमारे अनज्ञानपनीमें हमारी कायसे कोई किया हो जाती है तो कर्म बन्ध अवश्य होता है। अगर हम कोई वाहियात किया नहीं करते हों, सिफे मनसे ही विचार करते हों तो भी कर्म-बन्ध अवश्य होता है। इसी प्रकार वचनसे भी कर्म बन्ध हुआ करता है। ज्यादातर कर्म-बन्धका कारण हमारा मन है। मन हर समय कुछन-कुछ सोचा विचारा ही करता है और जैसी जैसी मनो-वृत्ति होती रहती है, उसीके अनुसार शुभ अथवा अशुभ कर्मोंका बन्ध हुआ करता है।

कर्म-बन्धके मुख्य हेतु

कर्म-बन्धके मुख्य हेतु चार हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

१—मिथ्यात्व, २—अविरति, ३—कपाय और ४—योग।

(१) मिथ्यात्व—आत्माका वह परिणाम है, जो मिथ्यामोहनीय कर्मके उदयसे होता है और जिससे चित्तमें कदाग्रह, सशय आदि दोष पैदा होते हैं।

(२) अविरति—वह परिणाम है, जो अप्रत्याख्यानावरण कपायके उदयसे होता है और जो चारित्रको रोकता है।

(३) कपाय—वह परिणाम है जो चारित्रमोहनीयके उदयसे होता है और जिससे क्षमा, विनय, सरलता, संतोष, गम्भीरता आदि गुण प्रकट नहीं हो पाते या बहुत कम प्रमाणमें प्रकट होते हैं।

(४) योग—आत्म प्रदेशोंके परिस्पन्द (चाढ़ल्य) को कहते हैं, जो मन, वचन या शरीरके योग्य पुद्रगलोंके आलम्बनसे होता है।

(क) मिथ्यात्वके पाँच भेद होते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

१—आभिग्रहिक, २—अनाभिग्रहिक, ३—आभिनिवेशिक, ४—साशयिक और ५—अनाभोगिक।

इन पाँचोंमेंसे आभिग्रहिक और अनाभिग्रहिक, ये दो मिथ्यात्व गुण हैं और शेष तीन जासु, क्योंकि ये दोनों विषयासरूप होनेसे तीव्र बद्धेशके कारण हैं और शेष तीन विषयासरूप न होनेसे तीव्र बद्धेश के कारण नहीं हैं।

१—तत्त्वकी परीक्षा किये बिना ही किसी एक सिद्धान्तका पक्षपात करके अन्य पक्षका खण्डन करना 'आभिग्रहिक मिथ्यात्व' है।

२—गुण-दोषकी परीक्षा किये बिना ही सब पक्षोंको बराबर समझना 'अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व' है।

३—अपने पक्षको असत्य जानकर भी उसको स्थापना करनेके लिये दुरभिनिवेश (दुराग्रह) करना 'आभिनिवेशिक मिथ्यात्व' है।

४—ऐसा देव होगा या अन्य प्रकारका, इसी तरह गुरु और धर्मके विषयमें सदेह-शील बने रहना 'साशयिक मिथ्यात्व' है।

५—विचार व विशेष ज्ञानका अभाव अर्थात् मोहकी प्रगाढ़तम अवस्था 'अनाभोग मिथ्यात्व' है।

(ख) अविरतिके बारह भेद होते हैं । वे निम्न प्रकार हैं —

मनको अपने विषयमें स्वच्छन्दतापूर्वक प्रवृत्ति करने देना 'मन अविरति' है । इसी प्रकार त्वचा, जिहा आदि पाँच इन्द्रियोंकी अविरतिको भी समझ लेना चाहिये । पृथ्वीकायिक जीवोंकी हिंसा करना 'पृथ्वीकाय-अविरति' है । शेष पाँच कायोंकी अविरतिको इसी प्रकार समझ लेना चाहिये । ये बारह अविरतियाँ मुख्य हैं । मृषावाद अविरति, अदत्तादान अविरति आदि सब अविरतियोंका समावेश इन बारहमें ही हो जाता है ।

(ग) कपायके पश्चीस भेद हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार भेद हैं। इनमें से हर एकके चार-चार भेद होते हैं। वे इस प्रकार हैं— १—संज्वलन, २—प्रत्याख्यानावरण, ३—अप्रत्याख्यानावरण और ४—आनन्दानुबन्धी। इस प्रकार चार कपायोंके 4×4 सोलह भेद होते हैं। इनके अलावा नोकपायमोहनीयके नौ भेद और होते हैं। वे इस प्रकार हैं—

१—हास्य, २—रति, ३—अरति, ४—शोक, ५—भय, ६—जुगुप्सा, ७—खीवेद, ८—पुरुषवेद और ९—नपुसकवेद।

(घ) योगके पन्द्रह भेद होते हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

१—सत्यमनोयोग, २—असत्यमनोयोग, ३—मिश्रमनोयोग और ४—व्यवहारमनोयोग, ये चार भेद मनोयोगके हैं।

१—सत्यवचनयोग, २—असत्यवचनयोग, ३—मिश्रवचनयोग और ४—व्यवहार वचन योग—ये चार भेद वचनयोगके हैं।

१—वैक्रियशारीरकाययोग,	२—आहारिकशारीरकाययोग,
३—छौदारिकशारीरकाययोग,	४—वैक्रियकमिश्रकाययोग,
५—आहारिकमिश्रकाययोग,	६—छौदारिकमिश्रकाययोग
और ७—कार्मणशारीरकाययोग, इस प्रकार काययोगके सात भेद होते हैं।	

चार मनोयोग, चार वचनयोग और सांत काययोग, इन तीनोंको मिलाकर कुल पन्द्रह भेद योगके होते हैं।

बन्धु-हेतुके कुल निम्न प्रकार ५७ भेद हुए —

मिथ्यात्वके ५, अविरतिके १२, कपायके २५ और योगके १५।

गुणस्थानोंमें भूलबन्ध-हेतु

पहिले गुणस्थानमें मिथ्यात्व आदि चारों बन्धु हेतु पाये जाते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें गुणस्थानमें मिथ्यात्वोदयके सिधाय अन्य सब बन्ध हेतु पाये जाते हैं।

छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें गुणस्थानमें मिथ्यात्वकी तरह अविरति भी नहीं पाया जाता है।

स्यारहवें, बारहवें और तेरहवें गुणस्थानमें कपाय भी नहीं पाई जाती है। चौदहवें गुणस्थानमें योगका भी अभाव हो जाता है।

गुणस्थानोंमें उत्तरबन्ध-हेतु

१—पहिले गुणस्थानमें आहारिक द्विकको छोड़कर पचपन बन्ध हेतु हैं। अर्थात् आहारिक और आहारिकमिश्र नहीं होते हैं।

२—दूसरे गुणस्थानमें पाँचों मिथ्यात्वों भी नहीं होते हैं। इसीसे उनको छोड़कर शेष पचोंसे हेत कहे गये हैं।

३—तीसरे गुणस्थानमें अनन्तानुबन्ध-चतुष्क नहीं हैं, क्योंकि उसका उदय दूसरे गुणस्थान तक ही है तथा इस गुणस्थानके समय मृत्यु न होनेके कारण अपर्याप्त अवस्था-भावी-कार्मण, औदारिकमिश्र और वैक्रियमिश्र, ये तीन योग भी नहीं होते। इस प्रकार तीसरे गुणस्थानमें सात बन्ध हेतु घट जानेसे उक्त पचासमेंसे शेष तेतालीस बन्ध हेतु हैं।

४—चौथा गुणस्थान अपर्याप्त-अवस्थामें भी पाया जाता है, इसलिये इसमें अपर्याप्त-अवस्था-भावी कार्मण, औदारिक-मिश्र और वैक्रियमिश्र, इन तीन योगोंका होना सम्भव है। तीसरे गुणस्थान-सम्बन्धी तेतालीस और ये तीन योग, कुल छ्यालीस बन्ध-हेतु चौथे गुणस्थानमें समझने चाहिये।

५—अप्रत्याख्यानावरण-चतुष्क चौथे गुणस्थान तक ही उदय में रहता है, आगे नहीं। इस कारण वह पाँचवें गुणस्थानमें नहीं पाया जाता।

पाँचवाँ गुणस्थान देशविरतिरूप होनेसे उसमें व्रस-हिंसारूप व्रन-अविरति नहीं है तथा यह गुणस्थान केवल पर्याप्त अवस्था भावी है, इस कारण इसमें अपर्याप्त-अवस्था भावी कार्मण और औदारिकमिश्र, ये दो योग भी नहीं होते। इस तरह चौथे गुणस्थानसम्बन्धी छ्यालीस हेतुओंमेंसे उक्त सातके सिवाय शेष उन्तालीस बन्ध-हेतु पाँचवें गुणस्थानमें होते हैं।

६—छठा गुणस्थान सर्वविरतिरूप है। इसलिये इसमें शोषण्यारह अविरतियाँ नहीं होतीं। इसमें प्रत्याख्यानावरणकपायचतुष्क, जिसका उद्दय पाँचवें गुणस्थान पर्यन्त ही रहता है, नहीं होता। इस तरह पाँचवें गुणस्थान सम्बन्धी उन्तालीस हेतुओंमेंसे पन्द्रह घटा देनेपर शोषण्यावधीस रहते हैं। ये चौबीस तथा आहारिक-द्विक कुल छब्बीस बन्ध हेतु छठे गुणस्थानमें हैं।

७—सातवें गुणस्थानमें वैक्रियशारीरके आरम्भ और परित्यागके समय वैक्रियमिश्र तथा आहारिक-शारीरके आरम्भ और परित्यागके समय आहारिकमिश्र योग होता है। पर उस समय प्रमत्त-भाव होनेके कारण सातवाँ गुणस्थान नहीं होता। इस कारण इस गुणस्थानके बन्ध हेतुओंमें ये दो योग नहीं गिने गये हैं। इस प्रकार इसमें चौबीस हेतु हैं।

८—वैक्रिय शारीरवालेको वैक्रियककाययोग और आहारिक शारीरवालेको आहारिककाययोग होता है। ये दो शारीरवाले अधिकसे अधिक सातवें गुणस्थानके ही अधिकारी हैं, आगेके नहीं। इस कारण आठवें गुणस्थानके बन्ध हेतुओंमें इन दो योगोंको नहीं गिना है। इन प्रकार सिर्फ चाईस बन्ध-हेतु इस गुणस्थानमें हैं।

९—हास्य पट्टक अर्थात् हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा आठवेंसे आगेके गुणस्थानमें नहीं होते। इसलिये

चन्हें छोड़कर आठवें गुणस्थानके बोईस हेतुओमेसे शेष सोलह बन्धहेतु नौवें गुणस्थानमें समझने चाहिये ।

१०—तीन वेद तथा सज्वलन क्रोध, मान और माया, इन छहका उदय नौवें गुणस्थाने तक ही होता है । इस कारण इन्हें छोड़कर शेष दस बन्ध हेतु दसवें गुणस्थानमें कहे गये हैं ।

११—१२—सज्वलन लोभका उदय दसवें गुणस्थान तक ही रहता है । इसलिये इसके सिवाय उक्त दसमेंसे शेष नौ हेतु ग्यारहवें तथा बारहवें गुणस्थानमें पाये जाते हैं । नौ हेतु ये हैं—चार मनोयोग, चार वचनयोग और एक औदारिककाययोग ।

१३—तेरहवें गुणस्थानमें सात हेतु हैं—सत्य और असत्य-मृपामनोयोग, सत्य और असत्यामृपावचनयोग, औदारिक-काययोग, औदारिकमिश्रकाययोग तथा कार्मणकाययोग ।

१४—चौदहवें गुणस्थानमें योगका अभाव है । इसलिये इसमें बन्ध-हेतु सर्वथा नहीं है ।

संक्षेप

१—पहिले गुणस्थानमें पचपन बन्ध हेतु हैं ।

२—दूसरे गुणस्थानमें पचास बन्ध हेतु हैं ।

३—तीसरे गुणस्थानमें तेतालीस बन्ध हेतु हैं ।

४—चौथे गुणस्थानमें छायालीस बन्ध हेतु हैं ।

- ५—पाँचवें गुणस्थानमें उन्तालीस बन्ध हेतु हैं ।
- ६—छठे गुणस्थानमें छब्बीस बन्ध-हेतु हैं ।
- ७—सातवें गुणस्थानमें चौबीस बन्ध हेतु हैं ।
- ८—आठवें गुणस्थानमें बाईस बन्ध-हेतु हैं ।
- ९—नौवें गुणस्थानमें सोलह बन्ध हेतु हैं ।
- १०—दसवें गुणस्थानमें दस बन्ध हेतु हैं ।
- ११—१२—ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानमें नौ बन्ध-हेतु हैं ।
- १३—तेरहवें गुणस्थानमें सात बन्ध हेतु हैं ।
- १४—चौदहवें गुणस्थानमें बन्ध हेतु नदीं होते ।
-

नवतत्त्व अधिकार

ज्ञान, पुद्गल, पुण्य, पाप आदि तत्त्वों (पदार्थों) का जो यथार्थ ज्ञान है अर्थात् अद्वान अथवा तथ्य तादृश स्वस्त्रपकी जो ज्ञानकारी है, उसे 'सम्यक्त्व' कहते हैं। श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है कि सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र, इन तीनोंकी प्राप्तिसे सिद्धपद अथवा मोक्षका उपार्जन किया जाता है।*

* दिगम्बर सम्प्रदायमें मोक्षके कारण तो यही तीन माने गये हैं। किन्तु उनके फ़रमें थोड़ासा अन्तर है और वह यह है कि वे सम्यग्दर्शन को सम्यग्ज्ञानसे पहले मानते हैं। यथा—“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग”—मोक्षशास्य। उनका कहना है कि जबतक जीवको आत्माकी रुचि पैदा नहीं होती, तबतक वह तत्सम्यन्धी विशेष ज्ञान उपार्जनके लिये प्रयत्नशील नहीं हो सकता और जबतक उसका विशिष्ट ज्ञान न हो, तबतक तदनुकूल आचरण करना घटित नहीं होता। सामान्य ज्ञान तो सभी सासारी जीवोंको स्वत होता ही है।

रोगीको रोग-मुक्त होनेकेलिये प्रथम चैत्रपर शदा करनेकी आयश्यकता है। आदमें यह जो औषधोपचार बततावे, उसका ज्ञान—सरण रद्दना भी आयश्यक है। तरपश्चात् तदनुकूल औषधि-निर्माण सेवन भी अति-आयश्यक है। सभी यह रोगी रोग-मुक्त हो सकता है।

१—सशय, विपर्यय और अनध्यवसायरहित अर्थात् शुद्ध और यथार्थ तत्त्वों—पदार्थोंके जाननेको 'सम्यग्ज्ञान' कहते हैं।

२—सम्यक् ज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थोंका जो श्रद्धान—विद्यास फरना है, उसे 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं।

३—मिथ्यात्व-कपायादिक ससारकी कारणरूप क्रियाओंसे विरक्त होनेको 'सम्यक्चारित्र' कहते हैं।

जिस प्रकार व्याधियुक्त रोगी औपधिका ज्ञान, श्रद्धान और उपचारका ठीक-ठीक पालन करे तभी वह रोगसे मुक्त होता है। एक वातकी भी कमी होनेसे रोग नहीं जा सकता है। इसी प्रकार सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन और सम्यक्चारित्रसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। अगर इनमेंसे एक वातकी भी कमी हो तो मोक्ष पाना दुर्लभ है।

विना ज्ञानके सम्यक्त्वकी प्राप्ति नहीं होती, ज्ञानकी प्राप्ति विना चारित्रकी प्राप्ति नहीं होती और चारित्रकी प्राप्ति विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। इस कारण प्रथम ज्ञान उपार्जन करने की परम आवश्यकता है।

भव्य प्राणियोंको ज्ञानका आराधन करना चाहिये। क्योंकि ज्ञान पाप-रूपी तिमिरको नष्ट करनेकेलिये सूर्यके समान है, मोक्ष रूपी लक्ष्मीके निवास करनेकेलिये कमलके समान है, काम रूपी सर्पको कीलनेकेलिये मन्त्रके समान है, माया रूपी इहतीकेलिये सिंहके समान है, व्यसन—आपदा—कष्ट रूपी

मेघोंको उड़ानेकेलिये पवनके समान है और समस्त तत्त्वोंको प्रकाशित करनेकेलिये दीपकके समान है।

ज्ञानके बिना मुमुक्षु मनुष्य किस प्रकार मोक्षको प्राप्त कर सकते हैं? इस कारण ज्ञानी पुरुषोंने मोक्षकी इच्छां रखनेवालोंके लिये नवतत्त्वरूपी ज्ञान फरमाया है, जो निम्न प्रकार है—

१—जीव, २—अजीव, ३—पुरुष, ४—पाप; ५—आस्तर्व,
६—वन्ध, ७—सवर, ८—निर्जरा और ९—मोक्ष।

जीव

जीव सदासे है और सदा रहेगा। इसको न कभी किसीने वर्णया और न कभी इसका नाश होगा। सदा काल यह जीवित—जिन्दा रहता है। इसी कारण यह 'जीव' कहलाता है। जो सुख-दुखको भोगता है—अनुभव करता है, उसे 'जीव' कहते हैं।

जीवका लक्षण चैतन्य है, जो सदा इसके साथ रहती है। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश बादलोंसे ढका रहता है, उसी प्रकार इस जीवका ज्ञान दर्शन-गुण ज्ञानावरणीय आदि कर्म पुढ़गलोंसे ढका रहता है।

संसारमें जीव अनन्तानन्त हैं—बेशुमार हैं। लेकिन फिर भी सर्वज्ञानुसार शास्त्रकारोंने उनका अनेक रूपसे वर्गीकरण किया है। यथा—

१—संसारके समस्त जीवोंमें चैतन्य होनेसे वे सब एक प्रकारके हैं।

२—जीव दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे जीव हैं जो व सहित हैं—कर्मके धरीभूत हैं, नाना प्रकारके जन्म मरण व हुए समारमें संसरण—भ्रमण करते रहते हैं, इसलिये उन 'सासारी जीव' कहते हैं। दूसरे वे हैं जो समस्त कर्मोंको छाया अर्थात् काटकर मुक्त हो गये हैं, उन्हे 'मुक्त जीव' अथवा 'स्व जीव' कहते हैं।

३—मोक्ष प्राप्त हुये जीव सब एक प्रकारके होते हैं, पर सासारी जीव अनेक प्रकारके होते हैं। इस कारण केवल सासारी जीवोंके ही भेद बताये जाते हैं —

१—सूक्ष्म एकेन्द्रिय, २—बादर एकेन्द्रिय, ३—द्विन्द्रि
४—त्रीन्द्रिय, ५—चतुरन्द्रिय, ६—असैनी (असङ्गी) पञ्चेन्द्रिय
और ७—सैनी (सङ्गी) पञ्चेन्द्रिय ।

समारमें पञ्चेन्द्रिय जीव दो प्रकारके होते हैं। एक तो जिनके मन नहीं होता, उन्हें 'असैनी' कहते हैं। ये जीव मात्र पिताके सयांगके बिना ही पैदा होते हैं अर्थात् पानी, पृथ्वी, वाआदिके सयोग-विशेषसे पैदा होते हैं। दूसरे वे जो माताकी रु और पिताके वीर्यके समर्गसे पैदा होते हैं। इनके मन होता है इसलिये ये 'सैनी' (सङ्गी) कहलाते हैं।

१—सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव इन्हे सूक्ष्म होते हैं कि वे किस यन्त्र द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। इस प्रकारके पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिके अनन्तानन्त जीव समस्त जोकि

भरे हुये हैं। ये केवल ज्ञान द्वारा ही अवलोकन किए जा सकते हैं।

२—बादर एकेन्द्रिय जीव भी नेत्रोद्वारा कठिनतासे दीख पढ़ते हैं, पर यन्त्रद्वारा आसानीसे दीख जाते हैं। इस प्रकारके पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और वनस्पतिके अतन्तानन्त जीव हैं। सूक्ष्म और बादर जीवोंके केवल स्पर्श इन्द्रिय ही होती है। अर्थात् केवल शरीर ही होता है।

३—द्वीन्द्रिय-जीव वे होते हैं, जिनके केवल दो ही इन्द्रियों होती हैं। एक स्पर्श और दूसरी रसना अर्थात् जिद्धा। जैसे— केचुआ, लट आदि।

४—त्रीन्द्रिय-जीव वे होते हैं, जिनके केवल तीन इन्द्रियों होती हैं। एक स्पर्श, दूसरी रसना और तीसरी ग्राण अर्थात् नासिका। जैसे—चीटी, खटमल आदि।

५—चतुरिन्द्रिय-जीव वे होते हैं, जिनके केवल चार ही इन्द्रियों होती हैं। एक स्पर्श, दूसरी रसना, तीसरी ग्राण, और चौथी नेत्र। जैसे—मकड़ी, भौंरा आदि।

६—असैनी पञ्चेन्द्रिय-जीव वे होते हैं, जिनके पाँच इन्द्रियों होती हैं। एक स्पर्श, दूसरी रसना, तीसरी ग्राण, चौथी नेत्र और पाँचवीं शोत्र अर्थात् कान। इन जीवोंके मन नहीं होता है। जैसे—मेंढक आदि।

७—सैनी पञ्चेन्द्रिय जीव वे होते हैं, जिनके उपरोक्त पाँच इन्द्रियों और मन होता है। जैसे—मनुष्य, पशु आदि।

जीवके शरीर

प्रश्न—शरीर किसको कहते हैं ?

उत्तर—जिसमें प्रतिक्षण बढ़ने घटनेका धर्म हो अथवा जो शरीरनाम-कर्मके उदयसे उत्पन्न होता हो, उसे 'शरीर' कहते हैं।

शास्त्रभारोने शरीर पाँच प्रकारके बताये हैं। १—आदारिक, २—वैक्रियिक, ३—आहारिक, ४—तैजस और ५—कार्मण।

१—मनुष्य, पशु आदिके स्थूल शरीरको, जिसमें हाड़, मासि, लोहू आदि हो, उसको 'आदारिक शरीर' कहते हैं।

२—जिसमें छोटे-बड़े एक-अनेक आदि नाना प्रकारके रूप बनानेकी शक्ति हो, उसको 'वैक्रियिक-शरीर' कहते हैं। वैक्रियिक-शरीर देव और नारकीके होते हैं। इनमें लोहू, हाड़, मास आदि नहीं होते। जब ये मरते हैं तो इनके शरीर कपूरकी तरह विद्यर जाते हैं।

३—कुछ पहुँचे हुए मुनियों (छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों) को जब तत्त्वोंमें कोई ऐसी पशुच्छा हो जाती है, जिसका समाधान तीर्थफुर या श्रुतकेयली बिना अन्य किसी ज्ञानीसे नहीं हो सकता हो तब वे तीर्थफुर महाराज या केवली महाराजके निकट लानेके लिये अपने शरीरमेंसे एक हाथका पुवला निकालते हैं, वह

उनके पास जाकर प्रश्नका उत्तर लोकरे मुनिराजोंको सुसाहित-चित्त करता है। इस प्रकारके पुतले रूपी शरीरको 'आहारिक-शरीर' कहते हैं।

४—ग्रहण किये हुए आहारको जो पचावे, उसको 'तैजस शरीर' कहते हैं।

५—ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको 'कार्मण शरीर' कहते हैं। यह शरीर ससारी जीवके हर हालतमें रहता है और उसके परिभ्रमणका यही कारण होता है।

औदारिक शरीरसे वैक्रयिक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रयिकसे आहारिक सूक्ष्म होता है, आहारिकसे तैजस सूक्ष्म होता है और तैजससे कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है।

औदारिक शरीरमें जितने परमाणु हैं, उनसे असंख्यगुणे परमाणु वैक्रयिक शरीरमें हैं। वैक्रयिक शरीरसे असंख्यगुणे परमाणु आहारिक शरीरमें हैं। तैजस और कार्मण शरीर अनन्तगुणे परमाणुवाले होते हैं अर्थात् आहारिकसे अनन्त गुणे परमाणु तैजस शरीरमें हैं, और तैजससे अनन्तगुणे परमाणु कार्मण शरीरमें होते हैं।

तैजस और कार्मण शरीर आत्मासे अनादि कालसे सम्बन्ध रखते हैं अर्थात् ये दोनों शरीर ससारके समस्त जीवोंके साथ अनादिसे लगे हुए हैं और तब तक जीवके साथ लगे भी रहेंगे जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है।

जीवके साथ सदा दो शरीर तैजस और कार्मण तो रहते ही हैं, अगर तीन हों तो आौदारिक, तैजस और कार्मण होते हैं अथवा वैक्रियिक, तैजस और कार्मण, ये तीन भी होते हैं। परन्तु ये देव तथा नरक गतिमें ही होते हैं। यदि किसीके एक साथ चार शरीर हो तो आौदारिक, आदारिक, तैजस और कार्मण होते हैं। घस, एक साथ एक जीवके एक समयमें चारसे अधिक शरीर नहीं हो सकते।

जीवकी गति

एक शरीरको छोड़ कर नया शरीर धारण करनेकेलिये जीव जो गति अर्थात् गमन करता है, वह कार्मण शरीरके योगके द्वारा ही करता है। जीवकी इस गतिको 'विमह गति' कहते हैं और वह आकाशके प्रदेशानुसार ही होती है, अन्य प्रकार नहीं।

एक शरीरको छोड़ कर जीव जब नया शरीर धारण करता है तो उसको अधिक-से-अधिक तीन समय लगते हैं। चौथे समयमें अवश्य वह नयीन शरीरके योग्य पुद्गल महण कर लेता है। जो जीव मोटा बिना गमन-अर्थात् सीधा गमन करता है, वह एक समय भावमें ही नयीन शरीरके योग्य पुद्गल महण कर लेता है।

मुक्त जीवकी गति वक्ता 'रहित (मोटा रहित) सीधी होती है, अर्थात् मुक्त जीव एक समयमें सीधा सात राजू ऊँचा

उनके पास जाकर प्रश्नका उत्तर लाकर मुनिराजोंको समाहित-चित्त करता है। इस प्रकारके पुतले रूपी शरीरको 'आहारिक' शरीर कहते हैं।

४—ग्रहण किये हुए आहारको जो पचावे, उसको 'तैजस शरीर' कहते हैं।

५—ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके समूहको 'कार्मण शरीर' कहते हैं। यह शरीर ससारी जीवके हर हालतमें रहता है और उसके परिभ्रमणका यही कारण होता है।

औदारिक शरीरसे वैक्रयिक शरीर सूक्ष्म होता है, वैक्रयिकसे आहारिक सूक्ष्म होता है, आहारिकसे तैजस सूक्ष्म होता है और तैजससे कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है।

औदारिक शरीरमें जितने परमाणु हैं, उनसे असंख्यगुणे परमाणु वैक्रयिक शरीरमें हैं। वैक्रयिक शरीरसे असंख्यगुणे परमाणु आहारिक शरीरमें हैं। तैजस और कार्मण शरीर अनन्तगुणे परमाणुबाले होते हैं अर्थात् आहारिकसे अनन्त गुणे परमाणु तैजस शरीरमें हैं और तैजससे अनन्तगुणे परमाणु कार्मण शरीरमें होते हैं।

तैजस और कार्मण शरीर आत्मासे अनादि कालसे सम्बन्ध रखते हैं अर्थात् ये दोनों शरीर ससारके समस्त जीवोंके साथ अनादिसे लगे हुए हैं और तब तक जीवके साथ लगे भी रहेंगे तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है।

तक और अधिक से अधिक तीन समय तक अनाहारक रहता है।

पाँच इन्द्रिय और मनके निम्नलिखित पृथक् पृथक् विषय हैं—

१—स्पर्श इन्द्रियका विषय स्पर्श करना अर्थात् छुना है,
 २—रसना इन्द्रियका विषय रस चरना अर्थात् स्वाद लेना है,
 ३—ग्राण इन्द्रियका विषय सुगन्ध लेना अर्थात् सुंघना है, ४—
 नेत्र इन्द्रियका विषय वर्ण-भ्रहण अर्थात् देखना है और ५—
 श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द भ्रहण अर्थात् सुनना है। मनका
 विषय श्रुतज्ञानगोचर पदार्थ है।

जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको तीन प्रकारसे
 धारण करता है अर्थात् जन्म लेता है। १—समूर्ध्वन, २—गर्भ
 और ३—उपपाद।

१—अपने योग्य द्रव्य-ज्ञेत्र काल-भावकी विशेषतासे तीन
 लोकमें भरे हुए अपने चारों ओरके पुढ़गल परमाणुओंसे
 (माता पिताके रजो-वीर्यके मिलनेके बिना ही) देहकी रचना होने
 को 'समूर्ध्वनजन्म' कहते हैं। इनके शाखमें चौदह स्थान
 बताये हैं।

२—ज्ञाके गर्भशयमें माताके रज और पिताके वीर्यके
 संयोगसे जो जन्म होता है उसे 'गर्भजन्म' कहते हैं।

३—माता-पिताके रज-वीर्यके बिना देवयोनिके स्थान-विशेषमें
 जो जन्म होता है, उसे 'उपपादजन्म' कहते हैं।

गमन करता हुआ सिद्ध क्षेत्रमें चला जाता है—इधर-उधर नहीं मुड़ता।

एक शरीरको छोड़कर कर्म-परवश जीव दूसरी जगह जहाँ जाता है, वहाँ वह सबसे पहले पुद्गल वर्गणाएँ ग्रहण करता है। उस वर्णना पिण्डमेसे वह अपना शरीर रचना आरम्भ करता है। ऊपर हम सात प्रकारके जीव बता आये हैं। उनमेंसे जीव जब आहारवर्गण, शरीरवर्गण, इन्द्रियवर्गण, स्वासोच्छ्वासवर्गण, भाषावर्गण और मनोवर्गणके पूर्ण पुद्गलोंको प्राप्त कर लेता है, तब वह 'पर्याप्त' कहलाता है। और जब इनके पूर्ण करनेके पहले ही मृत्युको प्राप्त कर लेता है, तब वह 'अपर्याप्त' कहलाता है। इस प्रकार जीवोंके सात अपर्याप्त और सात पर्याप्त मिलाकर चौदह भेद होते हैं।

जब जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है, तब वह प्रथम उस 'पिण्ड' को ग्रहण करता है जिससे कि वह अपना शरीर आदि बनावेगा। उसके इस पिण्डको 'आहार' कहते हैं। फिर उससे वह अपना शरीर बनाता है। उसके बाद इन्द्रियाँ बनाता है। इसके बाद उसके स्वासोच्छ्वास चलते हैं। फिर भाषा प्राप्त करता है और सबके अन्तमें मन प्राप्त करता है। जब तक जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करता है, तब तक वह 'अनाहारक' रहता है। जीव कम-से-कम एक समय

तक और अधिक से अधिक तीन समय तक अनाहारक रहता है।

पाँच इन्द्रिय और मनके निम्नलिखित पृथक् पृथक् विषय हैं—

१—स्पर्श इन्द्रियका विषय स्पर्श करना अर्थात् छुना है,
२—रसना इन्द्रियका विषय रस चखना अर्थात् स्वाद लेना है,
३—घ्राण इन्द्रियका विषय सुगन्ध लेना अर्थात् सूंघना है, ४—
नेत्र इन्द्रियका विषय वर्ण-ग्रहण अर्थात् देखना है और ५—
श्रोत्र इन्द्रियका विषय शब्द ग्रहण अर्थात् सुनना है। मनका
विषय श्रुतज्ञानगोचर पदार्थ है।

जीव एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको तीन प्रकारसे
धारण करता है अर्थात् जन्म लेता है। १—समूर्धन, २—गर्भ
और ३—उपपाद।

१—अपने योग्य द्रव्य-क्षेत्र काल-भावकी विशेषतासे तीन
लोकमें भरे हुए अपने चारों ओरके पुद्गल परमाणुओंसे
(माता पिताके रजोरीर्यके मिलनेके बिना ही) देहकी रचना होने
को 'समूर्धनजन्म' कहते हैं। इनके शास्त्रमें घौढ़ह स्थान
बताये हैं।

२—छीके गर्भशयमें माताके रज और पिताके वीर्यके
संयोगसे जो जन्म होता है, उसे 'गर्भजन्म' कहते हैं।

३—माता पिताके रज-वीर्यके विना देवयोनिके स्थान-विशेषमें
जो जन्म होता है, उसे 'उपपादजन्म' कहते हैं।

३—मैना-तोता आदि सेचर जीवोंके चार भेद—सैनी, असैनी, पर्याप्त और अपर्याप्त ।

४—सौंप आदि उर परिसर्पके चार भेद—सैनी, असैनी, पर्याप्त और अपर्याप्त ।

५—नौला-चूहा आदि भुजपरिसर्पके चार भेद—सनी, असैनी, पर्याप्त और अपर्याप्त ।

इस प्रकार तिर्यक्ष पञ्चन्द्रियके $22+6+20=$ कुल ४८ भेद हुये ।

(३) मनुष्यके भेद इस प्रकार हैं—

शाखकारोंने दो प्रकारकी भूमि फरमाई हैं—एक वह, जहाँ व्यापार, कृषि आदि कार्य होते हैं, उसे ‘कर्मभूमि’ कहते हैं। और दूसरी वह, जिसमें मनुष्योंको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। उनकी इच्छायें कल्पवृक्षोंसे पूर्ण हो जाती हैं, उसे ‘अकर्म-भूमि’ या ‘भोगभूमि’ कहते हैं।

जहाँ मनुष्य पाये जाते हैं, ऐसे केवल तीन बड़े बड़े द्वीप हैं—

१—जम्बूद्वीप, २—धातकीखण्ड और ३—पुष्करार्धद्वीप ।

१—जम्बूद्वीपमें तीन ज्ञेत्र हैं। १—भरत, १—ऐरावत, और १—महाविदेह ।

२—धातकीखण्डमें छह क्षेत्र हैं। २-भरत, २-ऐरावत और २-महाविदेह।

३—पुष्करार्धद्वीपमें भी छह क्षेत्र हैं। २-भरत, २-ऐरावत और २-महाविदेह।

इस प्रकार कर्मभूमिज मनुष्योंके १५ क्षेत्र हैं।

अकर्मभूमिके क्षेत्र इस प्रकार हैं—जन्मद्वीप, धातकीखण्ड, और पुष्करार्धद्वीप।

१—जन्मद्वीपमें छह क्षेत्र हैं—१-देवकुरु, १-उत्तरकुरु, १-हरिवास, १-रम्यक वास, १-हेमवास और १-एरण्यवास।

२—धातकीखण्डमें बारह क्षेत्र हैं—२-देवकुरु, २-उत्तरकुरु, २-हरिवास, २-रम्यकवास, २-हेमवास और २-एरण्यवास।

३—पुष्करार्धद्वीपमें भी बारह क्षेत्र हैं—२-देवकुरु, २-उत्तरकुरु, २-हरिवास, २-रम्यकवास, २-हेमवास और २-एरण्यवास।

इस प्रकार तीस क्षेत्र अकर्मभूमिज—भोगभूमिज मनुष्योंके हैं। अकर्मभूमि इस प्रकार और हैं—

जन्मद्वीपमें भारत क्षेत्रकी हृद करनेवाला 'चूलहेमवन्त' नामक पर्वत है और ऐरावत क्षेत्रकी हृद करनेवाला 'शिखरी' नामक पर्वत है। इन दोनों पर्वतोंके दोनों कोनोंसे दो-दो शारण्ये निकली हैं। इन घारों शाखाओंमेंसे दो-दो अर्थात् आठ उप-

शाखाएँ और निकली हैं। प्रत्येक उप-शाखापर सात-सात द्वीप हैं। इस प्रकार $6 \times 7 = 42$ 'अन्तर्द्वीप' हैं। इन सब अन्तर्द्वीपोंमें जो 'युगलिये' मनुष्य रहते हैं, वे भी कोई कर्म नहीं करते हैं। कल्प-वृक्ष इन मनुष्योंकी इच्छाओंको पूरा किया करते हैं।

इस प्रकार कर्मभूमि और अकर्मभूमिके कुल क्षेत्र $15 + 30 + 42 = 87$ होते हैं। इनमें रहनेवाले मनुष्य परस्परमें विशेष स्वभावके रखनेवाले हैं। इस प्रकार एक-सौ एक भेद मनुष्योंके हुए। इनके भी पर्याप्त और अपर्याप्तके भेद करनेसे कुल दो-सौ दो भेद होते हैं।

इन उक्त एक-सौ एक क्षेत्रोंतपन्न मनुष्योंके विष्टा, पेशाब, खकार, नाकका सैल, घमन, पित्त, पीप, रक्त, वीर्य, वीर्यके सूके पुद्गल, मृतक शरीर, छो-पुरुषके संयोग, नगरके नाले-नालियों आदि अशुचि स्थानोंमें अन्तर्मुहूर्तमें असख्य समूच्छिम (सूक्ष्म मनुष्य) उत्पन्न होते हैं। चूँकि एक-सौ एक प्रकारके मनुष्य होते हैं। इस कारण ये समूच्छिम जीव भी एक सौ एक प्रकारके होते हैं। ये अपर्याप्त अवस्थाहीमें कालको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्यके कुल तीन-सौ तीन भेद हैं।

(४) देवताओंके भेद इस प्रकार हैं —

१—भवनपतिदेव दस जातिके, २—परमाधामीदेव पन्द्रह जातिके, ३—वाणव्यन्तरदेव सोलह जातिके, ४—ज्योतिषीदेव दस जातिके, ५—किल्वषीदेव तीन जातिके, ६—आरह

देवलोकके देव बारह जातिके, ७—लौकान्तिकदेव नव प्रकारके, ८—ग्रैवेयकदेव नव प्रकारके और अनुत्तरदेव पाँच प्रकारके होते हैं। इस प्रकार कुल देव निन्यानवे जातिके होते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद होनेसे देवताओंके कुल भेद एक-सौ अट्ठानवे होते हैं।

इस प्रकारसे नरकके १४, तिर्यङ्गके ४८, मनुष्यके ३०३ और देवके १६८ कुल मिलकर सब ५६३ भेद जीवके हुए।

लोगोंके मनमें प्राय यह शङ्खा उत्पन्न होती रहती है कि यहाँ जो जीव एक छोटेसे शरीरमें होता है, वही बड़े शरीरमें कैसे व्याप्त हो जाता है? इसका उत्तर यह है कि एक जीवके प्रदेश लोकाकाशके समान हैं अर्थात् जीव असर्व-प्रदेशी हैं। जीवके असर्व्यात् प्रदेश दीपककी रोशनीके समान सकोच-विस्तार-शील होते हैं। उन्हें जैसा आधार—आश्रय—शरीर प्राप्त हो जाता है, वे वैसे ही सकोच विस्ताररूप हो जाते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस प्रकार दीपककी रोशनी एक छोटी सी कोठरीमें होती है और वही दीपक अगर किसी बड़े कमरेमें रख दिया जाय तो रोशनी तमाम कमरेमें फैल जाती है। इसी प्रकार आत्मा अर्थात् जीवका स्वभाव है।

जीवके प्राण

१—जिस शक्तिके निमित्तसे आत्मा प्राण धारण करे, उसको 'जीवत्वगुण' कहते हैं।

२—जिसके सयोगसे यह जीव जीवन अवस्थाको प्राप्त हो और वियोगसे मरण अवस्थाको प्राप्त हो, उसको 'प्राण' कहते हैं।

३—प्राण दो प्रकारके होते हैं:—एक द्रव्य प्राण और दूसरा भाव प्राण।

(१) द्रव्य प्राण दस हैं.—मनोबल प्राण, वचनबल प्राण, कायबल प्राण, स्पर्शेन्द्रियबल प्राण, रसनेन्द्रियबल प्राण, प्राणेन्द्रियबल प्राण, चकुरिन्द्रियबल प्राण, श्रोत्रेन्द्रियबल प्राण, श्वासोच्छ्वास और आयु।

(२) आत्माकी जिस शक्तिके निमित्तसे इन्द्रियादिक अपने कार्यमें प्रवृत्त हों, उसे 'भाव प्राण' कहते हैं।

(क) एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं.—स्पर्शेन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास और आयु।

(ख) द्विन्द्रियके छह—स्पर्शेन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छ्वास, आयु, रसनेन्द्रिय और वचनबल।

(ग) त्रीन्द्रियके सात प्राण.—उपरोक्त छह और प्राणेन्द्रिय।

(घ) चतुरिन्द्रियके आठ:—उपरोक्त सात और एक चकुरिन्द्रियबल प्राण।

(छ) पञ्चेन्द्रिय असंज्ञीके नौ प्राण—उपरोक्त आठ और और एक श्रोत्रेन्द्रियबल प्राण ।

(च) सैनी पञ्चेन्द्रियके दस प्राण—उपरोक्त नौ और एक भनोवल ।

जीवोंकी आयु और स्थिति

१—एकेन्द्रिय जीवकी कम-से-कम आयु एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक बाईम हजार वर्षकी होती है ।

२—द्वीन्द्रिय जीवकी कम-से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक बारह वर्षकी होती है ।

३—त्रीन्द्रिय जीवकी कम-से कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से अधिक उनचास रात्रि दिनकी होती है ।

४—चतुरिन्द्रिय जीवकी कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक छह महीनेकी होती है ।

५—पञ्चेन्द्रिय जीवकी कम से-कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से अधिक तेतीस सालरकी होती है ।

१—एकेन्द्रिय एकेन्द्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनन्त काल तक ।

२—द्वीन्द्रिय द्वीन्द्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक अस्त्यात काल तक ।

३—त्रीनिद्रिय त्रीनिद्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक असंख्यात काल तक ।

४—चतुरिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक असंख्यात काल तक ।

५—पञ्चेन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक एक हजार सागर तक ।

अपर्याप्त एकेन्द्रिय जीवसे लेकर पञ्चेन्द्रिय जीव तककी कम-से-कम और अधिक-से-अधिक एक अन्तर्मुहूर्तकी आयु है ।

१—एकेन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थामें कम-से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से अधिक सख्यात हजार वर्ष तक रहे ।

२—द्वीन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थामें कम-से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक सख्यात वर्ष तक रहे ।

३—त्रीन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थामें कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक सख्यात रात्रि दिन रहे ।

४—चतुरिन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थामें कम से कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक से-अधिक सख्यात मास तक रहे ।

५—पञ्चेन्द्रिय जीव पर्याप्त अवस्थामें कम से-कम अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक तेवीस मागरसे कुछ अधिक रहे ।

१—एकेन्द्रियका अन्तरकाल कम से-कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक दो हजार सागर और संख्यात हजार वर्ष है ।

२—द्वीन्द्रियका अन्तरकाल कम-से-कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से अधिक अनन्तकाल है।

३—त्रीन्द्रियका अन्तरकाल कम-से कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक अनन्तकाल है।

४—चतुरिन्द्रियका अन्तरकाल कम-से-कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक अनन्तकाल है।

५—पञ्चेन्द्रियका अन्तरकाल कम-से कम एक अन्तर्मुहूर्त और अधिक-से-अधिक अनन्तकाल है।

जीवोंका अल्प-चहुत्व

लोकमें सबसे कम जीव सद्वी पञ्चेन्द्रिय हैं। इनसे विशेषाधिक असद्वी पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। इनसे विशेषाधिक चतुरिन्द्रिय जीव हैं। इनसे विशेषाधिक त्रीन्द्रिय जीव हैं। इनसे विशेषाधिक द्वीन्द्रिय जीव हैं। एकेन्द्रिय जीव उनसे अनन्त गुणे हैं।

सबसे कम सख्तामें चतुरिन्द्रिय पर्याप्त जीव हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव विशेषाधिक सख्तामें हैं। इनसे द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीव विशेषाधिक सख्तामें हैं। इनसे त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीव विशेषाधिक सख्तामें हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त जीव असख्तातगुणे हैं। इनसे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीव विशेषाधिक हैं। इनसे त्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीव विशेषाधिक हैं। इनसे द्वीन्द्रिय अपर्याप्त जीव विशेषाधिक हैं। इनसे एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव अनन्तगुणे हैं।

१—संसारमें सबसे थोड़े पुरुषवेदी, इनसे ल्लीवेदी सख्यात्-गुणे, इनसे अवेदी अनन्तगुणे और इनसे नपुसकवेदी अनन्त-गुणे जीव हैं।

२—संसारमें सबसे थोड़े सयति हैं, इनसे असंख्यात्गुणे सयतासयति हैं, इनसे नो-सयति, नो-असयति और नो-सयता-सयति अनन्तगुणे हैं और असंयति अनन्तगुणे जीव हैं।

३—संसारमें सबसे थोड़े सन्यगृष्टि हैं, इनसे मिश्रगृष्टि अनन्तगुणे हैं और मिथ्यागृष्टि जीव भी अनन्त हैं।

४—संसारमें सबसे थोड़े संज्ञी जीव हैं, इनसे नो संज्ञी नो-असंज्ञी अनन्तगुणे हैं और असंज्ञी जीव भी अनन्तगुणे हैं।

५—संसारमें सबसे थोड़े जीव अभव्य हैं, इनसे नो-भव्य और नो-अभव्य अनन्तगुणे हैं और भव्य जीव अनन्तगुणे हैं।

६—संसारमें सबसे थोड़े अवधिदर्शनी हैं, इनसे असंख्यात्-गुणे चकुर्दर्शनी हैं, केवलदर्शनी अनन्तगुणे हैं और अचकुर्दर्शनी भी अनन्तगुणे हैं।

७—संसारमें सबसे थोड़े पर्याप्त जीव हैं, इनसे अनन्तगुणे नो-पर्याप्त और नो-अपर्याप्त हैं और अपर्याप्त जीव अनन्तगुणे हैं।

८—संसारमें सबसे थोड़े जीव भापक हैं और इनसे अनन्त-गुणे जीव अभापक हैं।

९—संसारमें सबसे थोड़े परित हैं, इनसे नो-परित और नो-अपरित अनन्तगुणे हैं और अपरित जीव अनन्तगुणे हैं।

१०—सप्ताहमें सबसे थोड़े मन पर्यवज्ञानी जीव हैं, इनसे असंख्यातगुणे अवधिज्ञानी जीव हैं, मति और श्रुतज्ञानी इनसे असंख्यातगुणे हैं, पर आपसमें तुल्य विशेषाधिक हैं और केवल ज्ञानी जीव अनन्तगुणे हैं।

११—सप्ताहमें सबसे थोड़े विभक्तज्ञानी, इनसे मति श्रुत ज्ञानी अनन्तगुणे हैं, पर परस्पर तुल्य विशेषाधिक हैं।

१२—सप्ताहमें सबसे थोड़े मनोयोगी जीव हैं, इनसे असंख्यातगुणे वचनयोगी जीव हैं, अयोगी जीव अनन्तगुणे हैं और काययोगी जीव भी अनन्तगुणे हैं।

१३—सप्ताहमें सबसे थोड़े जीव साकारोपयुक्त हैं, इनसे विशेषाधिक अनाकारोपयुक्त हैं।

१४—सप्ताहमें सबसे थोड़े आदारिक जीव हैं, इनसे असंख्यातगुणे अनादारिक जीव हैं।

१५—सप्ताहमें सबसे थोड़े नो सूक्ष्म, नो धादर जीव हैं, इनसे अनन्तगुणे धादर जीव हैं, सूक्ष्म जीव सरयातगुणे हैं।

१६—सप्ताहमें सबसे थोड़े जीव अचरमी जीव हैं, इनसे अनन्तगुणे चरमी जीव हैं।

संसारी जीवके गुण

१—शरीर, २—अवगाहना, ३—संहनन, ४—स्थान, ५—कपाय, ६—सज्जा, ७—लेश्या, ८—इन्द्रिय, ९—समुद्रघात, १०—सज्जा, ११—षेद,

१२-पर्याप्ति, १३-दृष्टि, १४-दर्शन, १५-ज्ञान, १६-योग, १७-उप-योग, १८-आहार, १९-उपवास, २०-स्थिति, २१-समोहाय, २२-च्यवन और २३-गति-अगति ।

१—जीव जिसके द्वारा भोगोपभोग सोगता है तथा कर्मोंका क्षय करता है, उसे 'शरीर' कहते हैं। वह शरीरनामकर्मके उदयसे जीवको प्राप्त होता है। जिसका वर्णन 'कर्म अधिकार'में कर आये हैं। वह शरीर पौर्ण प्रकारका होता है—(१) औदारिक शरीर, (२) वैक्रिय शरीर, (३) आहारिक शरीर, (४) तैजस शरीर और (५) कार्मण शरीर ।

२—शरीरके क़द्रु अथवा लम्बाईको 'अवगाहना' कहते हैं। अवगाहना कम-से-कम अड्गुलके असख्यातवें भाग प्रमाण और अधिक-से-अधिक एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक तक होती है।

३—शरीरके हाड़ोंके बन्धन-विशेषको 'सहनन' कहते हैं। 'सहनन' नामक नाम कर्मके उदयसे जीवको यह प्राप्त होता है। वह छह प्रकारका होता है—वज्रऋषभनाराच संहनन, ऋषभ-नाराच सहनन, नाराच सहनन, अर्धनाराच सहनन, कीलक संद-यन और सेवार्द (असंप्राप्तासूपाटिका) सहनन ।

४—शरीरकी आकृति अथवा शक्तिको 'संस्थान' कहते हैं। यह भी जीवको 'संस्थान' नाम कर्मके उदयसे प्राप्त होता है। यह छह प्रकारका होता है—समचतुर्ष संस्थान, न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थान, सादि संस्थान, वामन संस्थान, कुञ्जक संस्थान और छुड़क संस्थान ।

५—आत्माके दुरे परिणामोंको 'कपाय' कहते हैं। जीवको यह 'चारिङ् मोहनीय कम'के उदयसे प्राप्त होती है। वह चार प्रकारकी है। १-क्रोव, २-मान, ३-माया और ४-लोभ।

६—अभिलापासो—वाञ्छाको 'सज्जा' कहते हैं। मज्जाके चार भेद हैं—१-आहार सज्जा, २-भय सज्जा, ३-मैथुन सज्जा और ४-परिग्रह सज्जा।

७—जिस परिणाम-विशेष द्वारा आत्मा कर्मोंसे लिप्त होता है तथा योग और कपायकी तरगसे जो उत्पन्न होती हो, ऐसे मन के शुभाशुभ परिणामको 'लेश्या' कहते हैं। लेश्याके छह भेद हैं। १-कृष्ण लेश्या, २-नील लेश्या, ३-कापोत लेश्या, ४-तेजो लेश्या, ५-पद्म लेश्या और ६-शुक्ल लेश्या।

८—आत्माके लिङ्गको—चिह्नको 'इन्द्रिय' कहते हैं। इन्द्रियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं। १-श्रोत्रेन्द्रिय, २-वक्तुरिन्द्रिय, ३-घाणेन्द्रिय, ४-रसनेन्द्रिय और ५-स्पर्शेन्द्रिय।

९—मूल शारीरको विना छोड़े जीवके प्रदेशोंके बाहर निकलने को 'समुद्रघात' कहते हैं। समुद्रघातके सात भेद हैं। १-वेदनीय, २-कपाय, ३-मारणान्तिक, ४-वैक्रिय, ५-आहारिक, ६-तैजस और ७-केवलि समुद्रघात।

१०—जिसमें सज्जा हो—मन हो, उसे 'सज्जी' कहते हैं और जिस जीवके मन नहीं होता है, उसे 'असज्जी' कहते हैं।

११—जोकपायके उदयसे उत्पन्न हुई जीवके मैथुन करनेकी अभिलापाको 'भाववेद' कहते हैं। नाम-कर्मके उदयसे आविर्भूत जीवके चिह्न-विशेषको 'द्रव्यवेद' कहते हैं। वेदके तीन भेद होते हैं:—१-पुरुषवेद, २-स्त्रीवेद और ३-नपुसकवेद।

१२—वर्गणाओंको आहार, भाषा आदि रूप परिणामावनेकी शक्तिकी पूर्णताको 'पर्याप्ति' कहते हैं। उसके छह भेद हैं—१-आहार, २-शरीर, ३-इन्द्रिय, ४-श्वासोन्द्रास, ५-भाषा और ६-मन पर्याप्ति।

१३—जीवकी मान्यता अथवा विचारीको 'हृष्टि' कहते हैं। हृष्टि तीन प्रकारकी होती है—१-सम्यक्हृष्टि, २-मिथ्याहृष्टि और ३-मिथ्रहृष्टि।

१४—देरानेको 'दर्शन' कहते हैं। ज्ञानके पहिले दर्शन होता है। यिना दर्शनके अल्पज्ञ जनोंको ज्ञान नहीं होता है परन्तु सर्वज्ञ देवको ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। दर्शनके चार भेद होते हैं—१-चक्रुदर्शन, २-भचक्रुदर्शन, ३-अवधिदर्शन और ४-केवलदर्शन।

१५—किसी वस्तुकी जानकारीको 'ज्ञान' कहते हैं। ज्ञानके आठ भेद हैं—१-मतिज्ञान, २-श्रुतज्ञान, ३-अवधिज्ञान, ४-मन पर्यवज्ञान, ५-केवलज्ञान, ६-मति अज्ञान, ७-श्रुत-अज्ञान और ८-विभङ्गज्ञान।

१६—मन, वचन और कायके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंके चञ्चल होनेको 'योग' कहते हैं। योगके तीन भेद हैं—१-मनो-योग, २-वचनयोग और ३-काययोग।

१७—जीवके लक्षण रूप चैतन्यानुविधायी परिणामको 'उपयोग' कहते हैं। उपयोगके दो भेद हैं—१-साकारोपयुक्त और २-अनाकारोपयुक्त।

१८—आौदारिक आदि शरीर और भाषा आदि पर्याप्तिके योग्य पुद्गलोंके प्रदृश करनेको 'आहार' कहते हैं।

१९—गतिमें उत्पन्न होनेको 'उपपात' कहते हैं। उपपात पाँच प्रकारका होता है—१—नरक, २—तिर्यङ्ग, ३—मनुष्य, ४—देव और ५—सिद्ध।

२०—जीवके एक शरीरमें रहनेको 'स्थिति' कहते हैं। जीव की स्थिति जघन्य अन्वर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तेतीस सागर है।

२१—प्रदेशोंकी श्रेणी चूद्ध व निना श्रेणीसे जीवकी मृत्यु होनेको 'समोहाय' कहते हैं।

२२—आयु पूर्ण होनेपर एक गतिसे छूटनेको 'च्यवन' कहते हैं।

२३—एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेको 'गमनागमन' कहते हैं।

ये तीईस गुण प्रत्येक सप्ताही जीवमें होते हैं। इनके अवान्तर भेद भी ऊपर कहे गये हैं। वे किसी जीवके किनने ही होते हैं

और किसी जीवके कितने ही। उदाहरणकेलिये, 'सूखम पृथ्वी-काय'के जीवको लीजिए। उसमें—

- १—शरीर—आौदारिक, तैजस और कार्मण।
- २—अवगाहना—जघन्य उत्कृष्ट अगुलके असख्यातवे भाग।
- ३—सहनन—मेवार्त।
- ४—सस्थान—मसूरकी दाल व अर्धचन्द्रमाके आकारका।
- ५—कपाय—क्रोधादि चारों कपाय।
- ६—सज्जा—आहार, भय, मैथुन और परिप्रह।
- ७—लेश्या—कृष्ण, नील और कापोत।
- ८—इन्द्रिय—स्पर्शेन्द्रिय।
- ९—मसुदूधोत—बेदनीय, कपाय और मारणान्तिक।
- १०—सज्जी या असज्जी—असज्जी।
- ११—वेद—नपुसक वेद।
- १२—पर्याप्ति—आहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और श्वासोन्द्रासपर्याप्ति।
- १३—दृष्टि—मिथ्या दृष्टि।
- १४—दर्शन—अचलुर्दर्शन।
- १५—ज्ञान—मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान।
- १६—योग—काययोग।
- १७—उपयोग—माकारोपयुक्त और अनाकारोपयुक्त।

१५—आहार—द्रव्यसे अनन्तप्रदेशी रक्तन्धका आहार करता है। क्षेत्रसे असख्यातप्रदेश अवगाही पुद्गलोंका आहार करता है। कालसे अन्यतर समय स्थितिवाले अर्थात् जघन्य-स्थितिवाले, मध्यमस्थितिवाले व उत्कृष्टस्थितिवाले पुद्गलोंका आहार करता है और भावसे वर्णमय, गन्धमय, रसमय और स्पर्शमय पुद्गलोंका आहार करता है। और आत्म-प्रदेशके साथ अवगाहे हुए पुद्गलोंका आहार करता है।

१६—उपपात—तिर्यक्ष और मनुष्योंमेंसे उत्पन्न होता है। तिर्यक्षमें भी असख्यात वर्षके आयुष्यवाले पर्याप्त व अपर्याप्त जीव उत्पन्न नहीं होते। वैसे ही असख्यातत्रर्पके आयुष्यवाले अकर्मभूमिके मनुष्य भी उत्पन्न नहीं होते।

२०—स्थिति—जघन्य उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त।

२१—समोहाय—समोहता और असमोहता दोनों प्रकारका मरण करता है।

२२—च्यवन—यह जीव जारकी व देवमेंसे उत्पन्न नहीं होता है। सिर्फ तिर्यक्ष और मनुष्यमेंसे उत्पन्न होता है।

२३—गति आगति—तिर्यक्ष और मनुष्य इन दो गतिओंमें जाता है।

आत्मा और केवलज्ञान

सासारिक सुख या दुःखके होनेमें राग द्वेषकी वीत्रता कारण है। जब राग अतितीव्र हो जाता है, तब सासारिक सुख और

जब द्वेष अवितीत्र हो जाता है, तब मांसारिक दुरु अनुभवमें आता है। जब किमी इष्ट विषयके मिलनेमें असफलता होती है, तब उस वियोगसे द्वेषभाव होता है कि यह वियोग हटे। जिससे परिणाम बहुत ही सकलेश रूप हो जाते हैं। उसी समय अरति तथा शोक नोरपायका तीव्र उदय हो आता है। वस, यह प्राणी दुरुपका अनुभव करता है।

कभी किसी अनिष्ट पदार्थसे द्वेष भाव होता है, तब उसका संयोग न हो, यह भाव होता है। तब भय तथा जुगुप्सा नोरपायका तीव्र उदय हो आता है। इसी समय यह रुपाययुक्त जीव दुरुका अनुभव करता है।

दपायोंमें माया, लोभ, हास्य, रति और तीनों वेद 'राग' तथा क्रोध, भान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा 'द्वेष' कहलाते हैं। ये कपाय रूप राग या द्वेष प्रकट रूपसे एक समयमें एक भलकते हैं, परन्तु एक दूसरेके कारण होकर शीघ्र बदला-बदली कर लेते हैं। जैसे—किसी स्त्रीकी तृष्णासे राग हुआ, उसके वियोग होने पर दूसरे समयमें द्वेष हो गया। फिर यदि उसका सयोग हुआ तब फिर राग हो गया, इत्यादि। परिणामोंमें सकलेशंता द्वेषसे होती है तथा उन्मत्तता-आसक्ति रागसे होती है। चाहरी पदार्थ तो निमित्त कारण मात्र हैं।

प्रयोजन यह है कि यही अशुद्ध आत्मा कपाय द्वारा सुखी तथा दुःखी होता रहता है। शरीर का रूप नहीं है

है। ऐसा जानकर सासारिक सुखको कपाय-जनित विकार मान-
कर तथा निजाधीन निर्विकार आत्मिक सुखका उपाय ठीक-ठीक
करना कर्तव्य समझकर उस सुखकेलिये निज शुद्धात्मामें उपयोग
रखकर साम्य भावका मनन करना चाहिये।

इन्द्रियोंका सुख विजलीके चमत्कारके समान आस्थेर है।
अपना चमत्कार दिखाकर वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तथा इस
सुखसे वृष्णारूपी रोग मिटनेकी अपेक्षा और अधिक बढ़ जाता
है। वृष्णाकी वृद्धि निरन्तर प्राणीको सतापित करती रहती है।
यह इच्छाओंका दाहखूपो ताप जगत्‌के प्राणियोंको निरन्तर
क्लेशित किया करता है। ये प्राणी उस पीड़ाके सहनमें असमर्थ
होकर नाना प्रकारके उद्यम करके धनका सप्रह करते हैं। फिर
धन द्वारा विषयोंकी सामग्री लानेकी चेष्टा करते हैं और भोगते
हैं। फिर भी शान्ति नहीं पाते और वृष्णा दिन न दिन बढ़ती
जाती है। इस कारण इन्द्रियोंके सुखका भोग अधिक आकुलताका
कारण है। इस रोगकी शान्तिका उपाय अपना आत्मानुभव
ही है।

श्रीसुपार्वनाथ भगवान्ने अच्छी तरह यता दिया है कि
जीवोंका प्रयोजन ज्ञानभृत्युर भोगोंसे सिद्ध नहीं होगा, किन्तु
अविनाशी रूपसे अपने आत्मामें स्थिर होनेसे ही होगा। ज्योंकि
भोगोंसे वृष्णाकी वृद्धि होती जाती है, इस कारण ताप भी मिटता
नहीं है। मरलात्र यह कि इन्द्रियोंका सुख उलटा दुःखरूप ही है।

जैसे—साज खुजानेसे खाजका रोग बढ़ता ही है, वैसे ही इन्द्रियोंके भोगसे इच्छाओंका रोग बढ़ता ही जाता है। इन्द्रियों द्वारा होने वाला सुख अशुद्ध है, पराधीन है, भोह व रागको बढ़ानेवाला है, अतृप्तिकारी है तथा कर्म-चन्द्रका बीज है, इसलिये त्यागने योग्य है।

शास्त्रकारोंने यह भी बताया है कि सुख या दुःख अपने भावोंमें ही होता है। शरीरादि कोई बाहरी पदार्थ सुख या दुःख-दायी नहीं है। जैसे—एक मनुष्य, जो कङ्कड़ोंपर सोता है, वह परम आनन्द मानता है और एक मनुष्य, जो तकियेभाँड़ोंपर सोता है, पर तब भी वह कष्ट महसूस करता है। इस कारण हमको अपनी मिथ्या बुद्धिको त्याग देना चाहिये कि यह शरीर, पुत्र, मित्र, खी, धन, भोजन, वस्त्र आदि सुखदायी हैं। हमारी कल्पनासे ही ये सुखदायी तथा दुखदायी भासते हैं। जैसे—जब स्त्री हमारी इच्छानुसार वर्तती है, तब वह सुखदायी भासती है, पर जब इच्छा-विरुद्ध कार्य करती है, तब वह दुखदायी भासती है, इत्यादि।

सदा आत्मिक आनन्द चार घाती कर्मके न्यूनेपर स्वयं प्रकट हो जाता है। परमसुख आत्माका स्वभाव है। ज्ञानावरणीयोंदि चारों घाती कर्म शुद्ध अनन्त सुखके वाधक हैं। उनका जब नाश होजाता है, तब उस आत्मिक आनन्दके प्रादुर्भावको कोई नहीं रोक सकता। यह आत्मिक सुख सब सुखोंसे श्रेष्ठ इसी

कारण है कि यह निज स्वभावसे पैदा हुआ है। इसमें किसी तरहकी पराधीनता नहीं है। इस सुखके भोगसे आत्मा सतुष्ट होजाता है तथा अपूर्व शान्तिका अनुभव करता है। इस सुखके मुक्ताधिलेमें विषय-भोगजन्य—इन्द्रियजन्य सुख हेच है, नाचीज है, अशान्तिका कारण है, तृप्तिका बर्द्धक है और कर्मबन्धका बीज है। धाती कर्मोंके नाश होजानेपर केवलज्ञानियोंको जो सर्वोत्कृष्ट और निर्मल सुख प्राप्त होता है, वह विषय-भोगियोंकी तो बात ही क्या, गृहस्थ सम्यग्दृष्टियों तथा परिग्रह-त्यागी मुनियों तकको नसीब नहीं है। यद्यपि दोनोंकी जाति समान है, परन्तु उनकी उज्ज्वलता तथा बलमें अन्तर है। ज्यों-ज्यों कपाय घटता जाता है, त्यों-त्यों उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों अज्ञान घटता जाता है, त्यों-त्यों स्पष्टता बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों अन्तराय क्षय होता जाता है, त्यों-त्यों बल बढ़ता जाता है। बस, जब शुद्धता, स्पष्टता तथा पुष्टताके धातक सब आवरण हट जाते हैं, तब यह अतीन्द्रिय सुख अपने पूर्ण समावसे प्रकट होजाता है और फिर अनन्तकालकेलिये वैसा ही रहता है अर्थात् एक समयकेलिये वह उससे अलग नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। मोहनीय कर्मके नाशसे अनन्त सुख, अन्तरायके नाशसे अनन्त बल, ज्ञानावरणीयके नाशसे अनन्त ज्ञान और दर्शनावरणीय कर्मके नाशसे अनन्त दर्शन आत्मामें उत्पन्न हो जाते हैं। इस आत्मिक ज्ञान दर्शनको 'केवलज्ञान' और 'केवल-

जैसे—साज खुजानेसे खाजका रोग बढ़ता ही है, वैसे ही इन्द्रियोंके भोगसे इच्छाओंका रोग बढ़ता ही जाता है। इन्द्रियोंद्वारा होनेवाला सुख अशुद्ध है, पराधीन है, भोह व रागको बढ़ानेवाला है, अतृप्तिकारी है तथा कर्म-बन्धका बीज है, इसलिये त्यागने योग्य है।

शास्त्रकारोंने यह भी बताया है कि सुख या दुःख अपने भावोंमें ही होता है। शरीरादि कोई बाहरी पदार्थ सुख या दुखदायी नहीं है। जैसे—एक मनुष्य, जो कक्षडोंपर सोता है, वह परम आनन्द मानता है और एक मनुष्य, जो तकियेगदोंपर सोता है, पर तब भी वह कष्ट महसूस करता है। इस कारण हमको अपनी मिथ्या बुद्धिको त्याग देना चाहिये कि यह शरीर, पुत्र, मित्र, छी, धन, भोजन, वस्त्र आदि सुखदायी हैं। हमारी कल्पनासे ही ये सुखदायी तथा दुखदायी भासते हैं। जैसे—जब स्त्री हमारी इच्छानुसार बर्ती है, तब वह सुखदायी भासती है, पर जब इच्छा-विरुद्ध कार्य करती है, तब वह दुखदायी भासती है, इत्यादि।

सदा आत्मिक आनन्द चार घाती कर्मके त्त्व पर स्वयं प्रकट हो जाता है। परमसुख आत्माका स्वभाव है। ज्ञानावरणीयोंदि चारों घाती कर्म शुद्ध अनन्त सुखके वाधक हैं। उनका जब नाश होनाता है, तब उस आत्मिक आनन्दके प्रादुर्भावको कोई नहीं रोक सकता। यह आत्मिक सुख सब सुखोंसे श्रेष्ठ इसी

कारण है कि यह निज स्वभावसे पैदा हुआ है। इसमें किसी तरहकी पराधीनता नहीं है। इस सुखके भोगसे आत्मा सतुष्ट होजाता है तथा अपूर्व शान्तिका अनुभव करता है। इस सुखके मुक्ताधिलेमें विपय भोगजन्य—इन्द्रियजन्य सुख हैच है, नाचीज है, अशान्तिका कारण है, तृप्तिका वर्द्धक है और कर्मबन्धका बीज है। घाती कर्मोंके नाश होजानेपर केवलज्ञानियोंको जो सर्वोत्कृष्ट और निर्मल सुख प्राप्त होता है, वह विपय-भोगियोंकी तो बात ही क्या, गृहस्थ सम्यग्दृष्टियों तथा परिग्रह-त्यागी मुनियों तकको नसीध नहीं है। यद्यपि दोनोंकी जाति समान है, परन्तु उनकी उज्ज्वलता तथा बलमें अन्तर है। ज्यों-ज्यों कपाय घटता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वलता बढ़ती जाती है। ज्यों ज्यों अज्ञान घटता जाता है, त्यों त्यों स्पष्टता बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों अन्तराय क्षय होता जाता है, त्यों त्यों बल बढ़ता जाता है। बस, जब शुद्धता, स्पष्टता तथा पुष्टताके घातक सब आवरण हट जाते हैं, तब यह अतीनिद्रिय सुख अपने पूर्ण स्वभावसे प्रकट होजाता है और फिर अनन्तकालकेलिये वैसा ही रहता है अर्थात् एक समयकेलिये वह उससे अलग नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। मोहनीय कर्मके नाशसे अनन्त सुख, अन्तरायके नाशसे अनन्त बल, ज्ञानावरणीयके नाशसे अनन्त ज्ञान और दर्शनावरणीय कर्मके नाशसे अनन्त दर्शन आत्मामें उत्पन्न हो जाते हैं। इस आत्मिक ज्ञान दर्शनको 'केवलज्ञान' और 'केवल-

दर्शन' कहते हैं। इनके द्वारा आत्मा सर्वलोक और अलोक को प्रत्यक्ष देखता तथा जानता है। इस कारण उसको किसी प्रकारका अज्ञान नहीं रहता है। राग-द्वेषादि कथाय परिणाम आत्मामें विकार पैदा करके आकुलता तथा निर्वलता पैदा करते हैं। निर्वलता होनेसे खेद होता है। अतः मोहनीय और अन्तराय कर्मोंके सर्वया अभाव होनेसे किसी प्रकारका राग-द्वेष व निर्वलता-जनित खेद भाव भी नहीं रहता। आत्माके स्वभावके घातक सब विकार हट गए तथा स्वभावको प्रफुल्लित करनेवाले अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यादि गुण प्रकट होगये। इस ज्ञानके (केवलज्ञान) के प्रकट होते ही आत्माका यथार्थ स्वभाव आत्माको प्राप्त हो जाता है। केवलज्ञानके साथ पूर्ण निराकुलता रहती है। इसलिये केवलज्ञानको सुख स्वरूप कहा गया है।

एक एक इन्द्रिय एक-एक विषयको जानती है, परन्तु केवल ज्ञानीकी आत्मामें सर्वज्ञानावरणीय कर्मके नाश होनेसे ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि आत्माके असख्यात प्रदेशोंमेंसे प्रत्येक प्रदेशमें सर्व ही विषयोंको एक साथ जाननेकी सामर्थ्य है। यहाँ तक कि तीन लोककी सर्व पर्यायोंको और अलोकाकाशको एक आत्माका प्रदेश जान सकता है। इस प्रकारका ज्ञान आत्माके असख्यात प्रदेशोंमेंसे प्रत्येकको होता है। इस ज्ञानकेलिये इन्द्रियोंकी सहायताकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान पराधीन नहीं है, किन्तु स्वाधीन है। इस ज्ञानको कोई देता 'नहीं

है और न आत्मा अन्य पदार्थोंकी शक्तिसे प्राप्त करता है, घलिक यह केवल ज्ञान आत्माका ही स्वभाव है। यह इस आत्मामें ही था, पर कर्मोंके आवरणोंसे ढका हुआ था। ज्यों ही कर्मोंके आवरण हट जाते हैं, त्यों ही यह ज्ञान प्रकट होजाता है। ऐसे केवल ज्ञानमें सर्व ही द्वेष सदा काल प्रत्यक्ष रहते हैं। कहीं भी कभी भी कोई भी पदार्थ, गुण या पर्याय ऐसा नहीं है, जो केवल ज्ञानसे परे हो, इसीको 'सर्वज्ञता' या 'केवल ज्ञान' कहते हैं।

जितने प्रदेश द्रव्यके होते हैं, उतने ही प्रदेश गुणोंके होते हैं। ऐसा हीनेपर भी गुण स्वतन्त्रतासे अपना अपना कार्य करता है। यहाँ आत्मा द्रव्य है और ज्ञान उसका मुख्य गुण है। ज्ञान आत्मा के प्रमाण है और आत्मा ज्ञानके प्रमाण है। आत्मा असख्यात-प्रदेशी है। इस कारण उसका ज्ञान गुण भी असख्यात प्रदेशी है। दोनोंका तादात्म्य सम्बन्ध है। जो कभी भी उससे अलग न था और न अलग हो सकता है। यद्यपि ज्ञान गुणकी सत्ता आत्मामें ही है तथापि कार्य वह सर्वत्र करता है अर्थात् सर्वे जानने योग्य पदार्थोंको जानता है। कोई द्वेष उससे बाहर नहीं रह जाता। इससे विपर्यक्ति अपेक्षा ज्ञान ज्ञेयोंके बराबर है। ज्ञेयोंका विस्तार देरा जाय तो सर्व लोक और अलोक है। जितने द्रव्य, गुण व तीन कालबर्ती पर्याय हैं, वे सब जाननेके विपर्य हैं और ज्ञान उन सर्वोंको जानता है।

कोई-कोई आत्माको सर्वव्यापक भी मानते हैं। उनकेलिये यह कहा गया है कि जब ज्ञान विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है तब ज्ञानकी धनी आत्मा भी विषयकी अपेक्षा सर्वव्यापक है। जिस प्रकार आँखकी पुतली अपने स्थानपर रहती हुई भी विना स्पर्श किये वहुत दूरसे भी पदार्थोंको जान लेती है, ऐसे ही ज्ञान आत्माके प्रदेशोंमें ही रहता है, तथापि विषयोंकी अपेक्षा सर्व लोकालोकको जानता है।

यद्यपि आत्मा निश्चयसे असंख्यात्-प्रदेशी है, तथापि किसी भी शरीरमें रहा हुआ संकोचरूप शरीर-प्रमाण रहता है। मोह अवस्थामें भी अन्तिम शरीरसे किंचित् कम आकार रखता है, सदा स्थिर रहता है। जब जीव समुद्रघातकरता है अर्थात् शरीर में रहते हुए भी फैलकर शरीरके बाहर उसके प्रदेश जाते हैं तब भी जैसा आत्मा फैलता-सिकुड़ता है, वैसे ही उसके ज्ञानादि गुण रहते हैं। आत्माके प्रदेश अन्य छह समुद्रघातोंमें थोड़ी थोड़ी

“मूलसरीरमछडिय, उत्तरदेहस्त जीवपिंडस्त ।

गिग्गमण देहादो, हवदि समुग्धादयो णाम ॥”

अर्थात् मूल शरीरको न छोड़ते हुए दूसरे शरीरको स्पर्श करनेके लिये जो आत्म-प्रदेश शरीरसे बाहर जाते हैं और फिर मूल शरीरमें पुनः आ जाते हैं, उसे ‘समुद्रात्’ कहते हैं।

दूर जाते हैं, परन्तु केवलि-समुद्रघातमें समस्त लोकमें व्याप्त हो जाते हैं और फिर वे शरीर प्रमाण हो जाते हैं।

जिस प्रकार आँख अग्निको देखकर जलती नहीं, समुद्रको देखकर छूबती नहीं, हुखको देखकर हुखी व सुखको देखकर सुखी होती नहीं। ऐसी ही केवलज्ञानकी महिमा है। वह सर्व शुभ-अशुभ पदार्थ और उनकी अनेक हुखित व सुखित अवस्थाको जानते हुए भी मोहके मसर्ग न होनेसे किसी भी ग्रकारके विकार से बिछुत नहीं होता। वह सदा निराकुल रहता है।

जैसे दर्पण इस बातकी आकांक्षा नहीं करता है कि मैं पदार्थों को भजकाऊँ, परन्तु दर्पणकी चमकका ऐसा ही स्वभाव है कि उसके विषयमें आसकने वाले सर्व पदार्थ अपने आप उसमें भलकते हैं। वैसे ही निर्मल केवलज्ञानमें सर्व झेय स्वय ही भलकते हैं। जैसे दर्पण अपने स्थानपर रहता और पदार्थ अपने स्थानपर रहते हैं तो भी दर्पणमें प्रवेश हो गए या दर्पण उनमें प्रवेश हो गया, ऐसा भलकता है। वैसे ही आत्मा और उसका केवलज्ञान अपने स्थानपर रहता है और झेय पदार्थ अपने स्थानपर रहते हुए कोई किसीमें प्रवेश नहीं करता, तो भी झेय-ज्ञायक सम्बन्धसे जब सर्व झेय ज्ञानमें भलकते हैं तब ऐसा मालूम होता है कि मानो आत्माके ज्ञानमें सर्व विश्व समा गया या यह आत्मा सर्व विश्वमें व्यापक हो गया। निश्चयसे ज्ञान झेयोंमें प्रवेश नहीं करता। असली वात यही है। इसकेलिये आँख या दर्पणका दृष्टान्त भी यहाँ दिया जा सकता है।

अजीव

अजीव द्रव्य पाँच प्रकारके हैं — १-पुद्गल, २-धर्मस्थिकाय, ३-अधर्मस्थिकाय, ४-काल और ५-आकाश।

पुद्गल भी एक द्रव्य है। यह सदासे है और सदा रहेगा। इसको न कोई कम कर सकता है और न अधिक। जितना है उतना ही रहता है। वह अपनी पर्याय पलट लिया करता है अर्थात् किसी-न-किसी शक्तिमें विद्यमान रहता है। पुद्गल तत्त्वका दूसरा नाम अजीव है। अँगरेजीमें इसको matter कहते हैं। यह जीवका प्रतिपक्षी होनेसे इसका गुण अचैतन्य, अकर्ता, जड रूप है। इसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म हिस्सेको, जिसका कि दूसरा भाग न हो सके, 'परमाणु' कहते हैं। दो परमाणुओंके मिलनेसे द्विप्रदेशी स्कन्ध, तीन परमाणुओंके मिलनेसे तीनप्रदेशी स्कन्ध होता है और इसी प्रकार असख्यातप्रदेशी स्कन्ध तक इसके हो सकते हैं।

१—ससारमें जितने जड पदार्थ दियलाई पड़ते हैं, वे सब 'पुद्गल' हैं।

२—'धर्मस्थिकाय' वह अरूपी शक्ति है, जो जीवको चलनेमें सहायता करती है। जैसे पानी मछलीको तैरनेमें सहायता करता है।

३—'अधर्मस्थिकाय' वह शक्ति है, जो ठहरते हुये जीवको ठहरनेमें सहायता करता है। जैसे कड़ी धूपमें चलते हुये किसी पथिकके ठहरानेमें किसी पेड़की छाया सहायक होती है।

४—‘आकाश’ ससारके समस्त पदार्थोंको आवकाश देता है ।

५—‘काल’ नये को पुराना बनाता है ।

पुद्गल द्रव्य रूपी है । शेष धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश अरूपी हैं । यद्यपि रूपी शब्दके अनेक अर्थ हैं परन्तु यहाँपर परमागमके अनुसार मूर्तीना अर्थ ही समझता चाहिये ।

धर्मास्तिकाय द्रव्य, अधर्मास्तिकाय द्रव्य और आकाश, ये तीन द्रव्यें एक एक हैं । जीव, पुद्गल और काल, ये तीनों अनेक हैं । आगमानुसार जीव द्रव्य अनन्तानन्त हैं । पुद्गल परमाणु जीवों से अनन्तगुणे हैं और काल द्रव्यके अणु असख्यात हैं ।

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीनों द्रव्यें हलन चलन रूप क्रियासे रहित हैं । ‘लोक’ उसको कहते हैं जहाँ जीव आदि समस्त पदार्थ हो, जहाँ एक आकाश ही है उसे ‘अलोक’ कहते हैं । वहाँ सिवाय पोल अर्थात् आकाशके कोई वस्तु नहीं होती है । जिस प्रकार कुपेमें धी भरा रहता है, उसी प्रकार समस्त लोकमें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल, पुद्गल और जीव द्रव्यें ठसाठस भरी हुई हैं ।

जितने हेत्रको एक परमाणु रोकता है, उतने हेत्रको एक ‘प्रदेश’ कहते हैं ।

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके असख्यात असख्यात प्रदेश हैं । आकाश द्रव्यके अनन्त प्रदेश हैं । लोकाकाशके

असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गलके संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेश हैं। यद्यपि पुद्गलका शुद्ध अविभागी एक परमाणु एक ही प्रदेशवाला है परन्तु पुद्गल परमाणुओंमें मिलने-विद्वुत्तमेकी शक्ति है, इस कारण अनेक स्कन्ध दो-दो परमाणुओंके और अनेक तीन-तीन, चार-चार परमाणुओंके हैं। इसी प्रकार संख्यात परमाणुओंके तथा असंख्यात और अनन्त परमाणुओंके भी स्कन्ध हैं।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और पुद्गलके अनन्तानन्त परमाणु हैं तथा स्कन्ध अनन्त परमाणुओंके हैं तो फिर वे लोकाकाशमें कैसे समाते होंगे?

इसका उत्तर यह है कि पुद्गलके परिणमन दो प्रकारके हैं—एक सूक्ष्म परिणमन और दूसरा स्थूल परिणमन। सो जब इनका सूक्ष्म परिणमन होता है, तब आकाशके एक ही प्रदेशमें अनन्त परमाणु आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आकाशमें अवकाश देनेकी भी शक्ति है। इसकारण यह दोप नहीं आता है।

शुभ-अशुभ कर्मोंके भी पुद्गल होते हैं।

इस प्रकार सुख-दुःख, जीना-मरना आदि वाते केवल पुद्गलोंके परिणाम हैं। जब तक पुद्गल स्वतन्त्र है, उस समय तक वह कोई फल नहीं दे सकता। लेकिन जब वह आत्माके साथ हो जाता है, तब वह अपने गुणानुसार जीवको फल देता है। पुद्गल द्रव्य स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण वाले होते हैं।

फोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत, उषण, चिकना और सूखा, ये आठ प्रकारके स्पर्श हैं।

खट्टा, मीठा, कड़वा, कपायला और चिरपरा, ये पाँच प्रकारके रस हैं।

सुगन्ध और दुर्गन्ध, ये दो प्रकारकी गन्ध हैं।

कृष्ण, नील, रक्त, पीत और श्वेत, ये पाँच प्रकारके वर्ण हैं।

शब्द, वन्ध, सूक्ष्मता, स्थूलता, स्थिति, भेद, तम, छाया, आताप, उद्योत आदि पुद्गलोंकी एक प्रकारकी अवस्थाएँ हैं।

शब्दादिकोंको अन्य दार्शनिक स्वतन्त्र द्रव्य मानते हैं, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है। शब्दादिक अनेक पुद्गलोंके मिलनेसे पैदा होते हैं।

द्रव्यकी व्याख्या

द्रव्यका लक्षण 'सत्' है अर्थात् जो सत् रूप है, वही द्रव्य है और मत्का लक्षण है—उत्पाद, व्यय और धौव्य सहितत्व। तब दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि जो उत्पत्ति, विनाश और मोजूदगी सहित है वही द्रव्य है।

चेतन व अचेतन द्रव्यका बाह्यभ्यन्तर निमित्तके वशसे अपनी जातिको न छोड़ते हुए एक अवस्थासे दूसरी अवस्था

कृ “सद्ग्रद्यलक्षणम्”, “उत्पादव्ययधौव्ययुक्त सत्”—उमास्वाति।

रूप होना, उत्पत्ति वा 'उत्पाद' है। जैसे सोनेके कुण्डलोंका कडे रूप होना, उत्पाद है और कुण्डल आकारका नष्ट होना, विनाश व 'व्यय' है। और पीलापन, भारीपन आदिका अपनी जातिको लिये हुए दोनों अवस्थामें मौजूद रहना, 'ध्रौव्य' है। इसी प्रकार द्रव्यमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, ये तीनों गुण एक साथ निरन्तर रहते हैं। जिसमें ये तीनों गुण रहे, वही सत् अर्थात् द्रव्य है।

पदार्थके भाव वा गुणके नाश नहीं होनेको नित्यत्व कहते हैं। अग्रिकी उष्णता गुणका बना रहना अग्रिका नित्यत्व है। सर्वथा नित्य अर्थात् कूटस्थ कोई वस्तु नहीं है। सत्ताकी व द्रव्यत्वकी अपेक्षा नित्यत्व है और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व है।

वस्तुओंमें अनेक धर्म होते हैं। उनमेंसे वक्ता जिस धर्मको प्रयोजनके बशसे प्रधान करके कहे, वह 'अपित' और जो प्रयोजनके बिना जिसी धर्मको कहनेकी इच्छा नहीं करे, वह 'अनपित' है। इससे यह न समझलेना चाहिये कि जो धर्म कहा नहीं गया, वह वस्तुमें है ही नहीं। नहीं, वह है जरूर, परन्तु उस समय उसके कहनेकी मुख्यता नहीं है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु अनेक गुणवाली है। जिस प्रकार ही पुरुषमें पिता, पुत्र, भाई, मामा आदिके जो अनेक सम्बन्ध हैं, वे सब अपेक्षासे ही सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुमें अनेक गुण अथवा धर्म मिश्र-भिश्र अपेक्षासे सिद्ध होते हैं।

समान भिन्न-भिन्न तथा निष्क्रिय हैं। उत्पाद, व्यय, धौव्य और गुणपर्याय सहित होनेसे ये भी द्रव्य हैं। इसको 'निरचय काल द्रव्य' कहते हैं।

यह काल द्रव्य अनन्त समयवाला है। यद्यपि वर्तमान काल एक समय मात्र है, परन्तु भूत-भविष्य-वर्तमानकी अपेक्षा अनन्त समयवाला है।


समय कालकी पर्यायका सबसे छोटा अंश है। इसके समूहसे आवली (आवलिका), घटिका इत्यादि व्यवहार-काल होता है। यह व्यवहार-काल निरचय-काल द्रव्यकी पर्याय है।—

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुणको वर्मास्तिकाय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकायमें घटाया जाता है।


१—धर्मास्तिकाय—द्रव्यसे एक है, क्षेत्रसे समस्त लोकमें है, कालसे आदि-अन्त-रहित है, भावसे वर्ण, गन्ध, रस और सर्पश रहित अर्थात् अरूपी है और गुणसे गमन-सहायक है।

२—अधर्मास्तिकाय—द्रव्यसे एक है, क्षेत्रसे समस्त लोकमें है, कालसे आदि-अन्त-रहित है, भावसे वर्ण, गन्ध, रस और सर्पश रहित अर्थात् अरूपी है और गुणसे स्थिति-सहायक है।

३—आकाशास्तिकाय—द्रव्यसे एक है, क्षेत्रसे लोकालोक प्रमाण है, कालसे आदि-अन्त-रहित है, भावसे वर्णादिरहित अर्थात् अरूपी है और गुणसे अवकाशदाता है।



କୃତୀୟ ଖଚ୍ଛଦ



“अपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया,
 तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते ।
 भवान्पुनर्जन्मजराजिहासया,
 त्रयीं प्रवृत्तिं शमधीरवारुणत् ॥”
 —स्वामी समन्तमद्वाचार्य

किसीने सन्तानकेलिये, किसीने धनकेलिये, किसीने स्वर्गके
 लिये तपतपे, कर्म किये, लेकिन आपने प्रभो ! जन्म जराके नाशके
 लिये आपने मन-वचन बायको लगाया ।

तृतीय खण्ड

१०१३२४६६७

सुमुक्षुओंकेलिये उपयोगी उपदेश

८४००००० योनियोमेंसे अवल तो मनुष्य जन्म पाना ही उर्लभ है। यदि किसी प्रकार मनुष्य जन्म मिल भी गया तो पूर्ण योग—साधनोंका मिलना तो महा उर्लभ है। इन सबके मिल जानेपर भी जिस मनुष्यने धर्म-सेवन नहीं किया तो उसका मनुष्य जन्म पाना और सारे साधनोंका प्राप्त होना निष्फल है। अर्थात् जो मनुष्य आर्य देश, उत्तम कुल, नीरोग शरीर, पूर्ण आयु, वल, लक्ष्मी और विद्या आदि वातें प्राप्त कर धर्म-सेवन नहीं करता, वास्तवमें वह मानों वीच समुद्रमें रहकर नावका त्याग करता है।

(२) ससारखपी समुद्रमें गोते लगाते-लगाते इस जीवने घड़ी कठिनाईमें और एक लम्बे समयके बाद यह मनुष्य जन्म-द्वपी जहाज प्राप्त किया है। इसमें धर्म-साधन न करना—केवल भोगोपभोगोंमें ही इसे लगाये रखना, जहाजको छोड़कर लहरोंको चकड़ना है।

(३) उत्तराध्ययनजी सूत्रमें कहा गया है कि एक कौड़ीके पीछे हजार रत्नोंके पिटारेको खोदेनेवाला व्यक्ति जैसा मूर्ख है, विषय-भोगोंके पीछे इस मनुष्य जन्मरूपी रत्नपिटारेको खोदेनेवाला व्यक्ति भी वैसा ही मूर्ख है।

(४) एक कौड़ीके पीछे जीवनभरकी कमाईको नष्ट कर देनेवाले 'धनदत्त' नामक सेठकी भाँति हमें सांसारिक भोगोंके पीछे मोक्ष सुखको नष्ट न कर डालना चाहिये। किन्तु मोक्षके लिये प्रमादको छोड़कर उद्यम—प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि प्रमाद परम द्वेषी है, प्रमाद (आत्म विस्मरण) परम शत्रु है, प्रमाद मुक्ति मार्गका ढाकू है और प्रमाद ही नरक ले जानेवाला है। इस कारण चतुर मनुष्योंको प्रमादको त्यागकर धर्मसेवन करना चाहिये।

(५) मोहरूपी रात्रिसे व्याकुल प्राणियोंकेलिये धर्म दिनोदय—सूर्यके समान और सूखती हुई सेतीकेलिये घर्षके समान है। सम्यक् प्रकारसे आराधना करनेसे वह भव्यजनोंको सुख सम्पत्ति देता है, दुर्गतिमें फँसे हए प्राणियोंको बचाकर अनेक दुखोंसे मुक्त करता है, बन्धुरहित मनुज्योंकेलिये बन्धुसमान है, भिन्न रहितकेलिये भिन्नसमान है, अनाथोंका नाथ है और ससारके लिये एक वत्सल रूप है।

(६) जब तक शरीर नीरोग और स्वस्थ है, जब तक बुढापा नहीं आता, जब तक इन्द्रियोंमें शक्ति है और जब तक आयुष्य

झीण नहीं होता; तभ तक समझदार मनुष्योंको आत्म कल्याणका उपाय कर लेना चाहिये। नहीं तो घरमें आग लगजानेपर कुआ खोदनेकी तरह अन्तमें फिर क्या हो सकता है ?

(७) किसीने सच कहा है कि मनुष्यका जीवन परिमित है अर्थात् ध्यान-से-ध्यान के वर्षका है। इसमें आधा तो रात्रि के द्वीरुपमें वेकार चला जाता है। शेष आधे का आधा वचन और बुद्धिमें दीत जाता है और दाक्षी जो रहता है, वह व्याधि, वियोग और दुःखमें पूरा हो जाता है।

(८) पहिले तो मनुष्यको ससारमें सुरोंकी प्राप्ति ही नहीं होती है अगर कोई सुरोंको प्राप्त करता है तो वे सुख, सुखामास (असत्यसुख) हैं अर्थात् कलिप्त सुख हैं। जिस व्यक्तिने थूहड़के पीछे कल्पवृक्षको खोदिया, काचके पीछे चिन्तामणिको खोदिया, उसको 'भुवनसार' राजा के समान पछताना पड़ेगा। इस कारण मनुष्यको अपनेको नाशमान समझकर जल्दी-से-जल्दी अपने जीवनको सफल बनानेकेलिये अर्थात् धर्म सेवनकेलिये उद्यमी करना चाहिये।

(९) सब सुरोंका प्रधान हेतु होनेके कारण धर्म ही इस ससारमें सार वस्तु है, किन्तु उसकी उत्पत्ति-स्थान मनुष्य भूमिका है, इसलिये मनुष्यत्व ही सार वस्तु है। इस कारण हे भव्यजनो ! मोह निद्राका त्याग करो। ज्ञान-जागृतिसे जाप्रत होओ, प्राण धातादिका त्याग करो, कठोर वचन भत बोलो। सदा सत्य प्रिय-

और द्वितीय घोलो, प्रद्वच्यंका पालन करो, सदा सद्भावना करते रहो, इत्योदि ।

(१०) हे भव्य प्राणियो ! ममारहुपी जेलपानेमें कपायरुपी चार चौकीदार हैं । लघतक ये चारों जाग्रत हैं, तउतक मनुष्य उनसे छूटकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है ?

(११) हे भव्यात्माओ ! वे चार कपायें इस प्रकार हैं - १—क्रोध, २—मान, ३—माया और ४—लोभ । ये चारों कपाय सज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनन्तानुबन्धी भेदोंसे चार-चार प्रकारके हैं । सज्वलन कपाय एक पक्ष तक, प्रत्याख्यान चार मास तक, अप्रत्याख्यान एक वर्ष तक और अनन्तानुबन्धी जन्मपर्यन्त रहता है । इन कपायोंके रूपको समझकर इनका त्याग करना चाहिये । इन चारों कपायोंमें क्रोध बहुत भयकर है । कहा भी है कि क्रोध विशेष भन्तापकारक है, क्रोध वैरका कारण है, क्रोध ही मनुष्यको दुर्गतिमें फँसा रगता है और क्रोध ही आत्म-चिन्तनमें बाधा डालता है । इसलिये क्रोधका त्यागकर शिवसुख देनेवाले आत्माका चिन्तन करो । यही मोक्षका देनेवाला है । इसके अतिरिक्त जिस प्रकार ईर्ष्य, चीर, चीनी आदि वलिष्ठ रस भी मन्त्रिपातमें दोषकी वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार उपरोक्त कपायों से भी ससारकी वृद्धि होती है ।

(१२) सिद्धान्तमें कहा गया है कि मर्म वचनसे एक दिनका तप नष्ट होता है । आक्षेप करनेसे एक मासका तप नष्ट होता है ।

श्राप देनेसे एक घर्षका तप नष्ट होता है और हिंसाकी ओर व सर होनेसे समस्त तप नष्ट होजाता है।

(१३) जो मनुष्य हमार्खी खड़गसे क्रो मर्दपी शत्रुका न करता है, उसीको सात्त्विक, विद्वान्, तपस्वी और जितेन्नि समझना चाहिये ।

(१४) इस ससारमे जीव कर्मके ही कारण सुख दुःख भोक्ता है । इमलिये सुखार्थी जीवोंको शुभ कर्मका मत्त्य कर चाहिये । साथ ही चेतन स्वरूप आत्माको सुज्ञानके नाथ जोड़ अज्ञानसे उसको बचाना चाहिये ।

(१५) मनुष्य दुष्टि, गुण, विद्या, लक्ष्मी, बल, पराक्रम, भवित्वा किमी भी उपायमे अपनी आत्माको मृत्युमे बचा नहीं सकत कहा भी है कि जिस प्रकार अपने पतिकी पुत्र उत्सलता देखकर दुराचारिणी खो हँसती है, उसी तरह शरीरकी रक्षा करते देखकर मृत्यु और धनकी रक्षा करते देखकर वमुन्धरा मनुष्यमें हँसती है । दैव असम्भवको सभव और सभवको असम्भव बनाता है । कभी कभी वह ऐसी बातें कर दियाता है, जिसका मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता । भवितव्यता प्राणियोंके साथ उसी तरह लगी रहती है, जिस प्रकार शरीरके साथ छाया । उसके पृथक् करना—उसके प्रभावसे बचना कठिन ही नहीं, घलि असम्भव है । यह जीव अशरण है । प्राणियोंपर धार व जन्म-भरणकी जो विपत्ति पड़ती है, उसे दूर करना किसी

सामर्थ्यकी बात नहीं है। यह प्राण पाँच दिनका अतिथि है, यह समझकर किसीपर वाग-द्वेष न करना चाहिये। स्व और पर—अपने और परायेका तो प्रश्न ही वेकार है—अरण्य-रोदनकी भाँति है। दैवको उपालभ्य देनेसे भी क्या लाभ ? समुद्रके अवगाहनकी वल्पनाकी भाँति वेकार है। मनुष्यको स्व और परका रूप जानना चाहिये।

(१६) ऐ अभिमानी प्राणी ! जराको जर्जरीभूत करनेमें और मृत्युपर विजय प्राप्त करनेमें जब आजतक किसीको सफलता नहीं मिली, तब तुम्हे अब कैसे मिल सकती है ?

(१७) हे जीव ! तू, मैं कर्ता, मैं हर्ता, मैं धनी, मैं गुणी इत्यादि प्रकारके भिध्याभिमान भत कर। वास्तवमें मनुष्य न तो कर्ता है और न हर्ता। जो कुछ है सो कर्म है। जीव तो अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मोंके फलको भोगनेवाला है। इसलिये इस ससारमें यदि तुम्हे सुख भोगनेकी अभिलापा है तो तुम्हे एक शुभ कर्म ही करना चाहिये।

(१८) शास्त्रकारोने सच कहा है कि जब बुरे दिन आते हैं अर्थात् अशुभ कर्मका उदय होता है तब सुधा विषकी तरह, रस्सी सर्पके समान, बिल पातालके समान, प्रकाश अन्वकारके समान, गोष्ठद सागरके समान, सत्य असत्यके समान और मित्र शत्रुके समान हो जाते हैं। इस प्रकार विचारकर विचारशील पुरुषोंको धैर्यसे काम केना चाहिये।

(१६) शाखाकारोंने सच कहा है कि धन-हीन मनुष्य सौ खा हता है, सौवाला हजार चाहता है, हजारबाला लाख चाहता है, लाखबाला करोड़की इच्छा करता है, करोड़पति राज्य चाहता है, राजा चक्रवर्तित्व चाहता है, चक्रवर्ती देवत्वकी इच्छा करता है और देव इन्द्रत्व चाहता है। इस तरह लोभी मनुष्यको कभी सुख या सन्तोषकी प्राप्ति नहीं होती। किसीने सच कहा कि जिस प्रकार इन्धनसे अग्नि और जलसे समुद्र कभी भी नहीं होता, उसी प्रकार धनसे लोभी भी कभी वृप्त नहीं होता उसे यह भी विचार नहीं होता कि आत्मा जब समस्त ऐश्वर्यत्वागकर पर भवमें चला जाता है, तब व्यर्थ ही पापकी गढ़ में क्यों वाधूँ ?

(२०) कलुपताको उत्पन्न करनेवाली, लड़ताको बढ़ानेवाली धर्मवृक्षको निर्मूल करनेवाली, जीतिसे शत्रुता रखने वाली, दया और क्षमा रूपी कमलिनीको निर्मूल करने वाली, लोभ समुद्रके बढ़ानेवाली, मर्यादाके तटको तोड़ गिरानेवाली और शुभ-भावन रूपी हसोंको खदेड़ देनेवाली परिग्रह रूपी नदीमें जन घाट आती है, तज ऐसा कौन दु स है, जिसकी मनुष्यको प्राप्ति नहीं होती हो ? कहनेका मतलब यह है कि परिग्रह परिमाण घटनेपर लोभ दशा घट जाती है और उससे मनुष्यपर नाना प्रसारके सकट आ पड़ते हैं। इसलिये लोभनृत्तिका सर्वथा त्याग करना चाहिये ।

(२१) शास्त्रकारोंने सच कहा है कि धनका सदुपयोग करनेसे इस जन्ममें सुख मिलता है और दान देनेसे परभव सुधरता है। किन्तु हे बन्धुओ! वनका यदि सदुपयोग न किया जाय, न दान ही दिया जाय तो धन प्राप्त होनेसे क्या लाभ?

(२२) लक्ष्मीको शास्त्रकारोंने अनित्य-अस्थिर-चञ्चल आदि विशेषण दिये हैं। वे ठीक ही हैं। इतिहास पुराण इन बातके दृष्टान्तोंसे भरे पड़े हैं और विचारशील पुरुषोंके प्रत्यक्ष अनुभवोंकी भी इसी प्रकारकी प्रतीति होती है। लेकिन इसको सफल करनेका भी उपाय शास्त्रकारोंने बतलाया है। और वह उपाय है एक दान। दान शास्त्रकारोंने पाँच प्रकारका बताया है—
 (१) अभय दान, (२) सुपात्र दान, (३) अनुकर्मा दान,
 (४) उचित दान और (५) कीर्तिदान। इनमेंसे प्रथम दो दान मोक्षके निमित्त और अन्तिम तीन दान इस लोकमें भोगादिके निमित्त हैं। जो पुरुष अपनी लक्ष्मीको पुण्य कार्यमें व्यय करता है, उसे वह बहुत चाहती है। दानी पुरुषोंको बुद्धि खोजती है, कार्ति देखती है, प्रीति चुम्बन करती है, सौभाग्य सेवा करता है, आरोग्य आलिङ्गन करता है, कल्याण उसके सम्मुख आता है, स्वर्ग-सुख उसे वरण करता है और मुक्ति उसकी घाँटा करती है। दान चाहे जिसको दिया जा सकता है, किन्तु सुपात्रको दान देनेसे सदा अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति होती है।

(२३) जिस प्रकार निधर्पण, छेदन, ताप और ताडनसे सोनेकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार श्रुत, शील, तप और दया इन चारोंसे धर्मकी परीक्षा होती है ।

(२४) इसके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं । इनमेंसे प्रवान पुरुषार्थ धर्म है । धर्म स्वावीन होनेपर शेष तीन पुरुषार्थ भी शीघ्र ही स्वाधीन हो जाते हैं । शास्त्रगुरोंने सत्य कहा है कि सत्तारमे मनुष्यजन्म सारभूत है, इनमे भी तीन वर्ग सारभूत हैं, तीन वर्गमे भी धर्म सारभूत है, धर्ममे भी दान वर्म और दानमें भी विद्या और अभय दान शेष है । क्योंकि वही परमार्थ सिद्धिका मूल कारण है । इस कारण दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलनेपर धर्ममें प्रवृत्ति करनी चाहिये और मनुष्य जन्मको वृथा न गँधाना चाहिये । इस सम्बन्धमें तीन वणिक-पुत्रोंका उदाहरण प्रसिद्ध है । वे तीन वणिक-पुत्र घरसे समान धन लेकर व्यापार करने निकले । इनमेंसे एकमो लाभ हुआ, दूसरेने अपने मूल धनको ज्योंका त्यों सुरक्षित रखा और तीसरेने मूल धन भी खो दिया । धर्मकी भी ऐसी ही अवस्था है । कोई मनुष्यजन्म मिलनेपर उसे बढ़ाता है, कोई ज्योंका त्यों रखता है और कोई जो होता है उसे भी खो जैठता है ।

इस दृष्टान्तमें बहुत ही गृह मिद्दान्त छिपे हुए हैं —

तीनों पुत्रोंका पिता गुरुके समान है । तीनों पुत्रोंका तात्पर्य सर्वविरति, देशविरति और अविरतिसे है । मूल धन रूपी तीन

रत्नोंकी जगह ज्ञान, दर्शन और चारित्रको समझना चाहिये। तीनों प्रकारके जीव इन रत्नोंसे व्यापार करनेकेलिये मनुष्यजन्म रूपी नगरमें आते हैं। इनमें प्रमाद न कर ज्ञान, दर्शन और चारित्र की वृद्धि करनेवाले सर्वविरत जीव देवगतिको प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकारके जीव जो अप्रमादसे व्यापार कर मूल धनको सुरक्षित रखते हैं, उन्हें पुनः मनुष्य जन्म मिलता है और वे सुख-भोग करते हैं। तीसरे प्रकारके जीव प्रमादके कारण—निद्रा और विकथा आदिके फेरमें पड़कर अपना मूल धन भी खो जैठते हैं। अतएव उन्हें रौद्रवन रक्की प्राप्ति होती है।

(२५) मद्य, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा, इन पाँच प्रमादोंके कारण मनुष्यको ससारमें बार-बार भटकना पड़ता है। इसलिये मनुष्यजन्म मिलनेपर-धर्म सेवनमें प्रमाद नहीं करना चाहिये।

(२६) अधिक आरम्भ और अधिक परिग्रहसे तथा मांसाहार और पञ्चेन्द्रिय जीवके व्यधसे प्राणी नरकमें जाते हैं। जो लोग निशील, निर्वृत, निर्गुण, दयारहित और पञ्चक्खाण्डरहित होते हैं, वे मृत्यु होनेपर सातवें नरकमें नारकीके रूपमें उत्पन्न होते हैं।

(२७) अहिंसाके समान कोई धर्म नहीं है, सन्तोषके समान कोई व्रत नहीं है, सत्यके समान कोई शौच नहीं है और शीलके समान कोई भूपण नहीं है।

(२५) सत्य प्रथम शौच है, तप दूसरा शौच है, इन्द्रिय-निग्रह तीसरा शौच है और प्राणीमात्रपर दया करना चौथा शौच है।

(२६) अभय दान ही सज्जा दान है, तत्त्वार्थ घोष ही सज्जा ज्ञान है, विकाररहित मन ही सज्जा ध्यान है।

(३०) शास्त्रकारोंने कहा है कि मन ही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण है। पुरुष जिस तरह खीको आलिङ्गन करता है, उसी तरह पुत्रीको भी आलिङ्गन करता है, किन्तु दोनों अवस्थाओंमें उसकी मन-स्थितिमें जमीन-आसमान जितना अन्तर होता है। समताका अवलम्बन कर पुरुष अनेक कर्मोंके दलोंको थोड़े समयमें छोड़ कर सकता है।

(३१) धर्मका मूल विनय और विवेक है। तप और सद्यम विनयपर ही निर्भर हैं। जिसमें विनय नहीं, उसके लिये तप केसा और धर्म कैसा ? विनयी और विवेकी पुरुष लद्धी, यश और कीर्तिको प्राप्त करता है। पर्वतोंमें जिस तरह मेर, प्रहोमें जिस प्रकार सूर्य और रक्षोंमें जिस प्रकार चिन्तामणि श्रेष्ठ है, उसी प्रकार गुणोंमें विनय और विवेक श्रेष्ठ हैं। विवेक और विनय बिना अन्य सभी गुण निर्गुणसे हो जाते हैं। किसीने सत्य कहा है कि जिस प्रकार नेत्रोंके बिना रूप शोभा नहीं देता, उसी प्रकार विवेक और विनय बिना लद्धी शोभा नहीं देती। इस कारण प्रत्येक हितार्थी मनुष्यको विनयवान् व विवेकवान् होना अत्यन्त आवश्यक है।

(३२) विनय और विवेक प्राप्त करनेकेलिये सत्सगकी आवश्यकता पड़ती है। सगति करनेके पहले यह अच्छी तरह देख लेना चाहिये कि जिस मनुष्यकी मै सगति करना चाहता हूँ वह सज्जन है या नहीं। जो सज्जन हो उसीकी सगति करनी चाहिये। सज्जनोंकी सगतिसे सिवाय लाभके हानि नहीं होती। राखमें संगति करने योग्य सज्जनोंके लक्षण इस प्रकार बतलाये हैं:—

जा दूसरोंके दोपोंको द्वेष-बुद्धिसे प्रगट न करते हों, दूसरोंमें गुण थोड़े भी हों तो भी उनकी प्रशंसा करते हों, दूसरोंकी सपत्ति देखकर जलते न हों, प्रत्युत संतुष्ट होते हों, दूसरोंकी विपत्तिमें सहानुभूति प्रगट करते हों और हो सकती हो तो सहायता भी करते हों, आत्म-प्रशस्ता न करते हों, न्याय नीतिके मार्गका उल्लङ्घन न करते हों, अपनेलिये अप्रिय व्यवहार करनेवालेके साथ भी प्रियकर और हितकर व्यवहार करते हों और क्रोध, मान, माया तथा लोभसे दूर रहते हों।

इस प्रकारके सज्जनोंकी सगति करनेसे अनेक लाभ होते हैं—

मोह नष्ट होता है, विवेक उत्पन्न होता है, प्रेमकी वृद्धि होती है, नीति-मार्गपर चलनेकी इच्छा होती है, विनयकी प्राप्ति होती है, यशका प्रसार होता है, धर्मानुकूल चलनेका अभ्यास पड़ता है, अनेक मनोरथोंकी सिद्धि होती है, कोई सकट आ पड़ा हो तो उससे सुगमतासे निकलनेका मार्ग सूझता है और किसी भी प्रकारके व्यसनमें फँसनेसे मनुष्य बचा रहता है।

इमलिये हे मुमुक्षो ! यदि तू उपरोक्त प्रकारका सुखी और शुणी बनना चाहता हो तो तुम्हे उक्त प्रकारके साधुजनों—सत्पुरुषोंकी सगति अनुरागपूर्वक और प्रयत्नपूर्वक कर ।

(३३) सुदेवमें देव बुद्धि, सुगुरुमें गुरु बुद्धि और सुधर्ममें शुद्ध धर्म बुद्धि रखनेको 'मन्यकृत' कहते हैं और कुदेवमें देव-बुद्धि, कुगुरुमें गुरु बुद्धि और कुधर्ममें धर्म-बुद्धि रखनेको 'मिथ्यात्म' कहते हैं ।

प्रश्न उठता है कि सुदेव, सुगुरु और सुधर्म किसको कहना चाहिये ? उत्तर इस प्रकार है—

सुदेव—रागद्वेषसे रहित, भोग महामङ्गल नाश करनेवाले, केवलज्ञान केवलदर्शन युक्त, देव और धनबोंके पूज्य, सद्भूतार्थके उपदेशक और समस्त कर्मोंका क्षयकर परम पदको प्राप्त करनेवाले वीतराग भगवान्‌को 'देव' कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें यो कहना चाहिये कि जो अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त तप, अनन्त धल-वीर्य, अनन्त क्षायिक सम्यक्त्व, वज्रउपभन्नाराच सहनन, समच्छुरस स्थान, चौतीस अतिशय, पैंतीस वाणी गुण और एक हजार आठ उत्तम लक्षण युक्त हों, चासठ इन्द्रोंके पूजनीय हों कपायरहित, रागद्वेषरहित, शोकचिन्तारहित, भयरहित और ममत्वरहित हों, अहिंसा ब्रतके पालनेवाले तथा महाद्यालु हों और जो समस्त कर्मोंका क्षय कर परम पदको प्राप्त कर चुके हों, ऐसे वीतरागको "देव" कहते हैं ।

सुगुरु—जो सर्व प्रकारकी हिंसाका त्याग कर चुके हैं, जब बोलते हैं, तब सत्य ही बोलते हैं, किसी प्रकारका परिप्रह अर्थात् धन आदि नहीं रखते हैं, किसीकी बिना दी हुई वस्तु प्रहण नहीं करते हैं, नौ बाढ़ों सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभका त्याग करते हैं, पाँच इन्द्रियसम्बन्धी कोई विषय सेवन नहीं करते, सदा ज्ञान, ध्यान और तपस्यामें मग्न रहते हैं, त किसीसे राग और न किसीसे द्वेष करते हैं, सदा सरल-परिणामी हैं तथा जो अन्य अनेक गुणयुक्त हैं, ऐसे मुनियोंको 'गुरु' कहते हैं + ।

सुधर्म—अनादिकालसे आत्माके साथ लगे हुए कर्मोंको नष्ट कर जो जीवोंको सासारिक दुखोंसे छुड़ाकर उत्तम सुखमें पहुँचाता है, उसे 'धर्म'—'सुधर्म' कहते हैं ।

मिथ्यात्व, अविरति, प्रभाद, कपाय और योग रूप वन्ध हेतुओंके — कारण जीव कर्मोंका घन्धकिया करता है । इस वन्धके

+ “विषयाशावशातीतो, निरास्त्वोऽपरिप्रह ।

ज्ञानध्यानतपोरक्षस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥”

—स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

* “देशयामि समीचीन, धर्म कर्मनिवर्द्यम् ।

समारद्ध यत सत्त्वान्, यो धरत्युत्तमे सुखे ॥”

—स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

+ अगाढ़ी इनका विस्तृत वर्णन किया गया है ।

कारण यह जीव-आत्मा चौरासी लाख योनियोंमें भ्रमण करता है और नाना प्रकारके दुर्घटनाके द्वारा उठाता है। इस ससार-परिभ्रमण और दुख-सहनसे जीव छुटकारा तभी पा सकता है, जब वह इसके पूर्वोक्त मिथ्यात्व अविरति आदि कारणोंको छोड़ दे। क्योंकि ससार-परिभ्रमण और दुर्घटनाके ये ही तो कारण हैं। कारणके अभाव होजानेपर ही कार्यका अभाव हो सकता है। इसलिये मिथ्यात्व अविरति आदि वन्ध-हेतुओंके छोड़नेका जिसमें उपदेश हो वही सुधर्म है और वही जीवका कल्याणकारी है।

(३४) मिथ्यात्व सर्वथा और सर्वदा त्याज्य है। मिथ्यात्वसे जीव अनन्त काल तक ससारमें भ्रमण करता है। मिथ्यात्व नाना प्रकारके दुर्घटनाके द्वारा करता है। यह जीवका बड़ा शत्रु है। इस कारण इसको त्याग कर सम्यक्त्वको अङ्गीकार करना चाहिये। शास्त्रकारोंने तो यहाँ तक कहा है कि जो जीव केवल एक अन्त मुहूर्त सम्यक्त्व धारण करते हों उसकेलिये ससार अर्वपुद्गल-परावर्तन मात्र रह जाता है॥ १ ॥ करोड़ों जन्म-जन्मातरोंके बाद कहीं मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस कारण इसे व्यर्थ न गँवा कर

* मोक्ष जानेवाले जीवका अधिक से-अधिक अर्धपुद्गलपरावर्तन काल (समयकी एक सख्त्यान-विशेष) जब आँखी रह जाता है, तब उसे सम्यक्त्व (आत्मश्रद्धान-आत्मरूचि) अवश्य उत्पन्न होता है। यह नियम है।

धर्मकी आराधनामें सदा तत्पर रखना चाहिये। धर्माराधनाका अवसर मिलनेपर विवेकी पुरुषको उसमें किसी भी कारणसे प्रमाद न करना चाहिये। हे बन्धुओं! इस असार संसारमें केवल एक वर्म ही सार है। इसलिये धर्मकी ही आराधना करनी चाहिये।

(३५) हे भव्य प्राणियो ! अगर यथार्थमें इस संसारमें देखा जाय तो सिवाय दुखके सुखका लेश मात्र भी नहीं है। प्राणियोंके लिये जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है, मरण भी दुख है, अप्रियोंका सयोग भी दुख है, प्रियोंका वियोग भी दुख है, इच्छा करनेपर स्त्री-सन्तान-धन आदि वस्तुओंके न मिलनेपर भी दुख है। सक्षेपमें यों कहना चाहिये कि जिधर देयो उधर दुख-ही दुख दिखाई पड़ता है। इस कारण अगर बन्धुओं ! दुखोंसे बचना है और सुखकी चाह है तो इस अपार समार-सागरमें मूल्यवान् महारत्नकी भाँति मनुष्य-जन्मको शुभ कर्म अर्थात् धर्म द्वारा सफल बनाना परम आवश्यक है। हे महानुभावो ! तत्त्वज्ञान अर्थात् धार्मिक ज्ञानके बिना सामारिक विद्याओंका ज्ञान भी व्यर्थ है। जिस प्रकार शील-रहित सुन्दर स्त्री प्रशसान्योग्य नहीं होती।

(३६) शास्त्रकारोंने कहा है कि अनेक जन्मों तक तप करनेसे भी जो कर्म द्वीण नहीं होते, वे समता भावके अवलम्बन करनेसे शीघ्र द्वीण हो सकते हैं।

अर्थात् मनुष्योंका मन ही बन्दका कारण है और मन ही मोक्षका कारण है। इस कारण सुझा जनोंगे रस्सीसे बैंधे हुए बैलकी तरह मनको अवश्य वशमें रखना चाहिये।

(३६) जिस प्रकार पुष्पमें सुगन्ध, दूधमें धी, तिलमें तेल और कायमें आत्मा स्थिर रहती है, उसी प्रकार आत्मामें ज्ञान रहता है। वह उद्यम व उपाय करनेसे प्रकट हो सकता है। आवश्यकता है पुरुषार्थ करनेकी।

(४०) शास्त्रकारोंने कहा है कि पवित्रतामें परम पवित्र शील है, गुणोंमें परम गुण शील है और तीनों लोकोंमें प्रभाव तथा महिमाका धाम यदि कोई चर्स्तु है वो वह केवल शील है। अश्वका उत्तम भूपण वेग है, स्त्रीका उत्तम भूपण पति है, तपस्वीका उत्तम भूपण कृशता है, ब्राह्मणका उत्तम भूपण विद्या है और मुनिका उत्तम भूपण ज्ञान है, किन्तु शील तो सभी प्राणियोंका उत्तम भूपण है। इसलिये ब्रह्मचर्यका पालन सभीको अवश्य करना चाहिये। ब्रह्मचर्ये पालन करनेरेलिये उसकी निम्नलिखित नौ बाढ़े अवश्य पालन करना चाहिये।—

१—जिस स्थानमें स्त्री रहती हो या जिस स्थानके पास स्त्रीका वास हो, उस उपाश्रयका मुनिको त्याग करना चाहिये।

२—स्त्रीसे एकान्तमें या विना प्रयोजन वाल नहीं करनी चाहिये।

३—जिस आसनपर स्त्री बैठी हो या सोई हो उस आसनका दो घड़ीके लिये त्याग करना चाहिये ।

४—स्त्रियोंके अङ्गोपाङ्गोंको ध्यानपूर्वक न देखना चाहिये । इसके अलावा स्त्रीके स्वरूपको ध्यान तकमें न लाना चाहिये ।

५—जिस घरमें स्त्री-पुरुष सोते हों या जिस जगहसे हाव-भाव विलास हास्यादिकी आवाज सुनाई देती हो, वहाँ दीवारका अन्तर न होनेपर ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये ।

६—पूर्व कालमें स्त्रीके साथ जो क्रीड़ा आदि की हो, उसका रमरणमात्र भी नहीं करना चाहिये ।

७—अत्यन्त स्तिंघ आहार—जिस पदार्थके सेवनसे कामो-हीपन होनेकी सम्भावना हो, का त्याग करना चाहिये ।

८—ज्यादा आहार न करना चाहिये ।

९—आभूपण, सुन्दर वस्त्र, स्नान, मञ्जन और अङ्ग शोभा आदिका भी ब्रह्मचारीको त्याग करना चाहिये ।

जो व्यक्ति इन नौ मर्यादाओंका ध्यानपूर्वक पालन करेगा, वही ब्रह्मचर्यको पाल सकता है ।

गृहस्थमें पुरुषको स्वदार-सन्तोप ब्रत और स्त्रीको स्वपुरुष-सन्तोप ब्रत धारण करना चाहिये । जो लोग विपयाकुल हों, मनसे भी शीलका खण्डन करते हों, वे 'मणिरथ'राजाकी तरह घोरनरक

के अधिकारी होते हैं और जो सती 'मदनरेखा' की भाँति निर्मल शीक्षका पालन करते हैं, वे भाग्यवान् जीवोंमें सम्मानित होकर सुगतिका उपार्जन करते हैं।

(४१) हे भव्यप्राणियो ! मनुष्यको अपने वैभव, सम्पत्ति, रूप, वल, वडपन आदि वातोपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि इस असार संसारमें एक वस्तु भी ऐसी दृष्टि नहीं आती जो सदैव ही एक स्थितिमें रहती हो । जैसे जिस बालकको हम सासारिक वासनारहित पालनेमें भूलता देते हैं, वही कुछ काल बाद, जबानीके मद्दसे मस्त, सासारिक मोहक पदार्थोंसे परिवेष्टित हमें दियाई देता है । जो अपने शरीर-बलसे—मद्दसे उन्मत होकर पृथ्वीपर पैर रखना भी लज्जास्पद समझता है, वही बुढ़ापेमें लकड़ीके सहारे टकटक करता चलता है । जिस सूर्यको हम सबेरे ही अपनी प्रखर प्रतापी किरणें फैलाते हुये उदयाचलके सिंहासनपर आरूढ़ होता हुआ देखते हैं, वही संध्याके समय विस्तेज हो, क्रोधसे लाल बन अस्ताचलकी गहन गुफामें छिपता हुआ दियाई देता है । जिसके घर ऋद्धि-समृद्धि छलकी पड़ती थी, वही आज दर-दरका भिरारी बन रहा है । जिस मनुष्यके रूपलावण्यपर जो लोग मुराद हो जाते थे, आज वे ही उसको देख कर घृणासे मुँह फेर लेते हैं । लारों-करोड़ों मनुष्य जिनकी आँखेके इशारेपर चलते थे, उन्हीं चक्रवर्तियोंको निर्जन घनोंमें निवास करना पड़ा है, इत्यादि । इस कारण विचारशील मनुष्यको

प्रत्येक अवसरसे लाभ उठाना चाहिये और अपने मनुष्य-जन्मको सफल बनाना चाहिये ।

(४२) धर्म एक विज्ञान या विद्या है, जिसका अभिप्राय मनुष्य को ससारके दुखों, आत्माओं और आवागमनके चक्रसे छुड़ाकर उत्तम सुख अर्थात् परमानन्द अवस्थामें सदा केलिये स्थिर करना है ।

(४३) धर्मकार्य करनेसे मनुष्यका केवल यही अभिप्राय होना चाहिये कि उसको अनन्त अविनाशी अक्षय सुखकी प्राप्ति हो, जो कि ससारी अवस्थामें नहीं मिल सकता है ।

(४४) अधिकतर मनुष्योंके ससारमें धन दौलत, मान-मर्यादा, स्त्री पुत्र, भोग विलास इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं, परन्तु ये मद्दन्के-सब केवल इन्द्रिय-सुख हैं, जो वास्तवमें सुख नहीं हैं । किन्तु सुखाभास हैं, जोकि स्थूल दृष्टिसे देखनेवालोंको सुखसमान मालूम होते हैं । इसका कारण यह है कि यह सुख त्रिप्तिक है । इनसे आत्माकी त्रिप्ति आजतक नहीं हुई है, हाला कि यह जीव इस प्रकारके सुखोंको अनन्त कालसे भोगता आता है ।

(४५) विद्वानोंने इन्द्रियोंको दहकती हुई अग्निकी भाँति कहा है, क्योंकि जितना जितना सुख और भोग विषयरूप ई वन इन अग्निरूप इन्द्रियोंपर ढाला जाता है, उतनी उतनी उनकी इच्छारूपी उवाला प्रचण्ड होती जाती है ।

* “न जातु काम कामाग्निरूपमोगेन शान्यति ।

हविपा कृष्णश्वर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥”

(४) हे नव्यारोगी! न्युनदेव अस्त्रेव इन्द्र-नारद-हनुम
तथा ब्रह्मण के द्वारा उनकी अभिभाव नहीं करता है औ उन्हें
बदलने के लिए उनका चाहने वाला न्युन मी से है औ उन्हीं का जन्म
हो चुका है लक लिया जाया हो। जैसे विष इन्द्रजीत के है
तो उसका जन्म रहित नहीं हो सकता वैसे ही वही कृष्ण का
जन्म रहित नहीं हो सकता। तो उसका जन्म रहित नहीं हो
हो दिया है। तो उन्होंने युधिष्ठिर-शत्रुघ्नि-
हनुम-इर्ष्ण-प्रद्युम्न-प्रद्युम्न-
हनुम-उत्तर-कृष्ण-होया हुए देखते हैं। वही नंद-जैत-
विनाय-होया हुए देखते हैं। वही नंद-जैत-
हुए देखते हैं। विष्ठु वर इस्तु इस्तु इस्तु
यी वही इस दूरदूर का लियाया जाता है। विष न्युन के
नामान्वयन वो लोग नुच हो जाते थे, अब जो हो जाते
हैं वह वृक्ष-सुख हो जाते हैं। इसके लिये लक्ष्य
करने के लिये ये लक्ष्य विष्ठु के लिये लक्ष्य हैं।

प्रत्येक अवसरसे लाभ उठाना चाहिये और अपने मनुष्य-जन्मको सफल बनाना चाहिये ।

(४२) धर्म एक विज्ञान या विद्या है, जिसका अभिप्राय मनुष्य को ससारके दुखों, आतापो और आवागमनके चक्रसे छुड़ाकर उत्तम सुख अर्थात् परमानन्द अवस्थामें सदा केलिये स्थिर करना है ।

(४३) धर्मकार्य करनेसे मनुष्यका केवल यही अभिप्राय होना चाहिये कि उसको अनन्त अविनाशी अन्तर्य सुखकी प्राप्ति हो, जो कि ससारी अवस्थामें नहीं मिल सकता है ।

(४४) अधिकतर मनुष्योंके ससारमें धन दौलत, मान मर्यादा, स्त्री पुत्र, भोग विलास इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं, परन्तु ये सब के सब केवल इन्द्रिय सुख हैं, जो वास्तवमें सुख नहीं हैं। किन्तु सुखाभास हैं, जोकि स्थूल दृष्टिसे देखनेवालोंको सुखसमान मालूम होते हैं। इसका कारण यह है कि यह सुख त्रिणिक है। इनसे आत्माकी तृप्ति आजतक नहीं हुई है, हाला कि यह जीव इस प्रकारके सुखोंको अनन्त कालसे भोगता आता है ।

(४५) विद्वानोंने इन्द्रियोंको दहकती हुई अग्निकी माँति कहा है, क्योंकि जितना जितना सुख और भोग विषयरूप है वन इन अग्निरूप इन्द्रियोंपर ढाला जाता है, उतनी उतनी उनकी इच्छारूपी ज्वाला प्रचण्ड होती जाती है ॥

* “न जातु काम कामाग्निरपभोगेन शाम्यति ।

हविपा कृप्यावर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥”

के अधिकारी होते हैं और जो सती 'मदनरेखा' की भाँति निर्मल शीकका पालन करते हैं, वे भग्यवान् जीवोंमें सम्मानित होकर सुगतिका उपार्जन करते हैं।

(४१) हे भव्यप्राणियो ! मनुष्यको अपने वैभव, सम्पत्ति, रूप, वल, घडपन आदि वातोंपर कभी अभिमान नहीं करना चाहिये क्योंकि इस असार संसारमें एक वस्तु भी ऐसी हृष्टि नहीं आती जो सदैव ही एक स्थितिमें रहती ही। जैसे जिस वालकको हम मासारिक वासनारहित पालनेमें फूलता देखते हैं, वही कुछ काल बाद, जबानीके मदसे भस्त, सांसारिक मोहक पदार्थोंसे परिवेष्टिर हमें दिसाई देता है। जो अपने शरीर-वलसे—मदसे उन्मत होकर पृथ्वीपर पैर रखना भी लज्जास्पद समझता है, वही बुढ़ापेमें लकड़ीके सहारे टकटक करता चलता है। जिस सूर्यको हम सबेरे ही अपनी प्रसर प्रतापी किरणें फैलाते हुये उदयाचलके सिंहासनपर आरूढ़ होता हुआ देखते हैं, वही सध्याके सभव विस्तेज हो, कोधसे लाल बन अस्ताचलकी गहन शुकामें छिपता हुआ दिसाई देता है। जिसके घर ऋद्धि-समृद्धि छलकी पड़ती थी, वही आज दर-दरका भिसारी बन रहा है। जिस मनुष्यके रूपलावण्यपर जो लोग मुग्ध हो जाते थे, आज वे ही उसको देख कर घृणासे मुँह फेर लेते हैं। लाखों-करोड़ों मनुष्य जिनकी आँखेके इशारेपर चलते थे, उन्हीं चक्रवर्तियोंको निर्जन घनोंमें निवास करना पड़ा है, इत्यादि। इस कारण विचारशील मनुष्यको

अत्येक अवसरसे लाभ उठाना चाहिये और अपने मनुष्य-जन्मको सफल बनाना चाहिये ।

(४२) धर्म एक विज्ञान या विद्या है, जिसका अभिप्राय मनुष्य को ससारके दुःखों, आतापो और आवागमनके चक्रसे छुड़ाकर उत्तम सुख अर्थात् परमानन्द अवस्थामें सदा केलिये स्थिरकरना है ।

(४३) धर्मकार्य करनेसे मनुष्यका केवल यही अभिप्राय होना चाहिये कि उसको अनन्त अविनाशी अक्षय सुखकी प्राप्ति हो, जो कि ससारी अवस्थामें नहीं मिल सकता है ।

(४४) अधिकतर मनुष्योंके ससारमें धन दौलत, मान-मर्यादा, स्त्री पुत्र, भोग विलास इत्यादि उद्देश्य हुआ करते हैं, परन्तु ये सब-के-सब केवल इन्द्रिय-सुख हैं, जो वास्तवमें सुख नहीं हैं। किन्तु सुखाभास हैं, जोकि स्थूल दृष्टिसे देसनेवालोंको सुखसमान मालूम होते हैं। इसका कारण यह है कि यह सुख त्त्वगिक है। इनसे आत्माकी वृप्ति आजतक नहीं हुई है, हाला कि यह जीव इस प्रकारके सुखोंको अनन्त कालमें भोगता आता है ।

(४५) विद्वानोंने इन्द्रियोंको दहकती हुई अग्निकी भाति कहा है, क्योंकि जितना जितना सुख और भोग विपर्यरूप है धन इन अग्निरूप इन्द्रियोंपर ढाला जाता है, उतनी उतनी उनकी इच्छारूपी उचाला प्रचण्ड होती जाती है ॥

* “न जातु काम कामाग्निरूपभोगेन शाम्यति ।

हविषा शृण्णवमेव भूय एवाभिवर्धते ॥”

(४६) अज्ञानी पुरुष संसारकी चमक-दमक और वेप-भूपा-को देखकर प्रसन्न होते हैं। परन्तु मृत्यु किसी क्षण भी इस वातको जताने—याद दिलानेमें त्रुटि नहीं करती है कि यह दुनियाँ के बल एक प्रकारकी सराय अधवा धोकेकी टट्टी है, जहाँपर कि सदैवके लिये ठहरना सर्वथा असम्भव है।

(४७) ससारमें मनुष्यका जीवन बहुत अल्प है। इस तुच्छ जीवनकेलिये यह अज्ञानी जीव नाना प्रकारके प्रपञ्च, जजाल व भूठे ढोग रचता है। पर यह अज्ञानी इस वातको नहीं जानता है कि वजाय दूसरोके फँसानेके मैं स्वयं ही इन जालोंमें फँस जाऊँगा। जिस प्रकार एक भकड़ी अपने बनाये हुए जालमें स्वयं फँस जाती है। एक समय इन ससारी जालोंसे मुक्त होना तो सम्भव है, पर कर्मसूपी जालोंसे बचना सर्वथा असम्भव है। इस कारण मनुष्य को ससारमें अपने जीवनको शुभकार्यों द्वारा सफल बनाना चाहिये।

(४८) यह ससार बड़ा विचित्र है तथा गहन है क्योंकि इसमें दुखरूपी अग्निकी ज्वाला धधक रही है। इसमें जो इन्द्रियाधीन सुख हैं, वे अन्तमें विरस हैं अर्थात् दुखके कारण हैं और जो काम और अर्थ हैं, वे अनित्य हैं अर्थात् सदा नहीं रहते। इसलिये मन्त्र जनोंको अमूल्य मनुष्य-जन्मको नष्ट न करके उसे सार्थक बनाना चाहिये।

(४९) हे आत्मन् ! शरीरको तूरोगोंसे छिदा हुआ समक्कर, यौवनको बुदापेसे घिरा हुआ जानकर, ऐश्वर्य तथा सम्पदाओंको

विनाशीक और जीवनको मारणान्तिक जानकर अपने अमूल्य मनुष्य-जन्मको व्यर्थ न गँवा ।

(५०) इस जगत्मे समय पुकार २ कर कह रहा है कि हे भव्य प्राणियो ! जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, उसे शीघ्र कर ढालो । नहीं तो वादमें पछताना पड़ेगा । क्योंकि जो समय अथवा घड़ी निकल जाती है, हजार यन्त्र करनेपर भी वह वापिस नहीं लाई जा सकती । इस कारण चतुर मनुष्योंको समयका सदा सद् उपयोग करनेकेलिये तत्पर रहना चाहिये ।

(५१) हमारे देखते-देखते पुत्र, बन्धु, स्त्री, मित्र आदि घले जाते हैं अर्थात् कालको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार एक दिन यह हमारा आत्मा इस नाशवान शरीरको छोड़कर रवाना होजायगा । इस कारण हमको सबसे पहले विनाशीक शरीरद्वारा अपने जन्मको उत्तम व उच्च कार्योंसे सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है ।

(५२) देखो ! मनुष्योंका प्रवर्तन कैसा आश्र्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छीजता जाता है और आशा पीछा नहीं छोड़ती है, किन्तु बढ़ती जाती है । तथा आयु तो दिन-दिन घटती जाती है और अशुभ कर्मोंमें बुद्धि बढ़ती ही जाती है । मोह तो नित्य स्फुराय-मान होता है और यह प्राणी अपने हित व कल्याण-मार्गमें नहीं लगता है । यह सब अज्ञानका माहात्म्य है ।

(५३) जिस प्रकार पक्षी नाना दिशाओंसे आ-आकर सन्ध्या के समय वृक्षोंपर बसते हैं और उन्हें होते ही उड़ उड़ कर चले

(४६) अज्ञानी पुरुष ससारकी चमक-दमक और वेप-भूपा-को देरकर प्रमन होते हैं। परन्तु मृत्यु किसी क्षण भी इस घातको जताने—याद दिलानेमें त्रुटि नहीं करती है कि यह दुनियाँ के बल एक प्रकारकी सराय अथवा धोकेकी टट्ठी है, जहाँपर कि सदैवके लिये ठहरना सर्वथा असम्भव है।

(४७) संसारमें मनुष्यका जीवन बहुत अल्प है। इस तुच्छ जीवनकेलिये यह अज्ञानी जीव नाना प्रकारके प्रपञ्च, जंजाल व भूठे ढोंग रचता है। पर यह अज्ञानी इस घातको नहीं जानता है कि वजाय दूसरोंके फँसानेके मैं स्वयं ही इन जालोंमें फँस जाऊँगा। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने बनाये हुए जालमें स्वयं फँस जावी है। एक समय इन ससारी जालोंसे मुक्त होना तो सम्भव है, पर कर्मरूपी जालोंसे बचना सर्वथा असम्भव है। इस कारण मनुष्य को ससारमें अपने जीवनको शुभकार्यों द्वारा सफल बनाना चाहिये।

(४८) यह ससार बड़ा विचित्र है तथा गहन है क्योंकि इसमें दुखरूपी अग्निकी ज्वाला धधक रही है। इसमें जो इन्द्रियाधीन सुख हैं, वे अन्तमें विरस हैं अर्थात् दुखके कारण हैं और जो काम और अर्थ हैं, वे अनित्य हैं अर्थात् सदा नहीं रहते। इसलिये मन्य जनोंको अमूल्य मनुष्य-जन्मको नष्ट न करके उसे सार्थक बनाना चाहिये।

(४९) हे आत्मन् ! शरीरको तू रोगोंसे छिदा हुआ समझकर, यौवनको बुढ़ापेसे घिरा हुआ जानकर, ऐश्वर्य तथा सम्पदाओंको

क और जीवनको मारणान्तिक जानकर अपने अमूल्य जन्मको व्यर्थ न गँवा ।

१०) इस जगतमें समय पुकार २ कर कह रहा है कि हे खियो । जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, उसे शीघ्र तो । नहीं तो वादमें पछताना पड़ेगा । क्योंकि जो समय घड़ी निकल जाती है, हजार यन्त्र करनेपर भी वह चापिस ई जा सकती । इस कारण चतुर मनुष्योंको समयका सदा योग करनेकेलिये तत्पर रहना चाहिये ।

११) हमारे देखते-देखते पुत्र, बन्धु, स्त्री, मित्र आदि चले अर्थात् कालको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार एक दिन यह आत्मा इस नाशवान् शरीरको छोड़कर रवाना होजायगा । कारण हमको सबसे पहले विनाशीक शरीरद्वारा अपने । उत्तम व उच्च कार्योंसे सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है ।

१२) देखो । मनुष्योंका प्रवर्तन कैसा आश्वर्यकारक है कि तो प्रतिदिन छीजता जाता है और आशा पीछा नहीं छोड़ती तु बढ़ती जाती है । तथा आयु तो दिन-दिन घटती जाती है अशुभ कर्मोंमें बुद्धि बढ़ती ही जाती है । मोह तो नित्य स्फुरायता है और यह प्राणी अपने हित व कल्याण-मार्गमें नहीं है । यह सब अज्ञानका भावात्म्य है ।

१३) जिस प्रकार पक्षी नाना दिशाओंसे आ-आकर सन्ध्या य वृक्षोंपर बसते हैं और सुधर होते ही उड़ उड़ कर घले

(४६) अज्ञानी पुरुष ससारकी चमक-दमक और वेष-भूपा-को देखकर प्रसन्न होते हैं। परन्तु मृत्यु किसी क्षण भी इस बातको जाताने—याद दिलानेमें त्रुटि नहीं करती है कि यह दुनियाँ केवल एक प्रकारकी सराय अथवा धोकेकी टट्टी है, जहाँपर कि सदैवके लिये ठहरना सर्वथा असम्भव है।

(४७) ससारमें मनुष्यका जीवन बहुत अल्प है। इस तुच्छ जीवनकेलिये यह अज्ञानी जीव नाना प्रकारके प्रपञ्च, जजाल व भूठे ढोंग रचता है। पर यह अज्ञानी इस बातको नहीं जानता है कि बजाय दूसरोंके फँसानेके में स्वयं ही इन जालोंमें फँस जाऊँगा। जिस प्रकार एक मकड़ी अपने बनाये हुए जालमें स्वयं फँस जाती है। एक समय इन ससारी जालोंसे मुक्त होना तो सम्भव है, पर कर्मखूपी जालोंसे बचना सर्वथा असम्भव है। इस कारण मनुष्य को ससारमें अपने जीवनको शुभकार्योंद्वारा सफल बनाना चाहिये।

(४८) यह ससार बड़ा विचित्र है तथा गहन है क्योंकि इसमें दु खरूपी अग्निकी ज्वाला धधक रही है। इसमें जो इन्द्रियाधीन सुख हैं, वे अन्तमें विरस हैं अर्थात् दु खके कारण हैं और जो काम और अर्थ हैं, वे अनित्य हैं अर्थात् सदा नहीं रहते। इसलिये भय जनोंको अमूल्य मनुष्य-जन्मको नष्ट न करके उसे सार्थक बनाना चाहिये।

(४९) हे आत्मन् ! शरीरको तू रोगोंसे छिदा हुआ समझकर, जैवनको बुढ़ापेसे घिरा हुआ जानकर, ऐश्वर्य तथा सम्पदाओंको

विनाशीक और लीबनको मारणान्तक जानकर अपने अमूल्य मनुष्य-जन्मको व्यर्थ न गँवा ।

(५०) इस जगत्‌में समय पुकार २ कर कह रहा है कि हे भव्य प्राणियो ! जो कुछ अपना कल्याण करना चाहते हो, उसे शीघ्र कर डालो । नहीं तो वादमें पछताना पड़ेगा । क्योंकि जो समय अथवा घड़ी निकल जाती है, हजार यन्त्र करनेपर भी वह वापिस नहीं लाई जा सकती । इस कारण चतुर मनुष्योंको समयका सदा सदृ-उपयोग करनेके लिये तत्पर रहना चाहिये ।

(५१) हमारे देखते-देखते पुत्र, बन्धु, स्त्री, मित्र आदि चले जाते हैं अर्थात् कालको प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार एक दिन यह हमारा आत्मा इस नाशवान् शरीरको छोड़कर रवाना होजायगा । इस कारण हमको सप्तसे पहले विनाशीक शरीरद्वारा अपने जन्मको उत्तम व उच्च कार्योंसे सफल बनाना अत्यन्त आवश्यक है ।

(५२) देखो ! मनुष्योंका प्रवर्तन कैसा आश्र्यकारक है कि शरीर तो प्रतिदिन छोड़ता जाता है और आशा पौछा नहीं छोड़ती है, किन्तु बढ़ती जाती है । तथा आपु तो दिन दिन घटती जाती है और अशुभ कर्मोंमें बुद्धि बढ़ती ही जाती है । मोहतो नित्य स्फुराय-मान होता है और यह प्राणी अपने हित व कल्याण-मार्गमें नहीं लगता है । यह सब अज्ञानका माहात्म्य है ।

(५३) जिस प्रकार पक्षी नाना दिशाओंसे आ-आकर सन्ध्या के समय बृक्षोंपर बसते हैं और सुवह होते ही उड़-उड़ कर चले

जाते हैं, उसी प्रकार प्राणी भी इस ससाररूपी वृक्षमें आ-आ कर बसते हैं और रात्रिके समान कुछ समय यहाँ रह-रह कर चल बसते हैं। इस कारण इस अल्प समयको विचारशील पुरुषोंको नष्ट न करके सदा उपयोगमें लाना चाहिये।

(५४) इस जगत्में जितने भी राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, देवता, इन्द्र आदिके सुप, वैभव व ऐश्वर्य हैं, वे सब ज्ञानिक शर्यात् शामके चमकीले बादलोंके समान हैं। जो देखनेमें अतिसुन्दर दीख पड़ते हैं, परन्तु देखते-देखते ही बिलाय जाते हैं।

(५५) यह काल बड़ा बलवान् है। जैसे यह बालकको ग्रसता है, वैसे ही वृद्धको ग्रसता है, जैसे धनाढ्य पुरुषको ग्रसता है, उसी प्रकार यह दरिद्रको ग्रसता है और जिस प्रकार यह शूरबीरको ग्रसता है, उसी प्रकार कायरको ग्रसता है। इसी प्रकार यह जगत्के समस्त जीवोंको ग्रसता है। यों कहना चाहिये कि किसीको इसका विचार नहीं है। इस कारण विचारवान् पुरुषोंका यही कर्तव्य है कि पूर्व-से-पूर्व ही इसके स्वागत करनेकेलिये उन्हें तथ्यार रहना चाहिये। ताकि अन्त समय पछताना न पड़े।

(५६) जिस समय प्राणीका अन्त आ जाता है, उस समय उसको उसके सगे-सम्बन्धी, मित्र-दोस्त, डाक्टर-वैद्य, धन वैभव आदि कोई भी नहीं बचा सकते। इस कारण विचारवान् पुरुषोंका यही कर्तव्य है कि वे शान्तिके साथ समाधिमरण करें, जिसको 'परिडत्तमरण' भी कहते हैं।

(५७) प्राणीपर जो दु स शयवा वेदना पड़ती है, उसको कोई भी बैटानेमें समर्थ नहीं है। वह स्वयं उसे ही भोगनी पड़ती है। अब यह उमकी चुट्टिपर निर्भर है कि उसे चाहे वह रो-पीटकर या चिल्ला कर भोगे या शान्ति भावसे वरदाश्त करे। शास्त्रकारोंने तो ऐसे अवसरकेलिये यह फरमाया है कि जीवके ऊपर जब दु स या मुसीनत आवे तो उमे वह शान्ति भावसे वरदाश्त करे।

(५८) यह जीव जो अशुभ कर्म अपने पुत्र, स्त्री, कुटुम्बियों, मित्र आदिकेलिये करता है, उनका लुरा फल वह नरक आदि गतियोंमें स्वयं भोगता है। वहाँ उसके पुत्र, स्त्री आदि कोई भी नरकके दु खोंको भोगनेकेलिये साथी या सहायक नहीं होते हैं।

(५९) यह प्राणी बुरे-भले कार्य करके जो धनोपार्जन करता है, उस धनको भोगनेको तो पुत्र मित्र आदि अनेक साथी होजाते हैं, परन्तु अपने कर्मांसे उपार्जन किये हुए निर्देयख्लप दु खोंके समूहको सहनेकेलिये कोई भी साथी नहीं होता है। हे जीव ! तुम्हको अकेले ही सब दु खोंको भोगना पड़ेगा। यह विचारकर भव्य-प्राणियोंको उचित है कि वे अशुभ कर्मांसे सदा बचते रहे।

(६०) मनुष्यको सदा मैत्रीभावना भाते रहना चाहिये। जैसे कि ससारके प्राणीमात्र सदा आपदाओं व दु खोंसे छर्जित हों तथा वैर, पाप, अज्ञान आदिको छोड़कर सुपको प्राप्त हों।

(६१) मनुष्यका सदा करुणाभावना भाते रहना चाहिये। जैसे कि जो जीव दीनतासे तथा शोक, भय और रोगादिकी पीड़ामें

दु'खित हों, पीडित हों तथा वध-वन्धन सहित रोके हुए हों अथवा अपने जीवनकी बाज़बा करते हों कि कोई हमारी रक्षा करे, ऐसीदीन प्रार्थना करनेवाले हों तथा जुधा, दृपा, सेद आदिकसे पीडित हों तथा शीत उषणतादिकसे पीडित हों तथा निर्दय पुरुषोंकी निर्दयता से रोके हुए मरणके दुखको प्राप्त हों तो इस प्रकारके दीन, दुखी दीवोंके कष्ट व दुखोंको दूर करनेका उपाय करते रहना चाहिये और मुक्त करा देना चाहिये ।

(६२) मनुष्यको सदा प्रमोदभावना भाते रहना चाहिये । जैसे कि पुरुष तप, शास्त्राध्ययन और यम-नियमादिकके पालनेमें सलभ हों, ज्ञान ही जिनके नेत्र हों, इन्द्रियाँ, मन और कपायोंको जीतने वाले हो, स्वतत्त्वाभ्यास करनेमें चतुर हों, जगत्‌को चमत्कृत करनेवाले चारित्रसे जिनकी आत्माएँ आश्रित हों, ऐसे पुरुषोंके गुणोंमें मेरा चित्त अनुरक्त रहे ।

(६३) मनुष्यको सदा माध्यस्थ्य भावना भाते रहना चाहिये । जैसे कि कोई अज्ञानी जीव अपने ऊपर मिथ्या आक्षेप लगावे, कटु वचन घोले, अनुचित व्यवहार करे या अपने अहितकेलिये प्रयत्न करे तो उसकेलिये भी मेरे चित्तमें क्रोध न उपजे—उससे मैं शत्रुताका व्यवहार न करूँ—उससे उदासीन—माध्यस्थ्य भाव रखवूँ ।

(६४) जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने ही मुखसे तारोंको निकालकर अपनेको उसमें लपेट लेता है और अन्तमें नाना प्रकारके

दुर्य भोगता हुआ कालको प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार हम अज्ञानी प्राणी भी अपने हित-अहितको न देखते हुए अपने अशुभ कर्मोंमें अपनेको इस बुरी प्रकार बाँधलेते हैं कि जिससे हमें भारी चेदना व दुख भोगता पड़ता है। यहाँ तक कि भोगते हुए पीछा नहीं छूटता है और अन्तमें मृत्युको प्राप्त करना पड़ता है।

(६५) जिन्होंने इन्द्रियोंके विषय भोगनेकी रुपितको नहीं रोका, उपर परिपहें नहीं जीर्ता और मनकी चपलता नहीं छोड़ी, वे मुनि आत्माके निश्चयसे निश्चयसे च्युत होजाते हैं।

(६६) मनुष्यता पाकर उसमें भी फिर जगत्पूज्य मुनिदीक्षा को महण कर विद्वानोंको अपना हित विचार कर अशुभ कर्म अवश्य ही छोड़ना चाहिये ।

(६७) जिन मनियोंने अपने अन्त करणकी शुद्धताके लिये उत्कट मिथ्यात्वरूपी विष चमन नहीं किया, वे तत्त्वोंको प्रमाणरूप नहीं जान सकते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वरूपी विष ऐसा प्रबल है कि इसका लेशमात्र भी यदि हृदयमें रहे तो तत्त्वार्थका ज्ञान श्रद्धान प्रमाण रूप नहीं होता ।

(६८) मुनिपना ससारमें सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। चक्रवर्ती और इन्द्र भी इस पदको अपना भस्तक भुकाते हैं। आत्म हितका यह साक्षात् साधन है और इसीके लिये यह पद स्वीकार किया जाता है। लेकिन कितने ही निर्दय और निर्लज्ज प्राणी इस पदको स्वीकार

कर धनोपार्जन करते हैं—इस पदको अपनी आजीविकाका साधन बना लेते हैं। वे लोग ऐसे ही हैं जैसे कि जो लोग अपनी पूजनीया मातासे वेश्यावृत्ति कराकर अपना ऐश आराम भोगते हैं। एक वे भी लोग हैं जो करोड़ोंकी सम्पत्ति छोड़कर, चक्रवर्त्तिव छोड़कर इस पदको अपनाते हैं और एक ये भी हैं जो उससे धनोपार्जनकी आशा रखते हैं! भाई! धनोपार्जनका तो मार्ग ही दूसरा है। यह पद तो उसे छोड़ देनेके बाद प्राप्त होता है।

(६६) मनको गन्दे विचारोंसे अलग रखनेका उपाय.—

१—नवकार मन्त्रका जाप करना, २—आलस्यसे बचना,
 ३—कुसगसे सदा दूर रहना, ४—बुरी किताबों व उपन्यासोंको नहीं पढ़ना, ५—नाच-तमाशा, नाटक-चेटक आदिमें नहीं जाना,
 ६—अपने खान-पान, रहन-सहन और जीवनपर विचार करते रहना, ७—इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे रोकना, ८—जब-जब बुरे विचार उठें, उसी समय उनको चित्तसे निकाल देना, ९—एकान्त स्थानमें बैठकर मन और इन्द्रियोंकी वृत्तिको रोककर ध्यान करना, १०—परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना,
 ११—सदा मृत्यु और नरकोंके कष्टोंको याद करते रहना।

(७०) अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त वल, दया, लमा, सन्तोष, परोपकार आदि आत्माके स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन कर्मके सयोगसे इनका अनुभव इस ससारी जीवको नहीं होता। इसके कारण यह सदैव क्लेशित रहता है।

(७१) कर्मके आभावमें आत्माका स्वाभाविक गुण प्रगट हो जाता है और स्वाभाविक दशाको प्राप्त कर यह जीव अतिप्रसन्न हो जाता है । इसकी यह स्वाभाविक दशा ही मुक्ति है—मोक्ष है—परमधार है ।

(७२) बद्ध दशा किसीको भी प्रिय नहीं है । सबको स्वाधीन होकर ही रहना पसन्द है । इसीलिये यह जीव मुक्त हो जानेपर अतिसुखी हो जाता है ।

(७३) मुक्तिका सुख—स्वाधीन हो जानेका सुख इन्द्रके सुखसे भी अधिक है । कितना अधिक है ? सौ इन्द्रोके सुखोंका एकत्रीकरण कर लिया जाय तो भी उसकी समानता नहीं हो सकती । नहीं, यह भी गलत है । सच तो यह है कि वह ऐसा सुख है कि किसीकी तुलना करके उसे नहीं बताया जा सकता । इसीलिये ज्ञानियोंने उसे 'अनुपमेय' कहा है ।

(७४) अनुपमेय भी इसलिये है कि वह इन्द्रिय भोग जन्य सुखसे विजातीय है । इसके अतिरिक्त एक विशेषता उसमें और भी है, और वह विशेषता है स्थायित्वकी—निरानाधकी । इन्द्रिय-भोग-जन्य सुख अस्थायी है—सवाध है—सान्तराय है और आत्मिक सुख अनन्त—स्थायी-निरावाध—निरन्तराय है ।

(७५) तभी तो चक्रवर्ती तक भी अपना छह खण्डोंका राज्य छोड़कर उस सुखको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करते हैं ।

और नाना प्रकारकी परीपहें सहते हैं, उपसर्ग सहते हीं और
महान् तप सहते हैं।

कुछ वाक्य-रत्न

“दया ज्ञानकी धजा है और क्रोध मूर्खताकी धजा है।”

✿ ✿ ✿

“घन्य हैं वे जो दया-शील हैं, क्योंकि वे ही परम पिताकी
निज दयाके भागी हैं।” —ईसा।

✿ ✿ ✿

“जहाँ दया तहें धर्म है, जहाँ लोभ तहें पाप ।
जहाँ क्रोध तहें काल है, जहाँ चमा तहें आप ॥”

—कबीर।

✿ ✿ ✿

‘क्रोधको जीतनेका शब्द चमा है, धुराईको जीतनेका शब्द
भलाई है, सूमताको जीतनेका शब्द उडारता है, और भूठको
जीतनेका शब्द सच है।’ —महाभारत।

✿ ✿ ✿

“हर्षके साथ शोक और भय ऐसे लगे हैं, जैसे प्रकाशके
सग छाया। सच्चा सुखी वही है जिसको दोनों एक समान हैं।”

—धर्मपद।

✿ ✿ ✿

“हर एकका उपकार करना अपना कर्तव्य है। बदले में यदि वह बुराई करे तो तुम्हें अपने मनको मैला न करना चाहिये—तुम्हें हमेशा अपना कर्ज अदा करते रहना चाहिये। अगर दूसरा अपने कर्जमें भूले तो उसकी समझपर गुस्सा लानेके बदले तरस साओ !”

—धर्मपद।



“सुकर्म—पुण्यकर्म—भलाईसे लोक और परलोक दोनोंका सुख प्राप्त होता है। परन्तु उससे आवागमन सदाकेलिये नहीं छूट सकता। वह तो तभी छूटेगा, जब आदमी निष्कर्म हो जायगा !”

—एक जैनाचार्य।



“भोग करनेसे भोगकी इच्छा बुझती नहीं, वरना ऐसी भड़कती है जैसे धी पढ़नेसे आग धधकती है।”

—मनुस्मृति।



‘परखीको जो कुदृष्टिसे देखता है, वह अपने सिरपर व्यभिचारका मानसिक पाप चढ़ाता है।’

—ईसा।



“तोवा—पछताचा छह बातोंसे पूरा होता है। १—पिछले पापोंपर लज्जित होनेसे, २—फिर पाप न करनेके प्रयत्न करनेसे, ३—मालिककी जो सेवा छूट गई हो उसे पूरा करनेसे, ४—अपने से किसीकी यदि कुछ हानि हो गई हो तो उसका घाटा भर देनेसे,

५—लोहू और चरवी जो हरामके खानेसे शरीरमें बढ़ी हो उसे धुला डालनेसे और ६—शरीरने पापोंसे जितना सुख उठाया है, मालिककी सेवामें उसे उतना ही दुख देनेसे ।”

—महात्मा अद्वौदकर ।

✽

✽

✽

“जिसने अपना चुरा स्वभाव नहीं छोड़ा, जिसने अपनी इन्द्रियोंको नहीं रोका, जिसका मन अति चब्बल है, वह केवल पढ़ने-लिखनेसे आत्मज्ञानको नहीं पा सकता ।” —कठोपनिषद् ।

✽

✽

✽

“भोजन शरीरके पोषणकेलिये और शरीर भगवत् भजनके लिये रचा गया है, शरीर भोजनकेलिये नहीं रचा गया ।” —साकी

✽

✽

✽

‘जीवनकेलिये भोजन है भोजनकेलिये जीवन नहीं है ।’

—एक अज्ञात कवि ।

✽

✽

✽

“जिसके भोजनका आशय केवल जीवके निर्वाहका और वचनका आशय केवल सत्यके प्रकाशका है, उसका लोक और परलोक दोनोंका मार्ग सीधा है ।” —हितोपदेश ।

—

✽

✽

✽

“उपकारका रूप स्वामित्व है, उसका करना नरन्योलेका धर्म है और उपकार लेना पशुका काम है ।” —एक अज्ञात कवि ।

✽

✽

✽

‘जो पहले मीठा लगे और फिर कड़वा और जो आते हँसावे और जाते रुकावे । यह ससारका सुख है ।’

—एक गुजराती कवि ।

*

*

*

“अचेत आदमीकेलिये ससार खेल तमाशेकी जगह है, परन्तु सचेत आदमीकेलिये ससार युद्धस्थल है जहाँ जीवनपर्यन्त मन और इन्द्रियोंसे मनुष्यको जूझना पड़ता है ।” —सहजो ।

*

*

*

“मनुष्यकी देह भवसागर पार होनेकी नाव है, ज्ञान उसके खेलेका ढड़ा है, सत्य उसके स्थिर रखनेकेलिये लगड़ है, सुकर्म अगम धारामें खांचनेकी रससी है और दान और उपकार पातमें भरकर आगे ढकेलनेवाली हचा है ।” —महाभारत ।

*

*

*

“दयाके वरावर कोई धर्म नहीं, ज्ञानाके वरावर कोई शूरता नहीं, आत्मज्ञानके वरावर कोई ज्ञान नहीं और सत्यके समान कोई गुण नहीं ।” —महाभारत ।

*

*

*

“दान, पछताचा, सन्तोष, सेयम, दीनता, सचाई और दया, ये सात वातें वैकुण्ठके द्वार हैं ।” —महाभारत ।

*

*

*

“दरिद्री कौन है ? जिसकी तृप्ति बढ़ी हुई है । धनी कौन है ? जिसके पास सन्तोषरूपी धन है ।” —शंकराचार्य ।

5

六

六

“१-विश्वास-धात या छुल सबसे बड़ा पाप है। २-लालच
भारी अवगुण है। ३-सत्य तपसे श्रेष्ठ है। ४-पवित्रता और
निर्दोषता चक्षसे उत्तम है। ५-प्यार सहित उपकार सब गुणोंमें
शिरोमणि है। ६-गौरव या गम्भीरता सबसे बड़ी शोभा है।
७-विना किसी सहायकके भी ज्ञानकी सदा जय है। ८-मरना
लोक-अपमानसे अच्छा है।”

मनुष्य-जीवनकी सफलता

महानुभावो ! क्या कभी आपने इस बातको ध्यान-
पूर्वक विचार करनेकी चेष्टा की है कि मनुष्य-जन्म
मिलना कितना दुर्लभ है और इस अमूल्य जन्म पानेका क्या
उद्देश्य है ?

क्या मनुष्य-जन्म पानेका यही भतलब है कि हम भूठ बोले,
चोरी करें, शराब पियें, व्यभिचार करें, शिकार खेलें, अबलोंको
सतावें, लोगोंके साथ विश्वासघात करें और अन्तमें यमपुरीको
प्रस्थान करें ।

क्या मनुष्य-जन्म पानेका यही सार है कि अन्यायपूर्वक
पैसा पैदा किया जाय, जनताको धोखा दिया जाय, कम तोला
जाय, कम नापा जाय, नकलीको असली बताया जाय, अच्छी
वस्तुमें निवल वस्तु मिलाई जाय, बात बातमें कसम राई जाय
और इस प्रकार ठगई—जाल करते हुए शरीर छोड़ा जाय ?

क्या मनुष्य-जन्म पानेका यही उद्देश्य है कि लोगोंको भला-
दुरा कहा जाय, क्रोध किया जाय, घमडमें चूर रहा जाय, बाप-

दादोंकी कमाईको अपने ऐश-आराममें फूँक दिया जाय और अन्तमें हाथ मलते-मलते जीवन-लीला समाप्त की जाय ?

क्या मनुष्य-जन्म पानेका सिर्फ यही मन्तव्य है कि धन-दौलत हो, खी-सन्तान हो, भोग-उपभोग हों, इन्द्रिय-मनका सुख श्राप हो, मान-बड़ाई हासिल हो और अन्तमें जीवन लीला समाप्त हो जाय ?

नहीं, नहीं, मनुष्य जन्म पानेका यह उद्देश्य कदापि नहीं है । उसके पानेका बड़ा ऊँचा उद्देश्य है । क्योंकि यह जीव सांसारिक अनेक सुख, यहाँ तक कि राजा महाराजा, बलदेव, चासुदेव और चक्रवर्ती तककी, नहीं-नहीं, देवताओं व इन्द्र आदि तककी ऋद्धियाँ, वैभव, ऐश्वर्य आदि, एक बार नहीं, दस बार नहीं, घलिक अनेक बार भोग चुका है । पर तो भी इस जीवका मन्तव्य आज तक सिद्ध नहीं हुआ है ।

दूसरे यह जीव अनादि कालसे चौरासी लाख जीवयोनि और करोड़ों कुलोंमें धूम चुका है और धूम रहा है पर आज तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है ।

तो अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य-जीवनका मुख्य उद्देश्य क्या है ? भिन्न-भिन्न शास्त्रकारों, ऋषियों, केवलियों और जिनेन्द्र-भगवान्ने इस बातको एकमत होकर स्वीकार किया है कि मनुष्य-जीवनका उद्देश्य चौरासी लाख जीवयोनि और करोड़ों

कुलोंसे निकल कर कर्मका अन्त फर परमपद अथवा सिद्ध गतिको प्राप्त करना है ।

तो अब प्रश्न उठता है कि वह परमपद अथवा सिद्धगति क्या है ? सिद्धगति वह पद है, जहां पर अनादि कालसे भ्रमण करनेवाली यह समारी आत्मा आवागवनके घनसे छूट कर हमेशाकेलिये अतीन्द्रिय सुखका भोग करता है । इस अवस्थामें अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दर्शन और अनन्त बीर्यका भोग कर आत्मा सब प्रकारकी व्याधा—पीड़ासे रहित हो जाती

क्यों कि इस समय-मासादिक अवस्थामें यह जीव कर्म लिस्त है—पद है । इस कर्म-ज्ञासता-प्रदत्ताके कारण ही यह जीव नाना गतियोंमें भ्रमण करता है, नाना प्रकारके बलेश उठाता है और निज स्वरूपसे-ज्ञान-सुखवे खंजानेसे अपरिचित रहता है ।

आत्माके अनन्त गुण हैं या यों कहना चाहिये कि आत्मा अनन्त गुणोंका पुञ्ज है । अनन्तगुणभवडारी आत्माके ज्ञान और सुख, ये दो गुण ऐसे हैं कि जिनकी आत्माका अनुभव यह जीव कर्म लिस्त अवस्थामें भी कर सकता है । यही कारण है कि सभी समारी जीवोंको ज्ञान और सुखकी अभिलापा स्वाभाविक रूपमें उपलब्ध होती है । उसे वे मनोनुकूल नितना-चाहें उतना प्राप्त कर न सकें, यद् दूसरी बात है । यह एक अस-भर्ता है । पर ज्ञान और सुखके प्राप्त करनेकी अभिलापा समारी जीवके होती स्वत है । क्यों कि वे उसके स्वाभाविक गुण हैं ।

है और अजरामरु, निराकार, निरझन, निर्लेप, कृतकृत्य, परमेष्ठी, परंज्योति, विराग, विमल, कृती आदि हो जाती है और इस प्रकारकी अवस्था उसकी सदा काल बनी रहती है अर्थात् सिद्ध पद प्राप्त करनेके बाद जीवका सारे दुखोंसे अन्त हो जाता है और वह परमानन्द दशाको सदाकेलिये प्राप्त कर लेता है।

मनुष्य, तिर्यग्र देव और नरक, इन चारों गतियों और चौरासी लाख जीव योनियोंमेंसे मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है जिसके द्वारा यह जीव अपने पूर्वोक्त उद्देश्यको प्राप्त कर सकता है। और अगर कहीं इस मनुष्य-जन्मको, जिसका कि मिलना महा दुर्लभ है, यों ही गँवा दिया तो वही हाल होगा, जो चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिये जानेपर एक किसानका होता है।

अब विवेकी बन्धुओंको इस वातका भी दिग्दर्शन कर लैना चाहिये कि मनुष्य-जन्म पाना दुर्लभ कितना है ? १५ समस्त लोकमें

* समस्त आकाशके दो विभाग हैं। आकाश वास्तवमें है तो एक ही द्रव्य, परन्तु देशभेदापेक्षया कल्पनया उसके दो विभाग कर लिये जाते हैं। जिनमेंसे एकको लोकाकाश और दूसरेको अलोकाकाश कहते हैं। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म और काल, ये पाँच महाद्रव्यें जिसमें देखी जायें-पाई जायें, वह लोकाकाश है और जिसमें ये न पाई जायें, वह अलोकाकाश है। अलोकाकाशमें जीवका गमनागमन नहीं होता। ३३३ घनाकार रज्जु-ग्रमाण (एक नाप-विशेष) लोकाकाशमें ही जीव द्रव्यका गमनागमन होता है।

अनन्त जीव हैं या यों कहना चाहिये कि सारा ब्रह्मारड जीवोंसे ठसाठस भरा हुआ है।

समस्त लोक अथवा समस्त सासारमें जितने जीव हैं, वे दो प्रकारके हैं। एक भव्य और दूसरे अभव्य। भव्य जीव वे हैं जिनमें सिद्धपद प्राप्त करनेकी शक्ति है और अभव्य जीव वे हैं जो सिद्धगति प्राप्त नहीं कर सकते। भव्य जीव भी दो प्रकारके होते हैं। एक वे जो सिद्धगति प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे वे जिनमें सिद्धगति प्राप्त करनेकी सत्ता तो है, पर वे सिद्ध गति प्राप्त करनेके साधन नहीं पाते।

अब आप अनुभव कर सकते हैं कि बहुतसे जीव तो सिद्ध गतिको प्राप्त ही नहीं कर सकते। इनके अतिरिक्त बहुतसे जीव ऐसे हैं, जो कि साधनोंके अभावसे सिद्धगति नहीं पा सकते। सिर्फ़ कम जीव ऐसे हैं, जो यदि पुरुषार्थ-पराक्रम करें तो उस अमर पदको प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एक दूसरी हृषिसे भी विचार करनेपर मनुष्य गतिका प्राप्त करना आपको अति कठिन प्रतीत होगा। यथा—नित्येतर निगोदमें अनन्त जीव पड़े हुए हैं। जिनमेंसे अनन्त जीव ऐसे हैं जिनको अनन्त कालसे आज तक उसमेंसे निकलनेका अवसर ही नहीं मिला है अर्थात् उनका इतना पुण्यका उदय नहीं हुआ कि वे उस अवस्थासे निकल सकें। जब जीव

का अनन्त पुण्य उदयमें आता है, तभी उसमें से निकल कर यह जीव व्यवहार-राशिमें एकेन्द्रियपत्रको प्राप्त करता है।

एकेन्द्रिय जातिके जीवोंके भी पाँच भेद होते हैं और वे निम्न प्रकार हैं—

(१) पृथ्वी—इस योनिके जीवोंकी सात लाख जातियाँ और बारह लाख करोड़ कुल और बाईस हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है।

(२) जल—इस योनिके जीवोंकी सात लाख जातियाँ, सात लाख करोड़ कुल और सात हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है।

(३) अग्नि—इस योनिके जीवोंकी सात लाख जातियाँ, तीन लाख करोड़ कुल और तीन दिन व रातकी उत्कृष्ट आयु होती है।

(४) वायु—इस योनिके जीवोंकी सात लाख जातियाँ, सात लाख करोड़ कुल और तीन हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है।

(५) वनस्पतिकाय—इस योनिके जीवोंकी चौबीस लाख जातियाँ, अट्ठाईस लाख करोड़ कुल और दस हजार वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है।

उपरोक्त पाँचों एकेन्द्रिय योनिमें इस जीवको असख्यात-असख्यात समय रहना पड़ा है। जब जीवके प्रभूत पुण्यका उदय

आता है, तब कहीं उसे द्विन्द्रिय जीवपना प्राप्त होता है। जिसमें सिर्फ़ शरीर और मुख होता है। जैसे, केंचुये आदि। इस योनिकी दो लाख जातियाँ, सात लाख करोड़ कुल और बारह वर्षकी उत्कृष्ट आयु होती है। इस योनिमें भी यह जीव सख्यात वर्ष रह आया है।

जब किसी भारी पुण्यका उदय आता है, तब कहीं जीव इस योनिमें से निकल कर त्रीन्द्रियपना प्राप्त करता है। जिसमें स्पर्शन, रसन और ध्राण, ये तीन इन्द्रियाँ ही होती हैं, जैसे—चाँटी, रटमल इत्यादि। इस योनिकी दो लाख जातियाँ, आठ लाख करोड़ कुल और उनचास दिनकी उत्कृष्ट आयु होती है। इस योनिमें भी यह जीव सख्यातवर्ष रह आया है।

जब कहीं विशिष्ट पुण्य उदयमें फिर आता है, तब कहीं यह जीव चतुरिन्द्रिय जातिको प्राप्त करता है। जिसमें सिर्फ़ स्पर्शन, रसन, नाक और आँस, ये चार इन्द्रियाँ होती हैं, जैसे—मक्खी, मकड़ी, विच्छू इत्यादि। इस योनिमें दो लाख जातियाँ नौ लाख करोड़ कुल और छह महीनेकी उत्कृष्ट आयु होती है। इस योनिमें भी यह जीव सख्यातकाल रह आया है।

जब कहीं जीवके अधिक पुण्यका उदय पुन होता है, तब कहीं यह जीव असश्वी तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय योनिको प्राप्त करता है। असश्वी पञ्चेन्द्रिय जीव वे होते हैं जो बिना भाता, पिंताके सयोग से जल, वायु, गर्भी आदिके सयोग से पैदा हो जाते हैं, जैसे—

मनुष्य कुपढ़ रह गया या पासमे पैसा न हुआ, तो भी वह मनुष्य अपने जीवनको सफल नहीं बना सकता। इस कारण विद्या और लक्ष्मीका होना भी परम आवश्यक है।

यदि उपरोक्त सारी बातें भी मिल गईं और कदाचित् सत्संग और उत्तमधर्मका सहबास नहीं मिला तो भी मनुष्य-जन्मका सफल होना असम्भव है। क्योंकि सत्सग और उत्तमधर्मके बिना एक मनुष्य कुपयमें आसानीसे पड़ सकता है और अपने अमूल्य मनुष्य-जन्मको धूलमे मिला सकता है।

यदि उत्तम धर्म और सत्सग भी मिल गया तो भी मनुष्य जन्म पानेका मन्तव्य सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि यदि सारी बातें मिल गईं और हम उत्तमधर्मको कार्यमें नहीं ला सके अर्थात् अपने चरित्रको शुद्ध नहीं बना सके तो उपरोक्त सारी बातोंका समागम होना निरर्थक है। इस कारण उपरोक्त कारण-कलापके साथ श्रद्धा और पराक्रमका होना भी उतना ही आवश्यक है।

अब मेरे बन्धु भली भाँति समझ गये होंगे कि उपरोक्त समस्त आवश्यक बातों सहित मनुष्य-जन्मका मिलना कितना दुष्कर व दुर्लभ है।

अब एक दूसरी दृष्टसे भी मनुष्य-जन्मकी दुष्प्राप्यतापर ध्यान दीजिये—

समस्त लोकमें सबसे अधिक संख्या एकेन्द्रिय जीवोंकी है। उससे कम द्वीन्द्रिय जीवोंकी है। उससे कहीं कम सख्त्या त्रीन्द्रिय जीवोंकी है। उससे कहीं कम सख्त्या चतुरिन्द्रिय जीवोंकी है। उससे कहीं कम सख्त्या असद्गती जीवोंकी है। उससे कहीं कम सख्त्या सद्गती तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय जीवोंकी है और उससे बहुत कम सख्त्या मनुष्योंकी होती है। अर्थात् मनुष्योंकी सख्त्या ससारमें एक बड़े पर्वतके मुक्काविले राईके समान या समुद्रके मुक्काविले एक विन्दुके बगावर भी नहीं है। इसपर भी ससारमें पूर्ण साधनों सहित मनुष्य बहुत अल्प सख्त्यामें हैं।

ससारमें मनुष्य-जन्मका कुछ भरोसा नहीं है। हमारे देखते देखते अनेक मनुष्य मृत्युको प्राप्त होते चले जाते हैं। मनुष्य जीवन पानीके बुलबुलेके समान है। मनुष्य-जीवन बालूकी भीतके समान है। मनुष्य-जीवन सध्याके रगीले बादलोंके तुल्य है। मनुष्यके सिरपर काल हर समय खड़ा रहता है। यह उसका केवल पुण्य ही है, जो सदा उसकी रक्षा कर रहा है। इस कारण मनुष्यको आपने जीवनको एक अमूल्य जीवन जानकर उसको शुरूसे ही सद्मार्ग—सद्गुप्योगमें लगाना चाहिये।

यह तो मानी हुई बात है कि ससारमें किसी भी कार्य, हुनर, विद्या व ज्ञान आदिमें एक दिनमें या अल्प समयमें निपुणता प्राप्त नहीं की जा सकती। सारे कार्योंमें क्रम क्रमसे अर्थात् सीढ़ी-दर-सीढ़ी ही उन्नति व निपुणता प्राप्त की जा सकती है। इसी

प्रकार वर्तमान समयमें कोई चाहे कि मैं एक दिनमें अपने जीवनको सफल बना लूँ, यह असम्भव है। हाँ यदि मनुष्य इस बातको अपना उद्देश्य बना ले और लगातार उस ओर परिश्रिम अथवा प्रयत्न करता रहे तो एक दिन अपने जीवनको अवश्य वह सफल बना सकता है। यह कहावत आपने सुनी होगी कि रोम एक दिनमें नहीं बनाया Rome was not built in a day निरन्तर, कोशिश और मेहनत करते रहनेपर एक दिन रोमका नगर ससारमें सब शहरोंसे प्रशस्त व बड़ा सभके जानेके योग्य बना था।

मनुष्यका जीवन मानिन्द एक जहाजके है। यदि जहाजका कप्तान तूफान, चट्टान, पानीके बड़े जानवरों, घर्के तैरते हुये पहाड़ इत्यादिसे बचाता हुआ और अपने बल, चीर्य, पुरपार्थ और पराक्रमको उपयोगमें लाता हुआ ठीक मार्गपर चला जाता है तो एक दिन वह अवश्य शान्तिपूर्वक अपने निश्चित स्थानपर अर्थात् बन्दरगाहपर पहुँच जाता है। इसी प्रकार मनुष्यका मन स्पी कप्तान इन्द्रियोंके विषयरूपी प्रलोभन, दुष्कर्मों और कपायोंसे बचाता हुआ और अपना बल, चीर्य, पुरपार्थ और पराक्रमको उपयोगमें लाता हुआ चला जाय तो निश्चित स्थान—मोक्ष स्थानपर अवश्य पहुँच सकता है।

इन्द्रियों और मनका सदुपयोग या दुरुपयोग करना मनुष्यके उपर निर्भर है और इन्हींके सदुपयोगद्वारा एक मनुष्य अपने

जीवनको सफल बना सकता है और इन्हाँके पुरुषयोगद्वारा एक मनुष्य अपने जीवनका सत्यानाश कर सकता है।

एक-एक इन्द्रियके विषयमें पड़ कर जीव ससारमें अपने जीवनको गँवा देते हैं। जैसे हिरण्य श्रोत्रेन्द्रियद्वारा वीणाके स्वरसे मोहित होकर, भौंरा धाणेन्द्रियद्वारा कमलकी सुगन्धके वशीभूत होकर, पतझ चलुरिन्द्रियद्वारा दीपककी ज्योतिपर मुग्ध होकर, मछली जिहेन्द्रियद्वारा कॉटेपर लगे हुये आटेके स्वादमें पड़ कर अपनी जान गँवा देते हैं। ये प्राणी केवल एक-एक इन्द्रियके वशवर्ती हो जानेके कारण मृत्यु तककी दुर्दशाका भोग करते हैं। यह धात शास्त्र और अनुभव द्वारा सिद्ध है तो फिर मनुष्यकी तो पाँचों ही इन्द्रियों प्रवल हैं। उसे तो इनसे हर समय सावधान रहनेकी आवश्यकता है—मनुष्यको तो उन पर हर समय कावू रखनेकी ज़रूरत है। मनुष्य यदि अपने विचार-शक्तिसे काम न ले और इन्द्रियोंके विषयोंमें पड़ जाय तो उसकी क्या दुरी अवस्था इस ससारमें और मृत्युके बाद हो, यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं।

ऐसा समझ कर प्रत्येक विचारशील पुरुषको अपनी विचार-शक्ति, मन तथा इन्द्रियोंको वशमें रखना चाहिये और पराक्रमद्वारा अपने मनुष्य-जीवनको सफल बनानेमें सदा तत्पर रहना चाहिये।

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि वह कौनसा मार्ग है जिससे एक मनुष्य अपने जीवनको सफल बना सकता है ?

इसका उत्तर यह है कि जीवनको सफल बनानेके शास्त्र-कारोंने दो मार्ग बताये हैं। एक गृहस्थधर्म, दूसरा यतिधर्म। पहिला मार्ग सरल है और दूसरा मार्ग कठिन। यदि हम पहिले मार्गको क्रम-क्रमसे तय करना प्रारम्भ कर दें तो एक दिन हम दूसरा मार्ग भी अवश्य तय कर सकेंगे।

गृहस्थधर्मके दो भाग हैं। एक तो वह, जिसके अनुसार प्रत्येक गृहस्वको चलना अनिवार्य है। दूसरा वह, जो गृहस्थ पुरुषार्थ व पराक्रम करके अपने जीवनको सफल बनाना चाहते हैं, उनको प्रहण करने योग्य है।

गृहस्थ धर्मका प्रथम भाग जो प्रत्येक मनुष्यको अनिवार्य है, वह निम्न प्रकार है —

१—भास नहीं खाना, २—शिकार नहीं खेलना, ३—शराब नहीं पीना, ४—जुआ नहीं खेलना, ५—चोरी नहीं करना, ६—वेश्या गमने नहीं करना और ७—परदारा-सेवन नहीं करना^३।

उपरोक्त सातों कुल्यसन मनुष्यकी दुष्टि विगड़नेवाले, धर्म की ओर चित्तको आकर्षित न होने देनेवाले और मनुष्यको भयकर दुर्गति अर्थात् नरकमें ले जानेवाले हैं। इस कारण इनका प्रत्येक प्राणीको त्याग करना चाहिये।

^३ “जुआ खेलन, माँस, मद, वेश्या व्यसन, शिकार।

चोरी, परमणी-रमण, सातों व्यसन निवार ॥”

जो गृहस्थ अपने विशेष पुरुषार्थ व पराक्रम द्वारा अपने मनुष्य-जीवनको सफल बनाना चाहते हें, उनको निम्नलिखित वारह ब्रत महण करने चाहिये । गृहस्थर्म ग्रहण करनेसे पहले मनुष्यको सम्यक्त्वी होना चाहिये । सम्यक्त्वीका लक्षण पहले कहा जा चुका है । सम्यक्त्वके पाँच^१ अतीचार भी हें, जो निम्न प्रकार हैं—

(१) शङ्का—देव, गुरु और धर्ममें शङ्का रखना अर्थात् यह सत्य है या असत्य है आदि सोचना ।

(२) काढ़क्षा—इदि, हर और सूर्य प्रभृति देवताओंका प्रभाव देखकर उनसे तथा जिनधर्मसे भी सुखादिक प्राप्त करने की इच्छा रखना या भोग और सुख प्राप्त करनेकेलिये शरणेश्वरादि देवताओंकी मान्यता करना ।

(३) विचिकित्सा—धर्मविषयक फलके सम्बन्धमें सन्देह करना या देव, वर्म और गुरुकी निन्दा करना ।

(४) अन्यद्विषयसंसार—मिथ्याद्विषयोंके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्रकी प्रशस्ता करना ।

(५) अन्यद्विषयसंस्तब्ध—मिथ्याद्विषयोंके मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्रको मनमें अच्छा—आत्महित-कारक समझना ।

* “शङ्काकाट् शाविचिकि पान्यद्विषयसामस्तवा सम्यद्वेतीचारा” ।
—उमास्वाति

श्रावकों (गृहस्थों) को इन पाँच अतिचारोंसे रहित सम्यकत्व का पालन करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त गृहस्थको अहिंसाणुब्रत, सत्याणुब्रत, ब्रह्म चर्याणुब्रत, अचौर्याणुब्रत और परिप्रहपरिमाणाणुब्रत, ये पाँच अणुब्रत, दिग्ब्रत, देशावकाशिकब्रत और अनर्ददण्डब्रत, ये तीन गुणब्रत तथा सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोग परिमाणब्रत और अतिथिसविभाग, ये चार शिक्षाब्रत, इस तरह कुल बारह^१ ब्रत भी निरतिचार रूपसे पालन करना चाहिये । बारह ब्रत और उनके अतिचारोंका वर्णन निम्न प्रकार है ।

श्रावकके बारह ब्रतोंमेंसे प्रथम ब्रत अहिंसाणुब्रत—प्राणाति-पातविरमणब्रत है । इसका अर्थ है—जीवकी हिंसा नहीं करनी । सिर्फ जीवको शरीरसे पृथक् करना ही हिंसा नहीं है, वलिक किसीको छेदना, भेदना, मारना, पाटना, आदि सभी हिंसामें गर्भित हैं ।

शास्त्रकारोंने पहिले ब्रतके निम्नोक्त पाँच^२ अतिचार अर्थात् दूषण बतलाये हैं जो कि त्यागने योग्य हैं—

“गृहिणा त्रेधा तिष्ठत्यणुण्णिच्छावतात्मक चरणम् ।

पञ्चत्रिचतुर्भेद त्रय यथासर्वमारयात्म् ॥”

—स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

मृ “दन्धवधेदातिभारारोपणाक्षपाननिरोधा ” । —उमास्वाति ।

(१) वध—मनुष्य, पशु, जलचर आदि जीवोंको अख शब्द या लकड़ी आदिसे मारना—प्रहार करना ।

(२) वन्ध—मनुष्य या किसी प्रकारके जीवको कडाईसे बाँधना या पिंजरे, जाल इत्यादिमें बन्द कर देना ।

(३) विच्छेद—मनुष्य पशुओं आदिके कान, नाक आदि अवयवोंको छेदना, काटना, खस्सी बनाना आदि ।

(४) अतिभारारोपण—मनुष्य व पशुओंपर उनकी शक्तिसे अधिक वोझ—भार लादना, उनसे अधिक समय तक मेहनत लेना, उन्हें अधिक चलाना आदि ।

(५) अन्न पान निरोव—पशुओं या मनुष्योंको उचित समय पर भोजन नहीं देना, कम देना, याराव देना आदि ।

जो प्राणी उपरोक्त दूषणोंको टालते हैं अर्थात् दयाका पालन करते हैं, उनको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, श्रेष्ठ शरीर मिलता है, उच्चगोत्र प्राप्त होता है, विपुलधन मिलता है, बाहुनलके वे धनी होते हैं, इसके अतिरिक्त उच्च कोटिका स्वामित्व, अखण्ड आरोग्य और सुयश मिलता है, और ससार-सागरका पार करना उनकेलिये सहज हो जाता है। ससारमें धन, धेनु और धरा (पृथ्वी) के देनेवाले लोग तो सहज मिल जाते हैं, किन्तु प्राणियोंको अभय देनेवाले लोगोंका मिलना कठिन है। मनुष्यों को कृमि, कीट, पतग और तृण (वृक्ष) आदिपर भी दया

करनी चाहिये और अपनी आत्माके समान दूसरे सब प्राणियों को समझना चाहिये ।

दूसरा व्रत गृहस्थका—‘सत्यागुव्रत-मृपावादविरमण’ है । इसका धर्य है—भूठ नहीं बोलना । इस व्रतके भी निम्नलिखित पाँच अतीचारक हैं ।

(१) मिथ्योपदेश—सिद्धान्त-विवर छुगति लेजानेवाला उपदेश देना, किसीको भूठा कलक लगाना आदि ।

(२) रहोभ्यात्यान—एकान्तमें किसीके साथ किये हुए किसी गुप्त कार्यको प्रकट कर देना ।

(३) कूटलेखक्रिया—भूठे तमसुक लियना, वहीखातेमें भूँगा जमा खर्च करना, भूठे तार-चिट्ठी देना आदि ।

(४) न्यासापहार—किसीकी धरोहर आदिको मुकर जाना आदि ।

(५) साकारमन्त्रमेद—किसीकी गुप्त वातको किसी तरह जानकर उसे प्रगट कर देना आदि ।

इनके अतिरिक्त सुन्न पुरुषोंको निम्नलिखित प्रधान पञ्चकूट का भी त्याग करना चाहिये—

१—रन्या विपयकूट, २—पशु विपयकूट, ३—भूमि विपय कूट, ४—भूठी गवाही देना और ५—किसीकी धरोहरको न

६) “मिथ्योपदेशरहोभ्यात्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारमन्त्रमेदा”
—उभास्ताति ।

देकर हङ्गम कर जाना। इनके अतिरिक्त बहुतसे मनुष्य हँसी-मज्जाकमें और वात वातमें भूँठ लोला करते हैं, यह भी सर्वथा त्यागने योग्य है। आज कल भूँठका प्रचार बहुत बढ़ गया है। क्या जैन, क्या अजैन, प्राय सभी लोग अक्सर भूँठ लोला करते हैं। उसीका यह कारण है कि आये दिन उन्हें नहीं नहीं तकनीकोंका सामना करना पड़ रहा है। क्या टूकानदार, क्या ग्राहक, क्या चकील, क्या मुवक्किल, क्या डाम्पटर, क्या रोगी, क्या स्वामी, क्या सेवक, क्या स्त्री, क्या पुरुष इत्यादि विशेष कर भूँठका ज्यादा प्रयोग किया करते हैं। जिस जमानेमें लोग भूँठका प्रयोग बहुत कम करते थे, प्राय सत्य ही लोला करते थे, उस समय सत्यके प्रभावसे बड़े-बड़े चमत्कार नज़र आया करते थे। नदियाँ जलपूर्ण होकर वहती थीं, देवता नौकरके समान कार्य करते थे, सर्प पुष्पमालाके समान हो जाया करता था, विष अमृत के समान, शत्रु मित्रके समान और जल थलके समान हो जाया करता था। मनुष्य यदि अच्छा और उन्नतिका समय चाहते हैं तो उनको भूँठका त्याग और सत्यका भ्रष्ट करना चाहिये।

तीसरा ब्रत 'अचौर्याणुब्रत' है। इसका अर्थ है—विना दी हुई वस्तु नहीं लेनी। इस ब्रतके भी निम्न लिखित पाँच अतीचार हैं—

* “स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान-प्रतिस्पृकव्यवहारा ।”

—दमास्याति ।

(१) स्तोनप्रयोग—चोरी करनेकी युक्ति बतलाना, चोरी करनेकी चोरको अनुमति देना ।

(२) तदाहृतादान—चोरीका माल लेना ।

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम—राजाकी उचित आज्ञाका उल्लंघन करना ।

(४) हीनाधिकमानोन्मान—कम वजनके बॉटोंसे या छोटे गज्जसे सामान देना और अधिक वजनके बॉटोंसे या बड़े नापकी मात्रासे, बड़े गज्जसे सामान लेना आदि ।

(५) प्रतिस्थपकव्यवहार—अच्छी या असली वस्तुमें दुरी या नकली वस्तु मिलाना ।

पड़ा हुआ, भूला हुआ, सोया हुआ, छूटा हुआ और रखा हुआ परवन 'अदत्त' कहलाता है । सुझ पुरुषोंको यह कदापि नहीं लेना चाहिये । जो प्राणी अदत्त अर्थात् विना दी हुई वस्तुको प्रहण नहीं करते, वे सिद्धि प्राप्त करते हैं, कीर्ति उनकी चिरसगिनी बनती है, रोग व दोष उनसे दूर रहते हैं, सुगति उनकी स्पृहा करती है, दुर्गति उनको ओर देख भी नहीं सकती और विपत्ति तो उनका सर्वथा त्याग ही कर देती है ।

अधिकतर हमारे गृहस्थ और भाई सिर्फ ऐडेसे माल लाना या किसीको जवरदस्ती लूटना इत्यादिको ही चोरी समझते हैं । पर वास्तवमें किसी ग्राहकको नापमें कपड़ा कम देना, सामान

वजनमें कम देना, असली कह कर नक्ली चीज देना, आदि भी चोरीमें ही गमित हैं। जो दूकानदार या साहूकार घरमें धन रखकर काम फेल या दिवाला निकाल देते हैं, वे भी एक प्रकारकी चोरी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य काम केल करने वालोंको काम केल करनेमें सलाह व सहायता देते हैं, वे भी एक प्रकारके चोर हैं। जो व्यक्ति चुगीबाले मालको चिना चुगी चुकाये ले आते हैं, राज्यका महसूल नहीं भरकर मालको अन्दर ले आते हैं, वे भी एक प्रकारके चोर हैं। जो साहूकार कम ढेकर ज्याद का दस्तापेज लिखा लेते हैं या जो मुनासिवसे ज्याद व्याज लेते हैं, वे भी एक प्रकारके चोर हैं। जो दूकानदार धीमें तेल, कोकोजम या चर्वी मिलाकर बेचते हैं, या अन्य खाद्य पदार्थोंमें दूसरे क्रिसमर्की कम कीमतकी चस्तु मिलाकर बेचते हैं, वे भी एक प्रकारके चोर हैं। जो बकील झूठे मुकदमे लडते हैं या जो डाकूर या बैद्य मामूली रोगको पैसे ठगनेके हेतुसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, वे भी एक प्रकारके चोर हैं।

चोर तो प्रत्यक्ष अर्थात् खुल्लमखुल्ला चोरी करने आते हैं, पर अन्य पेशेवाले दूकानदार जो प्राहकोंको कम बोलते हैं या नम देते हैं या अच्छी और असली चस्तुके घजाय नक्ली और पुरानी चीज देते हैं, वे तो दिन दहाड़े-खुल्लमखुल्ला डाका मारते हैं। यों कहना चाहिये कि साधुके भेषमें लुटेरोंका फाम

करते हैं। इस प्रकारके कुकमोंसे ये लोग नीच और अशुभ कमोंका वन्ध करते हैं। जिनको भोगते-भोगते उनका पीछा नहीं छूटेगा। दूसरे अशुभ कमोंका नाश तो तपद्वारा किया जा सकता है, पर चोरीका पाप विना भोगे नहीं छूटता है।

जो आनी हैं, सज्जन हैं, जिन्हें अपना मनुष्य-जन्म सफल बनाना है, वे एक तिनका भी विना किसीके दिये (अदत्तका) ग्रहण नहीं करते। जिस प्रकार किसी रोगीको कुपथ्य देनेसे वह बुरी अवस्थाको प्राप्त करता है, उसी प्रकार किञ्चित् मात्र भी अदत्त ग्रहण करनेसे जीव दोपके भागी बन जाते हैं। जिसके कारण आत्माको एक बुरी अवस्थामें जाना पड़ता है। इस कारण जो भव्य प्राणी अपनेको अदत्तादान अर्थात् चोरीसे बचाना चाहते हैं, उनको उपरोक्त अशुभ कमोंसे सदा भग, बचन और कायसे बचे रहना चाहिये।

चौथा ब्रत ‘ब्रह्मचर्याणुब्रत’ है। इसका अर्थ है—यदाशक्ति ब्रह्मचर्यका पालन करना।

इस ब्रतके भी निम्न-लिखित पाँच अतीचारद अथवा दूपण हैं, जो कि त्यागने योग्य हैं।

(१) परविवाहकरण—दूसरोंका विवाह कराना।

* “परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानक्षकीदाकाम-
तीव्राभिनिवेशा”।

—उमास्वाति।

(२) इत्वरिका परिगृहीतागमन—दूसरेकी पुँश्चली स्त्रीके पास जाना ।

(३) इत्वरिका अपरिगृहीतागमन—वेश्याके पास जाना ।

(४) अनङ्गकीडा—काम भोगके अवयवोंको छोड कर अन्य अवयवोंसे काम कीडा करना ।

(५) कामतीत्राभिनिवेश—काम-भोगकी तीव्र अभिलापा करना ।

गृहस्थों अथवा मनुष्य मात्रको सिवाय अपनी पत्नीके और स्त्रीको सिवाय अपने पति के दूसरेका चिन्तन नहीं करना चाहिये । पुरुषको अपनी स्त्रीके सिवाय अन्य तमाम स्त्रियोंको और स्त्रीको सिवाय अपने पति के अन्य तमाम पुरुषोंको भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री और माता पिताके तुल्य समझना चाहिये ।

प्रथम तो बहुतसे मनुष्य इस ब्रतको धारण ही नहीं करते और जो धारण करते हैं, उनमेंसे भी बहुतसे मनुष्य नाजा प्रकारकी तर्क-वितके निकाल कर अन्य स्त्रियोंसे निपयसे बन करते हैं । ऐसे पुरुषोंसे प्रश्न करनेपर वे यह दलीलदिया करते हैं कि हम किसी वेश्याको मासिकपर रख लें तो हमारे ब्रतमें दूषण नहीं लगता है या हमारा जिस कन्याके साथ सम्बन्ध हो गया है, अगर हम उसके साथ रमण करते हैं तो दूषण नहीं लगता, इत्यादि । इस प्रकारकी धातें सर्वधा वर्जनीय हैं । मनुष्य मिन्द्र-सुन्दर स्त्रियोंको या उनके चित्रोंको देखते हैं तो तुरन्त

उनका मन चलायमान हो जाता है। यह भी सर्वथा वर्जनीय है। वहुतसे युवक या विद्यार्थी या मनुष्य दूसरे युवकों, विद्यार्थियों और मनुष्य या स्त्रियोंके साथ कामचेष्टा या अनन्नक्रोडा या कुचेष्टा, हस्तकर्म, नपुसक सभोग आदि अनेक प्रकारको क्रोडा करते हैं, वे भी सर्वथा वर्जनीय हैं। जो प्राणी वजाय कायसे भोग-सेवनेके सिफर्म मनसे ही कामकी इच्छा करते हैं, वे भी मर कर नरक दुर्गतिको प्राप्त करते हैं।

इस कारण जो प्राणी अपने मनुष्य जन्मको सार्थक बनाना चाहते हैं, उन्हें अपनी स्त्रीके सिवाय पूर्ण ब्रह्मचर्य पालना चाहिये और अपनी स्त्रीसे भी परिमित भोग करना चाहिये। जो स्त्री या पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य पालते हैं, उन्हें कोई किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुँचा सकता। उनका सर्वत्र कल्याण ही होता है। उनकी कीर्ति बढ़ती है, धर्मकी वृद्धि होती है, पाप नष्ट होता है और स्वर्ग एवं मोक्षके सुखोंकी प्राप्ति होती है।

धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे तो ब्रह्मचर्यका पालन करना ऐहलौकिक और पारलौकिक सुखोंका साधन है ही। इसके अतिरिक्त वैद्यक दृष्टिसे भी ब्रह्मचर्यका पालन करना जीवोंको सर्वथा हितकारक है। आयुर्वेदका एक चाक्र यह है —

“आमिमूल चल पुसा, रेतोमूल च जीवितम् ।
तस्माद्वाहृन च शुक्रं च, यज्ञेन परिक्षयेत् ॥”

अर्थात् अग्निके आवारसे प्राणियोंका वल है और वीर्यके आधारसे प्राणियोंका जीवन है। इसलिये अग्नि और वीर्यकी बड़ी सावधानीसे मनुष्योंको रक्षा करते रहना चाहिये।

ब्रह्मचर्यमें मनुष्यका शरीर नीरोग और स्फृतिमान् रहता है, इन्द्रियों शक्तिहीन नहीं होता, दिमाग काम उत्तुरस्त करता है, स्मरण-शक्ति आवृत्तिजनक होनी है, शरीर कान्तिमान् और आठुति देवीयमान् होती है, कलाओंमें निपुणता प्राप्त होती है, ब्रह्मचर्यसे मनुष्य प्राप्त वैभवैश्वर्यका पूर्ण भोग कर सकता है, जीवन-मग्राममें विजयी होता है, ससार सागरसे पार उत्तर सकता है और ससारमें वह एक प्रसिद्ध पुरुष हो सकता है।

ससारमें जिनने प्रसिद्ध-प्रसिद्ध दार्शनिक कवि, पहलवान्, कलावान्, धनवान् आदि हो गये हैं वे सब एक इसी ब्रह्मचर्यके प्रतापसे। यदि ये लोग ब्रह्मचर्यको नहीं अपनाते तो आज हमें उनका नाम तक सुनाई नहीं देता।

मसारमें जिनने साधु-सन्यासी ग्रन्थ-महर्षि हो गये हैं, जिन्होंने कि तप तपे हैं, प्रन्थ लिये हैं, माना प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, गिरि-जन्दराओं या बनोंमें रहकर अनेक प्रकारकी परिपहे सही हैं, वह सब एक इसी ब्रह्मचर्यकी अलुल महिमा के प्रतापसे।

जो लोग इस ब्रतका पालन नहीं करते, वे अपने जीवनमें कुछ भी सुख नहीं भोग सकते, न कोई ससारमें अपने जीवनकी

लिशेपता दिग्गा सफते हैं। ऐसे लोग यों ही जाते हैं और यों ही एक जाते हैं—पुरोड़ी भीत मर जाते हैं।

सारांश यह हि मनुष्य संसारमें जो काम करता है—जपती
जीर्ति भवता है, परवा हित साधन करता है, इम लोक और
परलोक को पनाहा है, यह नय दिनांग और शरीरदे दलते।
ये दोनों जिमठे ठीक और प्रतिक्रिया होते हैं, पर्ही पुण्य उपर्योग
कार्य भव्यता पर महगा है और ये दोनों शक्तियों देवता ग्राह
धर्योंके प्रतिपादन निर्भर हैं। जिमके पास ग्राहार्थ रथी रथ भीज़ते
हैं, उसका दिनांग और शरीर नीरंग और गन्तुगत रथ सहता
है। इसलिये मनुष्य संसारमें यहि एक दास परता चाहता है और
और धारणे दोनों भग्न सुगरना आएगा है गो उसे ग्राहार्थीया
उपर्योग प्राप्तता चाहिये।

पौचर्णी या 'परिपूर्वकिमानात्मगत' है। इसका अर्थ है
द्युमाणि भग्न प्राप्त आदि दृष्टि प्रसारवीष्ट परिपूर्वकिमान
या या भग्न के गो अपर्याप्तता वा भग्न जितनी व्यापकीय
निष्ठा रहे तबीया या या निष्ठा वा या
वीर द्युमाणि के अंग तथा तांक द्या
पौचर्णी व्याप्तिशार है।

(१) क्षेत्र-वास्तु प्रमाणातिक्रम—जमीदारी, मकान आदि के परिमाण का उलझन करना ।

(२) हिरण्य-सुवर्ण प्रमाणातिक्रम—सौने, चौंदी, जवाहरात के गहने आदि के परिमाण का अतिक्रम करना ।

(३) धन धान्य प्रमाणातिक्रम—धन-धान्य के प्रमाण का अतिक्रम करना ।

(४) दासी दास प्रमाणातिक्रम—नौकर-चाकर के प्रमाण का अतिक्रम करना ।

(५) कुप्य प्रमाणातिक्रम—कपड़े लत्तों के प्रमाण का अतिक्रम करना ।

इस व्रतमें गृहस्थ (श्रावक) को बहुत परिग्रह अर्धात् धन-धान्य आदिकी कमी करनी चाहिये । एक गृहस्थ से सर्वथा परिग्रह का त्याग होना तो कठिन है । क्योंकि यिना धन के गृहस्थ का कार्य नहीं चल सकता । यह कहावत भी है कि “साखु कौड़ी रख्ये तो दो कौड़ीका और गृहस्थ बिना कौड़ीके दो कौड़ीका” इस कारण गृहस्थ को द्रव्य रखना अत्यावश्यक है, परन्तु ऐसा भी नहीं होना चाहिये कि द्रव्य के लिये मनुष्य मर्यादा भङ्ग करे, अतिआशा करे, सदा असन्तापी बना रहे, दिन-रात कोल्हू के बैल के समान परिव्रम करता रहे आदि । क्योंकि ससारी मनुष्य का स्वभाव है कि उसे कितनी भी लज्जारी प्राप्त हो जाय, पर उसे सन्वेष नहीं होता । ज्यों-ज्यों

उसे लद्दमीकी प्राप्ति होती जाती है, त्यों-त्यों वह अधिक अस-
न्तुष्ट होता जाता है। कहा भी है कि धनहीन मनुष्य सौ रुपये
चाहता है, सौवाला हजार चाहता है, हजारवाला लाख चाहता है,
लाखवाला करोड़ चाहता है, करोडपति राज्यकी इच्छा रखता
है, राजा चक्रवर्ती होना चाहता है, चक्रवर्ती देवता होनेकी इच्छा
रखता है और देवता इन्द्रत्वकी अभिलापा रखता है।

इस कारण जिस प्रकार हो उस प्रकार लोभ अर्थात् विशाल
इच्छाओंको कम करना चाहिये। लोभी मनुष्यको कभी सुख
या सन्तोषकी प्राप्ति नहीं होती। किसीने सच कहा है कि जिस
प्रकार ईश्वरसे अग्रि और जलसे समुद्र तृप्त नहीं होते, उसी
प्रकार धनसे लोभीकी तृप्ति नहीं होती। उसे यह भी विचार नहीं
आता कि जब आत्मा समस्त ऐश्वर्यको त्यागकर परमवर्में चला
जाता है, तब व्यर्थ ही पापकी गठडी क्यों चाँधी जाय? कहनेका
साराश यह है कि परिग्रहका परिमाण बढ़नेपर लोभ भी बढ़
जाता है। जिसके कारण उस मनुष्यपर नाना प्रकारके सकट आ
पड़ते हैं। इस कारण जो प्राणी अपना मनुष्य जन्म सफल अथवा
शान्तिमय बनाना चाहते हैं, उनको प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि वह
अमुक सख्त्या तक धन, धान्य इत्यादि रखेंगे। उनको व्यवहारमें
आनेवाली वस्तुओंकी इस प्रकार भर्यादा करनी चाहिये—

भूमि अर्थात् रेत, चारागाह, वंजर, घाग घगीचा आदि
इतने बड़े और इतनी संख्या तकके।

सोना-चाँदी अर्थात् इतना वज्रनमें, इतनी क्रीमतका ।

धन अर्थात् रूपया, मुद्रा, जवाहरात् जैसे हीरा, मोती, पत्ता आदि अमुक क्रीमतके ।

धान अर्थात् नाज जैसे गेहूँ, चाखल, जुधार इत्यादि अमुक रूपयोंका या अमुक मन तक रखना या व्यापार आदि करना ।

द्विपद अर्थात् दास, दासी, नौकर चाकर, मुनीम, गुमास्ते इत्यादिकी गिनती तथा अमुक रूपये माहवारके रखने ।

चौपद अर्थात् गाय, बैल, भैस, घोड़ा इत्यादि आजकल मोटर, हवाईजहाज, पानीके जहाज आदि बाहन अमुक सर्व्या में और अमुक रूपयोंकी तादादके रखने ।

कुप्य अर्थात् अनेक धातु, जैसे—पीतल, लोहा, राग, ताँवा इत्यादि अथवा वस्त्र आदि अमुक तादाद तक रखना या व्यापार करना ।

इनके अतिरिक्त आजकल बहुतसी वस्तुओंका व्यापार किया जाता है या वे घरमें रखकरी जाती हैं। इस कारण जहाँतक वन सके, उन सभी वस्तुओंकी भर्यादा कर लेना चाहिये। क्योंकि मनुष्यकी इच्छाएँ अनन्त हैं। और वे उत्तरोत्तर हमेशा घडती भी

छ एक आचार्यने तो लिखा है कि—

“आशागर्ते प्रतिप्राणि, यस्मिन्विश्वमणूपमम् ।

कस्य कि कियदाचाति, वृथा वो विपरीपिता ॥”

—गुणनद भट्टत ।

रहती हैं। उन सबका पूर्ण करना अत्यन्त कठिन है, कठिन ही नहीं असम्भव भी है। मनुष्य यदि उन इच्छाओंको पूर्ण करने में लग जाय तो वह सारी उम्र इसीमें व्यतीत कर दे। फिर भी यह सभव नहीं कि उन्हें वह पूर्ण कर ले। जबतक मनुष्यको इच्छाएँ सताती रहती हैं, तबतक वह व्याकुल—दुखित रहता है। इच्छाओंके अभावमें जीवको निराकुलता-सुख प्राप्त होता है। असलमें निराकुलता ही सुख है। एक कविका बावजूद है—

“आत्मको हित है सुख, सो सुख, आकुलता चिनु काहिये।”

—कविवर भूधरदासजी।

मनुष्यकी इच्छाएँ अनन्त—अपरिमित हैं। उन सबका पूर्ण होना अशक्य है। और जबतक वे पूर्ण न हो जायें, तबतक मनुष्यको चैन नहीं। ऐसी हालतमें यही होना चाहिये—मनुष्य को सुखी होनेका—चैनसे जीवन व्यतीत करनेका एक ही मार्ग है। और वह मार्ग यही है कि मनुष्य अपनी इच्छाओंको परिमित कर ले। कितना परिमित कर ले ? जितनेसे आसानीसे रामें निकल जाय उतना परिमित कर ले अर्थात् अपनी

अर्थात् हरएक ग्राणीके आशास्पी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें समस्त भस्तर एक परमाणुके धरायर है तो फिर यत्त्वाओंकि किसके हिस्सेमें कितना आना चाहिये ? इसलिये जीवोंकी विपराभिलापा व्यर्थ है। (पर्योंकि वह कियी भी हालतमें पूरी नहीं हो सकती)

आवश्यकताओंकी पूर्तिमात्र कर ले । इसलिये यों कहना चाहिये कि इच्छाओंका निरोध करना—कम करना सासारको घटाना है—सासारिक बन्धनको कम करना है—पापोंका काटना है और मनुष्य जन्मको सफल बनाना है ।

ब्रह्म व्रत जिसको पहिला गुणाघ्रत भी कहते हैं 'दिग्ब्रत' है । इसका अर्थ है दिशाओंकी मर्यादा करना । इस व्रतद्वारा दिशा अर्थात् चेत्रकी मर्यादा की जाती है । जो मनुष्य इस व्रतको ग्रहण नहीं करते हैं, उनको संमारके तमाम चेत्र व दिशाओंका दूषण आया करता है ।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अध, इस तरह दश दिशाएँ हैं । इनका विस्तार हजार कोस नहीं, लाख कोस नहीं, बल्कि करोड़ों कोस से भी कहीं अधिक है । वर्तमान समयमें मनुष्यको 'अधिक-से-अधिक' एक स्थानसे दूसरे स्थान तक सिर्फ हजारों कोसकी मर्यादाके अन्दर ही प्राय जाना-प्राना पड़ता है । इस कारण प्रत्येक प्राणीको जहाँतक कम दिशाओंकी, मर्यादा कर सकता है, उसे उतना रखकर बाकीका त्याग कर देना चाहिये । लेकिन जो प्रतिज्ञा की जाय, उसका पालन करना परम आवश्यक है । अगर कोई प्रतिज्ञा करके उसका भङ्ग करता है तो वह विशेष समार बढ़ाता है अर्थात् मनुष्य-जीवनको नष्ट करता है । मनुष्य को अपने कारबार या व्यापारका पूरी तौरसे ध्यान रखते हुए

दिशाकी मर्यादा करनी चाहिये। जितनी मर्यादा वह कम रख सके गा, उतना ही वह कम दूपण का भागी होगा।

सातवाँ ब्रत 'भोगोपभोगपरिमाण ब्रत' है। इसको दूसरा गुणवन भी कहते हैं। इसका अर्थ है भोगोपभोगकी मर्यादा करना। भोग उन वस्तुओंको कहते हैं, जो सिर्फ एक समय काम में आवें। जैसे भोजन-पान, फल, ताम्बूल इत्यादि। उपभोग उन वस्तुओंको कहते हैं, जो धार-धार भोगनेमें आवें—एक धार काममें लेनेके बाद फिर दुबारा भी भोगनेमें आवें। जैसे कपड़ा, टोपी, घक्स, पालकी, गाड़ी आदि।

अगर एक मनुष्य भोगोपभोगोंकी मर्यादा नहीं करता है तो सारे ससारमें जितनी भोगोपभोगकी वस्तुएं हैं, उन सबका दूपण आता है। फिर भले ही वह मनुष्य ससारकी वहुत थोड़ी चीजें ही अपने व्यवहारमें वहाँ न लाता हो। इस कारण प्रत्येक प्राणीको जितनी वस्तुएं अपने व्यवहारमें आ सके, उनको थोड़-कर शेष समस्त वस्तुओंका त्याग करनेना चाहिये—मर्यादा कर लेना चाहिये। मास, मद्य आदि अभद्र्य पदार्थोंका सर्व त्याग करना चाहिये। इनके अतिरिक्त शहद, मस्तन, जिर्मिदन्द (जो मूल या जड़ जर्मीनके अन्दर पैदा होती है) जैसे आलू, त्याज, अदरक, सकरफन्दी आदि हैं। तथा ऐसे फलोंका भी त्याग करना चाहिये। आय और कर्म नहीं हैं।

तरीका यह है कि भोगकी जिन वस्तुओंका इस्तेमाल उसे करना हो, उन सबको लिख कर रख लेना चाहिये, ताकि हेर-फेर न पड़े।

उपभोगकी भी ऐसी वस्तुएँ इस्तेमालमें नहीं लानी चाहिये, जिनमें विशेष हिंसा हो। जैसे—रेशम, चमडेका सामान, मीलका कपड़ा आदि। इसके अलावा जिस कदर सामान वर्तना हो या इस्तेमालके बास्ते रखना हो, उसकी भी लिरित फोहरिस्त रख लैनी चाहिये, ताकि प्रतिद्वाका उलझन न हो सके। जरूरतों और इच्छाकी जितनी कमी की जाय, उसना ही अच्छा है।

इसके अतिरिक्त सासारमें कुछ ऐसे भी व्यापार व धन्दे हैं, जिनमें महा हिंसा होती है। जो मनुष्य अपने जीवनको सफल बनाना चाहते हैं, उन्हे ऐसे महा हिंसक व्यापार-वन्धे भी नहीं करने चाहिये। शास्त्रमें ऐसे व्यापार धन्धे 'कर्मदानके' नामसे प्रसिद्ध हैं। और उनकी सख्ती पन्द्रह है। यथा—

१—अगार कर्म—भट्टा लगवाकर कोयले, मिट्टीके वर्तन, ईट, चूना इत्यादि पकवान।

२—वन कर्म—जड़लोंमें वृक्ष, धास, वॉस इत्यादि कट-वाना और फलों व पुष्पोंका व्यापार करना।

३—शकट कर्म—गाढ़ी, ताँगा आदि सवारी अथवा उनके साधन बनाना।

४—भाट कर्म—गाढ़ी, बेल, डैट खजर इत्यादिपर माल लादना या इनको भाड़ेपर चलाना।

५—स्फोट कर्म—आटा, दाल, चावल आदि भील ढारा तैयार करवाना, कुँआ, सरोबर, मिट्ठी, पत्थर इत्यादि खुदवाना ।

६—दन्त वाणिज्य—हाथीदांत, हड्डी, चमडा, मोरछल, सीप, मोती, कस्तूरी आदिका व्यापार करना ।

७—लक्ष्मवाणिज्य—लाख, भील, हरताल, मुहागा, सामन, आदिको घनवाना या व्यापार करना ।

८—रसवाणिज्य—मक्खन, चरवी, मॉस, मधु, मदिरा, धी, नेल, आदिका व्यापार करना ।

९—केशवाणिज्य—डास, दासी, घेल, गाय, घोडा आदिका व्यापार करना ।

१०—विषवाणिज्य—विष, शस्त्राख, हल आदि पदार्थोंका क्रय-विक्रय करना ।

११—यन्त्रपीडन कर्म—तिल, सरसो आदि पदार्थोंको धाणी में पेरना या पिरवाना ।

१२—नलच्छुन्नकर्म—गाय, घेल आदिके कान, सीग, पूँछ आदि काटना या उनको अकता कराना, दागना आदि ।

१३—असतीपोपण—सुआ, मैना, विल्ली, कुत्ता, मुर्गा, मयूर आदि जानवरोंको पालना या उनका व्यापार करना ।

१४—दवदान—क्रोधके वश या उपज अच्छी करनेकेलिये जगलमे आग लगाना ।

१५—सरशोपण—सिंचार्द्दिके लिये नदी, तालाब या सरो-
वरमें जल इकट्ठा करना ।

उपरोक्त तमाम भोगोपभोग और कर्मादानोंका त्याग करानेका
शास्त्रकारोंका केवल यही मन्तव्य है कि उन पदार्थों—वस्तुओं
का उपयोग व उन व्यापारोंया धनधोको नहीं करना चाहिये,
जिनमें विशेष हिंसा होती हो । हिंसा करना मानों ससारको
मढ़ाना है । इस कारण मनुष्यको जिस प्रकार हो सके, उस
प्रकार अल्प से-अल्प हिंसा करते हुये मनुष्य-जीवनको सार्थक
बनाना चाहिये ।

हमें कोई मारे, पीटे, पेले, रोदे, पीसे, दवाजे तो उसमें जैसे
हमें कष्ट अनुभव होता है, वैसे ही सभी जीवोंको होता है । प्रत्येक
प्राणीको अपने महशा ही दूसरे व्यक्तियोंके प्राण समझने चाहिये ।
इसीलिये शास्त्रमें कहा गया है कि ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु,
य पश्यति स पण्डित ।’ अर्थात् विद्वान् वही है जो अपने
सुख-दुःखके समान दूसरोंके सुख दुःखका ध्यान रखता हो ।

मनुष्यको जन इस बातका ख्याल हो जायगा, तब वह अपने-
ही आप अपने सब काम ऐसे करेगा या करना चाहेगा कि जिसमें
दूसरोंको तकलीफ न हो । ऐसे विचारशील द्याद्वैपरिणामी
मनुष्यको विशेष पुण्य बन्ध होता है और उसके द्विमें क्रोध-
मान-माया लोभ आदि आत्म शत्रु अपना बास नहीं करते । वह
जीव जगत् हितैर्पी और अकारण जगद्वन्धु होता है । ऐसे

५—स्फोट कर्म—आटा, दाल, चावल आदि नील द्वारा तैयार करवाना, कुँआ, सरोवर, मिट्ठी, पत्थर इत्यादि खुदवाना ।

६—दक्षत वाणिज्य—हाथीदात, हड्डी, चमडा, मोरछल, सीप, मोती, कस्तूरी आदिका व्यापार करना ।

७—लक्ष्माणिज्य—लाख, नील, हरताल, सुहागा, साबन, आदिको वनवाना या व्यापार करना ।

८—रसवाणिज्य—मक्खन, चरवी, मॉस, मधु, मदिरा, धी, तेल, आदिका व्यापार करना ।

९—केशवाणिज्य—दास, दासी, घैल, गाय, घोडा आदिका व्यापार करना ।

१०—घिपवाणिज्य—घिप, शस्त्राख, हल आदि पदार्थोंका क्रय-विक्रय करना ।

११—यन्त्रपीडन कर्म—तिल, सरसो आदि पदार्थोंको घाणी में पेरना या पिरवाना ।

१२—नलच्छन्नकर्म—गाय, घैल आदिके कान, सींग, पूँछ आदि काटना या उनको अकृता कराना, दागना आदि ।

१३—असतीपोपण—सुआ, मैना, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, मयूर आदि जानवरोंको पालना या उनका व्यापार करना ।

१४—दबदान—कोधके वश या उपज अच्छी करनेकेलिये जगलमें आग लगाना ।

जिस कदर कम हो सके, उतना कम करना चाहिये और सदा यह अभिलापा रखनी चाहिये कि वह कौन सा दिन होगा कि मैं भर्व प्रकारके आरम्भ-परिग्रहसे अलहदा हूँगा और सदा हृदयसे पश्चात्ताप करते रहना चाहिये। इस प्रकार जो जरूरी आरम्भ अर्थात् पाप किया जाता है, वह अर्थदण्ड है। पर जो विना कारण अर्थात् जिससे किसीका स्वार्थ तो मरे नहीं और फिजूलमें आरम्भ अर्थात् पाप हो, उसे 'अनर्थदण्ड' कहते हैं। यह अनर्थ दण्ड अनेक प्रकारका होता है, पर शास्त्रकारोंने इसको निम्न लिखित पाँच॥ भागोंमें बाँट दिया है।

(१) पापोपदेश—हिंसाकारी वचन बोलना, जिससे जीवोंका वध हो, ऐसी तरकीब बताना, जिसमें जीवोंका महा अनर्थ हो। जैसे—शराब ऐसे बनती है, जुआ ऐसे खेला जाता है, विष ऐसे तैयार किया जाता है, खटमल या मच्छर इस प्रकार मारे जाते हैं। इत्यादि चारों आत्महितार्थी मनुष्यकेलिए सर्वथा वर्जनीय हैं।

“‘पापोपदेशहिंसादानापध्यानदु श्रुतीं पञ्च ।

प्राहु प्रमादचर्यामनर्थदण्डानदण्डघरा ॥”

—स्त्रामी समन्तभट्टाचार्य ।

अर्थात् १-पापोदेश, २-हिंसादान, ३-पध्यान, ४-दु ध्रुति और ५-प्रमादचर्या, ये पाँच अनर्थदण्ड अनर्थदण्डके त्यागी महात्माओंने बतलाये हैं।

सर्वदयालु मनुष्यका चित्त एक ऐसी शान्तिका अनुभव करता है, जो अन्यत्र दुष्प्राप्य है।

साधु लोग जहाँ तक हो सकता है, नहीं ही बालते हैं^५। यदि बोलनेकी अति आवश्यकता ही आन पड़े तो बोलते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। उतना ही, जितनेसे कि मतलब हल हो जाय-अलपाक्षर वहर्य + फिर भी बोलते समय मुँहपर कपड़ा^६ लगा लेते हैं। क्यों? इसीलिये कि मुँहकी भाफसे सूक्ष्म जीव उसी तरह भस्म हो जाते हैं, जिस तरहसे कि किसी विशालकाय अजगरके सांस छोड़नेसे-फुँकार मारनेसे—मुँहकी विपक्ष भाफसे हम लोग भस्म हो जाते हैं।

आवकका आठवाँ ब्रत 'आनर्थदण्ड ब्रत' है। इसको तीसरा गुणब्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—बेमतलब पापकी क्रियाएँ न करना। ससारमे प्राणी आरम्भ, परिग्रह, मोह, माया इत्यादिमें फँस रहा है। गृहस्थकेलिये इन सबका सर्वथा त्यागना बड़ा मुश्किल है। क्यों कि मनुष्य ससारमें रहता है। उसे अपने शरीर, कुदुम्ब आश्रितोंकी रक्षा व पालन-पोषणमें छह कायके जीवोंकी हिसा अर्थात् आरम्भ करना और निवार्य है तो भी आरम्भ

* साधुओंके इस गुणका नाम 'धामगुसि' है।

+ साधुओंके इस गुणका नाम 'भापासमिति' है।

^६ साधुओंके इस कपड़ेका नाम 'मुँहपत्ति' है।

अनर्थदर्शक ब्रतके अतिचारके भी ध्यानमें रखने योग्य हैं। प्राय लोग उनका ध्यान नहीं रखते और वेमतलब ही अपने मन, वचन और कायकी शक्तिका दुरुपयोग करते हैं। जिससे कुछ भी नतीजा नहीं निकलता। वल्कि कभी कभी तो उट्टा नुकसान हो जाता है। वे अतिचार इस भाँति हैं—

१—कन्दूर्ध—रागसे हास्य मिश्रित भरण—अश्लील वचन बोलना।

२—कौत्कुच्य—शरीरकी वेमतलब ही बुरी बुरी अश्लील आकृतियाँ बनाना।

३—मौर्य—वेमतलन अधिक बोलना। एक बातको अनेक बातेका घार कहना। निष्प्रयोजन बोलना।

४—अतिप्रसाधन—विना आवश्यकताके भोग-उपभोगकी सामग्रीको बढ़ाते चले जाना।

५—असभीद्य अधिकरण—विना प्रयोजन सोचे मन, वचन कायकी क्रियाएँ करना।

श्रावकका नवों ब्रत 'सामाधिक' है। जिसको पहिला शिक्षा ब्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—मनको एकाग्र करना।

* 'कन्दूर्धं कौत्कुच्य, मौर्यमतिप्रसाधन पद् ।

असभीद्य धाधिकरण, व्यतीतयोऽनर्थदर्शकद्विरते ॥

—स्वामी समन्तभद्राधार्य ।

(२) हिसादान—अब्द शख या और प्रकारके हथियारोंका बनाना, दान देना जिससे जीवोंका धात हो। ऐसा करना भी मनुष्यकेलिये बर्जनीय है।

(३) अपध्यान—युरा ध्यान, युरे विचार करना। जैसे अमुक आदमीने सुझे गालियाँ दी थीं सो अच्छा हो, उसका लड़का मर जाय, उसके घरमें आग लग जाय, उसका दिवाला निकल जाय, उसे जेलराना हो जाय, वह सुकहमा हार जाय, उसका माल-असवाप, मकान ढाढ़में ढूब जाय, इत्यादि।

ऐसा विचारनेसे प्राणीको कुछ मिलता तो है नहीं, पर वह अशुभ कर्मोंका बन्ध उससे अवश्य करता है। इस कारण ऐसे विचार व ख्यालात कदापि मनमें नहीं आने देने चाहिये।

(४) हु श्रुति—चित्तको विगाड़नेवाले विचारोंको सराव करनेवाले शास्त्रोंको—उपदेशोंको पढ़ना-सुनना। जैसे—गन्डे उपन्यासोंका पढ़ना-सुनना या ऐसे ही बेमतलबकी बातें जिनमें भरी हो, ऐसे व्याख्यानोंका सुनना-सुनाना।

(५) प्रमादचर्या—असावधानीसे ऐसे कार्य करना, जिससे काम तो कुछ हो नहीं, और दूसरोंको तकलीफ पहुँचे ही। जैसे—मार्गमें चले जा रहे हैं और अकाँआ आदि बनस्पतिको बैठ मारते जा रहे हैं, जिससे वे कट-कट कर नीचे गिरते जा रहे हैं।

करना, ४—सामायिकको निरादार भावसे करना और ५—सामायिकका तथा उसके समयका स्मरण न रखना। सामायिकमें किसी भी सासारिक कार्यको चिन्ता रखनी या फुकथा—राजकथा, देशकथा, खोकथा और भक्तकथा करना। सामायिक करते समय सामायिक करनेवालेको वत्तीम दोप और टालने चाहिये। वे वत्तीस दोप—दस मनके, दस वचनके और वारह कायके, इस तरह होते हैं।

आवकका दसबाँ व्रत 'देशावकाशिक' है, जिसको दूसरा शिक्षाप्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—देशकी मर्यादा कर लेना। इस व्रतमें और छठे व्रतमें केवल इतना ही अन्तर है कि छठा व्रत जीवन पर्यन्त ग्रहण किया जाता है और यह व्रत एक दिनकेलिये ग्रहण किया जाता है ॥

छ व्रत दो प्रकारसे लिये जाते हैं—किसी घस्तुका त्याग दो प्रकारसे किया जाता है। एक जीवन पर्यन्त और दूसरा अल्पकालकेलिये। यावज्जीवन त्यागको शास्त्रमें 'यम' और परिमितकालीन त्यागको 'नियम' शब्दसे कहा गया है। यथा —

"नियमो यमश्च विद्वितो, द्वेष्या भोगोपभोगमहारे ।
नियम परिमितकालो, यावज्जीव यमो ध्रियते ॥"

—स्वामी समन्तमद्वाचार्य ।

जब मनुष्य अपने दिन-रातके चौबीस घण्टे दुनियांदारीके कामोंमें लगाता है, तो कुछ समय उसको शुभ विचार, शुभ ध्यान और ईश्वर-चिन्तनमें अवश्य देना चाहिये। जो मनुष्य अपना थोड़ा बहुत समय परभवकेलिये नहीं देता है, उसको अन्त समयमें बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है।

इस सामायिक ब्रतका मन्त्रव्य यह है कि प्रत्येक मनुष्यको कम-से कम एक और ज्यादा हो तो और भी अच्छा है, सामायिक करनी चाहिये। एक सामायिकका काल एक गुहर्त अववा अड़तालीस मिनटका होता है। उतने समयकेलिये सांसारिक सारे कार्योंको छोड़ देना पड़ता है। सामायिक करनेवाले व्यक्ति को उस समयमें शुभ विचार अर्थात् धर्मध्यान करते रहना चाहिये या शास्त्रोंका पठन-पाठन करते रहना चाहिये। सामायिक करनेवाले व्यक्तिरो मन, वचन और कायसे सर्व प्रकार की हिंसा, इन्द्रियविषय, दुरे विचार, हँसी-मसहरी, सावद्य किया आदि सभी प्रकारके सांसारिक कार्यका त्याग करना पड़ता है।

और ब्रतोंकी भाँति सामायिकके भी पाँच अतीचार होते हैं, जो कि त्यागने योग्य हैं। सक्षेपमें उनका स्वरूप यह है—

१—मनमें आर्तध्यान या दौद्रध्यान का चिन्तन करना,
२—वचनसे सावद्य वचन बोलना, ३—कायसे सावद्य कार्य

ॐ “धावकायमानसाना, दु प्रणिधानान्यनादरस्मरणे।

सामायिकस्यातिगमा व्यञ्जन्ते पञ्चभावेन ॥”

—स्वामी समन्तभद्राचार्य ।

करना, ४—सामायिकको निरादार भावसे करना और ५—सामायिकका तथा उसके समयका स्मरण न रखना। सामायिकमें किसी भी सांसारिक कार्यकी चिन्ता रखनी या कुरुथा—राजकथा, देशकथा, खोकथा और भक्तकथा करना। सामायिक करते समय सामायिक करनेवालेको घत्तीस दोप और टालने चाहिये। वे घत्तीस दोप—दस मनके, दस बचनके और बारह कायके, इस तरह होते हैं।

श्रावकका दसवाँ ब्रत ‘देशावकाशिक’ है, जिसको दूसरा शिक्षान्वत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—देशकी मर्यादा कर लेना। इस ब्रतमें और छठे ब्रतमें केवल इतना ही अन्तर है कि छठा ब्रत जीवन पर्यन्त ग्रहण किया जाता है और यह ब्रत एक दिनकेलिये ग्रहण किया जाता है।

छठ ब्रत दो प्रकारसे लिये जाते हैं—किसी वस्तुका त्याग दो प्रकारसे किया जाता है। एक जीवन पर्यन्त और दूसरा अख्यकालकेलिये। यावज्ञीवन त्यागको शास्त्रमें ‘यम’ और परिमितकालीन त्यागको ‘नियम’ शब्दसे कहा गया है। यथा—

“नियमो यमरच विदितो, द्वे धा भोगोपभोगसहारे ।
नियम परिमितकालो, यावज्ञीव यमो ध्रियते ॥”

—स्यामी समन्तमद्वाचार्य ।

तमाम वातोंका असली मन्तव्य सिर्फ़ यही है कि जहाँ तब और जिस प्रकार सम्भव हो, वहाँ तक इच्छाओं और आवश्यकताओंको कम किया जाय। तमाम उमरमें न मालूम क्या-क्या इच्छाएँ पैदा हों, इस कारण काफी गुंजाइश रखकर ब्रत प्रहर किये जाते हैं—नियम लिये जाते हैं। पर इन नियमोंको और भी सकुचित बनानेके ख्यालसे प्रत्येक दिनकी आवश्यकता और इच्छाओंको देखते हुये, प्रत्येक दिन नियम और लिये जाते हैं। जैसे आज मैं असुक कोस तक जाऊँगा, अमुक-अमुक वस्तुओंके भोगोपभोग करूँगा। वास्तीका सबका मेरे त्याग है। इत्यादि।

जो क्रिया छठे ब्रतके अनुसार आ रही थी, उससे कही घटकर प्राणी क्रियाका भागी हो, इस कारण यह दसवाँ ब्रत प्रत्येक दिन, सुबहको प्रहर किया जाता है और शामको या दूसरे दिन सुबहको विचार किया जाता है कि जो त्याग या नियम हमने किया था, उसमें कोई दूषण तो नहीं लगा है। अगर भूल चूकमें कोई दूषण लग गया हो तो उसकेलिये प्रायशिच्त और पञ्चाचाप करना पड़ता है, ताकि भविष्यमें दुबारा भूल न हो।

इस ब्रतमें अल्पकालीन प्रत्याख्यान भी किया जाता है। जैसे-सूरज उदयसे एक घटे तक या ढाई घटे तक या दोपहर तक या तीन पहर तक इत्यादिमें खाना खाने और पानी पीने अर्थात् किसी किसकी खाने पीनेकी कोई वस्तु नहीं खाई या पी-

जाती है। इनको नियमपूर्वक प्रहण किया जाता है और नियम पूर्वक पारण अर्थात् सान-पान किया जाता है।

अगर उपरोक्त प्रत्याख्यानोंमें जान कर या भूलमें कोई दूषण लग जाता है तो उसका प्रायशिच्छ और पश्चात्ताप किया जाता है, ताकि भविष्यमें दुबारा भूल न हो।

ऊपर लिये हुये ब्रत-प्रत्यास्थान करनेका केवल इतना ही मतलब है कि मनुष्यका इन्द्रियों और मनपर कावृहो और त्याग तथा तपस्याका महावरा बढ़े। इनके करनेसे अशुभ कर्मोंके पुजके पुज नष्ट हो जाते हैं।

श्रावकका ग्यारहवाँ ब्रत 'प्रोपधोपवास' है, जिसको तीसरा शिक्षाब्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है प्रोपध—द्वितीया-पञ्चमी-अष्टमी-एकादशी-चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें उपवास करना। साधुपना तो जन्म पर्यन्तकेलिये ग्रहण किया जाता है और प्रोपध कुछ समयकेलिये ग्रहण किया जाता है। गृहस्थोंकेलिये साधुपना धारण करना कठिन अवश्य है, पर ध्यान हर गृहस्थ अथवा श्रावकका उसी ओर रहना चाहिये कि वह कौन समय हो कि मैं सासारसे निकल कर साधुपना ग्रहण करूँ। इस ब्रतके अनुसार गृहस्थ (श्रावक या धाविका) एक दिन, दो दिन, चार दिन या द्व्यादश दिन, जिसमें जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार प्रोपध अथवा अस्थायी साधुपना ग्रहण करते हैं। यह ब्रत कम-से-कम एक दिन

तमाम बातोंका असली मन्तव्य सिर्फ़ यही है कि जहाँ और जिस प्रकार सम्भव हो, वहाँ तक इच्छाओं और आश्यकताओंको कम किया जाय। तमाम उमरमें न मालूम क्या किये जाते हैं—नियम लिये जाते हैं। पर इन नियमोंको और सकुचित बनानेके रूपालसे प्रत्येक दिनकी आवश्यकता इच्छाओंको देरते हुये, प्रत्येक दिन नियम और लिये जाते जैसे आज मैं असुक कोस तक जाऊँगा, अमुक-अमुक वस्तु भोगोपभोग करूँगा। वार्षिका सबका मेरे त्याग है। इत्यादि

जो क्रिया छठे ब्रतके अनुसार आ रही थी, उससे कहीं प्राणी क्रियाका भागी हो, इस कारण यह दसवाँ ब्रत दिन सुबहको ग्रहण किया जाता है और शामको या दिन सुबहको विचार किया जाता है कि जो त्याग या हमने किया था, उसमें कोई दूषण तो नहीं लगा है। अचूकमें कोई दूषण लग गया हो तो उसकेलिये प्रायशिच्छा पञ्चान्ताप करना पड़ता है, ताकि भनिष्यमें दुर्बारा भूल

इस ब्रतमें अल्पकालीन प्रत्याख्यान भी किया जैसे-सूरज उदयसे एक घटे तक या ढाई घटे तक तक या तीन पहर तक इत्यादिमें खाना खाने और अर्धात् किसी किसकी खाने पीनेकी कोई वस्तु नहीं

इस प्रकारके प्रोपधन्नत हर गृहस्थको कम-से-कम एक मासमें दो—हर महीनेमें हर चतुर्वर्षीको करना आवश्यक है और ज्यादा किये जायें तो और अच्छा है। प्रोपव करनेके पहले शामको और दूसरे दिन सुबह प्रतिक्रमण किया जाता है। इसकेद्वारा ब्रतमें अगर जानकारीमें या अज्ञानमें कोई कोई दूषण लग गया हो तो उसके लिये प्रायशिच्छ किया जाता है, ताकि भविष्यमें दुवारा भूल न हो॥

आवकका वारहवाँ ब्रत, 'अतिधिसविभाग' है, जिसको चौथा शिक्षाब्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—साधु-साध्वियोको दान देना।

दान दो प्रकारके होते हैं, एक सुपात्रदान दूमरा कुपात्रदान। सुपात्रदान वह है, जो साधु, मुनि, महात्माओंको दिया जाता है। क्योंकि इस दानद्वारा ऐसी आत्माओंको पोपण होता है, जिन्होंने सासारिक सारे कार्योंको छोड़ दिया है और जो सिर्फ़ अपनी आत्मोन्नतिके साधनमें लगे हुये हैं। कुपात्रदान वह है, जिससे उन लोगोंका पोपण होता है, जो विषयों और ससारी राटारमन

॥ जो शावक या शाविका शावकके वारह घत या कम धारण करते हैं, उनकेलिये प्रतिदिन ग्रात फाल और सायकाल प्रतिक्रमण करना ज्ञास्त्री है। इस क्रियाकेद्वारा अगर किसी घतमें दूषण लगा हो तो उसकेलिये पश्चात्ताप तथा प्रायशिच्छ किया जाता है, ताकि भविष्य में ज्यान रहे।

रात यानी चौबीस घटेकेलिये ग्रहण किया जा सकता है। यह ब्रत अठारह दूपणों रहित किया जाता है।

यह ख्याल करके कि कल मुझे प्रोपथ करना है। इसलिये आज मैं खूब सालूँ या नहा लूँ या अमुक काम कलके बजाय आज कर लूँ, इत्यादि प्रकारकी सावद्य क्रिया करनेसे दूपण लगता है। इस ब्रतमें मन, वचन और कायसे पट्कायका अर्थात् सर्व प्रकारकी हिंसाका त्याग किया जाता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कपायोंका सर्वथा त्याग किया जाता है। किसी प्रकारकी खाने, पीने या लगानेकी कोई भी वस्तु उपयोगमें नहीं लाई जा सकती। प्रमादरहित धर्मध्यान ध्याना पड़ता है। इस ब्रतमें दिनमें भोजन या कोई निठल्लेपनेकी बातें करना निषिद्ध हैं। स्नान, कुल्ला आदि नहीं किया जाता है। विद्धाने व ओढ़ने के मामूली वस्त्र रखने जाते हैं, जिनको अच्छी प्रकार देख भाल करके इस्तेमालमें लाया जाता है, ताकि किसी जीव जन्तुकी विराधना न हो जाय। लघुनीत आदिकेलिये भूमि देखकर रखनी जाती है। यह प्रोपथ एकान्तस्थान या प्रोपथशालामें किया जाता है। किसी प्रकारकी सावद्य क्रिया करनेका इसमें निषेध है। सुबह शाम प्रतिक्रमण किया जाता है। इस बातका विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकारकी हिंसा न हो और चित्त शान्त रहे। इसमें तमाम सासारिक झटकोंसे मुक्त हो जाना पड़ता है।

इस प्रकारके प्रोपधन्त्रत हर गृहस्थको कम-से कम एक मासमें—हर महीनेमें हर चतुर्दशीको करना आवश्यक है और ज्यादा केये जायें तो और अच्छा है। प्रोपध करनेके पहले शामको और उसे दिन सुबह प्रतिक्रमण किया जाता है। इसकेद्वारा ब्रतमें प्रगर जानकारीमें या अद्वानमें कोई-कोई दूषण लग गया हो तो उसके लिये प्रायशिच्छत किया जाता है, ताकि भविष्यमें दुबारा मूल न हो॥

आवकका धारहवाँ ब्रत, 'अतिथिसविभाग' है, जिसको धौथा शिक्षाब्रत भी कहते हैं। इसका अर्थ है—साधु साधियोंको दान देना।

दान दो प्रकारके होते हैं, एक सुपात्रदान दूसरा कुपात्रदान। सुपात्रदान वह है, जो साधु, मुनि, महात्माओंको दिया जाता है। क्योंकि इस दानद्वारा ऐसी आत्माओंका पोपण होता है, जिन्होंने सासारिक सारे कार्योंको छोड़ दिया है और जो मिक्की अपनी आत्मोन्नतिके साधनेमें लगे हुये हैं। कुपात्रदान यह है, जिसमें उन लोगोंका पोपण होता है, जो विषयों और ममारी राटारग्न

॥ जो आवक या आविका आवकके यारह घत या कम नारग करते हैं, उनकेलिये प्रतिदिन प्रातः काल और सार्थकाक्ष प्रतिग्रन्थ मण्डना जाहरी है। इस क्रियाकेद्वारा अगर किसी ब्रतमें गूषण खगा हो तो उसकेलिये पश्चात्ताप तथा प्रायशिच्छत किया जाता है, ताकि भविष्य में ज्यान रहे।

मे लगे हों। साधु, मुनि तो दान ग्रहण करके आत्मोन्नति व शुभ कर्म करते हैं और पासडी दान ग्रहण करके कुर्कर्म और अशुभ कर्मोंको करते हैं। इस कारण जहाँ तक सभव हो, वहाँ तक गृहस्थको सुपात्रदान देना चाहिये। इसके अतिरिक्त वर्तमान समयमें बहुतसे दान किये जाते हैं। उनमें यह देखना चाहिये कि इससे कोई अनर्थ तो नहीं होता है। यदि ऐसा हो तो दान नहीं देना चाहिये। विद्यादान, अभयदान, अनाथों व अपाहिज व वेवाश्रोंको दान देना भी उचित है।

गृहस्थोंको इस बातका अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि पहिले तो साधुका मिलना ही कठिन है। यदि सौभाग्यवश वे मिल जायें तो प्रेम व आदरसे उन्हे दान देना चाहिये। जो वस्तु उनके लेनेके योग्य हो, उसको अशुद्ध नहीं करनी चाहिये और जो वस्तु उनके लेनेके प्रतिकूल हो, उसे शुद्ध कर देनी नहीं चाहिये। ऐसा करनेसे दान देनेवाले व लेनेवाले, दोनोंको दूषण लगता है। सदा विनयपूर्वक दान देना चाहिये। दान देनेमें लोभस्कोच आनेसे उसका समस्त महत्त्व चला जाता है। इसलिये यदि दान देना हो तो उदार चित्तसे देना चाहिये।

गृहस्थ अथवा आवक धर्म स्वर्णके समान है। जैसे किसीको एक तोला, किसीको दो तोले, किसीको पाँच तोले, किसीको बारह तोले—जिसको जितने सोनेकी आवश्यकता हो, उसको उतना सोना काटकर आसानीसे दिया जा सकता है, इसी प्रकार आवक

के वारह व्रत हैं, इनमेंसे जिसको जैसी शक्ति हो, वह उतने ही—
एकसे लेकर बारह व्रत तक प्रहण कर सकते हैं।

इन समस्त व्रतोंका अभिप्राय यह है कि इच्छा, मन व
इन्द्रियोंकी विषय-वामनाएँ कम की जायें। कपाय (क्रोध,
भान, माया और लोभ) की गति मढ़ की जाय। सदा धुरे विचारों
व भावोंसे दूर रहा जाय और अच्छे विचार व भावोंका सदा
मनन किया जाय। ऐसा करनेमें मनुष्यकी आत्मा क्रम-क्रमसे
उच्च अवस्थाकी ओर अर्थात् त्यागकी ओर अग्रगामी होती
जाती है।

बस, यही मनुष्य-जन्मको सफल बनानेका प्रारम्भिक सरल
और सीधा रास्ता है।

यदि गृहस्थ अथवा श्रावक या श्राविका वारह व्रत पालते हुये
अपने मनुष्य-जन्मको और भी अधिक सफल बनानेका विचार
रखते हों तो उनको श्रावककी प्रतिमाएँ धारण करनी चाहिये।

जो श्रावक मुनिपद प्रहण करनेको तो असर्मर्थ हैं, लेकिन श्रावक
के वारह व्रत पालनेसे विशेष पराक्रम तथा त्याग करना चाहते हैं,
वे एक विशेष त्याग मार्गको प्रहण करते हैं, जिसे 'प्रतिमा' कहते
हैं। ये प्रतिमाएँ ग्यारह प्रकारकी होती हैं ॥ १ ॥ जो श्रावक प्रतिमा धारण

“दसरान्यसामाइय-, पोसहसचित्तराइभत्ते य ।

ब्रह्मारभपारिगाह-, मगुमणमुद्दित्तमेदेदे ॥”

करनेका विचार करते हैं, वे पहिले अपने घर-आर व व्यापारका सारा भार अपने बड़े पुत्र या भ्राता या जो कोई योग्य सम्बन्धी हो, उसको सौप देते हैं और आप स्वयं घर छोड़कर किसी एकान्त स्थानमें या प्रोपधशालामें निवास करके प्रतिमाओंका पालन करता प्रारम्भ कर देते हैं। पहिली प्रतिमा एक मासकी, दूसरी दो मासकी, इसी प्रकार हर प्रतिमामें पिछला काल मिलाकर एक-महीना बढ़ता चला जाता है। अर्थात् दसवर्षोंमें दस महीने और ग्यारहवर्षोंमें ग्यारह महीने लगते हैं। इस प्रकार ग्यारह प्रतिमाओंमें पॉच वर्ष छह महीनेका समय लगता है। पहिली प्रतिमासे दूसरी प्रतिमामें, दूसरीसे तीसरी प्रतिमामें, इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रतिमाओंमें पूर्व-पूर्वकी प्रतिमासे नियम, प्रत्याख्यान और तपस्या बढ़ती हुई होती है। यहाँ तक कि ग्यारहवर्षों प्रतिमामें क्रीब-क्रीब साधु वृत्ति हो जाती है। बाल लौंच करना, भिक्षासे सूक्ष्मता अहार लैना, पृथ्वीपर शयन करना, अल्प वस्त्र रखना, डैस, मशक, शीत, उषण आदि परीपहे सहन करना आदि बातें यहाँपर हो जाती हैं।

इस प्रकारकी क्रिया करके प्राणी बहुत हद तक अपने मनुष्य-जन्मको सफल बना सकता है।

अर्थात्—(१) दर्शन, (२) व्रत, (३) सामायिक, (४) प्रोपध, (५) सचित्तत्याग, (६) रात्रिभुक्तित्याग, (७) ब्रह्मचर्य, (८) आरम्भत्याग, (९) परिग्रहत्याग, (१०) अनुमतित्याग और (११) उद्दिष्टत्याग, ये आवककी ग्यारह प्रतिमाएँ हैं।

यदि मनुष्यके भाव—विचार इमसे भी ऊपर बढ़नेके हो अर्थात् मनुष्य-जन्मको पूणेतया सफल बनानेके हों तो उसको मुनिवृत्ति धारण करनी चाहिये । मुनिवृत्तिका स्वरूप निम्न प्रकार है,—

मुनिवृत्ति धारण करना तो सरल है, पर उसका पालना महा कठिन है । दूसरे शब्दोंमें यो कहना चाहिये कि साधुवृत्तिमें जीते-जी मरना है । पर जिन्होंने इसके उद्देश्यको समझ लिया है, उनके लिये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है । मुनिवृत्ति केवल वही स्त्री या पुरुष धारण कर सकते हैं, जिनका हर प्रकारसे सासारिक सुख, आराम, वैभव व पदार्थोंसे—वन, धान्य स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, भूमि, मान, अपमान, प्रेम, मोह, कष्ट, क्रोध, लोभ, यहाँ तक कि जीवन भृत्युसे भी राग द्वेष हट गया हो ।

मुनिको निन्नलिपित ब्रत धारण करने पड़ते हैं, जिनको उसे जीवन पर्यन्त धैर्य व पुरुपार्थ और शान्ति भावसे लिवाए हुने पड़ते हैं ।

१—किसी प्रकारकी हिंसा मन, वचन और कायसे करे नहीं, करावे नहीं और करनेवालेको भला समझे भी नहीं ।

२—किसी प्रकारकी असत्य भापा मन, वचन और कायसे थोले नहीं, चुलवावे नहीं और थोलनेवालेको भला जाने भी नहीं ।

३—किसी प्रकारका अदत्तादान अर्थात् घगैर दी द्वई वत्तु मन, वचन और कायसे ज्ञे नहीं, लिवावे नहीं और लेनेवालेको भला जाने भी नहीं ।

४—किसी प्रकारका मैथुन अर्थात् विषय भोग मन, वचन और कायसे सेवे नहीं, सिवावे नहीं और सोनेवालेको भला जाने भी नहीं।

५—परिग्रह अर्थात् धन, धान्य, भूमि आदि मन, वचन और कायसे रखे नहीं, रखावे नहीं और रखनेवालेको भला जाने भी नहीं।

उपरोक्त पाँच महाब्रतोंके अतिरिक्त और भी बहुतसे नियमों को मुनि पालन करते हैं। यथा—

१—नगे पैर और नगे सिर रहते हैं। सदा पैदल चलते हैं। किसी भी प्रकारकी सवारी, जैसे —मोटर, रेल, घोड़ा, घैलगाड़ी आदिपर नहीं चढ़ते हैं।

२—चतुर्मासमे अवश्य एक स्थानपर चार मासकेलिये निवास करते हैं, वरना सदा भ्रमण किया करते हैं। अधिक से-अधिक एक स्थानमें एक माससे अधिक नहीं ठहरते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ एक चतुर्मास कर लेते हैं, वहाँ वे तीन वर्ष तक चतुर्मास नहीं करते हैं।

३—मामूली श्वेत वस्त्र रखते हैं। कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं। मामूली सूत्र व धर्मग्रन्थ और मामूली काष्ठके भोजन व जलकेलिये पात्र रखते हैं। वे उतना ही सामान रखते हैं, जिसे वे स्वयं लेकर चल सकें। वे किसी जानवर या आदमीपर अपना सामान लादकर नहीं चलते हैं।

४—वे हजामत नहीं बनवाते। एक वर्ष में दो बार अपने सर व ढाढ़ीके बालोंका लौच कर लेते हैं अर्थात् हाथसे उखाड़ लेते हैं।

५—उनकी विधिपूर्वक जो भोजन व जल मिल जाता है, उसे ही प्रहण करते हैं। वे कोई साग भाजी या फल नहीं खाते हैं और न कच्चा जल—कुये, नदी व तालाबका पानी पीते हैं। वे अचित्त आहार व अचित्त जल—गरम पानी लेते हैं। यदि उनके निमित्त खाना बनाया जाय या जल गरम किया जाय तो वे उसे नहीं प्रहण करते हैं। वे उसे अशुद्ध समझते हैं। सिर्फ़ दिन में ही खाते व पीते हैं। रात्रिमें कोई वस्तु प्रहण नहीं करते हैं।

६—सदा जीचे देखकर चलते हैं और स्थानको आगेसे झाड़कर बैठते हैं। ताकि कोई चलता फिरता जीव मर न जाय। रात्रिमें दीपक नहीं जलाते हैं। किसी प्रकारकी शोभा बगैरा नहीं करते हैं। किसीके घर नहीं बैठते हैं। किसी प्रकारका मेलातमाशा नहीं देखते हैं। किसी गृहस्थसे अपनी सेवा नहीं कराते हैं। किसी प्रकारका नशा, तम्बाकू, पान-सुपारी आदि नहीं खाते पीते हैं। स्वयं जाफ़र भोजन व जल लाते हैं।

७—वाईस प्रकारके परीपह* अर्थात् तकलीफोंको प्रसन्नता व शान्तिपूर्वक सहन करते हैं। जैसे—यदि नियमपूर्वक भोजन या

* “कुतिपासाशीतोष्णदशमशकनारन्यारतिष्ठीघर्यांपियाशय्या-
क्षोशवधयाद्वालाभरोगतृष्णस्परामज्जसकारपुरस्कारप्रशान्तानानि ।”

जल न मिले तो प्रसन्नचित्तसे निर्जल और निराहार रह जाते हैं। गर्मीमें पखा नहीं करते हैं। ठड़में आँचसे नहीं तापते हैं या मर्यादाके बाहर वष्ट, जैसे—सौर या कम्बल नहीं रखते हैं। डस-मच्छरकी परीपह सहन करते हैं। यदि ठहरनेको स्थान नहीं मिलता है तो बृक्षके नीचे ठहर जाते हैं। यदि कोई बुरा-भला या गाली आदि दे या कोई दुष्ट जन वार भी करे तो शान्तिपूर्वक सहन कर लेते हैं। इस प्रकार नाना प्रकारके परीपह वे सहन करते हैं।

८—बयालीस दोप टालके आहार ग्रहण करते हैं। जैसे—अग्निपर कोई वस्तु होगी तो उसे नहीं ग्रहण करेंगे। कच्चे पानी, या सब्जीसे स्पर्श होगा तो नहीं ग्रहण करेंगे। यदि खी यज्ञको दूध पिला रही हो तो उससे आहार नहीं लेंगे। यदि कोई वस्तु किवाड़ोंके अन्तर या तालेमें रखरी हो तो उसे नहीं लेंगे। दीनतासे दान नहीं माँगेंगे। इसी प्रकार बहुतसे अनेक दोप टालकर आहार ग्रहण करते हैं।

९—जैसी जिस मुनिकी शक्ति हो उसके अनुसार तपस्या-नियम, अविग्रह, आतोपना आदि करते हैं। कोई एक दिन, कोई दो दिन, यहाँ तक कि सात दिन, पन्द्रह दिन, महीना, दो महीना, चार महीने तककी तपस्या करते हैं। तरह तरहके नियम व अविग्रह करते हैं और सूर्यकी गर्मी और रात्रिकी ठड़को सहन करने की तपस्या करते हैं। कोई-कोई केवल छाछपर ही रहते हैं। इस प्रकार नाना प्रकारकी तपस्या व त्याग करते हैं।

१०—राग द्वेष नहीं करते। क्रोध, मान, माया और लोभ नहीं करते। निन्दा नहीं करते। रति-अरति नहीं करते। मिथ्या दर्शन शल्य नहीं रखते। अनुराग नहीं करते। प्राणी मात्रको अपनी आत्माके तुल्य समझते हैं। सदा शान्ति भाव रखते हैं।

११—यदि जानकारीमें या अज्ञानतासे कोई दोष लग जाता है, तो गुरु महाराजकी सेवामें तत्काल निवेदन करते हैं और जो वे प्रायश्चित्त देते हैं, उसे सहर्ष स्मीकार करते हैं। ज्ञानका काफी अभ्यास करते हैं। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपआचार, वीर्याचारमें सदा प्रवृत्त रहते हैं। मदा वैराग्य सहित रहते हैं। अपनी आत्माके और दूसरोंकी आत्माका भी कल्याण करते हैं। सदा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यानका त्याग करते हैं और सदा धर्म ध्यान रखते हैं।

१२—साधुकी दिनचर्या इस भाँति है—

मुनि रात्रिका एक पहर जब बाक़ी रहे तब उठे और उस नमय स्वाध्याय या रात्रिका प्रतिक्रमण करे, इसके बाद दिनके पहिले पहरमें प्रतिलेखना तथा स्वाध्याय करे, दिनके दूसरे पहरमें एक पहर तक ध्यान करे, तीसरे पहरमें मधुकरी वृत्तिसे भिन्ना—आहार आदि करे, चौथे पहरमें पढ़े तथा प्रतिलेखन करे और सायकालमें दिनका आवश्यक प्रतिक्रमण करे, रात्रिके पहले पहरमें स्वाध्याय करे और दूसरा पहर निर्मल ध्यानमें वितावे, इस प्रकार मध्य रात्रि बीत जानेपर एक पहर निद्रा के।

१३—मुनि महात्मा पुरुष सदा मन, वचन और कायको
शुभ कायोंमें प्रवत्तति रहते हैं, सदा अपनी आत्माकी आलोचना,
निन्दा करते रहते हैं, जब अन्त समय आया हुआ जानते हैं, तब
'सथारा' ग्रहण करते हैं अर्थात् आहार-पानीका त्याग कर शरीर
की ममता छोड़ देते हैं और अपने पाँपोंकी निन्दा-आलोचना
करते हैं। चौरासी लाख जीवयोनिसे त्तमा-प्रार्थना करके धर्म
ध्यान ध्याते हुये समाधि भावसे देह त्याग करते हैं।

मुनियोंमें जो मुनि उत्कृष्ट ज्ञान, ध्यान, तप आदि करते हैं,
उन्हें 'उपाध्याय पदवी' दी जाती है। ये उपाध्यायजी समस्त
शास्त्रोंके उपाङ्गोंके जानकार होते हैं। अपनी अमृत वाणीसे उपदेश
देकर भव्य जीवोंको प्रतिवोध करते हैं और उन्हें तारते हैं।
वे ज्ञानके भंडार, दयाके सागर और भव्य जीवोंको ज्ञानरूपी
नेत्रके दातार होते हैं।

जो उपाध्यायजी और भी अविक अपने मनुष्य-जन्मको
सफल बनाना चाहते हैं, वे विशेष पुरुषार्थ और पराक्रम फोड़ते
हैं और 'आचार्य पद' को प्राप्त करते हैं।

आचार्यजी ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपआचार
और वीर्याचार आप पालते हैं और दूसरोंको पलबानेका प्रयत्न
करते हैं। वे छन्तीस गुणों और आठ संपदाओंसे युक्त होते हैं।

मुनि, उपाध्याय और आचार्य जो कि उत्कृष्ट करव्य-
पालनमें सलझ हैं अर्थात् तीव्र, तपस्या, ज्ञान और ध्यान करते

हैं, वे चार घनघाती कर्म अर्थात् ज्ञानवरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और मोहनीय कर्मको ज्ञय करके केवलज्ञानीके पदको प्राप्त करते हैं। जिसका भतलब यह है कि वे समस्त ससारकी घटनाओं व समस्त जीव मात्रकी अन्तर्गत व भावनाओंको पूर्ण रीतिसे देखते व जानते हैं। अन्त समयमें आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय कर्मको भी ज्ञय करके अर्थात् सर्व प्रकारके कर्मोंसे मुक्त होकर और चौरासी जीवयोनिको छोड़कर निर्वाण पदको प्राप्त करते हैं और सदाकेलिये अपनी आत्माको आवागमनके घकरसे रहित करते हैं। इस प्रकार वे मनुष्य जन्म पानेका जो उत्कृष्ट से-उत्कृष्ट उद्देश्य है, वह प्राप्त करते हैं अर्थात् सिद्ध गतिको प्राप्त करते हैं।

ध्यानका स्वरूप

द्वृत्ति नका सम्बन्ध चित्त आर्ति मनसे है। 'अर्थात् भन, वचन और कायकी हानिकारक अशुभ प्रवृत्तियोंको रोककर सुख देनेवाली शुभ प्रवृत्तियोंमें स्थिर रहना, कपायके वेगको दबाना और इन्द्रियोंका निप्रह करना, 'ध्यान' कहलाता है। और ऐसी अवस्थामें प्रवृत्तनेवाला प्राणी 'ध्यानस्थ, ध्यानस्थित या ध्यानमन्म' कहलाता है। सक्षिप्त शब्दोंमें— अपने लक्ष्यपर चित्तको एकाग्र करना ध्यान कहलाता है।

ध्यानके सामान्य रीतिसे (१) शुभ और (२) अशुभ, इस तरह दो और विशेष रीतिसे (१) आर्ति, (२) रौद्र, (३) धर्म और (४) शुल्क, इस तरह चार विभाग—भेद शास्त्रमें किये गये हैं। इन चारोंमें पहिले दो अशुभ और पिछले दो शुभ हैं।

पौदूगलिक दृष्टिकी मुख्यताके किंवा आत्म-विस्मृतिके समय जो ध्यान होता है, वह अशुभ और पौदूगलिक दृष्टिकी गौणता व आत्मानुसन्धान दशामें जो ध्यान होता है, वह शुभ है। अशुभ ध्यान ससारका कारण और शुभ ध्यान मोक्षका कारण है।

आर्ति ध्यान

शुभ और अशुभ कर्मोंके उदयसे इष्ट (अभिलिपितके) सयोग (मिलने) से और अनिष्ट (अनिभिलिपित) के वियोग

* "एकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्" ।

—उमास्वाति ।

(विच्छेद) से तथा अनिष्टके सयोग और इष्टके वियोगसे मनमें जो सकल्प विकल्प पैदा होते हैं—उथल पुथल उत्पन्न होती है, उसे 'आर्तध्यान' कहते हैं। इसके चार भेद हैं—

१—अनिष्टसयोग, २—इष्टसयोग, ३—रोगोदय और ४—भोगेच्छा।

१—अनिष्टसयोग—जिन प्राणियों तथा वस्तुओंसे, जैसे— सर्प, सिंह, चोर, मृत्यु आदिसे अपना तथा अपने हितैषियोंका बुरा तथा नुकसान होनेकी सम्भावना होती है, उनके शीघ्र नाश हो जानेमें जो चिन्तन तथा इच्छा होती है, उसे 'अनिष्टसयोग आर्तध्यान' कहते हैं।

२—इष्टसयोग—मोहनीय कर्मके उद्यसे सुखकारी वस्तुओं से, जैसे—सुन्दर स्त्री, धन, कुटुम्बकी वृद्धि, वाग वगीचे, सवारी, नौकर-चाकर आदिसे देवताके समान सुखोंकी इच्छाका करना अथवा जो भोग और उपभोग मिले हो, उनकी रहरहकरसराहना व याद करना, इत्यादि प्रकारके सकल्प विकल्पोंको 'इष्टसयोग आर्तध्यान' कहते हैं।

३ किसी किसी जगह 'इष्टसयोग' नामक आर्तध्यानकी जगह 'इष्ट वियोग' नामका आर्तध्यान भी माना गया है। उसका अर्थ यह किया गया है कि—जो पदार्थ अपनेको मिय मालूम देते हैं, उनके वियोग ही जानेपर मनुष्यके जो क्लेशित परिणाम होते हैं, जैसे—पुरुषके वियोगमें, धनके नाशमें, अपवश होने आदिमें, उसे 'इष्टवियोग आर्तध्यान' कहते हैं।

३—रोगोदय—ससारमें समस्त प्राणी आरोग्य-सुखकी इच्छा रखते हैं। पर अशुभ घेदनीय कर्मोदयके कारण जीवको नाना प्रकारके रोगादि खड़े हो जाते हैं। उनके कारण हाय-हाय दुख व सन्ताप करना और उनके आरामकेलिये अनेक औपधोपचार करनेमें तन्मग्न होना, रोगकी वृद्धिसे शोकातुर और हानिसे हर्षित होना, इत्यादि प्रकारके स्थालातको 'रोगोदय आर्तध्यान' कहते हैं।

४—भोगेच्छा—पाँचों इन्द्रियोंके विषय-सेवनकी तीव्र इच्छा का होना। जैसे—आँखोंसे सुन्दर-सुन्दर खियोंको देखनेकी इच्छा, रखना, नाकसे घटिया-घटिया फूल और इतर सूंघनेकी खबाहिश रखना, कानसे अच्छे-अच्छे गाने सुननेकी अभिलापा रखना, सुन्दर और सुखादु भोजन करनेकी इच्छा रखना, दूसरोंको सुख व आनन्द भोगते देखकर कुछना, स्पर्धा करना, इत्यादि प्रकारके विचारोंको 'भोगेच्छा आर्तध्यान' कहते हैं।

आर्तध्यान ध्यानेवाले प्राणीमें प्राय चार लक्षण पाये जाते हैं। यथा—१—आकन्दन—रुदन करना। २—चित्तमें शोक करना। ३—आँखोंसे आँसू गेरना और ४—विलाप करना।

अगर भव्य मनुष्य अनिष्टका सयोग, इष्टका वियोग, रोगादि दुखोंकी प्राप्ति और भोगादि सुखोंकी अप्राप्ति नहीं चाहते हैं तो उनको आर्तध्यान कदापि नहीं ध्याना चाहिये। उनको सदा धर्मध्यान अर्थात् अच्छे व शुभ विचारोंका ध्या-

रहना चाहिये। जैसे—हमको व्यर्थ शोक-सन्ताप नहीं करना चाहिये, अगर कोई रोग या तफलीक हो जाय तो शान्ति पूर्वक उसको सहते हुए उसके विनाशका उपाय करना चाहिये, अगर जीवनमें आनन्द और सुखप्रद वस्तुओंकी प्राप्ति नहीं हुई है तो उसकेलिये शान्ति पूर्वक उपाय करना चाहिये और तभी भी यदि वे नहीं प्राप्त हों तो अपने पूर्व-जन्मका अशुभ कर्मोंका उदय समझना चाहिये। इस तरह मनुष्यको सदा शुभ विचार रखने चाहिये। यदि अज्ञानवश दुरे विचार आवें भी तो तुरन्त उन्हें दूर कर देना चाहिये। छठे गुणस्थान तक इस आर्तध्यानका होना समव है।

रौद्रध्यान

जैसे मदिरापान करनेसे मनुष्यकी बुद्धि खराप हो जाती है और वह दुरे कर्मोंमें आनन्द मानता है। उसी प्रकार यह जीव अनादिकालसे कर्म रूपी मदिराके नशेमें भतवाला हो रहा है, जिसके प्रभावसे इसके अन्त करणमें दुरे-दुरे विचार पैदा होते हैं, जिन्हें ज्ञानियोंने “रौद्रध्यान” कहा है। रौद्रध्यानके चार भेद हैं। यथा—

१—हिंसानुबन्ध, २—मृपानुबन्ध, ३—तस्करानुबन्ध और
४—विषयसरक्षणानुबन्ध।

१—हिंसानुबन्ध—जिस प्राणीका चित्त सदा छेदन, भेदन, ताडन, बन्धन वॉधना, दमन करना, प्रहार करना आदि कर्मोंमें

अनुराग मानता है अथवा जिसको दया कदापि नहीं आती है, वह सदा “हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान” ध्याता रहता है। इस ध्यानको ध्यानेवाला निम्नलिखित कार्य करता रहता है:—

जीवोकी शिकार करते हुये, कम्ल करते हुये, दुःखसे चिह्नार मारते हुये या किसीको मरते हुये देखकर आनन्द मानता है और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। उसको तो यह दण्ड या तकलीफ मिलनी ही चाहिये थी। यह क्या अच्छी शिकार है। सर्प, बिच्छू आदि हिन्सक जीवोंका मारना अति उत्तम है। नरमेघ, अश्वमेघ आदि यज्ञ करनेसे स्वर्ग मिलता है। वह हिंसा द्वारा बनी हुई वस्तुओंका उपयोग करता है। जैसे—चमडेके जूते, हड्डीकी चीजें, पखोंकी वस्तुयें, रेशमके कीड़ों द्वारा बना हुआ रेशम इत्यादि वस्तुओंका उपयोग करता है या कराता है या करनेको भला मानता है। यह जीव ‘हिंसानुबन्ध रौद्रध्यान’का बन्धन करता है।

२—मृपानुबन्ध—जो प्राणी सदा दूसरोंको धोखा देने व ठगनेका विचार किया करता है और असत्य कर्मोंमें आनन्द मानता है, वह ‘मृपानुबन्ध रौद्रध्यान’ ध्याया करता है।

इस ध्यानके ध्यानेवाला व्यक्ति निम्नलिखित अशुभ कार्य किया करता है—वृद्ध, रोगी या निकम्मे वरका अच्छी कन्याके साथ विवाह कराता है, गाय, घोड़ा, बैल आदि पशुओंको अच्छा कह कर विकवाता है, नक्कली भालको असली कह कर और भूठे

मालको समा कह कर बेचता है, कोई धरोहर रख जायतो उसे हजम कर जाता है, व्यापारमें धोखा देता है या भूठ बोलता है, अच्छेमें खराब अथवा नयेमें पुराना माल मिला कर उसे असली और नया माल कह कर बेचता है, अपने स्वार्थसे भूठा पन्थ चलाता है; ब्रह्मचारी कहा कर व्यभिचार करता है, अन्धे लूले, लौगङ्गों, अपाङ्गोंकी हँसी उड़ाता है। इत्यादि ।

३—तस्करानुबन्ध—जो प्राणी सदा चोरी करनेका विचार किया करता है और अपने भाई चोरोंको नई नई नाना प्रकारकी चोरी करने अथवा ठगनेकी तरकीवें सोचा तथा बताया करता है और प्रशसा किया करता है, वह 'तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान' ध्याया करता है ।

इस ध्यानका ध्यानेवाला व्यक्ति निश्च लिखित अशुभ विचार किया करता है—किस तरह अमुक धनीके घरमें चोरी कर्हूँ अथवा ढाँका गेहूँ, किस तरह ताले अथवा लोहेकी मजबूत तिजूरियोंको तोड़ डालूँ, साहूकार बनकर झठी हुड़ी बनाऊँ, या और किसी सरहसे साहूकारोंका रूपया मारूँ, जो इस प्रकार सोचान्विचारा करता है अथवा चोरोंका माल खरीदता है, जबर-दस्ती कमज़ोरोंकी मिलिक्यतपर अपनी मालकीयत जमाता है, वह 'तस्करानुबन्ध रौद्रध्यान' ध्याया करता है ।

४—विषयसरक्षणानुबन्ध—जो प्राणी सदा इसी धात्रमें दत्त-चित्त रहता है कि किस प्रकार मैं अपने धन, जन, सम्पत्ति या

ऐश्वर्यकी वृद्धि करूँ, जिससे मेरी विषयकामना पूर्ण हो सके और जो सदा कल्पित तरकीवें सोचा करता है, वह 'विषय संरक्षणानुबन्ध रौद्रध्यान' ध्याया करता है।

इस ध्यानके ध्यानेवाला निम्नलिखित अशुभ कर्मोंको किया करता है। अगर वह राजा है तो सदा यह विचारा करता है कि किन तरकीबोंसे मैं अपने राज्यकी वृद्धि और शत्रुओंसे रक्षा कर सकता हूँ, इस कारण वह सदा नाना प्रकारके बुरे व धातक विचार मनमें लाया करता है और तरह-तरहकी तरकीबें (Plaus) रखा करता है। इत्यादि।

अगर वह धनी है तो सदा विचारा करता है कि किन-किन तरकीबोंसे मैं अपने धनकी वृद्धि कर सकता हूँ और किस प्रकार चोर, डाकुओं और बदमाशोंसे अपनी सम्पत्तिकी रक्षा कर सकता हूँ। इत्यादि।

कुछ प्राणी अपने शरीरको पुष्ट करनेके विचारसे अखाद्य-वस्तुओंका सेवन करते हैं और बुरे-बुरे विचार चित्तमें लाया करते हैं। इत्यादि। जो प्राणी सदा अपने सरक्षण करने और अन्यको परिताप पहुँचानेकी क्रिया अथवा विचार किया करते हैं, वे सदा 'विषयसरक्षणानुबन्ध' ध्यानको ध्याया करते हैं।

रौद्रध्यानध्यानेवाले प्राणीमें प्राय चार लक्षण पाये जाते हैं—
१—हिंसक कार्य करना तथा उनका अनुमोदन करना, २—भूठे कर्म करना तथा उनका अनुमोदन करना, ३—चोरीका कर्म करना

तथा उनका अनुमोदन करना और ४—अपने धन और सुखोंकी रक्षामें दत्तचित्त रहना और उनका अनुमोदन करना।

अगर प्राणी हिंसानुबन्ध, मृपानुबन्ध, तस्करानुबन्ध और विषयसंरक्षणानुबन्ध विचारोंसे बचना चाहते हैं अर्थात् सुख और शान्ति चाहते हैं तो उनको रौद्रध्यान कदापि नहीं ध्याना चाहिये और सदा धर्मध्यान अर्थात् अच्छे व शुभ विचारोंका ध्यान करते रहना चाहिये। जैसे जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक किसी प्रकार के चलते फिरते तथा अन्य अदृश्य जीवोंकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। यदि कोई प्राणी हिंसा करता हो तो उसे भमभा दुम्काकर रोकना चाहिये। कभी भूठ नहीं घोलना चाहिये। सदा सचाई और ईमानदारीके साथ व्यापार या अन्य कार्य करने चाहिये। किसी प्रकारकी चोरी नहीं करनी चाहिये। अब्दा विश्वासघात नहीं करना चाहिये। सदा धन, स्त्री, पुत्र, ऐश्वर्यके रक्षणमें दत्त चित्त नहीं होना चाहिये अर्थात् जितनी रक्षाकी आवश्यकता है, उतना ही करते रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त हिंसा, भूठ, चोरी और सरक्षण सम्बन्धी विचार तक मनमें नहीं लाने चाहिये और यदि अज्ञानवश उपर्युक्त बुरे विचार आभी जाँच तो तुरन्त उनको दूर कर देना चाहिये।

स्पष्टोकरण

ये आर्त और रौद्र ध्यान पापोंसे भरे हुये हैं। ये दोनों ध्यान विना अभ्यासके—पूर्व कर्मोंके उद्दयसे—स्वभावसे ही उत्पन्न

होते हैं और जहाँ तक कर्मोंकी प्रवलता रहती है, वहाँ तक निरन्तर हृदयमें वेचैनी किया करते हैं।

जिन आत्माओंने उच्च स्थानकी अपेक्षासे सबसे ग्रहण कर लिया है अथवा ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, मुनि आदिका भेष धारण कर लिया है, उनको तो ये दोनों निकृष्ट और बुरे ध्यान बातकी बातमें अर्थात् एक ज्ञानमें नरकगामी बना देते हैं।

ये दोनों ध्यान मोक्षमार्गमें मुख्य वाधक हैं। इस कारण जो भव्य प्राणी अपने ससारको कम करना चाहते हैं, उनको इन दोनों ध्यानोंको अपने चित्तमें कदापि स्थान नहीं देना चाहिये अर्थात् अपने मनको इन्द्रिय, विषय, कृपाय, प्रमाद आदि अशुभ कर्मोंकी ओर कदापि नहीं जाने देना चाहिये। सदा शुभ भाव अथवा शुक्ल और धर्म ध्यान ध्याते रहना चाहिये। जिनका वर्णन अगले पृष्ठोंमें किया जाता है। पचम गुणस्थानक तक ही इन ध्यानोंके रहनेकी संभावना है।

शुभ ध्यान

शुभ ध्यान दो प्रकारके होते हैं। एक धर्मध्यान दूसरा शुक्ल ध्यान। शुभ ध्यानकी सफलताके बास्ते ज्ञानका होना अत्यन्त आवश्यक है। धर्मध्यान और शुक्लध्यान सम्बन्धी बातें, जो दोनों ध्यानोंमें एक सी हैं, पहिले हम उनका ही यहाँ वर्णन करते हैं और बादमें धर्मध्यान और शुक्लध्यानका अलग-अलग वर्णन करेंगे।

ध्यानका चित्त अर्थात् मनसे मुख्य सम्बन्ध है। चित्तके ज्ञानियोंने आठ दोष घताये हैं, जो निम्न प्रकार हैं। भव्य प्राणियों को इनसे अपने चित्तको घचाना अत्यन्त आवश्यक है।

१—धार्मिक अनुष्ठानमें ग्लानिका उत्पन्न होना।

२—धार्मिक क्रिया करते हुए चित्तमें उद्वेगका बना रहना।

३—चित्तमें भ्रान्ति रहना अर्थात् एक कार्यके बदले दूसरा कार्य करने लगना।

४—मनका स्थिर न रहना अर्थात् चचलता बनी रहना।

५—चालू कामको छोड़ कर दूसरे कामोंमें लगना।

६—सासारिक कार्योंमें ऐसे लीन हो जाना कि जिससे आगे-पीछेकी सुध बुध न रहे।

७—वर्तमानमें करने योग्य कार्यको छोड़ कर कालान्तरमें करने योग्य कार्यको करना।

८—प्रारम्भ किये हुये कार्यको छोड़ देना।

शुभ ध्यानमें तो चित्तकी प्रवृत्ति विना प्रयत्न—स्वाभाविक रीतिसे होती है, क्योंकि उसका आत्माके साथ अनादिकालसे सम्बन्ध है। परन्तु शुभ ध्यानमें प्रवृत्ति होना बहुत मुश्किल है। शुभ ध्यानमें प्रवेश करनेकेलिये प्रथम सम्यक्त्वकी आवश्यकता है।

धर्मध्यानको गृहस्थ अथवा मुनि दोनों ध्या सकते हैं, पर शुक्लध्यानको केवल मुनि ही ध्या सकते हैं।

प्रश्न उठता है कि ध्यान करनेकी आवश्यकता क्यों है ? उत्तर निम्नप्रकार है.—सन्पूर्ण कर्मोंका सर्वथा क्षय होना अर्थात् कर्म बन्धनसे विलक्षुल क्लूट जाना ही मोक्ष है। यह मोक्ष आत्माकी भान हुए विना प्राप्त नहीं हो सकता। चित्तकी समता विना आत्म-ज्ञान होना दुर्लभ है। तथा चित्तकी समता भी चित्त-विद्ये पादि भलीनताको दूर करनेवाले शुभ ध्यानके विना उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिये शुभगति अथवा मोक्षकी प्राप्तिकेलिये गृहस्थ और मुनियोंको धर्मध्यान और मुनिको शुक्लध्यान ध्याना चाहिये।

ध्यानमें मनकी स्थिरता रखनेकेलिये स्थान, द्रव्य, काल और भावकी शुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता है।

१. स्थान—बगीचा, पर्वतकी गुफा, समुद्र तथा नदी-तट वृक्षोंके कुञ्ज, गाँव या नगरका एकान्त स्थान, जहाँ खी, नपुसक पशु आदिका आना जाना न हो और कोई क्रिस्मका कोलाहल न होता हो। इस प्रकारके एकान्त स्थान ध्यानकी सिद्धिकेलिये उत्तम होते हैं।

२. द्रव्य—जहाँ गाना-बजाना, खी आदिके चित्र, मांस, मदिरा इत्यादि द्रव्य हों, वहाँ चित्तका स्थिर होना कठिन है। ध्यान काष्ठ के पट्टेपर, पत्थरकी शिलापर या ऊनी या शुद्ध सूती बख्के आसने पर करना चाहिये। ध्यान करनेवाले व्यक्तिको हलका भोजन करना चाहिये। ध्यानकी सिद्धिकेलिये पूर्व अथवा उत्तर दिशाकी और मुँह करके ध्यान करना श्रेष्ठ है।

३. काल—दिन और रात्रिका दूसरा पहर और रात्रिका चौथा पहर ध्यान करनेके बास्ते अति उत्तम बताये गये हैं।

४ भाव—मैत्रीभाव, प्रमोदभाव, करुणभाव और मध्यस्थभाव, इन चारों ही भावोंके होनेसे शुभ ध्यान ठोक तरहसे ध्याया जाता है। इन चार भावनाओंको विचारते हुये जीव राग, द्वेष, विप्रय, कपाय, मोह आदि शत्रुओंका नाश करनेमें समर्थ होता है।

धर्मध्यान

धर्मध्यान—यह ध्यान अशुभ कर्मोंका नाश करता है तथा किंचित् शुभ कर्मोंका भी नाश करता है और निर्जरा और पुण्य प्रकृतियोंका उपार्जन करता है। धर्मध्यानके चार भेद कहे हैं—

१—आज्ञाविचय, २—अपायविचय, ३—विपाकविचय और ४—संस्थानविचय।

१—आत्माका उद्धार करनेकेलिये भगवान्‌की जो आज्ञाएँ हैं, उनका आदरपूर्वक चिन्तन करनेसे, उनपर मनको एकाग्र करनेसे “आज्ञाविचय” नामक धर्मध्यानका पथम भेद सिद्ध होता है।

२—जय राग, द्वेष और कपाय, इन दोषोंसे होनेवाली हानियों पर विचार किया जाता है, तथा राग द्वेषादि दोषोंकी गुणिकेलिये विचार किया जाता है तथा चित्तको एकाग्र किया जाता है, तब “अपायविचय” नामक धर्मध्यानका द्वितीय भेद मिल होता है।

३—संसारमें सपत्ति या विपत्ति, सयोग या वियोगसे जो कुछ सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं, वे सब पूर्व जन्ममें उपार्जन किये गये पुण्य-पापके फल हैं। जिस समय ऐसा विचार किया जाता है अर्थात् उनपर चित्तको एकाग्र किया जाता है, तब “विपाक विचय” नामक धर्मध्यानका तृतीय भेद सिद्ध होता है।

४—जब मूलसे शिखर पर्यन्त लोकके आकारपर, उसमें जीवकी गति-आगतिपर तथा जन्म-मरणपर स्थिर और शुद्ध मनसे विचार किया जाता है, तब “स्थानविचय” नामक धर्म ध्यानका चतुर्थ भेद सिद्ध होता है।

धर्मध्यानके आलम्बन

धर्मध्यान रूप पर्वतपर चढ़नेकेलिये शास्त्रोंमें चार आलम्बन बताये हैं। आध्यात्मिक और तात्त्विक शास्त्रोंका पढ़ना, गुरु आदिसे पूछ कर शाकाका समाधान करना, मनन करने योग्य विषयोंपर तर्क वितर्क करना तथा अभ्यस्त तत्त्वोंका कथन करना। ये चार आलम्बन ध्यान करनेवाले प्राणियोंको ग्रहण करने चाहिये।

धर्मध्यानकी विशुद्धिकेलिये भावनाएँ

ध्यानकी विशुद्धिकेलिये १—अनित्य, २—अशरण, ३—संसार और ४—एकत्व, इन चार भावनाओंका नित्य बार बार चिन्तन करते रहना चाहिये, जब तक कि उत्कृष्ट रुचि उत्पन्न न हो जाय।

१—अनित्य भावना—द्रव्यार्थिक नयसे, अविनाशी स्वभाव का धारक जो आत्मा द्रव्य है उससे मिन्न रागादि विभाव रूप कर्म हैं। उनके स्वभावसे प्रहण किये हुये स्त्री पुत्रादि सचेतन, सुवर्णादि अचेतन द्रव्य और इन दोनोंसे मिले हुए मिश्र द्रव्यादि जो वस्तुएँ हैं, वे सब अनित्य और अविनाशी हैं। ऐसी भावना जिस प्राणीके हृदयमें रहती है, उसका तमाम पौद्वगलिक पदार्थोंपर से ममत्व हट जाता है। जैसे व्यवहार किये हुये दूधपरसे ममत्वका अभाव हो जाता है। वह आत्मा हरेशा अक्षय, अनन्त सुखका स्थान जो मोक्ष है, उसे पाता है।

२—आशरण भावना—इस ससारमें अशुभ कर्मके उदय होनेपर कोई सहायता नहीं कर सकता है। जिस प्रकार हिरण्योंके मुँडमें से जब सिंह एक हिरण्यको पकड़ लेता है, तब दूसरे जान लेकर भागते हैं और किसी अवस्थामें उसे नहीं छुड़ा सकते। उसी प्रकार अपनी ही आत्मा अपनेको तारने अथवा ढुकाने वाली है। ऐसे भाव रखने वाली आत्मा द्रव्य तथा सासारिक घातोंसे सोह छोड़ कर निज-आत्मा-स्वरूप सिद्ध-अवस्थाको प्राप्त करता है।

३—संसार भावना—इस ससारमें अपनी आत्माने अपने शरीरके पोषणके बास्ते समस्त पुद्वगलोंका स्पर्श तथा उपयोग किया है अर्थात् द्रव्यसे तमाम वस्तुओंमें हो आया है। हेत्रसे सब स्थानोंमें हो आया है। कालसे बीस क्रोडाक्रोड सागरके जैसे कालचक्रमें अनन्त बार हो आया है। भावसे यह क्रोध, मान, माया

और लोभ इत्यादि विषयोंमें रमण कर रहा है। इस प्रकार यह आत्मा अनन्त कालसे भ्रमण कर रहा है। पर इसकी गज आज तक नहीं सरी है। जो आत्मा इस सप्तार-भ्रमणमें घृणा लावेगा वही मोक्ष पावेगा।

४—एकत्व भावना—इस आत्माको अपार आनन्द देने वाला सिर्फ़ एक केवलज्ञान ही है। वही आत्माका सहज गुण है। वही अविनाशी और हितकर्ता है और द्रव्य सज्जनादि कोई हितकर्ता नहीं है। क्यों कि अन्य पदार्थ आत्माको दुःख देनेवाले हैं, ऐसा समझ कर सर्व वस्तुओंसे ममत्वको हटा कर। सिर्फ़ आत्मापर ही जो दृष्टि जमावेगा, वही आत्मा तत्त्वकी खोज कर निजानन्द अर्थात् मोक्ष पदको प्राप्त करेगा।

धर्मध्यानके प्रकारान्तर

शास्त्रमें ध्येय भेदकी अपेक्षासे धर्मध्यानके चार प्रकार और भी कहे गये हैं—१—पिण्डस्थ, २—पदस्थ, ३—रूपस्थ और ४—रूपातीत।

१—पार्थिवी, आग्नेयी आदि पाँच धारणाओंका एकाग्रतासे जो चिन्तन किया जाता है, उसे “पिण्डस्थ” नामका पहला ध्यान कहा है।

२—नाभिमें या हृदयमें सोलह पाँखुड़ीके, चौबीस पाँखुड़ीके तथा मुखपर आठ पाँखुड़ीके कमलकी कल्पना करना और उसकी प्रत्येक पाँखुड़ीपर वर्णमालाके आ आ इ है आदि अन्तरें

की अथवा पच परमेष्ठिमत्रके अक्षरोंकी स्थापना करके मनकी एकाग्रतापूर्वक उनका चिन्तन करना “पदस्थ” नामका दूसरा ध्यान कहा है।

३—अर्हन्त भगवान्‌की शान्त दशाका निर्मल स्वरूप हृदय में स्थापन करके स्थिरचित्त होकर जो ध्यान किया जाता है, उसे “रूपस्थ” नामका तीसरा ध्यान कहा है।

४—निरञ्जन निर्मल सिद्ध भगवान्‌का आलम्बन लेकर उनके साथ आत्माके एकपनेका अपने हृदयमें एकाग्रतापूर्वक जो चिन्तन किया जाता है, उस “रूपातीत” नामका चौथा ध्यान कहा है।

धर्मध्यानका फल

धर्मध्यान मुनियों तथा गृहस्थोंकी आत्माओंको शुद्ध करता है, लेश्याओंको निर्मल बनाता है, दुष्कर्मोंको जलाता है तथा कामाग्रि के लिये मेघ समान है। यद्यपि यह धर्मध्यान आलम्बन सहित है तथापि निरन्तर अभ्यास करनेसे शुद्ध होता हुआ यह क्रम-क्रमसे ध्यान करनेवालेको आलम्बन रहित निर्मल शुद्ध ध्यान तक पहुँचा देता है।

स्पष्टीकरण

जो भव्य प्राणी अपने ससारको कम करना चाहते हैं अथवा कर्मबन्धनसे छूटना चाहते हैं, उनको ससारको असार जानकर

विरक्त भावसे देखना चाहिये, जैसे कि कमल पानीमें रहता हुआ पानीसे अलहदा रहता है। इस कर्मबन्धनसे छूटनेका मुख्य शुभ चित्त और इन्द्रियोंको कावूमें रखना है अर्थात् इन्द्रियों और मनको कभी बुरे विषयों और बुरे विचारोंकी ओर नहीं जाने देना है। मनुष्यको सदा अच्छे विचार और शुभ भावना ध्याना चाहिये। जैसे—एक-ज्ञ-एक दिन हमको अवश्य मरना है। इस कारण कोई अशुभ विचार व कर्म न करना चाहिये। जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। शुभ कर्म करोगे शुभ फल पाओगे, दुष्कर्म करोगे दुष्कल मिलेगा। ससारमें यह आत्मा अकेला आया है और अकेला ही जायगा। जो गृहस्थकी भर्यादा है उसके बाहर गृहस्थको नहीं जाना चाहिये। सदा शुभ विचार मनसे और न्याय-न्युक्त कार्य कायसे और मृदु और कोमल वचन सुखसे उच्चारित करते रहना चाहिये। कभी किसी प्राणी-मात्रके श्रति हमको बुरे ख्याल या बुरे विचार कभी नहीं लाने चाहिये। किसीसे ईर्पा, द्वेष तथा अहंकार और मान नहीं करना चाहिये।

शुक्लध्यान

जिस ध्यानमें विषयोंका सम्बन्ध होनेपर, भी वैराग्य बलसे चित्त बाहरी विषयोंकी ओर नहीं जाता है तथा शारीरिक छेदन-भेदन होनेपर भी स्थिर हुआ चित्त ध्यानसे लेशभाव भी नहीं चिंगता है, उसको “शुक्लध्यान” कहते हैं।

“एग जीय जीय पच”

अर्थात् एक मनको जीतनेमे पाँच इन्द्रियाँ वशमें हो जाती हैं। और भी कहा है कि—

“मन एव मनुष्याणा, कारण बन्धमोक्षयो ”

अर्थात् कर्मसे बाँधनेवाला तथा छुड़ानेवाला मन ही है। “प्रसन्नचन्द्र” राजपिंकी भाँति मनको जीतनेकी आवश्यकता है।

श्रीकृष्ण कहते हैं कि—

“हे अर्जुन ! उनको वश करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि मन अति चपल है परन्तु निरन्तर अभ्यास करने और वैराग्यसे मन वशमें हो सकता है।”

शुल्कध्यान सिर्फ आदर्श मुनि ही ध्या सकते हैं, गृहस्थकी शक्तिसे सर्वथा बाहर है।

शुल्कध्यानका आलम्बन

मुनीश्वरोंको शुल्क ध्यानपर चढ़नेकेलिये ज्ञाना, मार्दव, आर्जव और निर्लोभता, ये घार आलम्बन धताये गये हैं।

शुल्कध्यानके भेद

शुल्कध्यानके घार भेद हैं—(१) पृथक्त्ववितर्कीचार, (२) एकत्ववितर्कीचार, (३) सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और (४) व्युपरतक्रियानिवृत्ति। इनमेंसे पहले दो ‘त्रुतकेवली’के और पीछेके दो ‘केवली’के होते हैं ॥

* “शुक्लेघाये पूर्वयिद्”, “परे केवलिन”, “पृथक्त्ववितर्कं सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानिवृत्तीनि”। —उभास्याति ।

शुक्लध्यानके चार पदोंमेंसे आदिके दो पद शब्द, अर्थ तथा योगका कुछ आलम्बन लेते हैं, अतः ये आलम्बनसहित हैं और अन्तके दो पद केवली भगवान्के मोक्षजानेके पहिले अन्तिम कालम होते हैं, अतः ये दोनों परम शुद्ध और आलम्बनरहित होते हैं। शुक्ल ध्यानीके जब तीनों योग रहते हैं, तब मनोयोग, वचनयोग और काय योग बदलते रहते हैं—शब्दसे अर्थमें और अर्थसे शब्द में संक्रमण होता रहता है। उस समयमें विचार तथा नाना वितर्क सहित शुक्लध्यानका प्रथम पाद—पहिला भेद 'सूक्ष्मक्रियाप्रतिपांति' होता है।

शब्द, अर्थ और योगके आश्रयसे संक्रमण तीन प्रकारका जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। (१) एक शब्दका आलम्बन लेकर फरदूसरे शब्दका आलम्बन लेकर ध्यान करना 'शब्दसक्रमण' है। (२) काययोगसे वचनयोगमें और वचनयोगसे मनोयोगमें प्रवृत्त होना 'योगसंक्रमण' है। और (३) एक पदार्थका विचार कर फिर उसे छोड़कर दूसरे पदार्थका विचार करना 'अर्थसंक्रमण' है। शब्दसक्रमण, अर्थसक्रमण और योगसक्रमण, इस तरह तीन सक्रमण हैं। शुक्लध्यानके प्रकरणमें जो 'वीर्चार' शब्द आता है, उसका अर्थ उक्त सक्रमण है॥

जिस अवस्थामें शुक्लध्यानी मुनिके तीन योगोंमेंसे एक ही योग होता है, उस समय वहुपनेका अभाव होनेसे सक्रमण नहीं क्षु "अयेकयोगकाययोगायोगानाम्", "वितर्क ध्रुतम्", "वीर्चारोऽर्थ-व्यञ्जनयोगसक्रान्ति." । —उमास्वाति ।

होता है। ऐसी अवस्थामें 'एकत्ववितर्कबीचार' नामक शुक्लध्यानका द्वितीय पाद होता है।

जिस समय मोहनीय कर्मका सर्वथा ज्ञय होनेसे चार धातिया कर्मोंका ज्ञय होजाता है उस समय सम्पूर्ण अतिशयों सहित निर्भौल केवलज्ञान प्रकट होजाता है। केवलज्ञान प्राप्त हो जानेपर चीतराग जिनेन्द्र भगवान्‌की जगत्‌के कल्याणकारी मार्गमें 'जिन' नामकर्मके उदयसे तथा अहिंसारूप दयाके अनन्त प्रवाहके बहनेसे स्वतः प्रवृत्ति होती है। उस समय केवली भगवान् तत्त्वरूपी अमृतकी वृष्टि करके संसारमें परम शक्ति उत्पन्न करते हैं तथा मोक्षका मार्ग दिखलाकर जगत्‌की सेवा करते हैं।

जब शुक्लध्यानी केवली भगवान् अन्त समयमें स्थूल क्रययोगको सूक्ष्म करते हैं तथा सूक्ष्म काययोगमें रहकर मनोयोग और वचनयोगको रोकते हैं, उस समय केवल सूक्ष्म काययोगकी सूक्ष्म क्रियाके रहजानेसे 'सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति' नामका शुक्लध्यानका द्वितीय पाद होता है।

अरहन्त भगवान् जब मोक्ष स्थानकेलिये गमन करते हैं, उस समय वे सूक्ष्मकाययोगका भी निरोध करके पाँच हस्त स्वरके उशारण कालकी घरावर मेरु पर्वतकी तरह निश्चल रहते हैं। अर्थात् 'शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होते हैं। यही 'व्युचिद्भक्तिया' या 'व्युपरतक्रियानिवृत्ति' नामका शुक्लध्यानका चतुर्थ पाद होता है। इस पादमें समस्त अर्थकी समाप्ति होजाती है तथा मोक्ष पद निकट रह जाता है।

शुक्लध्यानकी योग्यता और उसकी प्राप्ति

शुक्लध्यान-अवस्था प्राप्त करनेकेलिये चित्तकी पूर्ण स्थिरता, आत्माकी अपरिमित शक्ति, वज्रऋपभनाराचसंहनन तथा स्थिर और अत्यन्त दृढ़ वैराग्य होना चाहिये। इस पञ्चम कालमें अर्थात् वर्तमान समयमें इन साधनोंका अभाव है। अतः जब तक ये साधन प्राप्त न हों, तब तक आगामी कालमें प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हुये शुक्लध्यानकी भावना भाना चाहिये।

शुक्लध्यानकी भावना भानेमें निम्नलिखित भावनाएँ अत्यन्त सहायता प्रदान करनेवाली हैं—

१—यह शरीर अशुभ और अशुचि है।

२—ससारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव अनन्त पुद्गल परावर्तन कर चुका है।

३—यह जगत् अस्थिर है—विनश्वर है।

४—सम्पूर्ण पाप आत्माको हानि पहुँचानेवाले हैं।

जीवको इन चार भावनाओंका सदा चिन्तन करते रहना चाहिये।

स्पष्टीकरण

जो योगी चौरासी लक्ष जीवयोनिसे बचना चाहते हैं अर्थात् मुक्तिके इच्छुक हैं, उनको सदा शुक्लध्यानमें रमण करते रहना चाहिये। जिन्होंने ससारकी समस्त पौद्गलिक वस्तुओंसे मोहका

लिया है, वे इस ध्यानको ध्याकर अनन्त-अचाय अमर पदको प्राप्त कर सकेंगे। जो इस ध्यानमें मग्न होते हैं, उन्हें दुनियोंके कोई भी दुर लोश नहीं पहुँचा सकते। वे सदा आनन्दमग्न रहते हैं। जैसे कि 'गजसुकमालजी'के सिरपर उनकी ध्यान अवस्थामें 'सोमल' ब्राह्मणने अपने पूर्वभवके वैरके कारण मट्टी की बाढ़ बौध कर उसमें जलती हुई तेज्ज अग्निके ऊंगारे रख दिये थे, जिससे कि 'गजसुकमाल' मुनिका सिर खदबद करने लगा था। पर मुनिने अपने ध्यानमें यही सोचा कि यह शरीर मुक्तसे पृथक् है एव नाशवान् है और मेरी आत्मा अजर, अमर, अरण्ड और अविनाशी है। इस कारण मुक्तको अपने शरीर का कुछ ख्याल नहीं करना चाहिये और ध्यानमें आरूढ़ रहना चाहिये। जिसका परिणाम यह हुआ कि गजसुकमाल मुनिको केवलज्ञान और केवलदर्शनकी प्राप्ति हुई और उन्होंने उसी समय निर्वाणपदकी प्राप्ति की। इसी प्रकार एक नहीं अनेक मुनियोंने जिन्होंने अपनी आत्माके असली स्वरूपको पहचान लिया था, नाना प्रकारके मारणान्तिक कष्टोंको शान्ति और सरल भावसे सहकर परम आनन्द अवस्थाको प्राप्त किया और भोक्त पधारे। आधुनिक समयमें भी बहुतसे आत्मकल्याणी मुनियोंने समयपर अन्न-जल न मिलनेके कारण जगलोंमें शान्ति भावसे परिपहोंको सहते हुए 'सन्थारा' धारण किया है और 'पण्डितमरण' किया है। इसी प्रकार ससारमें भव्य प्राणियोंको, जिन्हें अपना मनुष्य-जन्म

कुतार्थ करना है; उन्हें सदा अपनी मर्यादाका पालन करते रहना चाहिये और अगर सकटका समय आ जाय तो उन्हें मर्यादाका उस्तुति न करना चाहिये। क्योंकि यह एक सकटका समय ही आत्माके बलाबलकी कसौटी है। जो प्राणी सकटके समयमें अपनी मर्यादाका पालन करते हुए अपने प्राणोंपर बाज़ी लगा देते हैं, वे अपने मनुष्यजन्मको सफल बनाते हैं।

ध्यानके लाभ

पहले कहा जा चुका है कि मनकी एकाग्रताको 'ध्यान' कहते हैं। इसका अर्थ अभ्यासीकी दृष्टिसे ऐसा भी किया जा सकता है कि मनको एकाग्र बनानेका कार्य ध्यानका है। मनका एकाग्र करना या मनको किसी एक ओर लगा देना एक ही घात है।

शूरवीर रणमें विजय प्राप्त करता है, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। मुनि मोक्षमार्गमें परिपह सहन करता है, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। विद्यार्थी परीक्षामें पास होता है, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। साधक किसी विद्या या मन्त्रकी सिद्धि करता है, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। कवि कोई तलस्पर्शी, अलकृत, रसपूर्ण, निर्दोष और रमणीय कविता करता है, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। मेस्मरेजमके जो अद्भुत चमत्कार देखनेमें आते हैं, वह मनकी एकाग्रताका प्रभाव है। मनकी एकाग्रताका घड़ा जबरदस्त प्रभाव है। ससारमें जितने अद्भुत और विशिष्ट कार्य हुए हैं, होते हैं, और हो सकते हैं, वे सब इसी मनकी

एकाग्रताके फल हैं। मनकी एकाग्रताके बिना समाजका और परमार्थका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनकी एकाग्रतासे ध्यानसे एक नृकीट परमात्मा तक बन सकता है। ऐसे लोकातिशायी ध्यान और ध्यानीकेलिये हमारा शतश नमस्कार है।

व्यवहारमें भी ध्यानसे अनेक लाभ होते हैं। यथा—ब्रीमारी का दूर हो जाना या कम पड़ जाना, स्मरण शक्तिका बढ़ जाना, शारीरिक बलका बढ़ जाना, बुद्धिका निर्मल हो जाना, परिणामों का कोमल हो जाना, प्रकृतिमें सौजन्य, सौम्य आदि गुणोंका आविर्भाव हो जाना, इत्यादि।

विशेष

किसी भी विषयके भेद जो होते हैं, वे किसी दृष्टि विशेषकी बजाहसे होते हैं। आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल, ये चार ध्यानके भेद किसी और दृष्टिसे हैं। ध्यानके शुभ और अशुभ, ये दो भेद किसी और दृष्टिसे हैं। शुक्लध्यानकी बात छोड़ दीजिए। वह अपने अनुभवका विषय नहीं है। वह मुनियोंकी चीज है। लेकिन शेष तीन ध्यानोंका विषय गृहस्थमात्रके अनुभवका विषय है। उनके प्रत्येकके अलग अलग भेद हम पूर्व में बतला आये हैं। वे भेद भी किसीन्न किसी भिन्न भिन्न दृष्टिसे किये हुए हैं।

उसी प्रकार एक अन्य दृष्टिसे भी ध्यानके भेद होते हैं। वह दृष्टि है समयकी। एक ध्यान ऐसा होता है जो अल्पकाल या

किंसी निश्चित समय तक ही किया जाता है और दूसरा ध्यान वह होता है जो कि जीवोंके व्यवहारनयसे भीनों रहता है।

तीनों सध्याओंमें जो सामायिक किया जाता है, पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत जो ध्यानके भेद पूर्वमें कहे जा चुके हैं, वे, मेस्मरेज्म, प्राणायाम आदि सब ध्यान 'अल्प-कालीन' हैं।

ज्ञयोपशमसम्यग्दृष्टि या ज्ञायिकसम्यग्दृष्टिको जो सासारिक अन्य अनेक कार्य करते हुए भी आत्माका ध्यान बना रहता है, वह, वीभारकी जवरक वीभारी दूर न हो जाय, तब तक और अनेक कार्य करते हुए जो अपनी वीभारीका ध्यान बना रहता है, वह, किसी अभिमानीको अन्य अनेक कार्य करते हुए भी अपने मानापमानका जो हर समय ध्यान—ख्याल बना रहता है, वह, श्रीरामचन्द्रजीको सीताके वियोगमें छह महीने तक 'इष्ट वियोग' नामका आर्तध्यान बना रहा और उसमें उनकी यह हालत हो गई कि वे जगलके वृक्षोंसे पूँछते फिरे कि 'आपने क्या मेरी सीता देखी है?', यह, उसी तरह श्रीबलदेवजीको भी श्री कृष्णके वियोगमें छह महीने तक 'इष्टवियोग' नामका आर्तध्यान बना रहा और जिसकी वजहसे श्रीबलदेवजी श्रीकृष्णके शवको छह महीने तक कन्धेपर धरे फिरे और उसे निलाते धुलाते और खिलाते-पिलाते रहे, यह, इत्यादि सब 'चिरकालीन' ध्यान है। इस 'चिरकालीन' ध्यानके बीचमें अन्य अनेक ध्यान होजाते हैं

अवश्य, क्योंकि कोई भी ध्यान हो, अधिक-न्से-अधिक होता वह अन्तर्मुहूर्त तक ही है^{४४}। अन्तर्मुहूर्तके बाद अवश्य ही कोई दूसरा ध्यान हो जायगा। इससे अधिक किसीका भी मन एक विषयपर स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी वह चिरकाल तककी ध्यानसन्तति व्यवहारमें एक ही ध्यान कहलाता है।

भावनाएँ

शूलस्त्रकारोंने मोक्षार्थी प्राणियोंकेलिये वारह प्रकारकी भावनाओं (अनुप्रेक्षाओं) का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं—

१ अनित्य, २ अशारण, ३, सत्सार, ४ एकत्व, ५ अन्यत्व, ६ अशुचि, ७ आस्रव, ८ सवर, ९ निर्जरा, १० लोक, ११ बोधिदुर्लभ और १२ धर्मस्वात्म्यातत्त्वः ॥

(१) अनित्य—इन्द्रियोंके विषय, धन, यौवन, जीवितव्य आदि पानीके बुलबुलेके समान हैं—अस्थिर अर्थात् अनित्य हैं, ऐसा विचार करना 'अनित्य' भावना है।

यह भावना 'भरत' नामके चक्रवर्तीने भाई थी। जिसके कारण वे केवलज्ञान प्राप्त कर दस हजार मुकटबन्ध राजाओंको दीक्षा दे लक्ष पूर्वका साधुपना पाल मोक्ष पधारे। किस प्रकार उनकी अङ्गूठी गिरी और किस प्रकार उन्होंने पुद्रगलको असार समझा। इत्यादि वृत्तान्त अन्य जैन शास्त्रोंमें दिया हुआ है, वहाँसे समझना चाहिये।

* अनित्याशरणसत्सारैकत्वान्यत्वाशुच्याश्रवसवरनिर्जरालोकबोधिदु-
लभधर्मस्वात्म्यातत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा ।” —उमास्वति ।

(२). अशरण—जैसे बनके एकान्त स्थानमें सिंहके हारा पकड़े हुए मृगकी कोई शरण नहीं होता है, उसी प्रकार इस ससारमें कालके गालमें पड़ते हुये जीवोंकी भी कोई रक्षा करने वाला—शरण नहीं है। इस प्रकार चिन्तन करना ‘अशरण’ भावना है।

किस प्रकार ‘प्रभूतधन’ सेठके पुत्रने रोगकी बेदनाके कारण अपनेको अनाथ जाना, किस प्रकार उन्होंने दीक्षा ली, किस प्रकार ‘श्रेणिक’ राजाको नाथ अनाथका भेद समझाया और किस प्रकार अशरण भावनाके कारण अपने मनुष्य-जन्मको उन्होंने सफल बनाया। इत्यादि बातें अन्य जैनशास्त्रोंसे जानना चाहिये।

(३) ससार—यह जीव निरन्तर एक देहसे दूसरी देहमें जन्म लेनेकर चतुर्गतिमें परिभ्रमण किया करता है* जिसके कारण इसको अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। अतएव यह ससार दुखमय है, इत्यादि ससारके स्वरूपका चिन्तन करना ‘ससार’ भावना है।

किस प्रकार ‘मझीकुमारी’ने अपने पूर्वभवके मित्र छहों राजाओंको घोथ देकर दीक्षा ली, किस प्रकार तीर्थझर पदको प्राप्त कर निर्बाण पद प्राप्त किया, किस प्रकार छहों राजाओंको ससार भावना भाते हुए जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ और किस प्रकार दीक्षा ले उन्होंने अपना मनुष्य-जन्म सफल किया। इत्यादि वर्णन अन्य जैन शास्त्रोंसे अवलोकन करना चाहिये।

* “ससरण ससार परिवर्तनमित्यर्थ”

—पूर्णपादाचार्य।

(४) एकत्व—जन्म, जरा, मरण, रोग, वियोगादि महा
दुःखोंमें अपनेको असहाय—एकाकी चिन्तन करना अर्थात् सुख-
दुःख सहनेमें मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, इत्यादि
विचार करना 'एकत्व' भावना है।

किस प्रकार 'मृगापुत्रकुमार'को मुनि महाराजको देखकर
जातिस्मरण ज्ञान हुआ, किस प्रकार उन्होंने अपने माता पितासे
आज्ञा माँगी और किस प्रकार इस जगत्‌में कोई किसीका नहीं
है—वन धरतीमें, पशु स्थानमें, धान्य कोठोंमें, बछर गठरीमें,
खी द्रवजोंतक, माता बाजार तक, स्वजन शमशान तक और
यह शरीर चिता तक जायगा, आगे शुभाशुभ कर्मोंके साथ जीव
अकेला ही जायगा, इस प्रकार एकत्व भावना भाते हुए सयम
धारण कर एकलविहारी हो मोक्ष प्राप्त की। इत्यादि बातोंका
वर्णन अन्य जैन शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये।

(५) अन्यत्व—शरीर-कुटुम्बादिसे अपने स्वरूपको भिन्न
चिन्तन करना 'अन्यत्व' भावना है।

किस प्रकार 'नभि' राजाको दाह-ख्वर उत्पन्न हुआ, किस
प्रकार घन्दन घिसनेमें रानियोंके एक-एक कङ्गनका बजना घन्द
हो गया, किस प्रकार अन्यत्व भावना भाते हुए उन्हें नींद आ गई
और योग चला गया, किस प्रकार उन्होंने सयम धारण कर
इन्द्रको उसके प्रश्नोंका उत्तर दिया और किस प्रकार सयम आरा-

धना कर दे मोक्ष गये। इत्यादि धातोंका वर्णन अन्य जैन शास्त्रों से समझ लेना चाहिये।

(६) अशुचि—यह शरीर हाड़, माँस, मल, मूत्र आदि अशुचि पदार्थोंसे भरा हुआ महा अपवित्र है, इस प्रकार अपने शरीरके स्वरूपका चिन्तन करना 'अशुचि' भावना है।

किस प्रकार 'सनत्कुमार' चक्रवर्तीने अपने स्वरूपका मद किया, किस प्रकार उनको कुष्ट रोग हुआ और किस प्रकार सयम पाल नीरोग हो उन्होंने मोक्षको प्राप्त किया। इत्यादि वर्णन अन्य जैन शास्त्रोंसे जानना चाहिये।

(७) आस्त्रव—मिथ्यात्व, अविरति, कपायादिकोंसे कर्मोंका आस्त्रव होता है। आस्त्रव ही ससारमें परिभ्रमणका कारण और आत्माके गुणोंका धातक है। इस प्रकार आस्त्रवके स्वरूपका चिन्तन करना 'आस्त्रव' भावना है।

किस प्रकार 'समुद्रपाल'ने चोरको घन्घनमें देखकर अशुभ कर्मोंका ख्याल किया, किस प्रकार आस्त्रव भावना भाते हुए उन्होंने चैराग्य प्राप्त किया और किस प्रकार वे दीक्षा धारण कर, कर्म छोड़ कर मोक्ष गये। इत्यादि वातोंको अन्य जैन शास्त्रोंसे समझ लेना चाहिये।

(८) *सवर—गुप्ति, सामेति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहसन आदिसे आते हुए कर्म रुकते हैं, इस प्रकार सवरके स्वरूपको चिन्तन करना 'सवर' भावना है।

* "आस्त्रवनिरोध सवर", "स गुप्तिसमितिधमानुप्रेक्षापरीपह-
जयचारित्रै ।"

—उमास्वाति ।

किस प्रकार 'हरीशधन' नामक चाएड़ाल आत्मघात करने गया, किस प्रकार मुनि महाराजने उसे प्रतिवोध 'दिया, 'किस प्रकार उसने सर्यम पाल ब्राह्मणोंको 'संवरके बारेमें प्रतिवोध 'दिया, किस प्रकार उनसे हिंसारूप 'धर्मका' [त्याग कराया और धर्म स्वीकार कराया और 'किस प्रकार मुनिराज करणी' कर 'मोक्ष गये। 'इत्यादि विचारना चाहिये।

(६) निर्जरा—निर्जरा कर्मोंकी किस प्रकार होती है, कैसे 'उपर्योगसे होती है, इत्यादि निर्जराके स्वरूपको वारम्बार चिन्तन करना 'निर्जरा' भावना है।

किस प्रकार 'अर्जुन' मालीने अपने कर्मोंकी निर्जरा कर मोक्ष प्राप्त किया। इत्यादि विचारना चाहिये।

(१०) लोक—लोक कितना बड़ा है, उसमें क्या-क्या रचना है, कौन-कौन जातिके जीवोंका कहाँ कहाँ निवास है। इत्यादि लोकके स्वरूपको चिन्तन करना 'लोक' भावना है।

'धनारसके तपोबनमें दुष्कर तंपस्वी 'शिवराज' ऋषिको किस प्रकार विभङ्गज्ञान हुआ, 'किस प्रकार भगवान्‌के पास आते ही उनका अज्ञान मिट गया, किस प्रकार उन्होने

'स्वरूप देख लोक भावना भाते हुए दीक्षा चे सर्यम पाल मोक्ष गये। इत्यादि' व चार

(११) बोधिदुर्लभ—सम्यग्दर्शन, चारित्र, इस रत्नत्रयको 'बोधि' कहते हैं।

अतिदुर्लभ है। इसकी दुर्लभताका चारम्बार चिन्तन करना 'वोधिदुर्लभ' भावना है।

किस प्रकार 'भरत' घक्षवर्तीने अपने हृषि भाइयोंसे आज्ञा माननेको कहा, किस प्रकार वे ऋषिपदेवजीके 'पास' गये 'और किस प्रकार वे ऋषिपदेव भगवान्‌का उपदेश सुनकर सम्यक्त्व युक्त 'चारित्र अङ्गीकार कर भोक्त गये। इत्यादि 'विचारना चाहिये।

(१०) धर्मस्वाख्यातत्त्व—वस्तुका स्वभाव 'धर्म' कहलाता है। आत्माका शुद्ध निर्मल स्वभाव ही अपना धर्म है तथा दर्शन ज्ञान-चारित्र रूप वा अद्विसा रूप धर्म है। इत्यादि धर्मके स्वरूप को वारम्बार चिन्तन 'करना 'धर्मस्वाख्यातत्त्व' भावना है।

किस प्रकार 'धर्मरूपि' मास-क्षमनके पारने 'नागशी' ब्राह्मणी के गये, किस प्रकार उसने कटुक तुम्बेका शाक वैराया, किस प्रकार गुरुजीको दिलाया, किस प्रकार गुरुजीने निर्वध स्थान पर पठानेको कहा, किस प्रकार चीटियाँ मरीं, किस प्रकार अपने पेटको निर्वध स्थान जानकर रा गये 'और किस प्रकार शान्त भावसे धर्म भावना भावे हुए काल करके सर्वार्थसिद्धि महाविमानमें देवता हुए। इत्यादि विचारना चाहिये।

अनेक प्राणियोंने उपरोक्त एक-एक भावनाको भावे हुये मोक्ष को प्राप्त किया है। जो प्राणी अपना मनुष्य-जन्म सफल 'बनाना चाहते हैं, उनको उपरोक्त भावनाओंको सदा ध्याते रहना चाहिये।

संयम

शूद्रोऽस्त्रकारोने समयके सात भेद बतलाये हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

- १—सामायिक, २—छेदोपस्थापना, ३—परिहारविशुद्धि,
- ४—सूक्ष्मसाम्पराय, ५—यथाख्यात, ६—देशविरति और
- ७—अविरति।

(१) सामायिक—जीवको जो सम भावकी (राग द्वेषके अभावकी) प्राप्ति होती है, वह 'सामायिक संयम' है। इसके (क) इत्वर और (ख) यावत्कथित, ये दो भेद हैं।

(क)—इत्वरसामायिक संयम वह है, जो उपस्थापनार्थी शिष्योंको स्थिरता प्राप्त करनेकेलिये पहले-पहल दिया जाता है और जिसकी काल-मर्यादा उपस्थापन पर्यन्त—घड़ी दीक्षा लेने तक मानी गई है। यह सयम भरत-ऐरावत चेत्रमें प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्करके शासनके समय ग्रहण किया जाता है। इसके धारण करनेवालोंको प्रतिक्रमण सहित पांच महाब्रत अङ्गीकार करने पड़ते हैं तथा उस समयके स्वामी 'स्थितकल्पी' होते हैं।

(ख) यावत्कथित सामायिक सयम वह है, जो ग्रहण करने के समयसे जीवन पर्यन्त पाला जाता है। यह सयम भरत-ऐरावत चेत्रमें मध्यवर्ती बाईस तीर्थङ्करोंके शासनमें ग्रहण किया

जाता है। महाविदेह क्षेत्रमें तो यह सयम सब समयमें लिया जाता है। इस सयमके धारण करनेवालोंको महाब्रत चार और कल्पस्थितास्थित सयम होता है।

(२) छेदोपस्थापना—प्रथम सयम-पर्यायको छेद कर फिरसे उपस्थापन (ब्रतारोपण) करना—पहले जितने समय तक सयमका पालन किया हो, उतने समयको व्यवहारमें न गिन कर और दुबारा सयम ग्रहण करनेके समयसे दीक्षा-काल गिनना व छेदो-भड़ेका व्यवहार करना 'छेदोपस्थापना सयम' कहलाता है। इसके (क) सातिचार और (ख) निरतिचार, ये दो भेद हैं—

(क) सातिचार छेदोपस्थापना सयम वह है, जो किसी कारणसे मूलगुणोंका—महाब्रतोंका—भङ्ग हो जानेपर फिरसे ग्रहण किया जाता है।

(ख) निरतिचार छेदोपस्थापना उस सयमको कहते हैं, जिसको इत्वरसामायिक सयमवाले वडी दीक्षाके रूपमें ग्रहण करते हैं। यह सयम, भरत-ऐरावत क्षेत्रमें प्रथम तथा चरम तोर्यङ्करके साधुओंको होता है और एक तीर्थके साधु, दूसरे तीर्थमें जब दायित होते हैं, तब उन्हें पुनर्दीक्षाके रूपमें यही सयम दिया जाता है॥

॥ जैसे श्रीपाश्वनाथके केशी-नाम्नेय आदि सान्तानिक साधु, भग-चान् महाबीरके तीर्थमें जब दायित हुये थे, तब उन्हें दिया गया था।

(३) परिहारविशुद्धि सप्तम—वह है जिसमें 'परिहार विशुद्धि' नामकी तपस्या की जाती है। 'परिहारविशुद्धि' तपस्या यह है कि —

नौ साधुओंका एक गण (समुदाय) होता है, जिसमेसे चार तपस्वी बनते हैं और चार उनके परिचारक (तीन सेवक और एक वाचनाचार्य) का काम करते हैं। जो तपस्वी हैं, वे ग्रीष्मकालमें जघन्य एक, मध्यम दो और उत्कृष्ट तीन उपवास करते हैं। शीतकालमें जघन्य दो, मध्यम तीन और उत्कृष्ट चार उपवास करते हैं और वर्षाकालमें जघन्य तीन, मध्यम चार और उत्कृष्ट पाँच उपवास करते हैं। तपस्वी पारणाके दिन अभिग्रह सहित आयविल ब्रत करते हैं। यह क्रम छह महीने तक चलता है।

दूसरे छह महीनेमें पहलेके तपस्वी तो परिचारक बनते हैं और परिचारक तपस्वी। दूसरे छह महीनेमें तपस्वी बने हुये साधुओंकी तपस्याका वही क्रम होता है, जो पहिले तपस्वियोंकी तपस्याका होता है। परन्तु जो साधु परिचारक-पद ग्रहण किये हुये होते हैं, वे सदा आयविल ही करते हैं। दूसरे छह महीनेके बाद, तीसरे छह महीनेकेलिये वाचनाचार्य ही तपस्वी बनता है, शेष आठ साधुओंमेंसे कोई एक वाचनाचार्य और वाकीके सब परिचारक होते हैं। इस प्रकार तीसरे छह महीने पूर्ण होनेके बाद अठारह मासकी यह 'परिहारविशुद्धि' नामक तपस्या समाप्त होती है।

इसके बाद वे जिनकल्प प्रदण करते हैं अथवा वे पहिले जिस गच्छ या दोलेके रहे हॉं, उसीमें दाखिल हो जाते हैं या फिर भी वैसी ही वपस्या शुल कर देते हैं। परिहारविशुद्धि सयमके निर्विश्यमान और निविष्टकायिक, ये दो भेद हैं। वर्तमान परिहार विशुद्धिको 'निर्विश्यमान' और भूत परिहारविशुद्धिको 'निविष्टकायिक' कहते हैं।

(४) सूक्ष्मसापराय—जिस सयममें सम्पराय (कपाय) का उदय सूक्ष्म (अतिस्वल्प) रहता है, वह 'सूक्ष्मसम्पराय सयम' है। इसमें लोभ कपाय उदयमान होता है, अन्य नहीं। यह संयम दसवें गुणस्थानवालोंको होता है। इसके (क) सक्लिश्यमानक और (स) विशुद्ध्यमानक, ये दो भेद हैं।

(क) उपशमश्रेणिसे गिरनेवालोंको दसवें गुणस्थानकी प्राप्तिके समय जो सयम होता है, वह 'सक्लिश्यमानक सूक्ष्म सापराय सयम' है, क्योंकि उस समयके परिणामसक्लेश प्रधान ही होते जाते हैं।

उपशमश्रेणिसे ऊपकश्रेणिपर चढ़नेवालोंको दसवें गुणस्थानमें जो सयम होता है, वही 'विशुद्ध्यमानक सूक्ष्मसाम्पराय सयम' है, क्योंकि उस समयके परिणाम विशुद्धि-प्रधान ही होते हैं।

(५) जो सयम यथातथ्य है अर्थात् जिसमें कपायका उदय-लेश भी नहीं है, वह 'यथात्यात सयम' है। इसके (क) आद्यात्मिक और (स) अछाड्यात्मिक, ये दो भेद हैं।

(क) छाइआस्थिक यथाख्यात संयम वह है, जो ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानवालोंको होता है। ग्यारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा बारहवें गुणस्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहवेंमें कपाय का उदय नहीं होता, उसकी सच्चामात्र रहती है, और बारहवेंमें तो कपायकी सत्ता भी नहीं रहती।

(ख) अछाइआस्थिक यथाख्यात सयम केवलियोंको होता है। सयोगी केवलीका संयम 'सयोगि-यथाख्यात' और अस्योगी केवलीका संयम 'अस्योगि-यथाख्यात' है।

(द) कर्मबन्ध-जनक आरम्भ-समारम्भसे किसी अशमें निष्टुत होना 'देशविरति संयम' कहलाता है। इसके अधिकारी गृहस्थ हैं।

(७) किसी प्रकारके सयमका स्वीकार न करना 'अविरति' है। यह दशा पहिलेसे चौथे तक चार गुणस्थानोंमें पाई जाती है।

लेश्या अधिकार

आत्माका सहज स्वरूप स्फटिकके समान निर्मल है। उससे भिन्न परिणाम जो कृष्णनील आदि अनेक रंग वाले पुद्रगल विशेषके असरसे होते हैं, उन्हे 'लेश्या' कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिसकेद्वारा आत्मा कर्मोंसे लिप्त होता है तथा जो योग और कपायकी तरगसे उत्पन्न होती हो उसको तथा मनके शुभाशुभ परिणामको 'लेश्या' कहते हैं।

ज्ञानियोंने लेश्याके मुख्य दो भेद घोषये हैं। १—द्रव्य लेश्या, और २—भाव लेश्या।

१—द्रव्य लेश्या—कर्म वर्गणासे बनती है। फिर भी वे आठ कर्मोंसे भिन्न हैं। जैसे कार्मण शरीर।

२—भाव लेश्या—आत्माका परिणाम विशेष है, जो सक्लेश और योगसे अनुग्रह है^{३३}।

सक्लेशके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, गन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद हैं।

भाव लेश्या अनेक प्रकारकी है। तथापि ज्ञानियोंने सक्षेपमें छह विभाग करके शास्त्रमें उसका स्वरूप दिखाया है।

^{३३} "जोगपड़ती लेस्सा कपायउदयाशुरजिया होई" —गोमद्वार।

अर्थात् कपायोदयसे अनुरजित योगोंकी प्रवृत्तिको "लेश्या" कहते हैं।

(क) छाद्वास्थिक यथाख्यात संयम वह है, जो ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानवालोंको होता है। ग्यारहवें गुणस्थानकी अपेक्षा बारहवें गुणस्थानमें विशेषता यह है कि ग्यारहवेंमें कपाय का उदय नहीं होता, उसकी सत्तामात्र रहती है, और बारहवेंमें तो कपायकी सत्ता भी नहीं रहती।

(ख) अछाद्वास्थिक यथाख्यात संयम केवलियोंको होता है। सयोगी केवलीका संयम 'सयोगि-यथाख्यात' और अयोगी केवलीका संयम 'अयोगि-यथाख्यात' है।

(६) कर्मबन्ध-जनक आरम्भ-समारम्भसे किसी अशमें नियुक्त होना 'देशविरति संयम' कहलाता है। इसके अधिकारी गृहस्थ हैं।

(७) किसी प्रकारके संयमका स्वीकार न करना 'अविरति' है। यह दशा पहिलेसे चौथे तक चार गुणस्थानोंमें पाई जाती है।

लेश्या अधिकार

खुशिंग उससे भिन्न परिणाम जो कृपण-नील आदि अनेक रग वाले पुद्गल विशेषके असरसे होते हैं, उन्हे 'लेश्या' कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिसकेद्वारा आत्मा कर्मोंसे लिप्त होता है तथा जो योग और कपायकी तरगसे उत्पन्न होती हो उसको तथा मनके शुभाशुभ परिणामको 'लेश्या' कहते हैं।

ज्ञानियोंने लेश्याके मुख्य दो भेद बताये हैं। १—द्रव्य लेश्या, और २—भाव लेश्या।

१—द्रव्य लेश्या—कर्म वर्गणासे बनती है। फिर भी वे आठ कर्मोंसे भिन्न हैं। जैसे कार्मण शरीर।

२—भाव लेश्या—आत्माका परिणाम विशेष है, जो सक्लेश और योगसे अनुगत है।

सक्लेशके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, गन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक भेद हैं।

भाव लेश्या अनेक प्रकारकी है। तथापि ज्ञानियोंने सक्षेपमें छह विभाग करके शास्त्रमें उसका स्वरूप दिखाया है।

“जोगपठती क्षेत्रा कपायउदयाणुरजिया होइं” —गोमटसार।

अर्थात् कपायोदयसे अनुरजित योगोंकी प्रवृचिको “लेश्या” कहते हैं।

१—कृष्ण लेश्या, २—नील लेश्या, ३—कापोत लेश्या,
४—तेजो लेश्या, ५—पद्म लेश्या और ६—शुक्र लेश्या।

नीचे लिखे दृष्टान्तसे छहों लेश्याओंका स्वरूप आसानीसे समझमें आ जायगा।

कोई छहों पुरुष जन्म्यु फल खानेकी इच्छा करते हुए चले जा रहे थे। इतनेमें जामुनके वृक्षको देख कर उनमेंसे एक पुरुष बोला—“लीजिये, जामुनका वृक्ष तो आ गया। अब फलोंके लिये ऊपर चढ़नेकी अपेक्षा फलोंसे लादी हुई बड़ी-बड़ी शाख बाले इस वृक्षको काट गिराना ही अच्छा है।” यह सुन कर दूसरेने कहा—“वृक्ष काटनेसे क्या लाभ? केवल शाखाओंको काट दो।” तीसरेने कहा—“यह भी ठीक नहीं, छोटी छोटी शाखाओंको काट लेनेसे भी तो काम निकल सकता है।” चौथेने कहा—“शाखायें भी क्यों काटते हैं? फलोंके गुच्छोंको तोड़ लीजिये।” पाँचवाँ बोला—“गुच्छोंसे क्या प्रयोजन? उनमेंसे कुछ फलोंको ही ले लेना अच्छा है।” अन्तमें छठे पुरुषने कहा—“ये सब विचार निरर्थक हैं, क्योंकि हम लोग जिन फलों को चाहते हैं, वे तो नीचे भी बहुतसे गिर पड़े हैं। क्या उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता?”

इस दृष्टान्तसे लेश्याओंका स्वरूप स्पष्ट जाना जा सकता है। छहों पुरुषोंमें पूर्व-पूर्व मनुष्योंके परिणामोंकी अपेक्षा उत्तर-उत्तर मनुष्योंके परिणाम शुभ, शुभतर और शुभतम पाये जाते हैं।

उत्तर-उत्तर पुरुषोंके परिणामोंमें सक्षेपकी न्यूनता और मृदुताकी अधिकता पाई जाती है। प्रथम पुरुषके परिणामोंको कृष्ण लेश्या, दूसरेके परिणामोंको नील लेश्या, तीसरेके परिणामोंको कपोत लेश्या, चौथेके परिणामोंको तेजो लेश्या, पाँचवेंके परिणामोंको पद्म लेश्या और छठेके परिणामोंको शुक्ल लेश्या समझना चाहिये।

अब अलग-अलग लेश्याओंके पुद्गलोंका वर्ण व आत्मा पर प्रभाव व उनके प्रभावसे प्राणी कैसे कैसे अशुभ और शुभ कर्म करता है, उसका वर्णन करते हैं —

१—काजलके समान कृष्णवर्णके लेश्या जातीय पुद्गलोंके सम्बन्धसे आत्मामें ऐसा परिणाम होता है, जिससे हिंसा आदि पाचों आस्त्रोंमें प्रवृत्ति होती है, मन, वचन तथा शरीरका स्थम नहीं रहता, स्वभाव जुद्र बन जाता है, गुण-दोषकी परीक्षा किये बिना ही कार्य करनेकी आदतसी हो जाती है और क्रूरता आ जाती है, यह परिणाम 'कृष्ण लेश्या' है। इस लेश्यामें मरने वाला जीव सातवें नरक तक पहुँचता है और तेतीस सागरकी आयु स्थिति प्राप्त करता है।

२—आशोक वृक्षके समान नीले रंगके लेश्या-जातीय पुद्गलोंसे ऐसा परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है कि जिससे ईर्ष्या, असहिष्णुता 'तथा माया-कपट होने लगते हैं, निर्लज्जता आ जाती है, विषयोंकी लालसा प्रदीप हो उठती है, रमन्लोलुपता

होजाती है और सदा पौद्गलिक सुखकी खोज की जाती है, यह परिणाम 'नील लेश्या' का है। इस लेश्यामें मरने वाला जीव चौथे नरक तक पहुँचता है और सत्रह सागरकी आयु स्थिति तक पाता है।

३—कवूतरके गलेके समान रक्त तथा कृष्ण वर्णके पुद्गलोंसे इस प्रकारका परिणाम आत्मामें उत्पन्न होता है, जिससे बोलने, काम करने और विचारनेमें सब कहाँ चक्रता ही चक्रता होती है; किसी विषयमें सरलता नहीं होती, नास्तिकता आती है और दूसरोंको कष्ट हो, ऐसा भापण करनेकी प्रवृत्ति होती है, यह परिणाम—'कापोत लेश्या'का है। इस लेश्यामें मरनेवाला जीव तीसरे नरक तक पहुँचता है और सात सागरकी आयु स्थिति तक पाता है।

४—तोतेकी चोंचके समान रक्त वर्णके लेश्या-जातीय पुद्गलोंसे एक प्रकारका आत्मामें परिणाम होता है, जिससे कि नम्रता आ जाती है, शठता दूर हो जाती है, चपलता रुक जाती है, धर्ममें रुचि तथा दृढ़ता होती है और लोगोंका हित करनेकी इच्छा होती है, यह परिणाम 'तेजो लेश्या'का है। इस लेश्यामें मरने वाला जीव पहिले दूसरे स्वर्ग तक पहुँचता है और दो सागरकी आयु स्थिति तक पाता है।

५—हल्दीके समान पीले रंगके लेश्या-जातीय पुद्गलोंसे एक तरहका परिणाम आत्मामें होता है, जिससे क्रोध, मान, आदि

कपाय घट्टुत अशोमें मन्द हो जाते हैं, चित्त प्रशान्त हो जाता है, आत्मसंयम किया जा सकता है, मित्र भाषिता और जितेन्द्रियता आ जाती है, यह परिणाम “पद्मा लेश्या” का है। इस लेश्यामें मरनेवाला जीव पाँचवें स्वर्ग तक पहुँच सकता है और दस सागरकी आयु स्थिति तक पाता है।

६—‘शुक्ल लेश्या’ उस परिणामके समझना चाहिये, कि जिससे आर्त-रौद्र ध्यान बन्द होकर धर्म शुक्ल ध्यान होने लगता है। मन, वचन और शरीरको नियमित बनानेमें रुकावट नहीं आती, कपायकी उपशन्ति होती है और बीतराग भावकी वृद्धि करनेकी भी अनुकूलता हो जाती है। ऐसा परिणाम शहूके समान स्वेत वर्णके लेश्या जातीय पुद्गलोंके सम्बन्धसे होता है। इस लेश्यामें मरनेवाला जीव सर्वार्थसिद्धि विमान तक पहुँचता है और ३३ सागर तककी स्थिति तक पा सकता है। जीव अधिक से अधिक चौदह अवस्थाओंमें रह सकता है अर्थात् जीवके चौदह भेद हैं—

१—सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्ति, २—सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्ति ३—बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्ति, ४—बादर एकेन्द्रिय पर्याप्ति, ५—बेइन्द्रिय अपर्याप्ति, ६—बेइन्द्रिय पर्याप्ति, ७—तेइन्द्रिय अपर्याप्ति, ८—तेइन्द्रिय पर्याप्ति, ९—चउरिन्द्रिय अपर्याप्ति, १०—चउरिन्द्रिय पर्याप्ति, ११—असन्नी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्ति १२—असन्नी पञ्चेन्द्रिय

पर्याप्त १३—सब्नी पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और १४—सब्नी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त ।

कौन-कौनसे जीवस्थानमें कौन-कौनसी लेश्या पाई जाती है उनका आव वर्णन किया जाता है —

१—संज्ञिद्विकमें अर्थात् अपर्याप्त और पर्याप्त संज्ञि-पञ्चेन्द्रिय में छहों लेश्याएँ होती हैं ।

२—अपर्याप्त बादर एकेन्द्रियमें कृष्ण आदि पहिली घार लेश्याएँ होती हैं ।

३—शेष ग्यारह जीवस्थानोंमें यानी अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय, पर्याप्त बादर एकेन्द्रिय, अपर्याप्त तथा पर्याप्त द्वीन्द्रिय, अपर्याप्त और पर्याप्त त्रीन्द्रिय, अपर्याप्त तथा पर्याप्त चतुरिन्द्रिय और अपर्याप्त तथा पर्याप्त असंज्ञि पञ्चेन्द्रियोंमें कृष्ण, नील और कापोत लेश्याएँ होती हैं ।

कृष्ण आदि तीन लेश्यायें सब एकेन्द्रियोंके लिये साधारण हैं । किन्तु अपर्याप्त बादर एकेन्द्रियमें इतनी विशेषता है कि उसमें तेजों क्षेश्या भी पाई जाती है, क्योंकि तेजों लेश्या-बाले ज्योतिषी आदि देव जब उसी लेश्यामें भरते हैं और बाहर पृथ्वीकाय, जलकाय या वनस्पतिकायमें जन्म लेते हैं, तब उन्हें अपर्याप्त अवस्थामें भी तेजों लेश्या होती है ।

यह नियम है कि जीव जिस लेश्यामें भरता है अर्थात् मृत्यु प्राप्त करता है, जन्म लेते समय भी उसके वही लेश्या होती है॥ ।

अपर्याप्त और पर्याप्तका अर्थ—

१—जो जीव अपर्याप्त नाम कर्मके उदयसे पूर्ण इन्द्रियों प्राप्त करनेसे पूर्व अर्थात् पेश्तर ही मृत्युको प्राप्त होता है, उसे 'अपर्याप्त'जीव कहते हैं ।

२—जो जीव पर्याप्त नाम कर्मके उदयसे पूर्ण इन्द्रियों प्राप्त करनेके बाद मृत्युको प्राप्त होता है, उसे 'पर्याप्त' जीव कहते हैं ।

योगोंका लेश्याओंके साथ सम्बन्ध

जिस प्रकार एक पक्षे तालावमें भोरियों द्वारा पानी आया करता है, उसी प्रकार आत्मारूपी तालावमें योगरूपी नालियों द्वारा लेश्यारूप निर्मल और गदला जल आया करता है । ये योगरूपी नालियों पन्द्रह प्रकारकी होती हैं ।

चार मनकी, चार बचनकी और 'सात कायकी । इनमेंसे कुछ वे द्वार हैं, जिनके जरियेसे स्वच्छ जल अथवा शुभ लेश्या, और कुछ वे द्वार हैं, जिनके जरियेसे गदला जल अथवा अशुभ लेश्यारूपी जल आया करता है, वे निम्न प्रकार हैं—

॥ मृत्युके प्राय अन्तसु हृतं पहिले नूतन जन्मसम्बन्धी लेश्या प्राप्त हो जाती है ।

योग	शुभ	अशुभ	अशुभ	शुभ
मन	सत्य मनो योग	असत्य मनोयोग	मिश्र मनोयोग	व्यवहार मनो योग
वचन	सत्य वचन योग	असत्य वचनयोग	मिश्र वचन योग	व्यवहार वचन योग
काय	थौदारिक काय योग	वैक्रियिक काय योग	आहारिक काय योग	कार्मण काय योग
	थौदारिक काय मिश्र योग	वैक्रियिक काय मिश्र योग	आहारिक मिश्र योग	

इस कारण भव्य प्राणियोंको अशुभ योगोंको त्यागना चाहिये और शुभ योगोंको ग्रहण करना चाहिये ।

दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जो अपने मनुष्य-जन्मको सफल बनाना चाहते हैं अर्थात् कर्म बन्धनोंसे छूटना चाहते हैं, उनको शुरुकी तीन लेश्याएँ यानी कृष्ण, नील और कापोत अथवा हिंसा, निर्दयता, दुष्परिणामता, ईर्ष्या, माया, कपट, लम्पटता, धोखा, भूठ, चोरी, मिथ्यात्व, नास्तिकता आदि अशुभ बातोंको छोड़ना चाहिये । और तेजो, पद्म और शुक्र अथवा नम्रता, सरलता, सत्यता, अकपायपना, शान्ति, राग-द्वेष रहितता, सयम, सम्यक्त्व, आदि शुभ गुणों सहित होना चाहिये ।

गुणस्थान अधिकार

जैन दर्शन आस्तिक हैं अर्थात् आत्मा, उसका पुनर्जननेवाले हैं, उन सबोंमें किसी-न किसी रूपमें आत्माके क्रमिक विचासका विचार पाया जाना स्वभाविक है। अतएव धार्यावर्त्त के जैन, वैदिक और बौद्ध इन तीनों प्राचीन दर्शनोंमें उक्त प्रकार का विचार पाया जाता है। यह विचार जैन दर्शनमें गुणस्थानके नामसे, वैदिक-दर्शनमें भूमिकाओंके नामसे और बौद्ध-दर्शनमें अवस्थाओंके नामसे प्रसिद्ध है।

गुणस्थानका विचार जैसा जैन दर्शनमें सूक्ष्म तथा विस्तृत वैसा अन्य दर्शनोंमें नहीं है, तो भी उक्त तीनों दर्शनोंकी उस विचारके सम्बन्धोंमें बहुत समता है अर्थात् सकेत, वर्णनशैली आदिकी भिन्नता होनेपर भी वस्तु तत्त्वके विषयमें तीनों दर्शनोंका प्रेद नहींके बराबर है। वैदिक-दर्शनके योगवशिष्ठ, पातञ्जलियोग आदि ग्रन्थोंमें आत्माकी भूमिकाओंका अच्छा विचार है।

गुणस्थानोंका स्वरूप

गुणों (आत्मशक्तियों) के स्थानको अर्थात् विचासकी क्रमिक अवस्थाओंको 'गुणस्थान' कहते हैं। दूसरे शब्दोंमें ये कहना चाहिये कि मोह और योगके निमित्तसे सम्यक्ष्मान,

सम्यग्दर्शन और सम्यक् चरित्र रूप आत्माके गुणोंकी तारतम्य रूप (हीनाधिकतारूप) अवस्था विशेषको 'गुणस्थान' कहते हैं। जैन शास्त्रमें गुणस्थान इस पारिभाषिक शब्दका मतलब आत्मिक शक्तियोंके आविर्भावकी—उनके शुद्ध कार्यरूपमें परिणत होते रहनेकी तर तम भावापन्न अवस्थाओंसे है। पर आत्माका वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना और पूर्णानन्दभय है। उसके ऊपर जब तक तीव्र आवरणोंके घने बादलोंकी घटा छाई हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किन्तु आवरणोंके क्रमशः शिथिल या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होजाता है। जब आवरणोंकी तीव्रता आखिरी हड्डीकी हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्थामें—अविकसित अवस्थामें पड़ी रहती है—और जब आवरण बिलकुल ही नष्ट होजाते हैं तब आत्मा चरम अवस्था—शुद्ध स्वरूपकी पूर्णतामें वर्तमान होजाता है। जैसे जैसे आवरणोंकी तीव्रता कम होती जाती है, वैसे-वैसे आत्माकी प्राथमिक अवस्थाको छोड़कर धीरे-धीरे शुद्ध स्वरूपका लाभ करता हुआ चरम अवस्थाकी ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थानके समय इन दो अवस्थाओंके बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अवस्थाओंका अनुभव करना पड़ता है। प्रथम अवस्थाको अविकासकी अथवा अध पतनकी पराकाष्ठा और चरम अवस्था को विकासकी अथवा उत्कान्तिकी पराकाष्ठा समझना चाहिये। इस विकास-क्रमकी मध्यवर्तीनी सब अवस्थाओंको अपेक्षासे

उच्च भी कह सकते हैं और नीच भी। अर्थात् मध्यवर्तीनी कोई भी अवस्था अपनेसे ऊपर बाली अवस्थाकी अपेक्षा नीच और नीचे बाली अवस्थाकी अपेक्षा उच्च कही जा सकती है। विकास-की ओर। अग्रसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकारकी सख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओंका अनुभव करता है। पर जैनशास्त्रमें सहेपमें वर्णीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो कि चौदह गुणस्थान कहलाते हैं।

सब आवरणोंमें मोहका आवरण प्रधान है अर्थात् जब तक मोह बलवान् और तीव्र है, तब तक अन्य सभी आवरण बल-वान् और तीव्र बने रहते हैं। इसके विपरीत मोहके निर्वल होते ही अन्य आवरणोंकी वैसी ही दशा हो जाती है। इस लिये आत्माके विकास करनेमें मुख्य वाधक मोहकी प्रबलता और मुख्य सहायक मोहकी निर्वलता समझनी चाहिये। इसी कारण गुणस्थानोंकी विकास-क्रमनात् अवस्थाओंकी कल्पना मोह शक्तिकी उत्कटता, मन्दता तथा अभावपर अवलम्बित है।

मोहकी प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमेंसे पहली शक्ति, आत्मा को दर्शन अर्थात् स्वरूप पररूपका निर्णय किया जड़ चेतनका विभाग या विवेक करने नहीं देती, और दूसरी शक्ति आत्माको विवेक प्राप्त कर लेनेपर भी तदनुसार प्रवृत्ति अर्थात् अभ्यास—परपरिणतिसे छूट कर स्वरूपलाभ नहीं करने देती। व्यवहारमें पग पगपर यह देखा जाता है कि किसी वस्तुका यथार्थ

दर्शन—बोध कर लेनेपर ही उस वस्तुको पाने या त्यागनेकी चेष्टा की जाती है और वह सफल भी होती है। आध्यात्मिक-विकास-गामी आत्माकेलिये भी मुख्य दो ही कार्य हैं। पहिला-स्वरूप तथा पररूपका यथार्थ दर्शन किंवा भेदज्ञान करना और दूसरा स्वरूपमें स्थित होना। इनमेंसे पहिले कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति जैनशास्त्रमें 'दर्शनमोह' और दूसरे कार्यको रोकनेवाली मोहकी शक्ति 'चरित्रमोह' कहलाती है। दूसरी शक्ति पहिली शक्तिकी अनुगामिनी है अर्थात् पहली शक्ति प्रबल हो, तब तक दूसरी शक्तिके कभी निवृत्त नहीं होती, और पहिली शक्तिके मन्द, मन्दवर, और मन्दतम होते ही दूसरी शक्तिभी क्रमशः वैसी ही होने लगती है अथवा यों कहिये कि एक बार आत्मा स्वरूप-दर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करनेका मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।

अविकसित किंवा सर्वथा अध पतित आत्माकी अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमें मोहकी उक्त दोनों शक्तियोंके प्रबल होनेके कारण आत्माकी आध्यात्मिक-स्थिति बिलकुल गई हुई सी होती है। इस भूमिकाके समय आत्मा चाहे कितनी ही आधि-भौतिक उन्नति क्यों न कर ले, पर उसकी प्रवृत्ति तात्त्विक लक्ष्यसे सर्वथा शून्य होती है। जैसे दिग्भ्रमवाला मनुष्य पूर्वको पश्चिम समझ कर गति करता है और अपने इष्टस्थानको नहीं पहुँचता, उसका सारा श्रम एक तरहसे वृथा हो जाता है। वैसे ही प्रथम भूमिकावाला आत्मा पररूपको स्वरूप समझ कर उसीको पानेके

इस समय आत्मा न तो तत्त्वज्ञानकी निश्चित भूमिकापर है और न तत्त्वज्ञान-शून्य भूमिकापर है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियोंसे खिसक कर जब तक ज़मीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक वीचमें एक विलक्षण अवस्थाका अनुभव करता है।

तीसरा गुणस्थान आत्माकी उस मिश्रित अवस्थाका नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि है और न केवल मिथ्या दृष्टि, किन्तु आत्मा उसमें डोलायमान आध्यात्मिक स्थितिवाला जाना जाता है। अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होनेके कारण सन्देहशील होती है अर्थात् उसके सामने जो कुछ आया, वह सब सच है, न तो वह तत्त्वको एकान्त अतत्त्व रूपसे ही जानती है और न तत्त्व-अतत्त्वका वास्तविक पूर्ण विवेक ही कर सकती है। कोई उत्क्रान्ति करनेवाली आत्मा प्रथम गुणस्थानसे निकल कर सीधे ही तीसरे गुणस्थानको प्राप्त कर सकती है और कोई अपक्रान्ति करनेवाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थानसे गिरकर तीसरे गुणस्थानको प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करनेवाली और अपक्रान्ति करनेवाली-दोनों प्रकारकी आत्माओं का आश्रय स्थान तीसरा गुणस्थान है। यही तीसरे गुणस्थानकी दूसरे गुणस्थानसे विशेषता है।

- इस अवस्थामें विकासगामी आत्मा (आत्म) स्वरूपका मान करने लगता है अर्थात् उसकी जो अब तक पररूपमें

स्वरूपकी आन्ति थी, वह दूर हो जाती है। अतएव उसके प्रयत्नकी गति उलटी न होकर सीधी हो जाती है अर्थात् वह विदेशी वनकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यका वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैनशास्त्रमें 'अन्तरात्म-भाव' कहते हैं व्योंकि इस स्थितिको प्राप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान सूक्ष्म और सहज शुद्ध परमात्म-भावको देखने लगती है। यह दशा विकाश क्रमकी चतुर्थ भूमिका किंवा चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करती है। इस भूमिकामें आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ होनेके कारण आत्मा, विपर्यास-रहित होती है। जिसको जैनशास्त्रमें 'सम्यग्दृष्टि' किंवा 'सम्यक्त्व' कहा है।

चतुर्थसे आगेकी अर्थात् पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ सम्यग्दृष्टि वाली ही समझनी चाहिए, व्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टिकी शुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थानमें स्वरूप-दर्शन करनेसे आत्माको अपूर्व शक्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य विपयक भ्रम दूर हुआ अर्थात् अब तक जिस पौद्गलिक व वाणि सुप्तको मैं तरस रहा था, वह मिथ्या है। इस प्रकार समझने लगता है।

मोहकी प्रधान शक्ति दर्शनमोहको शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर लेनेके घाद भी जब तक उसकी दूसरी शक्ति चारित्र मोहको शिथिल न किया जाय, तब तक स्वरूपन्लाभ किंवा

उस समय आत्मा न तो तत्त्वज्ञानकी निश्चित भूमिकापर है और न तत्त्वज्ञान-शून्य भूमिकापर है। अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियोंसे खिसक कर जब तक जमीनपर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीचमें एक विलक्षण अवस्थाका अनुभव करता है।

तीसरा गुणस्थान आत्माकी उस मिश्रित अवस्थाका नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि है, और न केवल मिथ्या दृष्टि, किन्तु आत्मा उसमें डोलायमान आध्यात्मिक स्थितिवाला जाना जाता है। अतएव उसकी बुद्धि त्वाधीन न होनेके कारण सन्देहशील होती है अर्थात् उसके सामने जो कुछ आया, वह सब सच है, न तो वह तत्त्वको एकान्त अतत्त्व रूपसे ही जानती है और न तत्त्व-अतत्त्वका वास्तविक पूर्ण विवेक ही कर सकती है। कोई उत्क्रान्ति करनेवाली आत्मा प्रथम गुणस्थानसे निकल कर सीधे ही तीसरे गुणस्थानको प्राप्त कर सकती है और कोई अपक्रान्ति करनेवाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थानसे गिरकर तीसरे गुणस्थानको प्राप्त करता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करनेवाली और अपक्रान्ति करनेवाली-दोनों प्रकारकी आत्माओं का आश्रय स्थान तीसरा गुणस्थान है। यही तीसरे गुणस्थानकी दूसरे गुणस्थानसे विशेषता है।

इस अवस्थामें विकासगामी आत्मा (आत्म) स्वरूपका मान करने लगता है अर्थात् उसकी जो अब तक पररूपमें

स्वरूपकी श्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। अतएव उसके प्रयत्नकी गति उलटी न होकर सीधी हो जाती है अर्थात् वह वियेकी घनकर कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यका वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशाको जैनशास्त्रमें 'अन्तरात्म-भाव' कहते हैं यद्योंकि इस स्थितिको प्राप्त करके विकासगमी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान सूक्ष्म और सहज शुद्ध परमात्म-भावको देखने लगती है। यह दशा विकाश-क्रमकी चतुर्थ भूमिका किंवा चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले पहल आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करती है। इस भूमिकामें आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ होनेके कारण आत्मा, विपर्यास-रद्दित होती है। जिसको जैनशास्त्रमें 'सम्यग्दृष्टि' किंवा 'सम्यक्त्व' कहा है।

चतुर्थसे आगेकी अर्थात् पञ्चमी आदि सब भूमिकाएँ सम्यग्दृष्टि वाली ही समझनी चाहिए, यद्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टिकी शुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थानमें स्वरूप-दर्शन करनेसे आत्माको अपूर्व शक्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य विप्रयक ऋम दूर हुआ अर्थात् अब तक जिस पौद्वगलिक व वाणि सुखको मैं तरस रहा था, वह मिथ्या है। इस प्रकार समझने लगता है।

मोहकी प्रधान शक्ति दर्शनमोहको शिथिल करके स्वरूप-दर्शन कर लेनेके बाद भी जब तक उसकी दूसरी शक्ति चारित्र-मोहको शिथिल न किया जाय, तब तक स्वरूप लाभ किंवा

स्वरूप-स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्ति को मन्द करनेकेलिए प्रयास करती है। जब वह उस शक्तिको अशत शिथिल कर पाती है, तब उसकी और भी उत्कान्ति हो जाती है। जिसमे अशतः, स्वरूप-स्थिरता या परिस्थिति-न्त्याग होनेसे चतुर्थ भूमिकाकी अपेक्षा अधिक 'शान्ति लाभ' होता है। यह 'देशविरति' नामका पाँचवाँ गुणस्थान है।

इस गुणस्थानमें विकासगामी आत्माको यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प-विरतिसे ही इतना अधिक शान्ति-लाभ हुआ तो फिर सर्वविरति—जड भावोंके सर्वथा परिहारसे कितना शान्ति-लाभ न होगा। इस विचारसे प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अनुभवसे बलवान् होकर वह विकास-गामी आत्मा चारित्रमोहको अधिकांशमें शिथिल करके पहलेकी अपेक्षा भी अधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरूप-लाभ प्राप्त करनेकी चेष्टा करती है। इस चेष्टामें कृतकृत्य होते ही उसे सर्व विरति समय प्राप्त होता है। जिसमें पौदगलिक भावोपर मूर्छा बिलकुल नहीं रहती और उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करने के काममें ही खर्च होता है। यह 'सर्वविरति' नामका छठा गुण-स्थान है। इसमें आत्म-कल्याणके अतिरिक्त लोक-कल्याणकी भावना और तदनुकूल प्रवृत्ति भी होती है, जिससे कभी-कभी थोड़ी बहुत मात्रामें प्रभाद आ जाता है। पाँचवें गुणस्थानकी अपेक्षा इस छठे गुणस्थानमें स्वरूप-अभिव्यक्ति अधिक होनेके

कारण यद्यपि विकासगामी आत्माको आध्यात्मिक शान्ति पहलेसे अधिक ही मिलती है तथापि वीच वीचमे अनेक प्रमाद उसे शान्ति-अनुभवमे धार्घाएँ पहुँचाते रहते हैं।

शान्ति अनुभवमें जो वीच-वीचमे अनेक प्रमाद उसको धार्घा पहुँचाते हैं, उनको वह सहन नहीं कर सकती। अतएव सर्व-विरति-जनित शान्तिके साथ अप्रमाद जनित विशिष्ट शान्तिका अनुभव करनेकी प्रवल लालसासे प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमादका त्याग करती है और स्वरूपकी अभिव्यक्तिके अनुकूल मनन चिन्तनके सिवाय अन्य सब व्यापारोंका त्यागकर देती है। यही 'अप्रभृतसयत' नामक सातवाँ गुणस्थान है। इसमें एक और अप्रमाद-जन्य उत्कट सुखका अनुभव आत्माको उस स्थितिमें बने रहनेकेलिये उत्तेजित करता है और दूसरी और प्रमाद जन्य पूर्व वासनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। इस खींचातानीमे विकासगामी आत्मा कभी प्रमादकी तन्द्रा और कभी अप्रमादकी जापति अर्थात् छठे और सातवें गुणस्थानमे अनेक बार जाती आती रहती है। जिस प्रकार भौवरमे पड़ा हुआ तिनका इधरसे उधर और उधरसे इधर चलायमान होता रहता है, उसी प्रकार छठे और सातवें गुणस्थानके समय विकासगामी आत्मा अनवस्थितसी बन जाती है।

प्रमादके साथ होनेवाले इस आन्तरिक युद्धके समय विकास-गामी आत्मा यदि अपना चरित्र-बल विशेष प्रकाशित करती है

स्वरूप-स्थिति नहीं हो सकती। इसलिये वह मोहकी दूसरी शक्ति को मन्द करनेकेलिए प्रयास करती है। जब वह उस शक्तिको अशत शिथिल कर पाती है, तब उसकी और भी उल्कान्ति हो जाती है। जिसमें अशतः स्वरूप-स्थिरता या परिस्थिति-त्याग होनेसे चतुर्थ भूमिकाकी अपेक्षा अधिक शान्ति-लाभ होता है। यह 'देशविरति' नामका पाँचवाँ गुणस्थान है।

इस गुणस्थानमें विकासगामी आत्माको यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प-विरतिसे ही इतना अधिक शान्ति-लाभ हुआ तो फिर सर्वविरति—जड भावोके सर्वथा परिहारसे कितना शान्ति-लाभ न होगा। इस विचारसे प्रेरित होकर व प्राप्त आध्यात्मिक शान्तिके अनुभवसे बलवान् होकर वह विकास-गामी आत्मा चारित्रमोहको अधिकांशमें शिथिल करके पहलेकी अपेक्षा भी अधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरूप-लाभ प्राप्त करनेकी चेष्टा करती है। इस चेष्टामें कृतकृत्य होते, ही उसे सर्व विरति समय प्राप्त होता है। जिसमें पौद्रगतिक भावोपर मूच्छ्र्द्धा बिलकुल नहीं रहती और उसका सारा समय स्वरूपकी अभिव्यक्ति करने के काममें ही खर्च होता है। यह 'सर्वविरति' नामका छठा गुण-स्थान है। इसमें आत्म-कल्याणके अतिरिक्त लोक-कल्याणकी भावना और तदनुकूल प्रवृत्ति भी होती है, जिससे कभी-कभी थोड़ी-वहुत मात्रामें प्रसाद आ जाता है। पाँचवें गुणस्थानकी अपेक्षा इस छठे गुणस्थानमें, स्वरूप-अभिव्यक्ति अधिक होनेके

दूसरी श्रेणीवाली आत्माएँ मोहको क्रमशः निर्मूल करते-करते अन्तमें उसे सर्वथा निर्मूल कर ही डालती हैं। सर्वथा निर्मूल करनेकी जो उच्च भूमिका है वही धारहवाँ गुणस्थान है। इस गुणस्थानके पाने तकमें अर्थात् मोहको सर्वथा निर्मूल करनेसे पहिले बीचमें नौवाँ और दसवाँ गुणस्थान आत्माको प्राप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार देराजा जाय तो चाहे आत्मा पहिली श्रेणी चढ़े चाहे दूसरी श्रेणी चढ़े, पर वे सब नौवाँ दसवाँ गुणस्थान प्राप्त करती ही हैं। दोनों श्रेणीवाली आत्माओंमें अन्तर इतना ही होता है कि प्रथम श्रेणीवालोंकी अपेक्षा दूसरी श्रेणीवालोंमें आत्म-शुद्धि व आत्मवल विशिष्ट प्रकारका पाया जाता है। जैसे कि किसी एक दर्जेके विद्यार्थी भी दो प्रकारके होते हैं। एक प्रकारके तो ऐसे होते हैं जो सौ कोशिश करनेपर भी एक वारगी अपनी परीक्षामें पास होकर आगे नहीं बढ़ सकते। पर दूसरे प्रकारके विद्यार्थी अपनी योग्यताके बलसे सब कठिनाइयोंको पार कर उम कठिनतम परीक्षाको घेघड़क पास कर ही लेरे हैं। उन दोनों दलके उस अन्तरका कारण उनकी आन्तरिक योग्यताकी न्यूनाधिकता है। वैसे ही नौवें तथा दसवें गुणस्थानको प्राप्त करनेवाली उक्त दोनों श्रेणिगामी आत्माओंकी आध्यात्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक होती है जिसके कारण एक श्रेणीवाले जीव तो दसवें गुणस्थानको पाकर अन्तमें ग्यारहवें गुणस्थानमें मोहसे हार पाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेणीवाले जीव दसवें गुणस्थानको पाकर इतना अधिक

तो फिर वह प्रमादों—प्रलोभनोंको पारकर विशेष अप्रमत्त-अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस अवस्थाको पाकर वह ऐसी शक्ति-वृद्धिकी तैयारी करती है कि जिससे शेष रहे-सहे मोहब्लको नष्ट किया जा सके। मोहके साथ होनेवाले भावी युद्धकेलिये की जानेवाली तैयारीकी इस भूमिको आठवाँ गुणस्थान कहते हैं।

आठवें गुणस्थानसे आगे घड़नेवाली आत्मायें दो श्रेणियोंमें विभक्त हो जाती हैं। एक श्रेणीवाली तो ऐसी होती हैं जो मोहको एक बार सर्वथा दबा लेती हैं, पर उसे निर्मूल नहीं कर पाती। अतएव जिस प्रकार किसी घर्तनमें भरी हुई भाप कभी-कभी अपने वेगसे ढक्कनको नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार राखके नीचे दबी हुई अग्नि हवाका झकोरा लगनेसे अपना कार्य करने लगती है, उसी प्रकार पहिले दबा हुआ मोह आन्तरिक युद्धमें थकी हुई उन प्रथम श्रेणीवाले आत्माओंको अपने वेगसे नीचे पटक देता है। एक बार सर्वथा दबाये जानेपर भी मोह, जिस भूमिकासे आत्माको हार दिलाकर नीचेकी ओर पटकता है वही ग्यारहवाँ गुणस्थान है। मोहको क्रमशः दबाते-दबाते सर्वथा दबाने तकमें आत्माको उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्धतावाली दो भूमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं, जो नौवाँ तथा दसवाँ गुणस्थान 'कहलाता है। ग्यारहवाँ गुणस्थान अघ पतनका गुणस्थान है, क्योंकि उसे पानेवाली आत्मा आगे न चढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरती है।

व्यवहारमें अर्थात् आधिभौतिक ज्ञेयमें भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके हरानेवाले शत्रुको फिरसे हरा सकता है।

परमात्म भावका स्वराज्य प्राप्त करनेमें मुख्य वाधक मोह है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्मभावके विशिष्ट विकासपर निर्भर है। मोहका सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैनशास्त्रमें 'धातिकर्म' कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापतिके मारे जाने के बाद अनुगामी सैनिकोंकी तरह एक साथ तितर-वितर हो जाते हैं। फिर क्या देरी, विकासगामी आत्मा तुरन्त ही परमात्म-भावका पूर्ण आध्यात्मिक स्वराज्य पाकर अर्थात् सचिदानन्द स्वरूपको पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय ज्ञान, चारित्र आदिका लाभ करता है तथा अनिर्वचनीय स्यामाविक सुखका अनुभव करता है। जैसे पूर्णिमाकी रातमें निरध्रु चन्द्रकी सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही उस समय आत्माकी चेतना आदि सभी मुख्य शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस भूमिकाको जैनशास्त्रोंमें तेरहवाँ गुणस्थान कहा है।

इस गुणस्थानमें चिरकाल तक रहनेके बाद आत्मा दग्ध रज्जुके समान शेष आवरणोंकी अर्थात् अप्रधानभूत अधाति कर्मोंको उड़ाकर फेंक देनेकेलिए 'सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति शुक्ल ध्यान' रूप पवनका आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापारोंको सर्वथा रोक देती है। यही आध्यात्मिक विकासकी

‘आत्म-बल प्रकट करते हैं कि अन्तमें वे मोहको सर्वथा ज्ञाण कर बारहवें गुणस्थानको प्राप्त कर ही लेते हैं।

जैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान अवश्य ‘पुनरावृत्तिका है, वैसे ही बारहवाँ गुणस्थान अपुनरावृत्तिका है। अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थानको पानेवाली आत्मा एक बार उससे अवश्य गिरती है और बारहवें गुणस्थानको पानेवाली उससे कदापि नहीं गिरती, बलिक ऊपरको ही चढ़ती है। किसी एक परीक्षामें नहीं पास होनेवाला विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रतासे योग्यता बढ़ा कर फिर उस परीक्षाको पास कर लेते हैं, उसी प्रकर एक बार मोहसे हार खानेवाली आत्माको अप्रमत्त-भाव व आत्म-बलकी अधिकतासे फिर मोहको अवश्य ज्ञाण कर देती है। उक्त दो श्रेणीवाली आत्माओंकी तरन्तम-भावापन्न आध्यात्मिक विशुद्धि, मानो परमात्मभाव-रूप सर्वांश्च भूमिकापर चढ़नेकी दो नसेनियाँ हैं। जिनमेंसे एकको जैनशास्त्रमें ‘उपशम श्रेणी’ और दूसरीको ‘ज्ञपक श्रेणी’ कहा है। पहिली कुछ दूर चढ़ाकर गिरनेवाली और दूसरी चढ़ानेवाली है। पहिली श्रेणीसे गिरनेवाला जीव आध्यात्मिक अध्यपतनके द्वारा चाहे प्रथम गुणस्थान तक क्यों न चला जाय, पर उसकी वह अध्य पतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी न कभी वह फिर दूने बलसे और दूनी सावधानीसे तैयार होकर मोह शत्रुका सामना करता है और अन्तमें दूसरी श्रेणीकी योग्यता प्राप्त कर मोहका सर्वथा ज्ञाय कर डालता है।

शिथिल, शिथिलतर, शिथिलतम् घन जाता है, जिसके कारण उसकी दृष्टि पौद्वगलिक विलासोंकी ओरसे हटकर शुद्ध स्वरूप की ओर लग जाती है। इसीसे उसकी दृष्टिमें शरीर आदिकी जीर्णता व नवीनता अपनी अर्थात् आत्माकी जीर्णता व नवीनता नहीं है। यह दूसरी अवस्था ही तीसरी अवस्थाका दृढ़ सोपान है।

३—तीसरी अवस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप प्रकट हो जाता है अर्थात् उसके ऊपरके धने आवरण विलक्षुल विलीन हो जाते हैं।

निम्नलिखित गुणस्थान इन तीन आत्माओंमें पाये जाते हैं—

पहिला, दूसरा और तीसरा गुणस्थान बहिरात्म अवस्था का चिन्हण है। चौथेसे बारहवें तकके गुणस्थान अन्तरात्म-अवस्थाका दिग्दर्शन है और तेरहवें-चौदहवें गुणस्थान परमात्म-अवस्थाका वर्णन है।

गुणस्थानोंका संक्षेपमें वर्णन

पूर्व-पूर्व गुणस्थानकी अपेक्षा उत्तर उत्तर गुणस्थानमें ज्ञान आदि गुणोंकी शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि घटती जाती है। अतएव आगे आगेके गुणस्थानोंमें अशुभ प्रकृतयोंकी अपेक्षा शुभ प्रकृतियाँ अधिक बाँधी जाती हैं और अशुभ प्रकृतियोंका बन्धन कमशा रुकता जाता है।

पराकाष्ठा किंवा चौदहवाँ गुणस्थान है। इसमें आत्मा 'समुच्छिन्न-क्रियाप्रतिपाति शुल्घ्यान' द्वारा सुमेरुकी तरह निष्प्रकम्प स्थिति को प्राप्त करके अन्तमें शरीरत्याग-पूर्वक व्यवहार और परमार्थ दृष्टिसे लोकोत्तर स्थानको प्राप्त करता है। यही तिर्गुण ब्रह्म-स्थिति है, यही सर्वाङ्गीण पूर्णता है, यही पूर्ण कृतकृत्यता है, यही परम पुरुषार्थकी अन्तिम सिद्धि है और यही अपुनरावृत्ति स्थान है। क्योंकि ससारका एक मात्र कारण मोह है, जिसके सब संस्कारोंका निशेष नाश हो जानेके कारण अब उपाधिका संभव नहीं है।

ऊपर आत्माकी जिन चौदह अवस्थाओंका विचार किया है उनका तथा उनके अन्तर्गत—अवान्तर सख्यातीत अवस्थाओंका बहुत सचेप (मुख्तसर) में वर्णिकरण करके शास्त्रकारोंने शरीर धारी आत्माकी सिर्फ तीन अवस्थाएँ बतलाई हैं—

१—घटिरात्म-अवस्था २—अन्तरात्म-अवस्था और ३—
परमात्म-अवस्था ।

१—पहिली अवस्थामें आत्माका वास्तविक विशुद्ध रूप अत्यन्त आच्छादित रहता है, जिसके कारण आत्मा मिथ्याध्यास वाला होकर पौद्गलिक विलासोंको ही सर्वस्व मान लेता है और उन्हींकी प्राप्तिकेलिये सम्पूर्ण शक्तिका व्यय करता है।

२—दूसरी अवस्थामें आत्माका वास्तविक स्वरूप पूर्णतया तो प्रकट नहीं होता, पर उसके ऊपरका आवरण गाढ़ा न होकर

कर लेता है, वह अपने अनन्त ससारका अन्त कर सिर्फ़ अर्ध-पुद्गलपरावर्तन ससार भोगना वाकी रखता है।'

३—तीसरा गुणस्थान—जब जीव न केवल सम्यक्‌दृष्टि है और न केवल मिथ्यादृष्टि है अर्थात् सदेहशील है, ऐसी अवस्था में वह इस गुणस्थानमें होता है। इसकी स्थिति कुछ दूसरे गुणस्थानसे अच्छी होती है। इस गुणस्थानवाला जीव कुछ कम अर्ध-पुद्गलपरावर्तन ससार भोगना वाकी रखता है।

४—चौथा गुणस्थान—इस गुणस्थानमें जीव सम्यक्‌दृष्टि तो होता है पर अब्रती होता है अर्थात् सुदेव, सुगुरु और सुधर्मपर श्रद्धाव प्रतीति रखता है, बीतराग धर्म सज्जा मानता है और चार तीर्थकी भक्ति करता है, पर ब्रत त्याग वगैर नहीं करता है। अगर इस गुणस्थानमें आनेसे पेश्तर आयुका वन्धु न पड़ा हो तो नरक, तिर्यंच, भवनपति, बाणव्यन्तर, व्योतिषी, खी और नपु-सक नहीं होता अर्थात् अच्छी योनिको प्राप्त करता है।

५—पाँचवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें जीव सम्यक्‌दृष्टि होता है और त्याग, प्रत्याख्यान व वपस्या वगैर भी करता है। यह गुणस्थान श्रावकका है। इस अवस्थावाला जीव जघन्य तीन और उत्कृष्ट पन्द्रह भव फरके अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है।

६—छठा गुणस्थान—यह गुणस्थान उन साधुओं व मुनियों को प्राप्त होता है जिन्होंकी कपाय, घपलता व प्रमाद मन्द नहीं

गुणस्थानका अर्थ

मोह और योगके निमित्तसे सम्यग्ज्ञान, सम्यगदर्शन और सम्यगचारित्ररूप आत्माके गुणोंकी तारतम्यरूप (हीनाधिकतारूप) अवस्था-विशेषको गुणस्थान कहते हैं।

चौदह गुणस्थानोंके नाम

१—मिथ्यादृष्टि, २—शास्वादन सम्यकदृष्टि, ३—सम्यग्-
मिथ्यादृष्टि मिश्र, ४—अविरति सम्यग्दृष्टि, ५—देशविरत, ६—
प्रमत्तसयम, ७—अप्रमत्तसयम, ८—निवृत्त अपूर्वकरण, ९—
अनिवृत्ति बादरसम्पराय, १०—सूक्ष्मसम्पराय, ११—उपशान्त
कपाय वीतरागछङ्गस्थ, १२—ज्ञीणकपाय वीतरागछङ्गस्थ,
१३—सयोगी केवली और १४—अयोगी केवली गुणस्थान।

१—पहिला गुणस्थान ससारके समस्त अध्य पतित आत्माओं
में पाया जाता है अर्थात् नरक, तिर्यच मनुष्य और देवगतिमें भी
पाया जाता है या चों कहना चाहिये कि मिथ्यात्वी जीवभावमें
पाया जाता है। इस गुणस्थानका जीव अनन्त समय तक
भ्रमण करता रहता है।

२—दूसरा गुणस्थान—सम्यग्दृष्टिसे मिथ्यादृष्टिमें आनेमें
जितना अल्प से-अल्प समय लगता है, उस समयमें जीव इस
गुणस्थान-अवस्थामें रहता है। जो जीव इस गुणस्थानको स्पर्श

जाते हैं। इन गुणस्थानोंवाले मुनि कम से कम एक भवमें और ज्यादा से ज्यादा तीन भवमें भोक्त्र प्राप्त करते हैं।

११—यारहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मोह-प्रकृति उबल पड़ती है। जिसका परिणाम यह होता है कि मुनि एक नीची अवस्थाको प्राप्त करते हैं। और अगर नीची अवस्था प्राप्त कर लेनेके पेरेटर इस गुणस्थानमें मृत्यु हो जाती है तो अनुत्तरविमान में पैदा होते हैं।

१२—यारहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मुनि मोह-प्रकृतियोंको सर्वथा निर्मूल कर डालते हैं। इस अवस्थामें मुनि ज्ञायिक भाव, ज्ञायिक सम्यक्त्व और ज्ञायिक यथात्यात चारित्र प्राप्त करते हैं। इनके अलावा भाव सत्य, कारण सत्य, अकपार्यी, धीतरागी, भाव निर्वन्ध आदि गुणोंको प्राप्त करते हैं और महा ध्यानी, महाज्ञानी होकर अन्तर्मुहूर्त इस गुणस्थानमें रहकर तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त करते हैं। इस गुणस्थानके आखिरी समयमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मोंका ज्ञय करके तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त करते हैं। इस गुणस्थानमें मृत्यु नहीं होती है।

१३—तेरहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मुनिको केवल-ज्ञान, केवलदर्शन आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है। इस अवस्थामें मुनि कम से कम एक अन्तर्मुहूर्त और ज्यादा-से-ज्यादा कुछ कम

हुआ है पर वे मुनियोंकी क्रिया ठीक ठीक पालते हैं। इस गुण स्थानवाले मुनि जघन्य उसी भवमें और उत्कृष्ट तीन तथा पन्द्रह भवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं।

७—सातवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानको वे मुनि प्राप्त करते हैं जिन्होंने भद्र, विषय, कपाय, निन्दा, विकथा आदि दूर कर दी हैं अर्थात् निर्मल और स्वच्छ साधुपना पालते हैं। इस गुणस्थान वाले मुनि ज्यादा-से-ज्यादा तीन भवमें और कम-से-कम उसी भवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं।

८—आठवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानसे मुनिका मोह जो बड़ा बलिष्ठ और प्रबल कर्म है उसके साथ युद्ध शुरू हो जाता है। जो मुनि मोहको दबा तो लेते हैं पर सर्वथा निर्मूल नहीं कर पाते हैं वे नौवें तथा दसवें गुणस्थानको प्राप्त करते हुए ग्यारहवें गुण स्थानको प्राप्त कर लेते हैं और वहाँ जाकर उनका दबा हुआ मोह मानिन्द दबी भाफके उमड़ पड़ता है और वे मुनि नीची अवस्था में गिर जाते हैं। पर जो मुनि मोहको सर्वथा निर्मूल करते चले जाते हैं वे नौवें तथा दसवेंमें होते हुये और ग्यारहवेंको छोड़ते हुये बारहवें गुणस्थानको प्राप्त कर लेते हैं। वहाँसे वे ऊपरके गुण-स्थानोंमें चढ़ते हुये मोक्षको प्राप्त करते हैं। ज्यादा-से-ज्यादा तीन भवमें और कम-से-कम उसी भवमें वे मोक्ष प्राप्त करते हैं।

- ९—१०—नौवें व दसवें गुणस्थानोंमें मुनि मोह कर्मकी प्रकृतियोंको कम करते हैं और शान्त स्वरूपको प्राप्त करते

जाते हैं। इन गुणस्थानोंवाले मुनि कम-से कम एक भवमें और ज्यादा-से-ज्यादा तीन भवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं।

११—ग्यारहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मोह-प्रकृति उबल पड़ती है। जिसका परिणाम यह होता है कि मुनि एक नीची अवस्थाको प्राप्त करते हैं। और अगर नीची अवस्था प्राप्त कर लेनेके पेश्तर इस गुणस्थानमें मृत्यु हो जाती है तो अनुत्तरविभान में पैदा होते हैं।

१२—चारहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मुनि मोह-प्रकृतियोंको सर्वथा निर्मूल कर ढालते हैं। इस अवस्थामें मुनि ज्ञायिक भाव, ज्ञायिक सम्यकत्व और ज्ञायिक यथाख्यात चारित्र प्राप्त करते हैं। इनके अलावा भाव सत्य, कारण सत्य, अकपायी, वीतरागी, भाव निर्वन्य आदि गुणोंको प्राप्त करते हैं और महा ध्यानी, महाज्ञानी होकर अन्तमुहूर्त इस गुणस्थानमें रहकर तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त करते हैं। इस गुणस्थानके आदिरी समयमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मोंका ज्यय करके तेरहवें गुणस्थानको प्राप्त करते हैं। इस गुणस्थानमें मृत्यु नहीं होती है।

१३—तेरहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें मुनिको केवल-ज्ञान, केवलदर्शन आदि गुणोंकी प्राप्ति होती है। इस अवस्थामें मुनि कम-से कम एक अन्तमुहूर्त और ज्यादा-से-ज्यादा कुछ कम

एक क्रोड पूर्व तक रह सकता है। इस गुणस्थानमें मुनिका निर्वाण नहीं होता है।

१४—चौदहवाँ गुणस्थान—इस गुणस्थानमें अयोगी केवली अपने सारे कर्मोंको छाय करके भन, वचन और कायकी क्रियाको एक दम बन्द करके मोक्ष पदको प्राप्त करते हैं।

गुणस्थानोंके सम्बन्धमें विशेष जानकारीकेलिये कुछ मुख्य-मुख्य बातें और समझ लैनी उपयोगी होगी —

ध्यान चार होते हैं, जिन्हें कि पहले ध्यान अधिकारमें हम कह आये हैं—

१—आर्त ध्यान, २—रौद्र ध्यान, ३—धर्म ध्यान और ४—शुक्ल ध्यान।

निम्नलिखित ध्यान निम्नलिखित गुणस्थानोंमें पाये जाते हैं—

१—पहिले तीन गुणस्थानोंमें आर्त और रौद्र, ये दो ही ध्यान तर-तम भावसे पाये जाते हैं।

२—चौथे और पाँचवें गुणस्थानमें उक्त दोनों ध्यानोंके अतिरिक्त सम्यक्त्वके प्रभावसे धर्मध्यान भी होता है।

३—छठे गुणस्थानमें आर्त और धर्म, ये दो ध्यान होते हैं।

४—सातवें गुणस्थानमें सिफ़ धर्मध्यान ही होता है।

५—आठवेंसे बारहवें गुणस्थान तक अर्थात् पाँच गुणस्थानोंमें धर्म और शुक्ल, ये दो ही ध्यान होते हैं।

६—तेरहवें और चौदहवें गुणस्थानमें सिर्फ शुल्क ध्यान होता है।

लेश्या छह होती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

१—फण्ण २—नील ३—कापोत ४—तेज ५—पद्म और —शुल्क लेश्या । प्रत्येक लेश्या असस्त्यात् लोकाकाश-प्रदेश-गण अध्यक्षसायस्थान (सल्केश-मिश्रित परिणाम) रूप है । गलिये उसके तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम ते ही भेद समझने चाहिये । पहली तीन—कृष्ण, नील और पोत अशुभ लेश्या मानी गई हैं । पिछली तीन—तेज, पद्म और शुल्क शुभ लेश्या मानी गई हैं ।

१—कृष्ण आदि अशुभ लेश्याओंको छठे गुणस्थानमें अति मन्दतम और पहिले गुणस्थानमें अति तीव्रतम मानकर छठे गुणस्थान तक उनका सम्बन्ध होता है ।

२—सातवें गुणस्थानमें आर्त तथा रौद्र ध्यान न होनेके ग्रण परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं कि जिससे उस गुणस्थानमें शुभ लेश्याएँ सर्वथा नहीं होतीं, किन्तु तीन शुभ लेश्याएँ ही ती हैं ।

३—पहिले गुणस्थानमें तेज और पद्म लेश्याको अति मन्दतम और सातवें गुणस्थानमें अति तीव्रतम, इसी प्रकार शुल्क लेश्याको

पहिले गुणस्थानमें अति मन्दतम और तेरहवें गुणस्थान
अति तीव्रतम मानकर उपर्युक्त गुणस्थानोंमें उनका सम्बन्ध
बतलाया गया है। सचेष्में यों कहना चाहिये कि पहिले वह
गुणस्थानोंमें छह लेश्याएँ, सातवें गुणस्थानमें तेज, पद्म और
शुक्ल लेश्याएँ और आठवेंसे लेकर तेरहवें तक छह गुणस्थानों
केवल शुक्ल लेश्या मानी गई है। चौदहवें गुणस्थानमें कोई लेश्या
नहीं मानी गई है।

सम्यक्त्व अधिकार

जिस किसी जीवका संसार-संसरणका काल अधिक से-अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन और कम-से-कम अन्तर्मुहूर्त शेष रहता है, वह निश्चय-सम्यग्दर्शन प्रदण करके चतुर्गति रूप संसारको पार करनेवाले मोक्ष सुखकी बानगी लेता है। अन्तर्मुहूर्तसे लगाकर अर्ध पुद्गल परावर्तन कालके जितने समय हैं, उतने ही सम्यक्त्वके भेद हैं। जिस समय जीवको सम्यक्त्व प्रकट होता है, तभी से आत्म गुण प्रकट होने लगते हैं और सासारिक दोष नष्ट हो जाते हैं।

सम्यक्त्वके आठ विवरण हैं—१—स्वरूप, २—उत्पत्ति, ३—चिन्ह, ४—गुण, ५—भूपण, ६—दोष, ७—नाश और ८—अतिचार।

सम्यक्त्वका स्वरूप

आत्म स्वरूपकी सत्य प्रतीति होना, दिन प्रतिदिन समता भावमें उत्त्रति होना और क्षण क्षणमें परिणामोंकी विशुद्धि होना, इसीका नाम 'सम्यग्दर्शन' है।

सम्यक्त्वकी उत्पत्ति

चतुर्गतिमें सभी जीवोंको सम्यग्दर्शन प्रकट होता है। वह किसी-किसी जीवको अपने आप प्रगट होता है। अपने आप

प्रगट होनेवाला सम्यगदर्शन 'निसर्गज' कहलाता है। और किसी-किसीको गुरुपदेशसे भी प्रगट होता है। गुरुपदेशसे प्रगट होनेवाला सम्यगदर्शन 'अधिगमज' कहलाता है।

सम्यक्त्वके चिन्ह

आत्मा अपनेमें ही 'आत्म-स्वरूपका परिचय पाता है, उसमें उसे कभी सन्देह नहीं उपजता और उसका छल कपट-रहित वैराग्य भाव रहता है। यही सम्यगदर्शनका चिन्ह है। अथवा—

(१) शम—कदाग्रह और ममत्वका उपशमन ।

(२) सवेग—सासारिक वधनोका भय

(३) निर्वेद—वैराग्य अर्थात् मासारिक पदार्थोंसे दूर होनेकी इच्छा

(४) अनुकरण—दूसरे जीवोंका दुःख दूर करनेकी भावना

(५) आस्तिक्य—सद्गुर्मपर अटल श्रद्धान होना

ये पाँच लिङ्ग अर्थात् सम्यक्त्वके चिन्ह हैं।

सम्यगदर्शनके आठ गुण

करुणा, मैत्री, सज्जनता, स्वलघुता, समता, श्रद्धा, उदासीनता और धर्मानुराग, ये सम्यक्त्वके आठ गुण हैं।

सम्यक्त्वके पाँच भूषण

जैनधर्मकी प्रभाविता 'करजेका' अभिप्राय, हेय-उपादेयका विवेक, धीरज, सम्यगदर्शनकी प्राप्तिका हर्ष और तत्त्व विचारमें चतुराई, ये पाँच सम्यगदर्शनके भूषण हैं।

सम्यक्त्वके पचीस दोप

सम्यग्दर्शन पचीस दोपोंसे रहित होना चाहिये । उसके पचीस दोप ये हैं — आठ मद, आठ मल, छह अनायतन और तीन मूढता —

आठ मद —

जाति, धन, कुल, रूप, तप, वल, विद्या और अधिकरण के इनका गर्व करना । ये आठ प्रकारके महामद हैं ।

आठ मल —

जिन वचनमें मन्देह, आत्म स्वरूपसे चिगना, विषयोंकी अभिलापा, शरीरादिसे ममत्व, अशुचिमें ग्लानि, सहधर्मियोंसे द्वेष, दूसरोंकी निन्दा, धर्म प्रभावनाओंमें प्रमाद, ये आठ मल सम्यग्दर्शनको दूषित करते हैं ।

छह अनायतन —

कुगुरु, कुदेव, कुधर्मके उपासकोंकी और कुगुरु, कुदेव और कुर्धमकी प्रशसा करना, ये छह अनायतन हैं ।

तीन मूढता —

देवमूढता अर्थात् सच्चे देवका स्वरूप नहीं जानना, गुरु-मूढता अर्थात् निर्ग्रन्थ मुनिका स्वरूप नहीं समझना और धर्म

कु अधिकरणके स्थानपर कहाँ कहीं ‘पूजा’ भी मानी गई है । यथा —

“ज्ञान पूजा कुलं जातिं वलमृदि तपो वपु ।

अष्टावाश्रित्य मानिवं समयमाहुर्गतसमया ॥”

मूढ़ता अर्थात् जिनभापित धर्मका स्वरूप नहीं समझना, ये तीन मूढ़ताएँ हैं।

सम्यक्त्व-नाशके पाँच कारण

सम्यक्त्वके घातक मुख्य पाँच कारण ये हैं — १—ज्ञानका अभिमान, द्वाद्धकी हीनता, निर्दय वचनोंका भाषण, क्रोधी परिणाम और प्रमाद।

सम्यक्त्वके पाँच अतिचार

सम्यक्त्वके पाँच अतिचार हैं। शङ्का, काढ़ना, विचिकित्सा, अन्यदिग्निशसा और अन्यदिग्निसंस्तव, ये पाँच सम्यक्त्वके अतिचार हैं। इनका वर्णन पहले किया जा चुका है।

उपरोक्त पाँच प्रकारके अतिचार सम्यगदर्शनके उज्ज्वल परिणामोंको मलीन करते हैं।

मोहनीय कर्मकी जिन सात प्रकृतियोंके अभावसे सम्यगदर्शन प्रकट होता है। वे निम्न प्रकार हैं —

सम्यक्त्वकी घातक चारित्रमोहनीयकी चार और दर्शनमोहनीयकी तीन, इस प्रकार सात प्रकृतियाँ हैं। वे इस प्रकार हैं — १—अनन्तानुबन्धी क्रोध, २—अभिमानके रँगसे रँगी हुई अनन्तानुबन्धी मान, ३—अनन्तानुबन्धी माया, ४—परिग्रहको पुष्ट करने वाली अनन्तानुबन्धी लोभ, ५—मिथ्यात्व, ६—मिश्रमिथ्यात्व और ७—सम्यक्त्वमोहनीय। इनमेंसे शुरूकी छह प्रकृतियाँ व्याप्रिणी

के समान सम्यक्त्वके पोछे पड़कर उसे भज्जण करनेवाली हैं और सातवीं खीके समान सम्यक्त्वको सकप व मलीन करनेवाली है।

जो प्राणी उपरोक्त सात प्रकृतियोंको उपशमाता है, 'वह औप-शमिरसम्यग्दृष्टि है और जो सातों प्रकृतियोंको ज्यय करनेवाला है, वह ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि है। यह सम्यक्त्व कभी नष्ट नहीं होता। सात प्रकृतियोंमेंसे कुछका ज्यय हो और कुछका उपशम हो तो वह ज्ययोपशमसम्यक्त्वी है। उसे सम्यक्त्वका मिश्ररूप स्वाद मिलता है। छह प्रकृतियाँ उपशम हो व ज्यय हो अथवा कोई ज्यय और कोई उपशम हो, केवल सातवीं प्रकृति सम्यक्त्वमोहनीयका उदय हो तो वह वेदकसम्यक्त्वधारी होता है।

सम्यक्त्व नौ प्रकारका होता है—ज्ययोपशमसम्यक्त्व तीन प्रकारका है, वेदक सम्यक्त्व चार प्रकारका है और उपशम तथा ज्ञायिक, ये दो प्रकार।

ज्ययोपशमसम्यक्त्वके तीन भेद—

१—अनन्तानुबन्धी चौकड़ीका ज्यय और दर्शनमोहनीय त्रिकका उपशम। यह परिणामका पहिला भेद है।

२—अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और महामिथ्यात्वका ज्यय और मिश्रमिथ्यात्व और सम्यक्त्वमोहनीयका उपशम। यह परिणाम का दूसरा भेद है।

३—अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, महामिथ्यात्व और मिश्रका ज्यय-और सम्यक्त्वमोहनीयका उपशम। यह परिणामका तीसरा भेद है।

वेदकसन्यक्त्वके चार भेद —

१—जहाँ अनन्तानुबन्धी चौकड़ीका ज्यो और महामिथ्यात्व और मिश्रका उपशम और सन्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, उस परिणामको प्रथम ज्योपशमवेदक सन्यक्त्व कहते हैं।

२—जहाँ अनन्तानुबन्धी चौकड़ी और महामिथ्यात्वका ज्य मिश्रका उपशम और सन्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, उस परिणामको द्वितीय ज्योपशमवेदक सन्यक्त्व कहते हैं।

३—जहाँ अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, महामिथ्यात्व और मिश्रका ज्य और सन्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, उस परिणामको ज्ञायिक वेदक सन्यक्त्व कहते हैं।

४—जहाँ अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, महामिथ्यात्व और मिश्रका उपशम और सन्यक्त्वमोहनीयका उदय हो, उस परिणामको उपशम वेदक सन्यक्त्व कहते हैं।

उपशम तथा ज्ञायिक दो भेदः—

१—जो अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, महामिथ्यात्व, मिश्र और सन्यक्त्वमोहनीयको उपशमाता है, वह ‘ओपशमिक सन्यक्त्व’ है।

२—जो अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, महामिथ्यात्व, मिश्र और सन्यक्त्वमोहनीयका ज्य करता है, वह ‘ज्ञायिकसन्यक्त्व’ है। यह ज्ञायिकसन्यक्त्व जिनकालिक ‘मनुष्योंको होता है।’ जो जीव आयुका बन्ध करनेके बाद इसे प्राप्त करते हैं, वे तीसरे या चौथे भवमे मोक्ष प्राप्त करते हैं, ‘परन्तु’ अगले भवकी आयु बाँधनेके पहिले

जिनको यह सम्यक्त्व प्राप्त होता है, वे वर्तमान भवमें ही मुक्तिको प्राप्त करते हैं।

उपराम श्रेणी भावी औपशमिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति चौथे, पाँचवे, छठे या सातवेंमेंसे किसी गुणस्थानमें हो सकती है परन्तु आठवें गुणस्थानमें तो उसकी प्राप्ति अवश्य ही होती है।

औपशमिक सम्यक्त्वके सभय आयुर्वन्ध, मरण, अनन्ता-नुवन्धी कपायका बन्ध तथा अनन्तानुवन्धी कपायका उदय, ये चार घातें नहीं होती। पर उससे च्युत होनेके बाट हो सकती हैं।

सम्यक्त्व-सत्त्वाकी निश्चय, व्यवहार, सामान्य और विशेष, ऐसी चार विधिका वर्णन किया जाता है।

१—मिथ्यात्वके नष्ट होनेसे मन, वचन व कायके अगोचर जो आत्माकी निर्विकार श्रद्धानकी ज्योति प्रकाशित होती है, उसे निश्चय सम्यक्त्व जानना चाहिये।

२—जिसमें योग, मुद्रा, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदिके विकल्प हैं, यह व्यवहार सम्यक्त्व है।

३—ज्ञानको अल्प शक्तिके कारण मात्र चेतना चिन्हके धारक आत्माको पहिचान कर निज और परके स्वरूपका जानना सामान्य सम्यक्त्व है।

४—हेय, ज्ञेय, उपादेयके भेदभेदका विस्तार रूपसे समझना विशेष सम्यक्त्व है।

नवतत्त्व अधिकार

(शेषांशः*)

४—कालास्तिकाय—द्रव्यसे भूत और भविष्यत्कालकी अपेक्षासे अनन्त है, क्षेत्रमें व्यवहारकालकी अपेक्षासे अद्वैत द्वीप-प्रमाण है और मृत्युकालकी अपेक्षासे लोकाकाश प्रमाण है, कालसे आदि-अन्त रहित है, भावसे वर्णादि-रहित अर्थात् अरूपी है और गुणसे पर्याय-परिवर्तनकारी है।

* यह अधिकार द्वितीय खण्डमें दिया गया है। वहाँ यह जगभग ४० पृष्ठमें भी अधिक होगया था। पाठकोंको इतना बड़ा एक अधिकार पढ़नेमें अरुचिकर होता। इसलिये वहाँ थोड़ासा देकर यहाँ उसका शेषाश दिया गया है।

इसका दूसरा कारण यह भी है कि तृतीय खण्डमें आध्यात्मिक विषय रखते रहे हैं। नवतत्त्वाधिकारका यह 'शेषांश' आध्यात्मिक विषयसे अधिक सबन्ध रखता है। क्योंकि इस 'शेषांश' में आत्मव, बन्ध, संघर, निजेरा, मोह, पुण्य और पाप, इन सात तत्त्वोंका सुरक्षणा-यर्थन है। ये सात तत्त्व मोक्षाभिलापी पुरुषके लिये अति उपयोगी हैं।

—सम्पादक।

धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इन चार द्रव्योंके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुणकी अपेक्षासे बीस भेद हुये । (२०)

धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय और आकाशास्तिकाय, इन तीनोंके स्वन्ध, देश और प्रदेश अलग अलग होते हैं । इसलिये इस प्रकारसे इनके नौ भेद और हुये और कालका केवल एक ही भेद होता है । इसलिये सब मिलाकर इनके दस भेद इस अपेक्षासे और हुये । (१०)

इस प्रकार अरुपीअजीव द्रव्योंके कुलभेद तीस हुये । (३०)

वर्णके पाँच प्रकारके पुद्गल, गन्धके दो प्रकारके पुद्गल, रसके पाँच प्रकारके पुद्गल, स्पर्शके आठ प्रकारके पुद्गल और स्थानके पाँच प्रकार कहे गये हैं ।

१—एक वर्णके पुद्गलके दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श और पाँच स्थान हो सकते हैं । इस प्रकार एक वर्णके पुद्गलके बीस भेद होते हैं । कुल वर्ण पाँच प्रकारके हैं । इसलिये कुल वर्णके सौ भेद हुये । (१००)

२—एक गन्धके पुद्गलके पाँच वर्ण, पाँच रस, आठ स्पर्श और पाँच स्थान हो सकते हैं । इस प्रकार तेहम भेद हुये और जूँकि गन्ध दो प्रकारकी होती है । इस कारण गन्धके द्वयालीस भेद हुये । (४६)

३—एक रसके पुद्रगलके पाँच वर्ण, दो गन्ध, आठ स्पर्श, और पाँच स्थान हो सकते हैं। इस प्रकार एक रसके पुद्रगलके बीस भेद हुये और कुल रस पाँच हैं। इसलिये कुल रसके भेद सौ हुये। (१००)

४—एक स्पर्शके पुद्रगलके पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गन्ध, पाँच स्थान और छह स्पर्श हो सकते हैं। इसलिये एक स्पर्शके पुद्रगलके तेरहस भेद हुए और स्पर्श आठ प्रकारके हैं। इसलिये कुल भेद एक सौ चौरासी हुए। (१८४)

गुरु लघु नहीं होता, चिकना खुरखुरा नहीं होता, ठंडा गरम नहीं होता। इस प्रकार इस अपेक्षासे स्पर्श के केवल छह भेद ही पाये जाते हैं।

५—स्थान पाँच प्रकारके माने हैं। गोल, त्रिकोण, चतुर्भुज, परिमण्डल (चूर्णी जैसा) और लम्बायमान (लकड़ी जैसा लम्बा)।

प्रत्येक स्थानके पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श, इसे अपेक्षासे बीस भेद हुए। कुल स्थान पाँच हैं। इसलिये स्थान-आश्रित कुल भेद सौ हुए। (१००)

अजीव अरूपी और रूपी द्रव्यके सब मिलकर $30 + 100 + 46 + 100 + 184 + 100 = 560$ भेद हुए।

शाककारोंने पुद्रगलके छह भेद अन्य अपेक्षासे 'भी किये हैं। यथा—

१—न्यूल-स्यूल, जैसे पृथ्वी-पर्वतादिक, २—स्यूल, जैसे जल, दूध आदि तरल पदार्थ; ३—स्यूल-सूहम, जैसे छाया, आताप आदि नेत्र इन्द्रियगोचर, ४—सूहम स्यूल, जैसे नेत्रके विना अन्य चार इन्द्रियोंसे प्रहण योग्य शब्द, गन्ध आदि । ५—सूहम, जैसे कर्मोंकी वर्गणाएँ और ६—सूहम सूहम, जैसे परमाणु ।

पुण्य

‘पुनाति—आत्मान पवित्रयतीति-पुण्यम्’—आत्माको जो पवित्र करे वह ‘पुण्य’ है । अर्थात् जीवके शुभ परिणामके निमित्त से पुद्गलके जो शुभ कर्म रूपी शक्ति होती है, उसको ‘पुण्य’ कहते हैं ।

समस्त ससारमें शुभ अशुभ कर्मोंके रज रूपी पुद्गल ठसा-ठस भरे हुये हैं । जीव अर्थात् प्राणों जैसे मन, वचन और कायसे शुभ अशुभ कर्म करता है, उसके अनुसार आत्म प्रदेशोपर रज रूपी पुद्गल चिमट जाते हैं । इन कर्म-पुद्गलोंका पूरा विवरण ‘कर्म अधिकार’में किया गया है, वहाँ देखना चाहिये । पुण्य कर्मोंका वांधना मुशकिल है, पर भोगना आमान है । घडे त्याग, सेवा, इन्द्रिय दमन आदिसे पुण्यका बन्ध होता है । पर इसके फलोंका भोगना बड़ा प्रिय लगता है । पुण्य मोक्षका कारण नहीं है । पुण्यसे ससारमें हर प्रकारके सुख-वैभवकी प्राप्ति होती है । शास्त्रकारोंने पुण्यको स्वर्णकी बेड़ीसे उपमा दी है । ससारी जीव सुख, सम्पत्ति, वैभव आदिके घडे अभिलापी होते हैं । इस

कारण उनको पुण्य उपार्जन करना चाहिये । शाब्दकारोंने पुण्य-उपार्जन करनेकेलिये अनेक मार्ग—साधन वर्ताये हैं । यथा—

१—अन्नका दान, २—पानीका दान, ३—पात्रका दान, ४—मकानका दान, ५—वस्त्रका दान, ६—मनसे शुभ चिन्तन करना, ७—बचनसे शान्ति देना, ८—शरीरसे सेवा आदि करना और ९—वृद्धों व गुणियोंको नमस्कार आदि करना ।

१—अन्नका दान —

सच्चे त्यागी मुनियो—साधुओंको शुद्ध आहार दान देना । इनके अलावा अनाथ, अपाहिज, असहाय, विघ्वा, अकाल पीड़ितों आदिको अन्न-दान अर्थात् भोजन देना ।

२—पानीका दानः—

सच्चे त्यागी मुनियो—साधुओंको शुद्ध व अचित्त पानी वैराना । इनके अलावा मनुष्यों, पशुओं आदिकेलिये प्याऊ आदिका प्रबन्ध करना ।

३—पात्रका दान —

सच्चे त्यागी मुनियो—साधुओंको पात्र (काष्ठके वर्तन) आदि देने । इनके अलावा जिन अनाथों, असहायों, वेवाओं, निर्धनोंके पास पात्र न हों तो उन्हे पात्र देना ।

४—मकानका दान.—

साधु-मुनि सदा भ्रमण किया करते हैं । उनके कोई मकान नहीं होते हैं । अंगर वे भ्रमण करते आवें तो उनके ठहरनेकेलिये

साताकारी मकान अथवा स्थान आदिका प्रबन्ध करना । जो आदमी धर्मशाला आदि बनवाते हें, वे भी पुण्य उपार्जन करते हें ।

५—वस्त्रका दान —

सच्चे त्यागी, मुनियों और साधुओंको स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र वैराना । इनके अलावा अनाथों, असहायो, विधवाओं, वृद्धों, आदिको वस्त्र दान देना और जाडोमें जो निर्धन मनुष्य हो उनकी वस्त्रसे सहायता करनी चाहिये ।

६—मनमें शुभ चिन्तन —

प्रत्येक प्राणीको सदा अपने मनसे दूसरोंके प्रति अर्थात् प्राणीमात्रके बास्ते शुभ चिन्तन व शुभ भावना रखनी चाहिये । कभी किसीके प्रति बुरे स्वाल स्वप्न तकमें भी नहीं लाने चाहिये ।

७—वचनसे शान्ति देना —

अगर कोई प्राणी दुख, तकलीफ, कष्ट या सन्ताप अवस्थामें है तो उसको शान्ति देनी चाहिये । इसके अलावा सदा कोमल और मृदु वचनोंसे बोलना चाहिये । अर्थात् कभी क्रोध, घृणा, कठोरताके शब्द नहीं बोलने चाहिये । सदा गुणियोंके गुणगान करते रहना चाहिये ।

८—कायसे सेवा —

अगर कोई साधु या मुनि तकलीफ या कष्टमें हो तो उसकी सेवा भक्ति फरनी चाहिये । इसके अलावा कष्ट पीड़ित, रोगियों,

कमज़ोरों आदिकी सेवा शुश्रूपा करनी चाहिये। निर्बलों, असहायों और अवलाञ्छोंकी बलवानों और निर्दयोंसे रक्षा करनी चाहिये।

६—गुणियोंको नमस्कारः—

सच्चे और त्यागी मुनियों और साधुओंको नमस्कार अर्थात् बन्दना आदि करना। इसके अलावा बुजुर्गों, विद्वानों, गुणियों आदिको नमस्कार करना चाहिये।

इसके अलावा और दूसरे कार्योंसे भी पुण्यका उपार्जन होता है। जैसे:—विद्यादान देना, अभयदान देना, आदि।

सदा सुपात्रको दान देना चाहिये। इसके अलावा दान व साहाय्य तो सिर्फ उन्हींका होना चाहिये, जो उसके पात्र हैं अर्थात् जो ज़रूरत वाले हैं। अक्सर गफलत और लेहतलालीकी बजहसे ऐसे मनुष्योंको दान पहुँच जाता है, जो उसका दुरुपयोग करते हैं। ऐसी अवस्थामें बजाय पुण्यके पापका ही घन्थ हो जाता है। हाँ! दान देनेवालेके भाव यदि शुद्ध हैं तो उससे पुण्य ही होता है। इस कारण दान सदा सोच-समझ और देख-भाल कर देना चाहिये। बहुतसे धूर्त, पांखड़ी, प्रमाणी दान ले जाकर कुव्यसन और व्यभिचार आदिमें लगाते हैं।

जो प्राणी सुपात्र-दान देते हैं, वे व्यालीस प्रकारसे पुण्यके फलको भोगते हैं—

—१—सातावेदनीय, २—उच्च गोत्र, ३—मनुष्य नाति, ४—देव नाति, ५—मनुष्यानुपूर्वी, ६—देवानुपूर्वी, ७—पञ्चेन्द्रिय जाति,

८—ओदारिक शरीर, ९—वैक्रियिक शरीर, १०—आहारिक शरीर,
 ११—तैजस शरीर, १२—कार्मण शरीर, १३—ओदारिक अङ्गो-
 पाङ्ग, १४—वैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग, १५—आहारिक अङ्गोपाङ्ग,
 १६—ब्रह्मशृणुपभनाराचसहनन, १७—समचतुरस्सस्थान, १८—
 शुभ वर्ण, १९—शुभ गन्ध, २०—शुभ रस, २१—शुभ स्पर्श,
 २२—शुभ, २३—सौभाग्य, २४—सुस्वर, २५—यश कीर्ति,
 २६—देवायु, २७—मनुष्यायु, २८—तिर्यगायु, २९—तीर्यकर,
 ३०—मनुष्यगत्यानुपूर्व्य, ३१—देवगत्यानुपूर्व्य, ३२—अगुरुलघु,
 ३३—परघात, ३४—उच्छ्वास, ३५—आतप, ३६—उद्योत,
 ३७—शुभविहायोगति, ३८—त्रस, ३९—वादर, ४०—पर्याप्ति,
 ४१—प्रत्येकशरीर, ४२—स्थिर नाम कर्म।

पुण्य और पाप दोनों ससारके कारण हैं। पाप लोहेकी बेड़ी
 के समान है तो पुण्य सोनेकी बेड़ीके समान है। आखिर बेड़ी—
 बन्धन दोनों हैं। इस कारण आत्मार्थी प्राणियोंको तो दोनों
 त्याज्य हैं। फिर वह पुण्य कैसे करता है?

जैसे किसान जब चाँवलोंकी सेती करता है, तथ उसका
 मुख्य उद्देश्य चाँवल उत्पन्न करनेका रहता है और चाँवलोंका जो
 पलाल (भूसा) है, उसमें उसकी इच्छा नहीं रहती, तथापि उसको
 बहुत-सा पलाल मिल ही जाता है, इस प्रकार मोह चाहनेवाले
 जीवोंको वाञ्छा बिना ही पुण्यकी प्राप्ति हो जाती है और उस पुण्य
 से स्वर्गमें इन्द्र-लौकान्तिकदेव आदिकी विभूति तकको जीव प्राप्त

करता है। वहाँपर भी धर्ममें बुद्धिको दृढ़ करके चतुर्थ गुणस्थानके योग्य जो अपनी अविरत अवस्था है उसको नहीं। छोड़ता हुआ भोगोंका सेवन करते हुए भी धर्मध्यानसे देवायुको पूर्ण कर, स्वर्गसे आकर तीर्थकर आदि पदको प्राप्त कर, पूर्वजन्ममें भावित की हुई जो विशिष्ट—भेद-ज्ञानकी वासना है उसके बलसे मोहको नहीं करता है और मोहरहिंत होनेसे श्रीजिनेन्द्रकी दीक्षाको धारण कर पुण्य तथा पापसे रहित जो निज-पर आत्मा का ध्यान है, उसके द्वारा मोक्षको जाता है। और जो मिथ्यादृष्टि है, वह तो तीव्र निदानबन्धके पुण्यसे चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदिके समान भोगोंको प्राप्त कर नरकको जाते हैं। पुण्य प्रकृति तेरहवें गुणस्थान तक लगी हुई है। पुण्य की प्रशस्ता शास्त्रोंमें अनेक स्थानपर की है। इस कारण आदरनेके स्थानपर आदरणीय है और मोक्ष होते समय त्याग तो उनका स्वयं ही हो जाता है।

पाप

अशुभ परिणामोंसे युक्त जीव पाप रूप होता है। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि जिस कर्मका फल दुर्घट रूप हो, उसे पाप कहना चाहिये। पाप कर्मोंसे जीव अनादि कालसे धिरा हुआ है। यह कर्म आत्माको मलीन कर देते हैं। इसका बाँधना बड़ा सरल है, पर इसका परिणाम भोगना बड़ा दुष्कर है। शास्त्रकारोंने पापको लोहेकी बेड़ीसे उपमा दी है।

समस्त लोकमें अशुभ कर्म अर्थात् पापके पुद्रगल ठसाठस भरे हुये हैं। जब कोई जीव अशुभ कर्म अथवा पाप करता है तो अशुभ कर्मके रज रूपी पुद्रगल उसकी आत्माके प्रदेशोपर चिमट जाते हैं, वे उसी समय या समय आनेपर आपना अशुभ फल देते हैं।

अज्ञानी व भोले प्राणी पापको हँस हँसकर धौंध लेते हैं, पर इसके परिणामसे उनका रो रो कर भी पीछा नहीं छूटता है।

प्राणी प्रथम भावपाप करता है, तत्परचात् द्रव्यपाप करता है। अशुभ प्रकृति परिणामन रूप द्रव्यपाप कर्म है। वह आत्माके ही अशुभ परिणामोंका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है।

शास्त्रकारोंने पापके अठारह भेद फरमाये हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

१—प्राणातिपात्र अर्थात् जीवकी हिंसा करना।

२—मृपावाद अर्थात् असत्य—भूठ बोलना।

३—अदृतादान अर्थात् बगैर दी हुई वस्तु लेनी—
चोरी करना।

४—मैथुन अर्थात् कुशीलका सेवन करना।

५—परिग्रह अर्थात् द्रव्य—धन आदि रखना और ममता बढ़ानी।

६—क्रोध अर्थात् अपनेको तपाना—कोप करना।

७—मान अर्थात् अहङ्कार (धमण्ड) करना।

८—माया अर्थात् कपट, ठगई इत्यादि करना।

६—लोभ अर्थात् तुष्णा बढ़ाना—गृद्धिपणा रखना ।-

१०—राग अर्थात् स्नेह रखना—प्रीति करना ।

११—द्वेष अर्थात् अनिच्छित वस्तुपर धृणा करना ।

१२—कलह अर्थात् क्लेश करना ।

१३—अभ्याख्यान अर्थात् भूठा कलङ्क लगाना ।

१४—पैशून्य अर्थात् दूसरोंकी चुगली खाना ।

१५—पर-अपवाद अर्थात् दूसरोंकी निन्दा करना ।

१६—रति-अरति अर्थात् पाँचों इन्द्रियोंके तेहस विषयोंमेंसे इच्छित वस्तुपर प्रसन्न होना और अनिच्छित वस्तुपर अ-प्रसन्न होना ।

१७—मायामृपावाद अर्थात् कपटसहित भूठ बोलना—कपटमें भी कपट करना ।

१८—मिथ्यादर्शनशाल्य अर्थात् कुबेर, कुमुद और कुधर्म पर श्रद्धा रखना ।

जो अज्ञानी प्राणी उपरोक्त अठारह पाँचोंका सेवन करते हैं, उनको निम्नलिखित व्यासी कर्म-प्रकृतियाँ भोगनी पड़ती हैं—

ज्ञानावरणीयकी पाँच, दर्शनावरणीयकी नौ, वेदनीयकी एक, मोहनीयकर्मकी छब्बीस, आयुष्यकर्मकी एक, नाम-कर्मकी चाँतीस, गोत्रकर्मकी एक और अन्तरायकर्मकी पाँच । इस प्रकार व्यासी प्रकृतियाँ होती हैं ।

इनका वर्णन 'कर्म अधिकार' में है ।

आस्त्रव

जिस प्रकार नावमें छिद्र होनेसे पानी आनेके कारण वह नाव ढूब जाती है, उसी प्रकार ससार रूपी समुद्रमें आस्त्र रूपी छिद्रसे पाप रूपी पानीके भर जानेसे आत्मा रूपी नाव ढूब जाती है। अर्थात् कर्मोंके आनेके द्वारको 'आस्त्र' कहते हैं। कर्मोंके आनेके द्वार अनेक हैं। उनका वर्णन शास्त्रकारोंने इस प्रकार किया है—

शास्त्रकारोंने बीस प्रकार, बयालीस प्रकार और सत्तावन प्रकारसे आस्त्र होना बताया है।

बीस भेद इस प्रकार हैं—

१—मिध्यात्वको सेवे तो आस्त्र, २—अब्रत अर्थात् प्रत्याख्यान नहीं करे तो आस्त्र, ३—पौँच प्रमाद सेवन करे तो आस्त्र, ४—पर्षीस कथाय सेवन करे तो आस्त्र, ५—अशुभ योग प्रवत्तिवे तो आस्त्र, ६—प्राणातिपात अर्थात् जीवकी हिसा करे तो आस्त्र, ७—मृपावाद अर्थात् भूठ बोले तो आस्त्र, ८—अदत्तादान अर्थात् चोरी करे तो आस्त्र, ९—मैथुन अर्थात् कुशील सेवन करे तो आस्त्र, १०—परिग्रह अर्थात् धन, कचन आदि रख्ने तो आस्त्र, ११—श्रोत्रेन्द्रिय वशमें न रखने तो आस्त्र, १२—घञ्जुरिन्द्रिय वशमें न रखने तो आस्त्र, १३—घ्राणेन्द्रिय वशमें न रखने तो आस्त्र, १४—रसेन्द्रिय वशमें न रखने तो आस्त्र, १५—स्पर्शेन्द्रिय वशमें न रखने तो आस्त्र, १६—मनकों

वशमें न रखेतो आस्त्रव, १७—वचनको वशमें न रखेतो आस्त्रव, १८—कायको वशमें न रखेतो आस्त्रव, १९—भड़ उपकरण अर्थात् सामान आदि असावधानीसे रखेतो आस्त्रव, २०—सुई कुशमात्र असावधानीसे लेया रखेतो आस्त्रव ।

ब्यालीस प्रकारका आस्त्रव इस भाँति मानते हैं—

पाँच इन्द्रियोंके विषयोंसे, चार कपायोंसे, तीन अशुभ योगोंसे, पचोस क्रियाओंसे, पाँच अव्रतोंसे, इस प्रकार ब्यालीस प्रकारसे भी आस्त्रवका होना माना गया है ।

सत्तावन प्रकारसे आस्त्रवका होना इस प्रकार बतलाया है—
उपरोक्त ब्यालीस प्रकारोंमें पन्द्रह योग और शामिल कर देनेसे आस्त्रवके सत्तावन प्रकार हो जाते हैं ।

आस्त्रवको करनेवाली पचीस क्रियाएँ ये हैं—

१—देव, गुरु और धर्मकी भक्ति आदि करना सम्यक्त्व क्रिया, २—अन्य कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की स्तुति करना मिथ्यात्व क्रिया, ३—कामादिकसे गमनागमनादिरूप करना प्रयोग क्रिया, ४—ईर्यापथ अर्थात् गमनकेलिये क्रिया करना ईर्यापथ क्रिया, ५—बीर्यान्तराय और ज्ञानावरणीय कर्मके स्थोपशय हो जानेपर आङ्गोपाङ्ग नामकर्मकी प्राप्तिसे आत्माको मन, वचन और कायके योग्य पुद्गलोंके प्रहण करनेकी जो शक्ति होती है, वह समादान क्रिया, ६—क्रोधके आवेशसे जो क्रिया हो, वह प्रादोषिकी क्रिया, ७—दुष्टाकेलिये दद्यम करना फायिकी क्रिया, ८—हिंसाके

उपकरण शास्त्रादिकका ब्रह्मण करना आधिकरणकी क्रिया, ६—अपने व परायेके दु स्रोत्पत्तिका जो कारण हो, वह पारतापिकी क्रिया, १०—आयु, इन्द्रिय, वल, ग्राणो आदिका विस्तोग करना प्राणातिपातकी क्रिया, ११—रोगाधिकताके कारण प्रसादी होकर रमणीय रूपका आवरण करना दर्शन क्रिया, १२—प्रसाद के कारण वस्तुके स्पर्शनार्थ प्रवर्त्तनेसे स्पर्शन क्रिया, १३—विषयोंके नये नये कारण मिलाना प्रात्ययिकी क्रिया, १४—जी-पुरुषों व पशुओंके वैठने सोने प्रवर्त्तनेके स्थानमें मल-मूत्र आदि त्वेषण करना समतानुपात क्रिया, १५—विना देखी शोधी भूमिपर वैठना, शयन करना आदि अनाभोग क्रिया, १६—परके करने योग्य क्रियाको स्वयम् करना स्वहस्त क्रिया, १७—पापोत्पादक अवृत्तिको भला समझना व आज्ञा करना निसर्ग क्रिया, १८—आलस्यसे प्रशस्त क्रिया न करना अथवा अन्यके किये हुए पापाचरणका प्रकाश करना विदारण क्रिया, १९—चारित्रमोहके उपद्रवसे परमागमकी आज्ञानुसार प्रवर्त्तनेमें असमर्थ होकर अन्यथा प्रस्तुपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया, २०—प्रसादसे व अज्ञानतासे परमागमकी उपदेश की हुई विधिमें अनादर करना अनाकाङ्क्षा क्रिया, २१—छेदन भेदन आदिकी क्रियामें तत्परता होना तथा अन्यके आरम्भ करनेमें हर्ष मानना आरम्भ क्रिया, २२—परिम्रहकी रक्षाकेलिये प्रवृत्ति करना पारिम्राहिकी क्रिया, २३—ज्ञान दर्शनादिकमे कपटरूप उपाय करना माया

बशमें न रक्खे तो आस्थव, १७—बचनको बशमें न रक्खे तो आस्थव, १८—कायको बशमें न रक्खे तो आस्थव, १९—भड उपकरण अर्थात् सामान आदि असावधानीसे रक्खे तो आस्थव, २०—सुई कुशमात्र असावधानीसे ले या रक्खे तो आस्थव।

बयालीम प्रकारका आस्थव इस भाँति मानते हैं—

पाँच इन्द्रियोंके विषयोंसे, चार कपायोंसे, तीन अशुभ योगोंसे, पचीस क्रियाओंसे, पाँच अव्रतोंसे, इस प्रकार व्यालीस प्रकारसे भी आस्थवका होना माना गया है।

सत्तावन प्रकारसे आस्थवका होना इस प्रकार बतलाया है—
उपरोक्त व्यालीस प्रकारोंमें पन्द्रह योग और शामिल कर देनेसे आस्थवके सत्तावन प्रकार हो जाते हैं।

आस्थवको करनेवाली पचीस क्रियाएँ ये हैं—

१—देव, गुरु और धर्मकी भक्ति आदि करना सम्यक्त्व क्रिया, २—अन्य कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की स्तुति करना मिथ्यात्व क्रिया, ३—कामादिकसे गमनागमनादिरूप करना प्रयोग क्रिया, ४—ईर्यापथ अर्थात् गमनकेलिये क्रिया करना ईर्यापथ क्रिया, ५—बीर्यान्तराय और ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशय हो जानेपर आङ्गोपाङ्ग नामकर्मकी प्राप्तिसे आत्माको भन, बचन और कायके योग्य पुद्गलोंके ग्रहण करनेकी जो शक्ति होती है, वह समादान क्रिया, ६—क्रोधके आवेशसे जो क्रिया हो वह प्रादोप्रिकी क्रिया, ७—दुष्टाकेलिये उद्यम करना कायिकी क्रिया, ८—हिंसाके

उपकरण शास्त्रादिकका प्रहरण करना आधिकरणकी किया,
 ६—अपने व परायेके दुखोत्पत्तिका जो कारण हो, वह पार-
 तापिकी किया, १०—आयु, इन्द्रिय, घल, भ्राणो आदिका विचोग
 करना प्राणातिपातकी किया, ११—रोगाधिकताके कारण प्रमादी
 होकर स्मणीय रूपका आवरण करना दर्शन किया, १२—प्रमाद
 के कारण वस्तुके स्पर्शनार्थ प्रवर्त्तनेसे स्पर्शन किया, १३—
 विषयोके नये नये कारण मिलाना प्रात्ययिकी किया, १४—छी-
 पुरुषों व पशुओंके वैठने सोने-प्रवर्त्तनेके स्थानमें भल-मूत्र आदि
 त्वेषण करना समतानुपात किया, १५—विना देखी शोधी भूमिपर
 वैठना, शयन करना आदि अनाभोग किया, १६—परके करने
 योग्य क्रियाको स्वयम् करना स्वहस्त किया, १७—पापोत्पादक
 प्रवृत्तिको भला समझना व आघ्ना करना निसर्ग किया, १८—
 आलस्यसे प्रशस्त किया न करना अथवा अन्यके किये हुए पापा-
 चरणका प्रकाश करना विदारण किया, १९—चारित्रमोहके
 उपद्रवसे परमागमकी आज्ञानुसार प्रवर्त्तनेमें असमर्थ-होकर
 अन्यथा प्रस्तुपण करना आज्ञाव्यापादिकी किया, २०—प्रमादसे
 च अज्ञानतासे परमागमकी उपदेश की हुई विधिमें अनादर
 करना अनाकाङ्क्षा किया, २१—छेदन-भेदन आदिकी क्रियामें
 तत्परता होना तथा अन्यके आरम्भ करनेमें हर्ष मानना आरम्भ
 किया, २२—परिग्रहकी रक्षाकेलिये प्रवृत्ति करना पारिप्राहिकी
 किया, २३—ज्ञान दर्शनादिकमें कपटरूप उपाय करना माया

क्रिया, २४—मिथ्यात्वका कार्य करना व करनेवालेको उस कार्यमें हृद करना मिथ्यादर्शन क्रिया, २५—संयमको धात करनेवाले कर्मके उदयसे संयम रूप नहीं प्रवर्त्तना औप्रत्याख्यान क्रिया। ये पञ्चीस क्रियाएँ आस्थवकी कारण हैं।

बन्ध

इस तत्त्वका बण्णन ‘कर्म अधिकार’ में किया जा चुका है।

संवर

जिस प्रकार छिद्र सहित नौका जो समुद्रमें पड़ी हुई है, उसके छिद्र बन्द कर देनेसे जलका आना बन्द हो जाता है, उसी प्रकार संसार रूपी समुद्रमें जो आत्मा रूपी नौका पड़ी हुई है, जिसके छिद्र रूपी आस्थवको रोकनेसे कर्म रूपी जल नहीं आता है। इस कर्मांगम द्वारके रोकनेको ‘संवर’ कहते हैं। अर्थात् आस्थवके निरोधको संवर कहते हैं*।

जो पुरुष संवर धारण करता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह पाप रूपी जलका अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय आदिका सर्वथा लोप करके संयम-अंवस्था अर्थात् शुभ भावना, शुभ विचारोंका ध्यान-चिन्तन करे। संवर धारण करनेसे मनुष्य अपने ससारको कम करता है।

शास्त्रकारोंने संवरके सामान्य प्रकारसे बीस भेद कहे हैं और विशेष प्रकारसे सत्तावन भेद कहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

* “आस्थवनिरोध संवर” —उमास्वाति।

१—सन्यक्त्वका धारणा - करना, २—ब्रत-प्रत्याख्यानका करना, ३—प्रमादका स्थाग करना, ४—कपाय नहीं करना, ५—शुभ विचारोंका हृदयमें सचार करना, ६—दया पालनी ७—सत्य बोलना, ८—विना दी हुई वस्तु नहीं लेनी, ९—ब्रह्मचर्यका पालन करना, १०—निर्ममत्व होना, ११—१२—१३—१४—१५—श्रोत्र, चक्षु, ग्राण, रस और स्पर्श इन्द्रियका निग्रह करना, १६—मनको वशमें रखना, १७—वचन और कायका निग्रह करना, १८—भण्डोपकरणोंको सावधानीसे लेना और सावधानीसे रखना और २०—सुई-कुशमात्र भी यत्से लेना और यत्से रखना ।

सबरके सत्तावन भेद इस प्रकारसे हैं —

पाँच समिति, तीन गुप्ति, बाईस परिपह, दस यतिधर्म, बारह भावना और पाँच चारित्र ।

पाँच समिति —

१—ईर्या समिति, २—भाषा समिति, ३—एपणा समिति, ४—आदाननिक्षेपणा समिति और ५—परिठावणीयाचत्सर्ग समिति ।

तीन गुप्ति —

१—मनोगुप्ति, २—वचनगुप्ति और कायगुप्ति ।

बाईस परिपह —

१—कृधा, २—तृपा, ३—शीत, ४—ठण, ५—दशमशक,
 ६—अचेल, ७—अरति, ८—स्त्री, ९—चर्या, १०—निषद्या,
 ११—शाय्या, १२—अकोध, १३—वध १४—याचना, १५—
 अलाभ, १६—रोग, १७—तृण, १८—मल, १९—सत्कारपुरस्कार,
 २०—प्रज्ञा, २१—आज्ञान और २२—अदर्शन ।

दस धर्मियाँ—

१—कृमा, २—मुक्ति, ३—आर्जव, ४—मार्दव, ५—लाघव,
 ६—सत्य, ७—सयम, ८—तप, ९—त्याग और १०—ब्रह्मचर्य ।

वारह भावना—

१—अनित्य, २—अशारण, ३—संसार, ४—एकत्व, ५—
 अन्यत्व, ६—अशुचि, ७—आस्रव, ८—सवर, ९—निर्जरा,
 १०—लोक, ११—योधि और १२—धर्मस्वाख्यातत्व ।

पाँच चारित्रः—

१—सामायिक, २—छेदोपस्थापनीय, ३—परिहारविशुद्धि,
 ४—सूक्ष्मसम्पराय और ५—यथाख्यात ।

निर्जरा

जिस प्रकार समुद्रमें पड़ी हुई किसी नौकाके छिद्र तो बन्द
 कर दिये, जिससे कि आता हुआ पानी रुक गया, लेकिन जो पानी
 उसमें पहले भर गया है, वह जब तक न निकाला जायगा, तब

* “उत्तम-कृमामार्दवार्जवसत्यशौचसयमतपस्थागांकिचन्यप्रत्येचर्याणि
 धर्म ।” —उमास्वाति ।

तक नौकाका पार लगना कठिन है। उसी प्रकार आत्मा रूपी नौकामें जो पाप रूपी पानी भरा हुआ है, उसको निकालनेका उपाय मनुष्यको करना चाहिये। ऐसा किये विना यह आत्मा-ससार-समुद्रसे पार नहीं हो सकती। कर्म रूपी जलको आत्मा रूपी नौकासे निकालनेके उपायको 'निर्जरा' कहते हैं। दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये कि आत्म प्रदेशोंपर जो अशुभ कर्मोंके परमाणु लगे हुए हैं, उनको दूर करनेके उपायको निर्जरा कहते हैं। जिस प्रकार एक चिकने घडेको गर्म पानी व सोड़ा आदि लगाकर साफ किया जाता है, उसी प्रकार कमेमलसे मलीमस आत्मा तप-स्थग आदिसे पवित्र की जाती है।

आत्मामें जो सचित कर्म है, उनको दूर करनेकेलिये अथवा आत्माको शुद्ध करनेकेलिये शाष्ट्रकारोंने धारह विधियाँ बताई हैं—

१—अनशन—‘अशन भोजनम् । न अशनमिति अनशनम्’
अर्थात् आहार-पानीका त्याग करना ॥ ।

॥ यह एक तप है। इसमें आहार-पानीका त्याग किया जाता है। सामर्थ्यवान् ग्राणी सर्वं प्रकारके आहार-पानीका त्याग कर देने हैं। एक दिनका, दो दिनका, महीने भरका, साल भरका इत्यादि जितनी अपनी सामर्थ्य हो—उसके भनुसार त्याग करते हैं और जिनमें इतनी सामर्थ्य नहीं होती, वे धोड़ा भी कर सकते हैं। आहार भाव्रहा-स्थाग कर केवल

२—अवमौद्र्य अर्थात् भोजनकी अधिक रुचि होनेपर भी कम आहार करना ।

३—भिज्ञाचर्या अर्थात् शुद्ध आहार आदिका लेना ।

४—रसपरित्याग अर्थात् मीठा, घृत, तेल आदिका त्याग करना ।

५—कायकलेश अर्थात् वीर, गोदोहन, वृङ्ग आदि आसन करना ।

६—पडिसलीणता अर्थात् इन्द्रिय, योग आदि कर्म-बन्धके कारणोंसे आत्म-निग्रह करना ।

ये छह तप 'बाह्य तप' कहलाते हैं + ।

७—प्रायश्चित्त अर्थात् साने-पीने, उठने-बैठने या अन्य किसी तरीकेसे कोई दोष लग गया हो तो आत्माको शुद्ध करनेके लिये आलोचना, बन्दना करना ।

८—विनय अर्थात् गुरु आदिका भक्ति-भावसे अभ्युत्थानादि द्वारा आदर-सत्कार करना ।

जब ही ले सकते हैं । उहीस इन्द्रियोंको और मनको धशमें करनेके लिये मुनि इस तपका आचरण करते हैं ।

+ "अनशनादमौद्र्यवृत्तिपरिसंदयानरसपरित्यागविविक्षयासनं कायकलेशा बाह्य तप" । —उमास्वाति ।

६—वैय्यावृत्य अर्थात् दस प्रकारके आचार्यादिकोकी सेवा करना। ।

१०—स्वाध्याय अर्थात् शास्त्रोंकी वाचना-पृच्छना आदि करना।

११—ध्यान अर्थात् मनको एकाग्र करना।

१२—व्युत्सर्ग अर्थात् कायके व्यापारका त्याग करना।

ये पिछले छह तप 'आभ्यन्तर तप' कहलाते हैं ।

जो पुरुष अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिस्थित्यान, रसपरित्याग, विविक्षशय्यासन और कायक्लेश, इन छह प्रकारके बहिरङ्ग तप तथा प्रायश्चित्त, विनय, वैय्यावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इन छह प्रकारके अन्तरङ्ग तपोंको कर सकते हैं, वे बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करते हैं ।

अनेक कर्मोंकी शक्तियोंके गलानेको समर्थ द्वादश प्रकारके तपोंसे बड़ा हुआ मनुष्यका जो शुद्धोपयोग है, वही—'भाव निर्जरा' है और भाव निर्जराके अनुसार नीरस होकर पूर्वमें बैठे हुए कर्मोंका एक देश खिर जाना 'द्रव्य निर्जरा' है ।

जो पुरुष कर्मोंके निरोधसे सयुक्त है, आत्म स्वरूपका जाननेवाला है, वह पर कार्योंसे निवृत्त होकर आत्मकार्यका उद्यमी होता

१—दस प्रकारके आचार्यादि ये हैं —

"आचार्योपाध्याय तपस्त्व शैष-ग्रन्थ-गण-कुल-सघ-साधु-मनोज्ञानाम् ।"

—उमास्वाति ।

२) "प्रायश्चित्तविनयवैयाष्टिस्वाध्यायव्युत्सर्गाध्यानान्युत्तरम् ।"

—उमास्वाति ।

है, तथा अपने स्वरूपको पाकर गुणगुणीके अभेदसे अपने ज्ञानगुणको आपमें अभेद रूपसे अनुभवमें लाता है। वह पुरुष सर्वथा प्रकार वीतराग भावोंकेद्वारा, पूर्वकालमें बैधे हुए कर्मरूपी धूलको उड़ा देता है अर्थात् कर्मोंको खपा देता है।

मोक्ष

बन्धका प्रतिपक्षी मोक्ष है अर्थात् उक्त चारों प्रकारके बन्धसे मुक्त होना—छूटना, उसीका नाम 'मोक्ष' है।

मोक्षकी प्राप्ति केवलज्ञानपूर्वक है अर्थात् पहिले केवलज्ञान हो जाता है, तब मोक्ष होता है। इस कारण पहिले केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण कहते हैं।

मोहनीय कर्मके क्षय होनेके पश्चात् अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त जीण-कषाय नामका बारहवाँ गुणस्थान पाकर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीनों कर्मोंका नाश होनेपर केवलज्ञान की प्राप्ति होती है।

केवलज्ञान होनेके पश्चात् वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार अधातिथा कर्मोंका नाश हो जाना अर्थात् आगामी कर्म-बन्धके कारणोंका सर्वथा अभाव और पूर्व सचित कर्मोंकी सत्त्वाका सर्वथा नाश हो जाना ही मोक्ष है।

“सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग ।” अर्थात् सम्यग्दर्शन युक्त ज्ञान और चारित्र ही मोक्षका मार्ग है। ज्ञान और दर्शन आत्माके अनादि-अनन्त गुण हैं, मोक्ष होनेके बाद वे

भी कायम रहते हैं। ज्ञान बिना दर्शन नहीं और दर्शन बिना ज्ञान नहीं, दोनोंका जोड़ा है। इनको स्वच्छ बना सम्पूर्णता प्राप्त करनेका साधन चरित्र और तप हैं। ये सादि-सान्त हैं अर्थात् मोक्ष प्राप्त हो तब तक इनकी आवश्यकता है। इन चारों प्रकारके गुणाराधनसे मोक्ष प्राप्त होता है।

सभस्त कर्मके नष्ट हो जानेके पश्चात् मुक्त जीव लोकके अन्त भाग तक ऊपरको जाता है।

जिस तरह मिट्टीसे लिपटी हुई तुबी जब तक मिट्टीके कारण भारी रहती है, तब तक पानीमे ढूबी रहती है, परन्तु ज्यों ही उसकी मिट्टी धुल जाती है, त्यो ही वह पानीके ऊपर आजाती है। इसी प्रकारसे कर्मके भारसे दबा हुआ आत्मा ज्यों ही उनसे छूट कर हल्का होता है, त्यो ही वह ऊपरको गमन करता है।

जीवका जब ऊर्ध्व-गमनका स्वभाव है तो फिर लोकके अन्तमें ही क्यों ठहर जाता है? अलोकाकाशमें क्यों नहीं चला जाता है? इसका उत्तर यह है—

अलोकाकाशमें धर्मास्तिकायके अभाव होनेसे आत्मा गमन नहीं कर सकती है अर्थात् धर्मादिक पाँच द्रव्योंका निवास लोकाकाशमें ही है, अलोकाकाशमें नहीं है। और जीव और पुद्गलको गमन करनेमें सहायक धर्म द्रव्य ही होता है, जिसका कि आगे अभाव है। इसलिये जीवके गमनका भी अभाव है।

इसी कारण मुक्त जीव लोकके अन्तमें जाकर सिद्ध स्थानमें ठहर जाता है।

यदि कोई प्रश्न करे कि मुक्त जीवोंमें कुछ भेद है कि नहीं तो उसका उत्तर इस प्रकार है:—

वास्तवमें तो सिद्धोंमें कोई भेद नहीं है अर्थात् सब एकसे हैं, परन्तु हम सासारी जीवोंकी अपेक्षासे निम्न लिखित अनुयोगोंसे सिद्धोंमें भेद-व्यवहार हो सकता है:—

क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येकबुद्ध्वोधित, ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, सख्या और अल्पवहुत्वक्ष।

क्षेत्रकी अपेक्षासे—भरत, महाविदेश आदि किस क्षेत्रसे मुक्त हुए, कालकी अपेक्षासे—किस कालमें मुक्त हुए, लिङ्गकी अपेक्षासे—तीन भावलिङ्गोंमेंसे किस लिङ्गसे क्षपकश्रेणी छढ़ कर मुक्त हुए; तीर्थकी अपेक्षासे—किस तीर्थकरके तीर्थमें मुक्त हुए व तीर्थकर होकर मोक्ष प्राप्त की या सामान्यकेवली होकर मोक्ष प्राप्त की, चारित्रकी अपेक्षासे—किस चारित्रसे कर्मोंसे मुक्त हुए, प्रत्येकबुद्ध वोधितकी अपेक्षासे—मुक्तिको प्राप्त करनेकेलिये जो साधुवृत्ति धारण की, वह अपने ही ज्ञानसे—समझसे धारण की अथवा दूसरेके उपदेशसे, ज्ञानकी अपेक्षासे—मन पर्यवज्ञानसे केवलज्ञान हुआ अथवा अवगाहनाकी अपेक्षासे चौदहवें

॥ “क्षेत्रकालगतिलिङ्ग तीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्ध्वोधितज्ञानावगाहनान्तरं सख्याल्पवहुत्वत् साध्या ।” —उमास्वाति ।

प्रस्थानमें शरीरकी कितनी अवगाहना थीं, अन्तरकी अपेक्षासे—
मुक जीवके सिद्ध हो जानेके कितने समय धाद अमुक जीव
द्व हुए, सख्याकी अपेक्षासे—अमुक समयमें एक साथ जितने
व सिद्ध हुए उनकी कितनी सख्या थी और अमुक समयमें एक
थ जितने जीव सिद्ध हुए उनकी कितनी सख्या थी, अल्प-
तत्त्वकी अपेक्षासे—अमुक अमुक समयमें एक साथ सिद्ध हुए
व थोड़े थे अथवा अधिक, इत्यादि ।

जिस शरीरसे आत्मा सिद्धपदको प्राप्त करती है, उस शरीरसे
सरा भाग कम सिद्धस्थानमें आत्मप्रदेशकी 'अवगाहना' रह
ती है । जैसे—मान लो ५०० धनुष्को अवगाहनावाली कोई
आत्मा सिद्ध हुई तो उसकी अवगाहना वहाँ ३३३ धनुष् और
अङ्गुलकी रह जायगी । और जो आत्मा ७ हाथवाली अव-
गनासे सिद्ध हुई तो उसकी अवगाहना सिद्ध स्थानमें ४ हाथ
। और १६ अगुलकी रह जायगी ।

ऐसा इसलिये होता है कि शरीरमें मुख, नासिका, कर्ण,
और आदि स्थानोंमें कुछ पोल रहती है । उस पोलमें आत्म प्रदेश
रहते । वह पोल—आत्म प्रदेश शून्य स्थान शरीरमें नाम
र्मके विपाकका परिणाम है । इसलिये नाम कर्मके अभावमें
आत्म-प्रदेश शून्य स्थान सिद्धाकृतिमें नहीं रहता ।

परमेष्ठी अधिकार ।

जैन दर्शनमें पाँच परमेष्ठी माने गये हैं । इनके बापसे अथवा स्मरणसे मोक्ष, पद तककी प्राप्ति होती है तो फिर सासारिक मनोऽभिलिपित पदार्थोंकी प्राप्ति हो तो इसमें आश्रय ही क्या है ?

पञ्च परमेष्ठीमें—पाँच पदोंमें समस्त धर्मात्माओंका समावेश हो जाता है । उन पाँचों परमेष्ठियोंका, जिसमें नमस्कार पूर्वक उल्लेख है, सूत्र निम्न प्रकार है । उसमें पाँचों परमेष्ठियोंको नमस्कार अथवा वन्दना भी है—

“एमो अरिहंताणं, एमो सिद्धाणं, एमो आहरियाणं, एमो उबज्भायाणं, एमो लोए सब्बसाहृणं ।”

इसमें पहिले पदमें ससारमें जितने अरिहन्त हैं, उनकी वन्दना; दूसरेमें जो आत्मायें सिद्ध अथवा भगवान् हो गये हैं, उनकी वन्दना, तीसरेमें ससारमें जितने आचार्य महाराज हैं, उनकी वन्दना, चौथेमें ससारमें जितने उपाध्यायजी हैं, उनकी वन्दना और पाँचवेंमें ससारमें जितने साधु-मुनि हैं, उनकी वन्दना की जाती है । यह अर्धमागधी भाषाका सूत्र है ।

यहाँ यह प्रश्न स्वयम् उठता है कि इन आत्माओंके क्या गुण हैं जिनकी वजहसे ये वन्दनीय माने गये हैं ? इस कारण यह

आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त पाँच परमेष्ठियोंके सद्वेष्टमें कुछ गुण बताये जायें। क्योंकि बिना गुण जाने किसीमें भी महिमावका होना असम्भव है।

‘एमो अरिहंताण’

अरिहतजी जिनको तीर्थकर आदि भी कहते हैं, उनमें निम्नलिखित गुण, अतिशय आदि होते हैं।

जिस प्रकार ससारमें चक्रवर्ती अनेक ऋद्धि-सिद्धियों और वैभवके धनी होते हैं, उसी प्रकार धार्मिक ससारके अरिहन्त देव चक्रवर्ती होते हैं।

जिस प्रकार स्वर्ण और पारा आँचके प्रयोगसे एक अपूर्व रसायन बन जाता है, उसी प्रकार जो प्राणी निम्नलिखित बीस बातोंमेंसे एक बातका भी दत्तचित्त होकर आराधन कर लेता है। वह तीर्थकर पदका बन्ध कर लेता है और वह तीसरे भवमें तीर्थकर पदको अवश्य प्राप्त करके स्वयम् भवसागरसे पार होता है और अनेक प्राणियोंको पार लगाता है।

वे बीस बातें निम्न प्रकार हैं—

१—अरिहन्त, २—सिद्ध, ३—प्रबचन, ४—शाष, ५—स्थविर—वृद्ध, ६—बहुसूत्री—परिषद्ध और ७—तपस्ची, इन सातोंकी दत्तचित्त होकर सेवा करनेसे, ८—बार-बार ज्ञानमें उपयोग लगानेसे, ९—सम्यक्त्व निर्मल पालनेसे, १०—गुह आदि पूज्य जनोंका

दत्तचित्त हो कर विनय करनेसे, ११—देवसी, रायसी, पान्हिक, चौमासी और सम्बत्सरीका प्रतिक्रमण निरन्तर करनेसे, १२—ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंको बगैर दूपण पालनेसे, १३—सदैव वैराग्य भाव रखनेसे, १४—वाह्य और आभ्यन्तर (गुप्त) तपश्चर्या करनेसे, १५—सुपात्रको दान देनेसे, १६—गुरु, रोगी, तपस्वी, वृद्ध और नवदीक्षित आदिकी वैद्यायृत्यः अर्थात् सेवा भक्ति करने से; १७—पूर्ण ज्ञान-भाव रखनेसे, १८—नितान्त और नित्य नया जीनाभ्यास करनेसे, १९—जिनेश्वरके वचनोंका आदर—मातृपूर्वक पालन करनेसे और २०—तन, मन और धनसे जैनधर्मकी उन्नति करनेसे ।

उन माता-पिताश्रोंको धन्य है अथवा वे बडे पुण्यके अधिकारी होते हैं—जो तीर्थकर सरीखे पुत्रको जन्म देते हैं। जब तीर्थकर भगवान् गर्भमें आते हैं, तब उनकी मातेश्वरी—चौदह स्वप्न देखती हैं। वे इस प्रकार हैं—

१—ऐरावत हस्ति, २—श्वेत वैल, ३—शार्दूल सिंह, ४—लक्ष्मी देवी, ५—पुष्पकी भाला, ६—पूर्ण चन्द्रमा, ७—सूर्य, ८—इन्द्रधनुजा, ९—पूर्ण कलश, १०—पद्मासरोवर, ११—क्षीर समुद्र, १२—देवविमान, १३—रत्नोंका ढेर और १४—निर्धूम अग्निकी ज्वाला ।

मातेश्वरी इन दैदीप्यमान और अतीव हर्षोत्पादक स्वप्नोंका फल अपने पतिसे पूँछती हैं। पति अति पवित्र और बड़ी ऊँची

भावनाओंके एक विशिष्ट पुण्यवान् और गम्भीर पुरुप होते हैं। वे सकल शास्त्रोंके ज्ञाता, भद्रपरिणामी और अवधिज्ञान विशिष्ट होते हैं। वे अपने विशिष्ट ज्ञानबलसे यह जान लेते हैं कि हमारे एक लोकातिशायी पुत्र होनेवाला है।

सबा नव महीने पूर्ण होनेपर उत्तम योग व शुभ मुहूर्तमें पूर्ण मतिज्ञान, श्रुतिज्ञान और अवधिज्ञानसहित प्रभु जन्म लेते हैं। जन्मोत्सव मनानेकेलिये चौंसठ इन्द्र भगवान्‌को मेरुपर्वत पर पण्डुकवनमें ले जाते हैं और वहाँपर बड़े धूम-धामसे उत्सव मनाते हैं। इनके अलावा छप्पन कुमारिका देवियाँ भी जन्म महोत्सव करती हैं। बादमें तीर्थकर भगवान्‌के माता पिता जन्मोत्सव मनाते हैं। बाल अवस्थाके बाद अगर भोगावली कर्म धाकी होते हैं तो भगवान् गृहस्थ धर्मका पालन करते हैं। दीक्षा धारण करनेसे पेरतर एक वर्ष तक नित्यप्रति एक करोड़ आठ लाख स्वर्ण मोहरोंका दान करते हैं। बादमें लौकान्तिक देवोंके निवेदनपर आरम्भ परिप्रहका सर्वथा त्याग कर दीक्षा धारण करते हैं। उसी समय उन्हें मन पर्यवज्ञानकी प्राप्ति होती है। तब कुछ काल तक धार्तीय कर्मोंके ज्यु करनेके बास्ते ध्यान, तप आदि व्रतोंका आराधन करते हैं और जो कोई देव-दानव-भनुष्य-पशु आदिके उपसर्ग आते हैं, उन्हें समझावसे सहन करते हैं। धार्तीय कर्मोंके ज्यु होनेपर अर्थात् मोहनीय कर्मके ज्यु होनेपर ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय कर्मका ज्यु हो जाता

है और तब अनन्त गुणात्मक यथार्थात्मारित्र, 'अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तदानवीर्य आदि लघिवयोंकी उन्हें प्राप्ति होती है। धातीय कर्मोंके क्षय करनेसे उन्हें 'अरिहन्त पद'की प्राप्ति होती है। अरिहन्त भगवान् वारह गुण सहित होते हैं और अठारह दोपछ रहित होते हैं।

सोहनीय कर्मके क्षय होनेसे अनन्तगुणात्मक यथार्थात्मारित्र बाले होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्मके क्षय होनेसे 'अनन्तकेवलज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे समस्त संसारकी रूपी और अरूपी समस्त रचनाके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावको जानने लग जाते हैं। दर्शना चरणीय कर्मके क्षय होनेसे केघलदर्शनकी प्राप्ति होती है, जिससे संसारकी समस्त रूपी और अरूपी घस्तुओंको देखने लगते हैं। अन्तराय कर्मके क्षय होनेसे अनन्त दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य लघिवकी प्राप्ति होती है, अनन्त तेजस्वी होते हैं, अनन्त बल पुरुषार्थके घनी होते हैं, अनन्त ज्ञायिक सम्यक्त्व

“मुत्तिपासाजरातङ्क,-जन्मान्तकभयस्मया ।

न रागद्वै प मोहाश्च, यस्यासु स प्रकीर्त्यते ॥”

—स्वामी समन्तसदाचार्य।

अर्थात् जिसमें छुधा, टृपा, छुड़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह, (च) से चिन्ता, मद, अरति, खेद, स्वेद, निदा और आश्चर्य, ये अठारह दोप नहीं होते, वह 'अरिहन्त' है।

अर्थात् प्रत्येक रूपी और अरूपी वस्तुका यथार्थ और सत्य स्वरूपके जाननेवाले होते हैं, वज्रवृपभनाराचसहनन अर्थात् ससारमें समस्त प्राणियोंसे बलिष्ठ और मज्जवूत शरीर वाले होते हैं, समचतुरसस्थान अर्थात् शरीरका घड़ा सुन्दर और उच्च बनाव होता है, चौंतीस अतिशय अर्थात् जहाँ भगवान्‌की समवसरण सभाकी रचना होती हैं, वहाँ अशाकवृक्ष, रक्षजद्वित महा प्रभाशाली सिंहासन, भामण्डल, छत्र, घमर, देवकृत अचित्पुष्पोंकी वर्षा आदि अनेक वैभवयुक्त वस्तुएँ दिखाई देती हैं, जहाँ भगवान् विराजते हैं या पधारते हैं, वहाँ मनोङ्ग श्रुतु, मनोङ्ग रास्ता, अचित्ज जलकी वर्षा और हर प्रकारकी शान्ति आदि रहती है, भगवान् अर्धमागधी भाषामें व्यारयान देते हैं, जो हर प्रकारके प्राणी आसानीसे समझ सकते हैं, भगवान्‌के समक्ष या समवसरणमें प्राणियोंके वैरभाव मिट जाते हैं, भगवान्‌के शरीरमें मैल आदि नहीं लगता है; भगवान्‌के आहार-विहारको चर्म-चक्षु वाला नहीं देख सकता है, भगवान्‌के अतिशयसे उनके घारों और बीसों कोस तक हर प्रकारकी शान्ति व प्रसन्नता छाई रहती है और अनेक अतिशय होते हैं, भगवान्‌की वाणी बड़ी सुन्दर मनोङ्ग और इस प्रकारकी होती है कि प्रत्येक प्राणी सरलतासे समझ जाता है, भगवान्‌के बचन परस्पर विरोध-रहित होते हैं, सदा देश-काल-भावानुसार बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं और बहुत अर्थ निकलता है, अगर किसी श्रोताके शका हो तो भगवान्

उसे स्वयम् सोफ कर देते हैं। आदि अनेक गुणयुक्त अरिहन्त भगवान् होते हैं।

इनके अलावा किसी प्रकारका भगवान् में दोष नहीं होता है। वैसे—कभी क्रोध नहीं करते अर्थात् सदा शान्त रहते हैं। मान, गाया, लोभ रहित होते हैं अर्थात् सर्वथा अभानी, अमायावी, अलोभी होते हैं। कभी असत्य नहीं बोलते अर्थात् सदा सत्यभाषी होते हैं। भय नहीं करते अर्थात् सदा अभय होते हैं। किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते। क्रीडा नहीं करते अर्थात् सर्व प्रकार की क्रीडाके भगवान् त्यागी होते हैं।

भगवान् सदा ज्ञानवन्त, माहात्म्यवन्त, यशस्वी, वैराग्यवन्त, रूपवन्त, वीर्यवन्त, प्रयत्नवन्त, उत्साही और अनेक गुण युक्त होते हैं।

तीर्थकर भगवान् के पाँच कल्याणक अथवा महा शुभ समय बताये गये हैं—

१—अवतरनेको 'च्यवन कल्याणक', जन्मको 'जन्म कल्याणक', दीक्षाको 'दीक्षा कल्याणक', केवलज्ञान उत्पन्न होनेको 'केवलज्ञान कल्याणक' और मोक्ष पधारनेको 'मोक्ष कल्याणक' कहते हैं।

शास्त्रकारोंने 'गमो अरिहताण' का शब्दार्थ सक्षिप्तमें निम्न प्रकार किया है—

(क) ससार रूप गहन वनमें अनेक दुःखोंके देनेवाले तो हादि रूप शत्रुओंका हनन करनेवाला जो अरिहन्त देव हैं, उनको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो।

(ख) सूर्य मण्डलका आच्छादन करनेवाले मेघके समान ज्ञानादि गुणोंके आवरणोंका हनन करनेवाले जो अरिहन्त देव हैं, उनको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो।

(ग) आठ कर्म रूपे शत्रुओंके नाश करनेवाले अरिहन्त भगवान्‌को द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो।

(घ) पाँचों इन्द्रियोंके विषय, कपाय, परीपह, बेदना तथा उपसर्ग, ये सब जीवोंके लिये शत्रुभूत हैं। इन शत्रुओंके नाशक अरिहन्त देवको द्रव्य और भाव पूर्वक नमस्कार हो।

प्रश्न—उक्त लक्षणोंसे युक्त भगवान्‌को नमस्कार करनेका क्या कारण है?

उत्तर—यह ससार एक महाभयङ्कर, कठिन और दुर्गम वन है। उसमें भ्रमण करनेसे सन्तान जीवोंको भगवान्‌का स्मरण परमपदका मार्ग दिखानेमें निमित्त रूप होता है। अत सर्व जीवों के वे परमोपकारी होनेसे नमस्कार करनेके योग्य हैं। अतएव उनको अवश्य नमस्कार करना चाहिये।

प्रश्न—अरिहत भगवान्‌का ध्यान किसके समान तथा किस रूपमें करना चाहिये?

उत्तर—अरिहंत भगवान्‌का ध्यान, चन्द्रमण्डलके समान श्वेतवर्णमें करना चाहिये । पृथ्वीपर एक समयमें ससारमें जघन्य वीस और उत्कृष्ट एक सौ साठ तथा एक सौ सत्तर तक अरिहंत हो सकते हैं ।

‘एमो सिद्धाण्ड’

प्रश्न—‘एमो सिद्धाण्ड’ इस दूसरे पदसे जिन सिद्धोंको नमस्कार किया गया है, उन सिद्धोंका क्या स्वरूप है अर्थात् सिद्ध किनको कहते हैं ?

उत्तर—जिन्होंने चिरकालसे धैर्ये हुए आठ प्रकारके कर्मरूपी इनधन समूहको जाज्वल्यमान शुल्कध्यानरूपो अग्निसे जला दिया है, उनको सिद्ध कहते हैं । अथवा—जो मोक्ष नगरीमें चले गये हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । अथवा—जिनका कोई भी कार्य अपरिपूर्ण नहीं रहा है, उनको सिद्ध कहते हैं । अथवा—शासनके प्रबन्धक होकर सिद्ध रूपसे जो मङ्गलत्वका अनुभव करते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । अथवा—जो नित्य अपर्यावर्मित अनन्तस्थितिको प्राप्त होते हैं, उनको सिद्ध कहते हैं । अथवा—जिनसे भव्य जीवोंको गुण-समूहकी प्राप्ति होती है, उनको सिद्ध कहते हैं ।

संसारी आत्माके जो कर्म लगे हुए हैं, जिनकी कि वर्जहसे संसारी आत्मा संसार-परिभ्रमण किया करता है और अपने नुख-स्वरूपका अनुभव नहीं कर सकता, उनको आठ विभागोंमें बाँटा गया है । क्योंकि आत्माके आठ महाशुणोंका, जिनके अन्दर,

अनन्त गुण समाविष्ट होते हैं, वे धात करते हैं। वे आठ कर्म धातिया और अधातियाके भेदसे 'दो' प्रकारके हैं। 'अधातिया' शब्दमें 'नव्' समास ईपदर्थमें हुआ है। अरिहन्त भगवान्‌के चार धातिया ही कर्म नष्ट हुए हैं, जिसकी बजहसे उनके अनन्त चतुर्दश प्रादुर्भूत हो गये हैं। और चार अधातिया अभी मौजूद हैं, जिसकी बजहसे शरीर आदि भी अरिहन्त भगवान्‌के मौजूद रहते हैं। लेकिन 'सिद्ध भगवान्' के चार धातिया और चार अधातिया अर्थात् आठों ही कर्म नष्ट हो गये हैं। जिसकी बजहसे उनके आठ गुण प्रगट हो जाते हैं। सिद्ध भगवान्‌के आठ गुण ये हैं—

(१) सम्यक्त्व, (२) दर्शन, (३) ज्ञान, (४) अगुखल-
घुत्व, (५) अवगाहनत्व, (६) सूक्ष्मत्व, (७) अनन्तवीर्य
और (८) अव्यावाधत्व ।

उक्त गुणोंके अन्तर्गत सिद्धोंमें अनेक गुण और होते हैं,
उनमेंसे कुछ संक्षेपमें यहाँ कहे जाते हैं—

सिद्ध भगवान् अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तयत, अनन्त-
वीर्य अनन्तसुख और अनन्तज्ञायिक सम्यक्त्वके धनी
होते हैं, उनकी आत्माका विस्तार सदा एकसा रहता है, अमूर्त
हैं, न हलके हैं न मारी हैं, पॉच प्रकारका ज्ञानावरणीय कर्म
त्वय करके उन्हें अनन्त केवलज्ञान प्रकट हुआ, दो प्रकारका वेदनीय
कर्म ज्ञय करके प्राधा-पीड़ा-रहित हुए, दो प्रकारका मोहनीय कर्म

क्षय करके लघुभूत हुए, चार प्रकारका आयु कर्म क्षय करके अमर हुए, चार प्रकारका नाम कर्म क्षय करके अमृत हुए, दो प्रकारका गोत्र कर्म क्षय करके शरीर दोप रहित हुए, पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म क्षय करके अनन्त शक्तिके धारक हुए। सिद्ध भगवान्‌के कोई वर्ण नहीं, कोई रस नहीं, कोई स्पर्श नहीं, कोई वेद नहीं, कोई गध नहीं, काय नहीं, कर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, वियोग नहीं, सोह नहीं, निरजन निराकार आदि अनेक गुण युक्त ये सिद्ध भगवान् सिद्धशिलापर सदाकाल विराजमान रहते हैं और उपरोक्त अनेक लोकोत्तर गुणोंको आस्वादन करते हैं।

प्रभ—उक्त लक्षणोंसे युक्त सिद्धोंको नमस्कार करनेका क्या कारण है ?

उत्तर—अविनाशी तथा अनन्त ज्ञान, दर्शन चारित्र और वीर्य रूप चार गुणोंके उत्पत्ति-स्थान होनेसे, उक्त गुणोंसे युक्त होनेके कारण, अपने विषयमें अतिशय प्रमोदको उत्पन्न कर अन्य भव्य जीवोंकेलिये आनन्द उत्पादनके कारण होनेसे वे अत्यन्त उपकारी हैं। अत उनको नमस्कार करना उचित है।

प्रभ—सिद्धोंका ध्यान किसके समान तथा किस रूपमें करना चाहिये ?

उत्तर—सिद्धोंका ध्यान उदित होते हुए सूर्यके समान रक्त वर्णमें करना चाहिये। सिद्ध भगवान् सख्यामें अनन्त हैं।

‘एमो आइरियाण’

‘एमो आइरियाण’ इस सीसरे पद्से आचार्योंको नमस्कार किया गया है। उनका स्वरूप क्या है ‘अर्थात् आचार्यमें क्या क्या गुण होते हैं?

उत्तर—जो मर्यादा पूर्वक अर्थात् विनय पूर्वक जिन शासनके अर्थका सेवन अर्थात् उपदेश करते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। अथवा—जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपआचार और वीर्याचारके पालन करनेमें अत्यन्त प्रवीण हैं तथा दूसरोंको उनके पालन करनेका उपदेश देते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। अथवा—जो पाँच महाव्रत, पाँच आचार*, पाँच समिति, तीन गुप्ति, पाँच इन्द्रियवशित्व करें, नव बाढ ब्रह्मचर्य पालें, चार कपायको त्यागें, इन छत्तीस गुण युक्त आचार्य महाराज होते हैं। और आठ सम्पदा अर्थात् सूत्र सम्पदा, शरीर सम्पदा, वचन सपदा, मति सपदा, उपयोग सपदा, बाचना सपदा, सम्राट् सपदा और तेज़ सपदाके धनी होते हैं। इत्यादि अनेक गुण युक्त होते हैं। आचार्य महाराज बाबन अनाचीर्णके टालनेवाले, अठारह हजार शीलाङ्ग आदि अनेक गुण युक्त होते हैं।

* (१) दर्शनाचार, (२) ज्ञानाचार, (३) चारित्राचार, (४) तप आचार और (५) वीर्याचार, ये आचार्य महाराजके ‘पाँच आचार’ कहलाते हैं। समिति, गुप्ति आदिका वर्णन पहले प्रकरणोंमें किया जा सकता है।

अथवा—जो भर्यादा पूर्वक विहार रूप आचारका विधिवत् पालन करते हैं तथा दूसरोंको उसके पालन करानेका उपदेश देते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। अथवा—जो योग्य अयोग्यका अलग-अलग निश्चय करनेमें चतुर और यथार्थ उपदेश देनेमें प्रवीण होते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं।

प्रभ—उक्त लक्षणों युक्त आचार्योंको नमस्कार करनेका व्या कारण है ?

उत्तर—सद् व्यवहारके उपदेश करनेके कारण जिनको परोपकारी होनेकी प्राप्ति हुई है, जो सर्वजन-मनोरजक हैं, सब जनोंके मनोंको प्रसन्न करने वाले हैं, ससारके जीवोंमेंसे भव्य जीवोंको जिन-वाणीका उपदेश देकर उनको प्रतिबोध करते हैं और सम्यक्त्वकी प्राप्ति करते हैं, किसीको देशविरतकी प्राप्ति, किसीको सर्वविरतिकी प्राप्ति करते हैं तथा कुछ जीव उनके उपदेशका श्रवण कर भद्र-परिणामी हो जाते हैं। इस प्रकारके उपकारके कर्ता शान्त मुद्राके धारक उक्त आचार्य लक्षण मात्रकेलिये भी कथायप्रस्त नहीं होते। अतः वे अवश्य नमस्कार करनेके योग्य हैं।

उक्त आचार्य नित्य प्रमाद रहित होकर अप्रमत्त धर्मका कथन करते हैं, राज-कथा, देश-कथा, स्त्री-कथा, भक्त-कथा, सम्यक्त्वमें शिथिलता-तथा-चरित्रमें शिथिलताको उत्पन्न करने वाली विकथाका वर्जन करते हैं, मत्त और पापसे दूर रहते हैं तथा देश और कालके अनुसार विभिन्न उपायोंसे शिष्य आदिको

प्रवचनका अभ्यास कराते हैं, साथुजनोको क्रिया धारण कराते हैं, जैसे सूर्यके अस्त हो जानेपर घरमें स्थित घट पट आदि पदार्थ नहीं दीखते हैं तथा प्रदीपके प्रकाशसे वे दीखने लगते हैं, उसी प्रकार केवलज्ञानी सूर्यके समान श्रीतीर्थकर देवके मुक्ति रूप महलमें जानेके पश्चात् तीनों लोकोंके पदार्थोंके प्रकाश करनेवाले दीपकके समान आचार्य ही होते हैं। अत उनको अवश्य नमस्कार करना चाहिये। जो भव्य जीव ऐसे आचार्योंको निरन्तर नमस्कार करते हैं, वे जीव धन्य माने जाते हैं तथा उनका भवक्षय शीघ्र हो जाता है।

प्रश्न—आचार्योंका ध्यान किसके समान तथा किस रूपमें करना चाहिये?

उत्तर—आचार्यों का ध्यान स्वर्णके समान पीत रूपमें करना चाहिये। उक्त गुणोंके अलावा आचार्यजी साधुके सर्व गुणोंसे भी सम्पन्न होते हैं।

‘एमो उवज्ज्ञायाण’

‘एमो उवज्ज्ञायाण’ इस चौथे पदसे उपाध्यायोंको नमस्कार किया गया है। इन उपाध्यायोंका क्या स्वरूप है और उपाध्याय किनको कहते हैं?

जो ग्यारह अग, बारह उपाग, चार छेद, चार मूले सूत्र और बत्तीसबे आवश्यकजीके जानकार होते हैं, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जिनके समीपमें रह कर अथवा आकर-

शिष्यजन अध्ययन करते हैं उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जो सभीपमें रहे हुए अथवा 'आये हुए, साधु आदि जनों को सिद्धान्तका अध्ययन करते हैं, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जिनके सभीपत्वसे सूत्रके द्वारा जिन प्रबूचनका अधिक ज्ञान तथा स्मरण होता है, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जो उपयोगपूर्वक ध्यान करते हैं, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जो उपयोगपूर्वक ध्यानमें प्रवृत्त होकर पाप कर्मका त्याग कर, उससे बाहर निकल जाते हैं, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—मानसिक पीड़ाकी प्राप्ति, कुबुद्धिकी प्राप्ति तथा हुर्ध्यानि की प्राप्ति जिनके द्वारा अपहृत होती है, उनको उपाध्यायजी कहते हैं। अथवा—जो ज्ञानके भण्डार, दयाके सागर, ज्ञान रूपी नेत्रके दातार, आदि अनेक गुण युक्त होते हैं, उन्हें उपाध्यायजी कहते हैं।

प्रश्न—उक्त लक्षणोंसे युक्त उपाध्यायजीको नमस्कार करने का क्या हेतु है ?

उत्तर—उक्त उपाध्यायजी पचीस गुण युक्त होते हैं, द्वादशाङ्की आदि सूत्रोंके धारक और सूत्र और अर्थके विस्तार करनेमें रसिक होते हैं, आये हुए या रहे हुए शिष्यों व साधुओंको जिन वचनोंका अभ्यास करते हैं। इस हेतु भव्य जीवोंके ऊपर उपकारी होनेके कारण उनको नमस्कार करना चाहिये। -

प्रश्न—उपाध्यायोंका ध्यान किसके समान तथा किस रूपमें करना चाहिये ? -

चत्तर—उनका ध्यान मरकतमणिके समान नील वर्णमें फरना चाहिये। उक्त गुणोंके अलावा उपाध्यायजी साधुके सब गुण सम्पन्न होते हैं।

‘एमो लोऐ सञ्चसाहूर्ण’

‘एमो लोऐ सञ्चसाहूर्ण’ इस पदके द्वारा साधुओंको नमस्कार किया गया है।

प्रश्न—उन साधुओंके ब्या लक्षण हैं ?

जो किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करे, किसी प्रकारका भूठ नहीं बोले अर्थात् सदा सत्य घोले, बगौर दी हुई किसीकी वस्तु नहीं लेवे, पूर्ण ब्रह्मचर्य पाले, किंचित् मात्र परिग्रह अथवा धातु आदि नहीं रखते, तीन करण और तीन योगसे अर्थात् मन बचन और कायसे कोई पाप करे नहीं, करावे नहीं और करतेको भला जाने नहीं, पाँचों इन्द्रियों—नेत्र, नासिका, कर्ण, जिह्वा और स्पर्शको तीनों करण और तीनों योगोंसे वशमें रखते, क्रोध, मान, माया और लोभको तीन करण और तीन योगसे करे नहीं, करावे नहीं और करतेको भला जाने नहीं।

साधु अनेक परिपहोंको जीतते हैं। जैसे अगर शुद्ध और निर्दीप आहार और जल नहीं मिलता है तो प्रसन्नता और शान्तिमावसे जुधा और तृपा परिपहको सहन करते हैं। जाड़ोंमें अग्निसे तापते नहीं; कम्बल, सौर, आदि औढ़ते नहीं, सिर्फ मर्यादित मामूली कपड़ा

रहते हैं और शान्तिभावसे शीत परिपह सहन करते हैं। गर्भियोंमें पंखा करते नहीं, स्नानादि करते नहीं, शान्तिभावसे उद्धण परिपहका सहन करते हैं। ढोंस, मच्छर आदि काढते हैं तो मसहरी, धूएँ आदिका प्रयोग नहीं करते हैं, शान्तिभावसे उसकष्टको सहन करते हैं। अगर शुद्ध और निर्दोष वस्त्र नहीं मिलता है तो शान्तिभावसे वस्त्र परिपह सहन करते हैं। घौमासेके चार महीनेके सिवाय किसी एक स्थानमें एक महीनेसे ज्यादा ठहरते नहीं और सदा पैदल ही भ्रमण करते हैं, इस प्रकार जो स्थानका और मार्गका परिपह होता है उसे शान्तिभावसे सहन करते हैं। भक्षार्थ जायें या दूर स्थान जायें तो रास्तेमें या किसीके घरपर बैठते नहीं और शान्तिभावसे खड़े रहते हैं या चलते रहते हैं। चतुर्मासमें या अन्य महीनोंमें जैसा स्थान ठहरनेको मिल जाता है तो उसमें ही प्रसन्नता पूर्णक रहते हैं। अगर कोई गृहस्थ या अन्य अज्ञानी पुरुष अपशब्द कहे था मारे या पीटे तो कोध नहीं करते, धलिक शान्तिभावसे उसे सहन करते हैं। अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो अगर शुद्ध और निर्दोष औपचि मिलती है तो ग्रहण करते हैं, बरना शान्तिभावसे परिपहको सहन करते हैं। साधु लोग पृथ्वी पर या काष्ठके तख्तेपर शयन करते हैं, शीतकालमें पराल—घासकी आवश्यकता होती है, अगर वह नहीं मिलती है तो सभभावसे कष्टको सहन करते हैं। अगर कोई अज्ञानी उनसे हँसी मजाक करता है तो वे शान्तिभावसे

उसे सहन करते हैं। इस प्रकार से साधु लोग अनेक प्रकारके परिपक्वोंको शान्तिभावसे सहन करते हैं।

ऊपर जो शुद्ध और निर्दोष आहार कहा गया है, उसका यह मतलब है कि छयानवे प्रकारके दोपसे अगर आहार, पानी, औपचिं, वस्त्र आदि शुद्ध हों तो वे ग्रहण करते हैं, बरना नहीं लेते हैं। उनमेंसे कुछ उदाहरणार्थ यहाँ दिये जाते हैं—

१—गृहस्थ साधुके वास्ते आहार बनाकर दे तो नहीं लेना २—अगर गृहस्थ अपने भोजनमें साधुके विचारसे कुछ ज्यादा भोजन बनाता है तो भी नहीं लेना ३—मोल लाकर गृहस्थ देवे तो नहीं लेना ४—कोई वस्तु तालेमें या बन्द किवाङ्गोंमें हो तो नहीं लेना ५—रास्तेमें लाकर दे तो नहीं लेना ६—आडमेंसे या ऊपरसे या अन्य स्थानसे कोई वस्तु लाकर दे तो नहीं लेना ७—निर्वलसे सबल छीन कर दे तो नहीं लेना ८—मागीदारकी बगैर आद्वाके दे तो नहीं लेना ९—स्त्री अगर बच्चेको दूध पिला रही हो तो उससे आहार नहीं लेना १०—मान, माया और लोभादिके साथ दान ग्रहण नहीं करना ११—भूतों या ब्राह्मणादिकेलिये अगर भोजन बना हो तो नहीं लेना १२—सदा एक घरसे आहार नहीं लेना १३—जिनके यहाँ अखाद्य वस्तु बनती हो उनके यहाँसे आहार नहीं लेना १४—जो मना करे कि हमारे यहाँ न आओ वहाँ नहीं जाना १५—कोई वस्तु सचित् वस्तुके स्पर्शमें हो तो उसे नहीं लेना १६—द्वारपर भिगारी खड़ा हो तो उस गृहमें

रखते हैं और शान्तिभावसे शीत परिपह सहन करते हैं। गर्मियोंमें पंखा करते नहीं, स्नानादि करते नहीं, शान्तिभावसे उषण परिपहका सहन करते हैं। डॉस, भच्छर आदि काटते हैं तो मसहरी, धूँआदिका प्रयोग नहीं करते हैं, शान्तिभावसे उसकष्टको सहन करते हैं। अगर शुद्ध और निर्दोष वस्त्र नहीं मिलता है तो शान्तिभावसे वस्त्र परिपह सहन करते हैं। घौमासेके चार महीनेके सिवाय किसी एक स्थानमें एक महीनेसे ज्यादा ठहरते नहीं और सदा पैदल ही भ्रमण करते हैं, इस प्रकार जो स्थानका और मार्गका परिपह होता है उसे शान्तिभावसे सहन करते हैं। भक्षार्थ जायें या दूर स्थान जायें तो रास्तेमें या किसीके घरपर बैठते नहीं और शान्तिभावसे रड़े रहते हैं या चलते रहते हैं। चतुर्मासमें या अन्य महीनोंमें जैसा स्थान ठहरनेको मिल जाता है तो उसमें ही प्रसंजता पूर्वक रहते हैं। अगर कोई गृहस्थ या अन्य अज्ञानी पुरुष अपशब्द कहे या मारे या पीटे तो क्रोध नहीं करते, धूलिक शान्तिभावसे उसे सहन करते हैं। अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो अगर शुद्ध और निर्दोष औपचि मिलती है तो ग्रहण करते हैं, घरना शान्तिभावसे परिपहको सहन करते हैं। साधु लोग पृथ्वी पर या काष्ठके तरब्तेपर शयन करते हैं, शीतकालमें परल—घासकी आवश्यकता होती है, अगर वह नहीं मिलती है तो सभभावसे कष्टको सहन करते हैं। अगर कोई अज्ञानी उनसे हँसी भजाक करता है तो वे शान्तिभावसे

पूर्ण ब्रह्माचर्यका पालन करते हैं। दस प्रकारका यति धर्म पालन करते हैं, बारह प्रकारका तप करते हैं। अठारह प्रकारके पापोंका सर्वथा त्याग करते हैं। इनके अतिरिक्त आप चमावन्त, सरल परिणामी, निरभिसानी, सयमी, निस्त्वार्थी आदि अनेक गुण युक्त होते हैं।

प्रश्न—उक्त लक्षणोंसे युक्त साधुजीको नमस्कार करनेका क्या हेतु है ?

उत्तर—जो आत्माके कल्याणका सदा ध्यान रखते हैं, उन्हे साधु कहते हैं। वे हमसे अधिक धर्म रूप रहते हैं—धर्माराधन करनेमें अतितत्पर रहते हैं। ऐसे साधुओंको नमस्कार करना परम आवश्यक है।

प्रश्न—साधुओंका ध्यान किसके समान तथा किस रूपसे करना चाहिये ?

उत्तर—साधुओंका ध्यान आपादके मेघके समान श्यामवर्णमें करना चाहिये। उक्त गुण युक्त साधु अढाई द्वीप और पन्द्रह क्षेत्रमें विचरते हैं। एक समयमें समस्त सासारमें कम से-कम दो हजार क्रोड और उत्कृष्ट नव हजार क्रोण साधु-साध्वी होते हैं।

आहारके बास्ते नहीं जाना १७—जिस आहारका रस, वर्ण, गन्ध विगड़ गया हो तो उसे नहीं लेना १८—अगर घरमें कोई दाता नजर न आवे तो पुकारना नहीं, बल्कि चुपचाप वगैर आहार लिये वापिस चले आना १९—सूर्य उदयसे पेस्तर या सूर्य अस्तके बादमें गृहस्थके घर नहीं जाना आदि अनेक प्रकार से शुद्ध और निर्दोष आहार, वस्त्र, शश्या, औपधि आदि साधु प्रहण करते हैं।

१—ईर्या समिति अर्थात् जीव जन्तुकी रक्षाके लिये देख कर चलना । २—भाषा समिति अर्थात् सदा हित, मिष्ट, प्रिय और निरवद्य भाषा बोलनी । ३—एपणा समिति अर्थात् अन्तराय रहित सदा शुद्ध और निर्दोष आहार लेना । ४—आदान-निहेपण समिति अर्थात् अपने शरीर, पुस्तक, वस्त्र, पात्र, वगैरहको देख शोधकर उठाना व रखना । ५—उत्सर्ग-समिति अर्थात् मल-मूत्रका छोपण देखभाल करके करना, जिसमें किसी जीवको किसी प्रकारका कष्ट न हो। इसी प्रकार मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और काया गुप्ति, इन तीनों गुण सहित साधु होते हैं। इनके अलावा साधु करण सच्चे, योग सच्चे, ज्ञानावन्त, वैराग्यवन्त, ज्ञान, दर्शन और चरित्र सम्पन्न होते हैं। छह काय अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीवोंकी सर्व प्रकारसे दया पालते अथवा हिंसा नहीं करते हैं। किसी प्रकारके विषयका सेवन नहीं करते हैं। किसी प्रकारका भद्र अथवा अहंकार नहीं करते हैं। नौ प्रकारसे

* परमेष्ठी अधिकार *

शपथ]

पूर्णं प्रद्वचर्यका पालन करते हैं। दस प्रकारका यति धर्म पालन करते हैं, बारह प्रकारका तप करते हैं। अठारह प्रकारके पार्पोंका सर्वथा त्याग करते हैं। इनके अविरिक्त आप चमावन्त, सरल परिणामी, निरभिमानी, सयमी, निस्त्वार्थी आदि अनेक गुण युक्त होते हैं।

प्रश्न—उक्त लक्षणोंसे युक्त साधुजीको नमस्कार करनेका क्या हेतु है ?

उत्तर—जो आत्माके दल्लाणका सदा ध्यान रखते हैं, उन्हें साधु कहते हैं। वे हमसे अधिक धर्म रूप रहते हैं—धर्माराधन करनेमें अतिरितपर रहते हैं। ऐसे साधुओंको नमस्कार करना परम आवश्यक है।

प्रश्न—साधुओंका ध्यान किसके समान तथा किस रूपसे करना चाहिये ?

उत्तर—साधुओंका ध्यान आपादके मेघके समान श्यामवर्णमें करना चाहिये। उक्त गुण युक्त साधु अदाई द्वीप और पन्द्रह चौब्रह्में विचरते हैं। एक समयमें समस्त ससारमें कम से-कम दो हजार क्रोड और उल्कृष्ट नव हजार क्रोण साधु-साध्वी होते हैं।

चक्रवर्ती-वासुदेव-वल्लदेव

मूर्तिरत्नेत्रमें चक्रवर्ती, वासुदेव-वल्लदेव, आदि भी अनेक पुण्यवान् माननीय पुरुष होते हैं। इनकी विभूति संक्षेपमें यह है —

चक्रवर्ती—छह खण्डका साधन करते हैं। इनके हजारों आत्मरक्षक देव होते हैं। छह खण्डोंमें हजारों देश व उनके राजा होते हैं, जो चक्रवर्तीकी आज्ञा मानते हैं अर्थात् सेवामें रहते हैं। ६००० रानियाँ और लाखों दास दासी आदि होते हैं। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि लाखों करोड़ोंकी सख्यामें इनकी फौज होती है। चक्रवर्तीके चौदह रत्न होते हैं। एक एक रत्नके हजारों देव रक्षक होते हैं। चक्रवर्तीके चौदह रत्न इस प्रकार हैं—

- (१) चक्र रत्न, छह खण्ड साधनेका रास्ता बताता है।
- (२) छब्र रत्न सेनाके ऊपर शीत तथा धूपसे रक्षा करता है।
- (३) दण्ड रत्न रास्तेका प्रबन्ध करता है। (४) खङ्ग रत्न हजारों कोस रहे हुए शत्रुका मिर छेद ढालता है। (५) मणि रत्न ऊँचे स्थानपर रखनेसे चन्द्र-जैसा प्रकाश करता है। (६) कॉगनी रत्नसे सेना गङ्गा आदि नदियोंको पार करती है। (७) गाथा रत्न खाना तैयार करके तमाम फौज व चक्रवर्तीको चिलाता है। इसी प्रकार अश्व, गज, पुरोहित, सेनापति, चर्म, माला और रथ रत्न भी अपना-अपना कार्य करते हैं।

जब चक्रवर्ती गर्भमें आते हैं, तब उनकी मातेश्वरी चौदह स्वप्न देखती हैं। स्वप्न वही होते हैं जो तीर्थकरकी मातेश्वरी देखती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी ऋद्धियाँ होती हैं। जो चक्रवर्ती उपर्युक्त ऋद्धियोंको त्याग कर सयम लेते हैं, वे तो स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करते हैं और जो राज्य करते हुए मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकमें जाते हैं। इनके समयमें साधु केवल ज्ञानी होते हैं और पाँचों गतिमें जानेवाले जीव होते हैं।

वासुदेव—पूर्व भवमें निर्मल तप सयमका पालन करते हैं और वहाँसे आयु पूर्णकर बीचमे एक भव स्वर्ग या नरकका करके उत्तम कुलमें जन्म लेते हैं। जब जन्म लेते हैं, तब उनकी मातेश्वरी सात स्वप्न देखती हैं। शुभ मुहूर्तमें जन्म लेकर युवावस्थाको प्राप्त करते हैं और बादमें राज्यपदपर बैठते हैं। बादमें वासुदेवपदकी प्राप्ति होनेपर इन्हें सात रत्न प्राप्त होते हैं। वे ये हैं—(१) सुदर्शनचक्र, (२) अमोघरङ्ग, (३) कौमुदीगदा, (४) पुष्पमाला, (५) धनुष्य अमोघवाण, (६) कौस्तुभमणि और (७) महारथ। ये महानलवान् और महासुन्दर होते हैं। इनकी ऋद्धि व सिद्धि चक्रवर्तीसे आधी होती है।

वासुदेवके जन्मसे पूर्व पृथ्वीपर प्रतिवासुदेव राज्य फरता है। यह भी पुण्यवान् और वैभव सहित होता है, पर वासुदेवसे कम होता है। वासुदेव प्रतिवासुदेवको मारकर उसके राज्यका अधिकारी घनता है और वीन खण्डमें एक छत्र राज्य करता है।

अन्तिम विभाग स्थानपर साढ़े तीन रज्जु आवे वहाँ एक रज्जु चौड़ा है। इस प्रकार सपूर्ण लोक नीचेसे ऊपर तक सी चौदह रज्जु लम्बा और तीन सौ तेतालीस रज्जु घनाकार है।

लोक तीन भागोंमें विभक्त हैं।—


१—अधो अर्थात् नीचेका लोक, २—मध्य अथवा तिमाही लोक और ३—ऊर्ध्व अथवा ऊँचा लोक।

(१) अधोलोकमें निगोद और सात नरक हैं। पहिले नरक बारह आंतरोंमेंसे ऊपर और नीचेके एक-एक आतरेको छोड़ शेष दसमें दस प्रकारके भवनवासी देव हैं। इस प्रकार निगोद पहिले नरक तक अधोलोक है। इसके बाद मध्यलोक शुरू हो जाता है।

(२) मध्यलोकका विस्तार पहिले नरकसे ज्योतिर्मण्डल तक है। इसमें पहिले नरकके ऊपर, और हम लोग जहाँ रहते उस पृथ्वीके नीचे, आठ प्रकारके व्यन्तर और आठ प्रकार वाणव्यन्तर देव रहते हैं। बादमें पृथ्वीके ऊपर जन्मद्वीप, लवण्य समुद्र, धातकीसरण द्वीप, कालोदधि समुद्र, पुष्करार्ध द्वीप, मात्र पोत्तर पर्वत आदि असर्वात द्वीप और समुद्र हैं। इनसे आयोजनकी ऊँचाईपर चन्द्र, सूर्य, गृह, नक्षत्र और तारा-मण्डल हैं। इसके बाद डेढ रज्जु ऊँचाई परसे ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है।

(३) ऊर्ध्वलोकमें बारह देवलोक, नौ ग्रैवेयक, पाँच अनुक्तर विमान और मिठ्ठ शिला है।

तीन लोक का चित्र



प्रमाणः -

दूसरे = १ दर्जे के ।



तीनों लोकोंका विस्तार घनाकार जो ३४३ रज्जु-प्रमाण है,
उसका हिसाब इस प्रकार है —

कँचाई	घन में
१ रज्जु	४६
१ रज्जु	४०
१ रज्जु	३४
"	२८
"	२२
"	१६
"	१०
"	१०
"	१६॥
"	१६॥
"	३७॥
"	१४॥
"	१२॥
"	१०॥
"	८॥
"	१॥
सिद्ध त्रिश	३४३

अधोलोक

प्रत्येक नरक आकाशान्तर (शुद्ध आकाशमें) इसके आधारपर तनुवात (हवा), इसके आधारपर घनवात (पिण्डभूत वायुका समूह), इसके आधारपर घनोदधि (पिण्ड भूत पानीका समूह) के आधारपर टिका हुआ है। तनुवात, घनवात और घनोदधिपर प्रत्येक नरक अवलम्बित है। प्रत्येक नरक एक स्वतन्त्र दुनियाँके समान है।

निम्न लिखित हँगसे प्रत्येक नरक घनोदधि आदिकी मोटाई से घिरा हुआ है —

नरक	घनोदधिकी मोटाई	घनवातकी मोटाई	तनुवातकी मोटाई
पहिला नरक	६ योजन	४ योजन	६ योजन
दूसरा नरक	६½ " "	४॥ " "	६½ " "
तीसरा नरक	६॥ " "	५ " "	६॥ " "
चौथा नरक	७ " "	५ " "	७ " "
पाँचवाँ नरक	७½ " "	५॥ " "	७½ " "
छठा नरक	७॥ " "	५॥ " "	८॥ " "
सातवाँ नरक	८ " "	६ " "	८ " "

प्रत्येक नरकका नाम, गोत्र, पृथ्वीपिण्ड, वास और विस्तार निम्न प्रकार हैं —

सप्त भरक

पनीराम
धनवारा
त्रिवारा

नाम	गोत्र	पृथ्वी पिण्ड की गोलाई	नरक-वास	लम्बाई औडाई परिधि
घन्मा	रत्नप्रभा	१८००००	३००००००	असख्यात योजन
वसा	शर्करप्रभा	१३६०००	२५०००००	"
सेला	बालुप्रभा	१२८०००	१५०००००	"
अजना	पङ्कजप्रभा	१२००००	१००००००	"
रिटा	धूमप्रभा	१८००००	३०००००	"
मधा	तमाप्रभा	११६०००	६६६६५	"
माधवी	तमस्तम प्रभा	१०८०००	५	"

प्रत्येक नरकके पृथ्वीपिण्डमेंसे एक हजार योजन ऊपर और एक हजार योजन नीचे छोड़कर बाकीमें पोल है। उसमें पाठड़े और अन्तरे हैं। सिवाय सातवें नरकके जिसमें साढ़े बावन हजार योजन ऊपर और साढ़े धावन हजार योजन नीचे छोड़कर सिर्फ तीन हजार योजनकी पोल है। जिनमें नरकवास कुम्भियाँ और नेरिये (नारकी) हैं। उसका नक्शा अगले सफेंदोंमें नरकवास है, जिनमें असख्यात कुम्भियाँ और असख्यात नेरिये (नारकी) हैं।

नरक (पुरुषी)	पोल	पाथड़ी अंतरे	नरकचास	आयुष्य	
				देहमात धनुष अड्डाल	जघन्य उल्कुट
पहिली	१७०००० योजन	१३	१२	३००००००	१००००० वर्ष
दूसरी	१३००००	"	११	२५०००००	३ सागर
तीसरी	१२६०००	"	८	१५०००००	३ सागर
चौथी	११५०००	"	७	१००००००	७ सागर
पाँचवी	११६०००	"	५	३००००००	१० सागर
छठी	११४०००	"	३	६६६६५	१७ सागर
सातवीं	३००००	"	१	५००	२२ सागर

नरकोंके गोत्रसे, उनकी व्यवस्थासे मतलब है। सात नरकोंकी निम्न प्रकार व्यवस्था है।

१—रत्नप्रभा नरक—कृष्णवर्ण भयकर रत्नोंसे व्याप्त है।
 २—शर्कराप्रभा—भाले वर्णसे भी अधिक तीक्ष्ण ककरोंसे व्याप्त है। ३—वालुप्रभा—भडभूजेकी भाड़की ऊज्जण रेतसे भी अधिक ऊज्जण रेतीसे व्याप्त है। ४—पक्षप्रभा—रक्त, मास आदिके कीचड़से व्याप्त है। ५—धूमप्रभा—राई मिरचके धूएँसे भी अधिक तेज धूयेंसे व्याप्त है। ६—तम प्रभा—घोर अन्धकारसे व्याप्त है और ७—तमस्तम प्रभा—घोरातिघोर अन्धकार से व्याप्त है।

ये नरक बिल गोल, त्रिकोण, चौकोण इत्यादि अनेक प्रकारके हैं। उनमें कई एक सख्यात योजन और कई एक असख्यात योजन लम्बे चौडे हैं। जैसे ढोलको पृथ्वीमें गाढ देनेसे चारों तरफ पृथ्वी रहती है और भीतर पोल रहती है, उसी प्रकारसे पृथ्वी स्कन्धोंके बीचमे ढोलके भीतरकी पोलके समान नरक-बिल होते हैं।

नारकी जीव सदा ही अशुभतर लेश्यावाले और अशुभतर विक्रिया करनेवाले होते हैं। निरन्तर अशुभ कर्मका उदय रहनेके कारण उनके परिणामादि भी सदा अशुभ ही रहते हैं।

नारकी जीव परस्पर एक दूसरेको दुख घ क्लेश उत्पन्न करते रहते हैं अर्थात् कुत्तोंकी तरह निरन्तर परस्पर लड़ते मुगड़ते

रहते हैं। लेकिन प्रथम तीन नरकके ने रिये अस्वास्वरीष जातिके अर्थात् परमाधामी देवोंसे पीडित और दुखित किये जाते हैं। जिस प्रकार इस लोकमें अनेक अज्ञानी पुरुष मेढ़ों, भैंसों, हाथियों आदिको मद्य पिला कर परस्पर लड़ते हैं और उनकी हार-जीतसे आनन्द मानते हैं व तमाशा देखते हैं। उसी प्रकार तीसरे नरक तकके नारकी जीवोंको दुष्ट कौतुकी देव अवधिज्ञानसे उनके पूर्व वैरोंका स्मरण कराकर परस्पर लड़ते तथा दुःखी व पीडित करते हैं और स्वयं तमाशा देखते हैं।

पहिले नरकमें जो वारह अन्तरे हैं, वे असख्यात योजनके लम्बे-चौड़े व ११५८३ योजनके ऊँचे हैं। उनमेंसे ऊपरका एक और नीचेका एक छोड़ कर शेष दस अन्तरोंमें दस प्रकारके भवनवासी देव रहते हैं।

भवनपति देवता दस प्रकारके होते हैं —

१—असुर कुमार २—नाग कुमार ३—सुवर्ण कुमार ४—विद्युत्कुमार ५—अग्नि कुमार ६—द्वीप कुमार ७—उद्धि कुमार ८—दिशा कुमार ९—वायु कुमार और १०—स्तनित कुमार। प्रत्येक प्रकारके देवके दो दो इन्द्र होते हैं। इस प्रकार बीस इन्द्र होते हैं। देवोंके लाखों भवन हैं, जो छोटेसे छोटे जम्बू द्वीपके समान और बड़ेसे बड़े उसख्यात द्वीप समुद्रके समान हैं।

इनके इन्द्रोंके लाखों सामानिक और आत्मरक्षक देव होते हैं। कई कई अग्रमहिपी (बड़ी) इन्द्राणियाँ होती हैं और

नरक का ऊपरी भाग

१	दालेन्द्र	महाकेन्द्र	२
३	सुविष्णु	अतिरेत्र	४
५	द्वारिष्ठेन्द्र	महालेन्द्र	६
७	भीषेन्द्र	नहृष्मिष्ठ	८
९	किलेन्द्र	निपुणेन्द्र	१०
११	सुपुष्णिष्ठ	महापुष्णिष्ठ	१२
१३	सतिकोषेन्द्र	महाकोषेन्द्र	१४
१५	गीततोद्ध	वीतसेन्द्र	१६
१०० योजन वेत्त			

नरककास के ऊपर के एक हृजार मेजान के एथी रिंडु में से सी शोजन ऊपर भी दो योजन नीचे निकाल देते पर वीच के प्रह्लसी हृजार मेजान के बड़ जाठ स्वतंत्र भाग में



हजारों देवियाँ होती हैं। इन्द्र के और इन्द्राणियों के हजारों और सैकड़ों देव और देवियाँ अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य परिपद के होते हैं। इनके अलावा इनके और अनेक वैभव होते हैं। प्रत्येक हिस्सा दक्षिण और उत्तर दो हिस्सोंमें विभाजित है। इनमें आठ जातिके व्यन्तर देवता रहते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—
 १—पिशाच, २—भूत, ३—यज्ञ, ४—राज्ञस, ५—किञ्चर,
 ६—किंपुरुष, ७—महोरग और ८—गन्धर्वक । प्रत्येक जातिपर दो-दो इन्द्र होते हैं, इस प्रकार सोलह इन्द्र होते हैं + ।

जो सौ योजनका पृथ्वीपिण्ड ऊपर रहा है उसमें दस योजन ऊपर और दस योजन नीचे छोड़कर बीचमें अस्सी योजनकी पोल है। उसमें आठ स्वतन्त्र हिस्से हैं। प्रत्येक हिस्सा चनुवात, धनवात, धनोदधि और आकाशपर स्थिर है। हर एक हिस्सेमें असख्यात नगर हैं। इनमें आठ जातिके बाणव्यन्तर देव रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं,—१—आनपत्री, २—पानपत्री, ३—ईसीवाई, ४—भूईचाई, ५—कन्दिया, ६—महाकन्दिया, ७—कोहड़ और ८—पहग देव। प्रत्येक हिस्सा दक्षिण और उत्तरमें विभाजित है और प्रत्येक हिस्सेमें एक इन्द्र रहता है। इस प्रकार बाणव्यन्तर देवोंके सोलह इन्द्र हैं।

* “व्यन्तरा किञ्चरकिंपुरुषमहोरगगन्धर्वघराण्डसभूतविशाचा ।”

—उमास्वाति ।

+ “पूर्वयो द्वीन्द्रा ।” —उमास्वाति ।


प्रत्येक इन्द्रके चार-चार हजार सामानिक देव, सोलह-सोलह हजार आत्मरक्षक देव, चार अग्रमहिपी इन्द्राणियाँ, एक-एक हजारका परिवार और सात अनीका होती हैं। इसके अलावा अभ्यन्तर परिषद्के ८००० देव, मध्य परिषद्के १०००० देव और बाह्य परिषद्के १२००० देव होते हैं।

उक्त सोलह जातिके देवोंकी आयुष्य जघन्य १०००० वर्षकी और उक्तषु आधे पल्योपमकी होती है।

मध्यलोकमें नौ सौ योजन तो जहाँ हम रहते हैं उस पृथ्वीके नीचे हैं और नौ सौ योजन ऊपर हैं। इस प्रकार यह तिरछा लोक अठारह सौ योजनकी ऊँचाई अर्थवा मोटाईका है, जिसमें नौ सौ योजनका तो वर्णन हम पहिले पृष्ठोंमें कर आये हैं, बाकी द्वीपों, समुद्रों और ज्योतिषीमण्डलका वर्णन हम यहाँ करेंगे।

इस पृथ्वीपर, जिसपर कि हम लोग रहते हैं, असख्यात द्वीप और समुद्र हैं। मनुष्य उसमें अदाई द्वीपमें ही रहते हैं। अदाई द्वीपमें भी दो प्रकारकी भूमि हैं। एक वह जहाँ मनुष्य खेती चाणिज्य आदिका कार्य करते हैं, उसे 'कर्मभूमि' कहते हैं। दूसरी वह जहाँ मनुष्य कोई कर्म नहीं करते हैं अर्थात् जिनकी सारी इच्छाएँ कल्पवृक्षोंसे पूरी हो जाती हैं, उन्हें 'अकर्मभूमि' या 'भोग-भूमि' कहते हैं। अदाई द्वीपके बाहर मनुष्य नहीं पाये जाते हैं। केवल तिर्यक्ष अर्थात् जलचर, थलचर, पक्षी आदि जानवर ही होते हैं। जितने द्वीप अर्थवा समुद्र हैं, वे सब गोलाकार हैं। पहिले द्वीप

ढाईद्वीप



है, उसके चारों तरफ सागर है, फिर द्वीप है, उसके चारों तरफ फिर समुद्र अथवा महासागर है। इस प्रकारका क्रम असख्यात द्वीप और समुद्रोंका चला गया है।

पहिला द्वीप 'जम्बू द्वीप' है। यह १००००० योजनका लम्बा चौड़ा अर्थात् गोलाकार है। इसके बाद दो लाख योजनका 'लवण समुद्र' है। लवण समुद्रकी चौडाई—रेडिअस (radius) दो लाख योजनकी है। इसके बाद 'धातकीसरण द्वीप' है, जिसकी चौडाई (radius) चार लाख योजनकी है। इसके बाद 'कालोदधि समुद्र' है, जिसकी चौडाई (radius) आठ लाख योजनकी है। इसके बाद 'पुस्करार्ध द्वीप' है, जो सोलह लाख योजनका है। पर इसके मध्य में 'मानुषोत्तर पर्वत' है, जो इस द्वीपको दो हिस्सोंमें बाँटता है। यह भी गोलाकार है। यही वह पर्वत है जिसके अन्दर—अढाई द्वीपमें मनुष्य रहते हैं। इसके बाहर केवल तिर्यक्ष ही तिर्यक्ष तमाम द्वीप और समुद्रोंमें रहते हैं। इसीलिये इसका नाम 'मानुषोत्तर पर्वत' है॥। इस द्वीपके बाद 'पुष्करार्ध समुद्र' है। इसके बाद 'वाहणीवर द्वीप' है। इसके बाद 'वाहणीवर समुद्र' है। इसके बाद 'क्षीरवर द्वीप' है। इसके बाद 'क्षीरवर समुद्र' है। इस प्रकार असख्यात द्वीप व समुद्र चले गये हैं और प्रत्येक असख्यात योजनके व्यास—रेडियस वाले हैं।

“मानुषोत्तरा मनुष्या ।” — उमास्वाति ।

अङ्गार्ड्डीप

जम्बू द्वीपमें एक 'भरत', एक 'ऐरावत' और दो 'महाविदेह' हैं।

धातकीखण्ड द्वीपमें दो भरत, दो ऐरावत और दो महा विदेह हैं।

पुष्करार्ध द्वीपमें दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेह हैं।

ये पन्द्रह भूमियाँ मनुष्योंकी कर्मभूमियाँ हैं।

जम्बू द्वीपमें एक 'देवकुरु', एक 'उत्तरकुरु', एक 'हरिवास', एक 'रम्यकवास', एक 'हेमवास' और एक 'एरण्यवास' है।

धातकीखण्ड द्वीपमें दो देवकुरु, दो उत्तरकुरु, दो हरिवास, दो रम्यकवास दो हेमवास और दो एरण्यवास हैं।

पुष्करार्ध द्वीपमें दो देवकुरु, दो उत्तरकुरु, दो हरिवास दो रम्यकवास, दो हेमवास और दो एरण्यवास हैं।

मनुष्योंकी ये तीस भूमि अकर्मभूमि हैं।

जम्बू द्वीप

जम्बू द्वीपके मध्यमें 'सुदर्शनमेह पर्वत' है। वह मङ्ग स्थन्यके आकार गोल है। इसकी ऊँचाई एक लाख योजनकी है। पुर्वीमें एक हजार योजन और ऊपर निन्यानवे हजार योजन है। इसकी दस हजार योजन चौड़ाई (Diameter) है। यह क्रमसे घटता घटता शिखरपर सिर्फ एक हजार योजन चौड़ा रह गया है। मेरु पर्वतपर चार वन हैं—भद्रशाल वन, नन्दन वन, सोमनस वन और पाण्डुक वन। सबसे नीचे भद्रशाल वन है। उससे पाँच

जैकल्पिक

थ- नवीनरी।

सा- महापुण्ड्रीकद्रह।

भ- रम्यकला नरी।

य- पुण्ड्रोके द्रह।

र- रक्ता नरी।

त- रक्तोदा नरी।


त- नरकात्तनरी।

ष- स्त्री पर्वति

व- लुब्धाकृता नरी।

म- छारवर्गी पर्वति।

श- देवानन्ददेवता।



- सीतोदा नरी।

- हीरेकान्तानरी।

- राहिलास्या नरी।

- भरतजित।

व- सीतानरी।

क- हीरित नरी।

द- महा हेमवता पर्वति।

स- महापर्वति।

ट- लिङ्गुनरी।

ठ- गङ्गा नरी।

घ- देहितानरी।

द- लुहाहेमवता पर्वति।

भ- वैताल्य पर्वति।

1

2

" 4

2

सौ योजन ऊपर नन्दन वन है। उससे पैंतीस सौ योजन ऊपर सोमनस वन है और उससे छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है। इस पाण्डुक वनमें स्वर्णमय अर्धचन्द्राकार चार शिलाएँ हैं। पूर्वमें पाण्डुरशिला और पश्चिममें रक्तशिला। इन दोनोंपर दो दो सिंहासन हैं। जिनपर जम्बू द्वीपके पूर्व और पश्चिम महाविदेहके क्षेत्रोंमें जन्मे हुए चार तीर्थकरोंका जन्मोत्सव होता है। दक्षिणमें पाण्डुक शिला है, इसपर भरत क्षेत्रके जन्मे हुए गौर्धकरोंका और उत्तरमें रक्त शिला है, जिसपर ऐरावत क्षेत्रमें जन्मे हुए तीर्थकरोंका जन्मोत्सव होता है।

मेरु पर्वतके दक्षिणमें ४५००० योजनपर विजय द्वारके अन्दर भरत नामका क्षेत्र है। इस भरत क्षेत्रके मध्यमें 'वैताढ्य' नामका पर्वत है। इस क्षेत्रमें गङ्गा और सिन्धु नामकी दो मुख्य नदियाँ हैं, जो चूलहेमवत पर्वतसे निकलती हैं। इन दोनों महानदियोंमें चौदह-चौदह हजार उपनदियाँ आकर मिलती हैं।

मेरु पवरेतके उत्तर दिशामें ४५००० योजनपर 'विजय' नामका दूसरा द्वार है उसके अन्दर भरत क्षेत्रके समान ऐरावत क्षेत्र है।

इसमें 'रक्त' और 'रक्तोदा' नामकी दो मुख्य नदियाँ हैं, जो शिखरी पर्वतसे निकलती हैं।

जम्बू द्वीपमें भरत क्षेत्रकी हड्को करनेवाला चूलहेमवन्त पर्वत है और ऐरावत क्षेत्रकी हड्को करने वाला शिखरी पर्वत है।

भरत क्षेत्रको वैताढ्य पर्वत और गङ्गा और सिन्धु नदियाँ छह खण्डोंमें विभाजित करती हैं।

ऐरावत ज्ञेत्रको एक पर्वत और रक्षा और रक्षावती नदी छा
खण्डोंमें विभाजित करती हैं।

महाविदेह, मेरु पर्वतसे पूर्व और पश्चिममें भद्रशाल बन और
मेरु पर्वतको मिलाकर एक लाख योजन लम्बा है। उत्तर और
दक्षिणमें निषध और नीलवन्त पर्वतसे इसकी हट होती है। इन
दोनों पर्वतके बीच महाविदेह ज्ञेत्रकी चौड़ाई ३३६३४ योजनकी है।
महाविदेह ज्ञेत्रके मध्यमें मेरु पर्वतके कारण दो भाग हो गये हैं।
एक पर्व-महाविदेह और दूसरा पश्चिम महाविदेह। पूर्व महाविदेह
के मध्यमें सीता नदी और पश्चिम-महाविदेहके मध्यमें सीतोदा
नदीके आनेसे हर भागके दो दो भाग हो गये हैं। इस प्रकार महा
विदेह ज्ञेत्रके चार भाग हो गये हैं।

प्रत्येक भागमें आठ आठ 'विजय' होनेसे बत्तीस विजय महा
विदेह ज्ञेत्रमें हैं।

इस महाविदेह ज्ञेत्रमें घौथे आरे जसी रचना सदा रहती है।

चूलहेमवन्त और शिखरी, इन दोनों पर्वतोंके प्रत्येक छोरसे
दो दो ढाढ़े लवण समुद्रमें निकली हुई हैं और प्रत्येक ढाढ़पर
सात-सात अन्तर्द्वीप हैं। इस प्रकार छप्पन अन्तर्द्वीप होते हैं।
प्रत्येक द्वीपमें 'युगलिये' रहते हैं। ये अकर्मभूमियाँ हैं। पन्द्रह-
कर्मभूमियाँ और तीस अकर्मभूमियाँ जो पहिले बता आये हैं और
छप्पन ये, इस प्रकार कुल एक सौ एक मनुष्य ज्ञेत्र हैं।


कालघक भरत और ऐरावत ज्ञेत्रमें अनादि कालसे किरता
रहता है और

जन्मद्वीप, लवण्यसमुद्र, धातकीखलद्वीप, कालोदधि समुद्र और अग्न्यन्तर पुण्डराद्वीप में
इस प्रकार चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, महाशह और तारागण हैं—

नम्बर	द्वीप और समुद्र के नाम	चन्द्र	सूर्य	नक्षत्र	महाशह	तारागण
१	जन्मद्वीप	२	२	५६	१७६	१३३४५० कोडाकोडी
२	लवण्य समुद्र	४	४	११२	३५२	२६७६०० "
३	धातकी खलद्वीप	१२	१२	३३६	१०५६	८०३७०० "
४	कालोदधि समुद्र	४२	२२	११७६	३६६६	२८१२६६० "
५	अग्न्यन्तर पुण्डराद्वीप	७२	७२	४०३२	१२६७२	६६४४४०० "

ज्योतिर्मण्डल

[सप्तभूगिके ८८० मो. सेउमर ६०० मो. त-११० मो. की मीटर्स् में यह माण्डत है।]



लम्बदीप, लवणसमुद्र, धातकीवड्होप, कालोदधि समुद्र और अभ्यन्तर पुण्यराद्वं द्वीपमें

इस प्रकार चन्द्र, सुर्य, नक्षत्र, महाश्रव और तारागण हैं—

तप्तर	द्वीप और समुद्रके नाम	चन्द्र	सुर्य	नक्षत्र	महाश्रव	तारागण
१	जग्नूदीप	२	२	५६	१७६	१३३६५० क्रोडाकोड़
२	लवण समुद्र	४	४	११२	३५२	२६७६०० "
३	धातकी वड्होप द्वीप	१२	१२	३३६	१०५६	८०३७०० "
४	फालोदधि समुद्र	४२	२२	११७६	३६६६	२८१२६६० "
५	अभ्यन्तर पुण्यराद्वं द्वीप	७२	७२	४०३२	१२६७२	८६४४४०० "

प्रत्येक चन्द्र व सूर्यके साथ एवं ग्रह, रुद्र नक्षत्र और ६६६७५ क्रोडाकोड़ तारे होते हैं।

इस भनुष्य लोकमें ६६ 'पिटक' हैं। एक-एक पिटकपर दो-दो चन्द्र और दो दो सूर्य हैं और नक्षत्रके भी ६६ पिटक हैं। प्रत्येक पिटकपर ५६-५६ नक्षत्र हैं। ग्रहके भी ६६ पिटक हैं और एक-एक पिटकपर १७६-१७६ महाग्रह हैं। ये चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, महाग्रह और तारागण सहित मेरु पर्वतके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं।

समयका विभाग अर्थात् घडी, पल, दिन, रात्रि आदिका व्यवहार उन गमन करते हुए सूर्य, चन्द्रमादिक द्वारा, सूचित होता है। अढाई द्वीपके बाहर सूर्य, चन्द्रमादिके सब ज्योतिष्क विमान स्थिर हैं। अर्थात् अढाई द्वीपके बाहर समयका विभाग नहीं है।

ऊर्ध्वलोक

ज्योतिर्मण्डल और दो देवलोकके बादसे 'ऊर्ध्वलोक' आरम्भ हो जाता है। विमानोंका विस्तार इस प्रकार है:—

शनैश्चरके विमानकी ध्वजासे ढेढ रज्जू ऊपर मेरु पर्वतके दक्षिण-उत्तरमें पहिले और दूसरे देवलोक हैं। इनसे आध रज्जू ऊपर तीसरा और चौथा देव लोक, इनसे आध रज्जू ऊपर पाँचवाँ, इससे आध रज्जू ऊपर छठा, इससे आध रज्जू ऊपर सातवाँ, इससे आध रज्जू ऊँचा आठवाँ, इससे आध रज्जू नवाँ और दसवाँ और इनसे आध रज्जू ऊँचा ग्यारहवाँ और बारहवाँ देवलोक है।

उनमें प्रतर, विमान, उनकी ऊँचाई, अगनाई, संख्या उनके देवोंकी आय आदि विस्तार हैं।

जटिलोक

सेहू तिळा

५५०००० योग्य गमी चौड़ी
१४२३०३४८ यो. वारिघ

प्रियम्

सर्वोच्च सिद्धि

चैत्रवन्त

अनुचर

स्वरामानत

यद्योधर

स्वातंत्र्य

मातृद

सिद्धिशील

विद्युत

संघानत

संभावन

संवाद

चैत्रवन्त

स्वरामानत

यद्योधर

स्वातंत्र्य

मातृद

सिद्धिशील

विद्युत

संघानत

संभावन

संवाद

१२. अच्छुतदेव लोक

१५. अहुर्मा देव लोक

१०. प्राणत देव लोक

८. प्राणत देव लोक

८. स्वातंत्र्य देव लोक

८. ग्रहस्त्रम देव लोक

८. ग्रहस्त्रम देव लोक

८. ज्ञानदेव लोक

८. ज्ञानदेव लोक

८. ज्ञानदेव लोक

४. महेन्द्रदेव लोक

३. सनातन देव लोक

२. इश्वानदेव लोक

१. इषुपति देव लोक



इन बारह देवलोंके नाम, सामानिक आत्मरक्षक, अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य परिपद देवोंकी सख्त्या तथा उनकी अवगाहना निम्न प्रकार है:—

नम्बर	नाम	इन्द्र	सामानिक	आत्मरक्ष	अभ्यन्तर	मध्यपारिपद	बाह्यपरि	देवमान
			सख्त्या	सख्त्या	सख्त्या	सख्त्या	सख्त्या	
१	सौधर्म	राकेन्द्र	५४०००	३३५०००	१२०००	१५०००	१६०००	७००००
२	ईशान	ईशानेन्द्र	८००००	३२००००	१००००	१२०००	१४०००	७००००
३	सानन्दकुमार	सनन्दकुमारन्द	७५०००	३०००००	८०००	१००००	१२०००	६००००
४	माहेन्द्र	माहेन्द्रेन्द्र	७००००	२५००००	६०००	८०००	१००००	६००००
५	ब्रह्म	ब्रह्मेन्द्र	६००००	२४५०००	४०००	६०००	८०००	५००००
६	लान्तव	लान्तवेन्द्र	५००००	२०००००	३०००	४०००	६०००	४००००
७	महाशुक्र	महाशुक्रन्द	४००००	१६००००	१०००	२०००	३०००	३००००
८	सहस्रार	सहस्रारेन्द्र	३००००	१२००००	५००	१०००	२०००	२००००
९	आनन्द	{ प्राणेन्द्र	२००००	८००००	२५०	५००	१०००	३००००
१०	प्राणेत	{ अच्युतेन्द्र	१००००	८००००	१२५	२५०	५००	३००००
११	आरुण							
१२	अचुत							

पाँचवे देवलोकके अन्तमें 'लौकान्तिक देव' रहते हैं। ये लौकान्तिक देव सम्यक् दृष्टि होते हैं। ये तीर्थकरोंको दोज्ञाका अवसर चेतानेवाले होते हैं। ये थोड़े ही भवमें मोक्ष प्राप्त करनेवाले होते हैं। चूँकि ये त्रसनालिकाके किनारेपर हैं, इस कारण ये 'लौकान्तिक' कहलाते हैं।

ये देव नौ प्रकार के होते हैं—ईशान कोणमें सारस्वत देव, पूर्वमें आदित्य देव, अग्निकोणमें वह्नि देव, दक्षिणमें वरुण देव, नैऋत्य कोणमें गर्दनोय देव, पश्चिममें तुषित देव, वायु कोणमें अव्यावाध देव, उत्तरमें अग्निदेव और मध्यमें अरिष्ट देव अनेक विमानोंमें रहते हैं।

नव ग्रैवेयक

बारहवें देवलोकसे एक रज्जू ऊपर आठ रज्जू घनाकार विस्तारमें नवग्रैवेयक देवलोक हैं। इनमें तीन त्रिक हैं और प्रत्येक त्रिकमें तीन तीन प्रतर हैं।

प्रत्येक विकमें पिमान, उसकी कँचाई, औंगलाई, उसके देवताओं का देहमान और आयु तिमन प्रकार है—

नम्बर	नाम	विमानोंकी सख्ती		विमानोंकी अगलाई		देहमान द्वारा जीतने में		आयु	
		विमानोंकी सख्ती	विमानोंकी कँचाई	अगलाई घनाकार योजनामें	देहमान द्वारा जीतने में	उपर्युक्त	उत्कृष्ट	२३	३४
१ विक	भद्र	१११	१०००	२२००	२	२३	२४	२४	३४
	सुभद्र / सुजाय	१११	१०००	२२००	२	२४	२५	२५	३५
२ विक	सुमनस् सुदर्शन प्रियदर्शन	१००	१०००	२२००	२	२५	२६	२७	३६
	आमोह	१००	१०००	२२००	२	२६	२७	२८	३०
३ विक	सुप्रतिभद्र यशोधर	१००	१०००	२२००	२	२८	२९	३०	३१

अनुत्तर विमान

नवग्रैवेयकसे एक रज्जु ऊपर साढे छह रज्जु घनाकार विस्तार में चारों दिशामें चार ग्यारह-ग्यारह योजनके ऊँचे, इक्षीस-इक्षीस योजनकी अगनाई वाले और असख्यात योजनके लम्बे चौडे विमान हैं। पूर्वमें विजय, दक्षिणमें वैजयन्त, पश्चिममें जयन्त और उत्तरमें अपराजित विमान हैं। इनके देवोंका एक हाथका देहमान होता है। इन विमानोंके देवोंकी जघन्य इकतीस और उत्कृष्ट तैतीस सागरकी आयु होती है।

सर्वार्थसिद्धि

यह विमान एक लाख योजनका लम्बा, चौड़ा और ऊँचा है। यह उपरोक्त विमानोंके मध्यमें है। इसके देवोंका देह-मान एक हाथ है और जघन्य और उत्कृष्ट तैतीस सागरकी आयु है। यह सब विमानोंमें श्रेष्ठ है। इस विमानके मध्यमें बड़े बड़े मोती लटके हुए हैं। हवाके चलनेपर इनमेंसे छह राग और तीस रागनियाँ निकलती हैं।

विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि, ये पाँचों विमान 'अनुत्तर विमान' कहलाते हैं। इन पाँचों अनुत्तर विमानके निवासी देव एकान्त सम्यक् दृष्टि होते हैं। चार अनुत्तर विमानवाले तीन भव और सर्वार्थसिद्धिवाले एक ही भवमें मोक्ष प्राप्त करते हैं।

सिद्धचेत्र

सर्वार्थसिद्धिसे बारह योजन ऊपर पैंतालीस हजार योजनकी लम्बी चौड़ी (Diameter बाली), गोल, आठ योजनकी मध्यमें मोटी और मध्यमें कमसे घटती घटती किनारेपर भक्ती के पखसे भी अधिक पतली, १४२३०२४६ योजनकी परिधि (Circumference) बाली, स्वर्णमय, उलटे छत्रके समान आकारबाली सिद्धशिला है। इससे एक योजन ऊपर, सीधे मनुष्य लोकके ऊपर ४५००००० योजन, ३३३ धनुष और ३२ अगुल जितने ऊँचे स्थानमें अनन्त सिद्ध भगवान् हैं।

उक्त बारह देवलोक, नव नवग्रैवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, तनुवात, घनवात घनोदधि और आकाश पर स्थिर हैं। प्रत्येक देवलोक, नवग्रैवेयक और अनुत्तर विमान अलग-अलग स्वतन्त्र दुनियाके तुल्य हैं।

समस्त लोक तनुवात, उसके बाद घनवात, उसके बाद घनोदधि और आखिरमें आकाशसे इस प्रकार घिरा हुआ है जिस प्रकार बृक्ष छालसे ढका रहता है। बृक्षको छाल एकसी होती है। पर तनुवात, घनवात और घनोदधि कहीं बहुत ज्यादा अर्थात् मोटी हैं और कहीं बहुत कम अर्थात् पतली हैं। पर लोक के चारों ओर आकाश तो एकसा है, जो इस भाँति है—

लोकके तलेसे लेकर एक राजूकी ऊँचाई तक अर्थात् निगोद तक तीनों वातवलयोंकी मोटाई साठ हजार योजन है अर्थात् प्रत्येक वातवलय बीस बीस हजार योजन मोटा है। ये लोकके मध्यमें नीस बीस हजार योजनके मोटे हैं। बादमें घटते-घटते लोकके कोनोंपर पहिला वातवलय सात योजन, दूसरा पाँच योजन और तीसरा चार योजनका है। इस प्रकार तीनों वातवलय मध्य लोक तक सोलह योजन मोटे चले आये हैं।

मध्य लोककी बगलोंमें पहला वलय पाँच योजनका, दूसरा चारका और तीसरा तीन योजनका है। तीनों मिलकर बारह योजन मोटे हैं।


मध्य लोकसे ऊपर पाँचवें देवलोक तक घनोदिविवात सान योजनकी, घनवात पाँच योजनकी और तनुवात चार योजनकी है। तीनों मिलकर सोलह योजन मोटे हैं।

पाँचवें देवलोकसे ऊपर लोकके अन्त तक पहला वातवलय पाँच योजनका, दूसरा चारका और तीसरा तीन योजनका है। तीनों बारह योजनके हैं। लोकके सिरेपर चक्रके आकार सिद्धशिला है। यह १५७५ घनुपकी तनुवात, इसके ऊपर एक कोस मोटी घनवात और इसके ऊपर घनोदिके आधारपर स्थिर है। सिद्धशिलाके एक योजन ऊपर जिसके आलिरी कोसके छठे भागमें सीधे मनुष्य लोकके ऊपर ४५००००० योजन लम्बे-चौड़े ३२३ घनुप और ३२ अंगुल जितने ऊँचे स्थानमें अनन्त सिद्धभगवान् अलोकसे अड़े हुए अर्थात् स्पर्श किये हुए हैं।

त्रसनाली

जिस प्रकार घरके मध्यमें स्तम्भ खड़ा होता है, उसी प्रकार लोकके मध्यमें एक राजू चौड़ी, चौदह राजू ऊँची और चौदह ही राजू लम्बी अथवा ऊँड़ी त्रसनाली है। यह त्रस जीवोंसे भरी हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि केवल इसमें त्रसजीव ही हैं वलिक इसमें पृथ्वी आदि पाँच प्रकारके स्थावर जीव भी हैं, पर त्रसनालीके बाहर त्रस जीव नहीं पाये जाते हैं, सिवाय तीन हालतोंके। एक तो कोई त्रस जीव जब स्थावर जीवकी आयु का वध करता है, तब वह त्रस आयुके अन्तर्मुहूर्त काल बाकी रहनेपर मरणके समय मारणान्तिक समुद्रघात करता है। उस समय उसके कुछ प्रदेश त्रसनालीसे बाहर जहाँ वह स्थावर पर्याय धारण करेगा, वहाँ जाते हैं, सो इस अपेक्षासे त्रसनालीसे बाहर त्रस जीवोंका विस्तार हुआ। दूसरे त्रसनालीसे बाहरका कोई स्थावर जीव त्रस पर्यायका बन्ध करता है, तब मरणके समय कार्मण शरीर सहित त्रसनाली कर्मके उदयसे त्रस होकर त्रसनालीके प्रति गमन करता है, उस समय विग्रह गतिमें त्रसनाली के बाहर त्रसका अस्तित्व हुआ और तीसरे केवली भगवान् जब केवलिसमुद्रघात करते हैं, तब उनके अनेक प्रदेश त्रसनाली और उससे बाहर सर्वत्र लोकमें व्याप्त हो जाते हैं, सो इस तरह भी त्रसनालीसे बाहर उसका अस्तित्व हुआ, क्योंकि केवली भगवान् त्रस हैं। इस प्रकार तीन तरहसे त्रसनालीके बाहर त्रस जीवोंका अस्तित्व ज्ञानियोंने फरमाया है।

वातनलय का चित्र



इससे यह स्पष्ट है कि जितने नरक, नरकवास, भवन-पतियोंके अन्तरे, व्यन्तर, वाणव्यन्तरोंके विमान, द्वीप, समुद्र, ज्योतिर्मण्डल, देवताओंके विमान शिला आदि हैं, वे सब ब्रह्मालीमें हैं।

अन्त मङ्गलाचरण

“सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
मा कश्चिददुःखभागभवेत् ॥”

सप्ताहके सभी ग्राणी सुखी रहें, सभी नीरोग रहें, सभी कल्याणका अवलोकन करें और कोई भी हुखी न हो ।



रुद्राशुद्धपत्र |

कितनी भी सावधानी रखें जाय, किर भी एक दो अशुद्धियों तो फार्म में रह ही जाय और छपते समय भागाएँ भी कम-
नियमसे बच न सकी। इत्य हमारे सहज्य पाठक कृपया इन अशुद्धियोंको सुधार लेनेका कष्ट स्वीकार करें। — प्रकाशक।
४४ पार्कि अशुद्ध
४४ २ मालू
४७ ३ समीक्षा
४७ १५ श्रत
१११ १० स्वतन्त्र
११४ १७ साकेतिक
१२६ ६ स्वरूपको पाता
१३४ १ साति
१४१ ६ हासा
१४५ ७ अल्प
१४६ १८ आचार्य
१७२ ८ चर्योगा
१७३ २० देवियोनिके
१८३ २० समचरुत्तम
४४ पार्कि अशुद्ध
४४ २१ सादि
२०३ ३ सूखा
२१६ १७ चातुर्थ
२०७ २० मतुभ्यका
२६७ १७ असन्तानी
२३७ ८ उपशान्ति
३५२ १२ सर्वाच
३६१ २ कथ्य
३६६ २ शुष्णा
३८३ २ ग्राहणी
३८८ ८ अशाक
४०० ८ अमानी

